

## भूमिका

क उसको कहते हैं कि जो कर्ता क करने से ही किया जाय । जैसे—देवदत्त. कटं करोतीत्यादि । यहा कर्ता के किये विना चटाई कदापि नहीं बन सकती ।

कर्ता उसको कहते है कि जो स्वाधीन साधनो स युक्त होकर क्रिया करने मे स्वतन्त्र हावे । जैसे—देवदत्त कर्ता, चटाई कर्म और करना क्रिया है । इस मे विशेष यह कि—इद विचार्यते—भावकर्मकर्त्तार सार्वधातुकार्था वा स्युर्विकरणार्था वेति । एवं तर्हीद स्यात्—यदा भावकर्मणोलेस्तदा कर्त्तरि विकरणाः । यदा कर्त्तरि लस्तदा भावकर्मणोपिकरणाः । [ इदमस्य यद्येव स्वाभाविकमथापि वार्चनिक प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थ सह ब्रूत इति । न चास्ति सभवो यदेकस्या प्रकृतद्वयानार्थयोर्युगपदनुसहायी भाव स्यात् । एव च कृत्वैकपक्षीभूतमवेद भवति—सार्वधातुकार्था एवेति ] । महाभाष्य अ० ३ । पा० १ । सू० ६७ ।

यह विचारना चाहिये कि भाव, कर्म और कर्ता तिङ् प्रत्ययो के अर्थ है ? वा विकरण शप आदि के ? इस की व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिये कि जब भाव कर्म अर्थो मे लकार हो तब तो कर्त्ता मे विकरण और जब कर्त्ता मे लकार हो तब भाव कर्म अर्थो मे विकरण होवे । यह ठीक नहीं, क्योंकि तिङ् और विकरण आदि प्रत्ययो की अर्थो के कहने की शक्ति चाह स्वाभाविक हो चाहे ~~वार्चनिक~~ ( सूत्रकार द्वारा साकीतत ), दोनो अवस्था म प्रकृति और प्रत्यय लकार एकार्थ का कते है । इसलिए यह सम्भव नहीं कि एक प्रकृति का दो विभिन्नार्थक प्रत्ययो के साथ सम्बन्ध हो । अतः इस विषय मे दो पक्ष उठ ही नहीं सकते, एक यही पक्ष है—भाव, कर्म और कर्ता ये सार्वधातुक के ही अर्थ है ।

## भूमिका

( प्रश्न ) किन् धातुओं से लकार किन अर्थों में होते हैं ?

( उत्तर ) अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में तथा सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता अर्थ में होते हैं ।

( प्रश्न ) अकर्मक और सकर्मक धातुओं का क्या लक्षण है ?

( उत्तर ) जिन धातुओं का सम्बन्ध कर्म के साथ होता है वह सकर्मक कहाती हैं, और जिनका सम्बन्ध कर्म के साथ नहीं होता वह अकर्मक होती है । सकर्मक, जैसे—पुस्तकं पठति, ग्रामं गच्छति, ओदनं पचति इत्यादि । यहा पठ का पुस्तक, गम का ग्राम और पच का ओदन के साथ सम्बन्ध है । अकर्मक, जैसे—भवति, विद्यते, हसति इत्यादि । यहा भू, विद् और हस धातु का किसी कर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अत ये अकर्मक हैं ❀ ।

---

❀ सकर्मक और अकर्मक धातुओं की व्यवस्था कई प्रकार से समझी जाती है । मुख्य तो यही है कि जिस प्रकरण में प्रयुक्त क्रिया हो उसका अर्थ किसी कर्म के साथ सम्भवित होवे तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक । और जो धातु सकर्मक हैं वे ही कभी देश, काल और वस्तु के भेद से अकर्मक और अकर्मक सकर्मक भी हो जाते हैं । और जितने धातु अकर्मक हैं वे सब किसी पदार्थ के आश्रय से सकर्मक हो जाते हैं, जैसे—अध्वानमस्ति । यह भास धातु अकर्मक है इसका अर्थ किसी कर्म हो जाता है । इस प्रकरण को कारकीय ग्रन्थ के कमकारक प्रकरण में भी लिख चुके हैं । अर्थात् जिस जिस की कर्म सज्ञा वहा करदी है । उस उस अर्थ का जिस जिस धातु के साथ सम्भव हो उस उस को सकर्मक अन्य सब अकर्मक जानने चाहियें ।

## भूमिका

क्रिया का लक्षण—“का पुन क्रिया ? ईहा । का पुनरीहा ?  
 चेशा । का पुनश्चेशा ? व्यापारः । सवेथा भवाब्जब्दैरेव शब्दान्  
 व्याप्रेर्न किंचिदर्थजातं निदर्शयत्येवं जातीयका क्रियेति । क्रिया  
 नामेयमत्यन्ताऽपरिदृष्टा, अशक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुम् ।  
 यथाऽसौ गर्भो निलेठितः । साऽसावनुमानगम्या । कोऽसावनुमानः ?  
 इह सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु यदा पचतीत्येतद्भवति सा नून क्रिया ।  
 अथवा यया देवदत्त इह भूत्वा पाटलिपुत्रे भवति सा नून क्रिया” ।  
 महाभाष्य अ० १ । पा० ३ । सू० १ । आ० १ ।

क्रिया उस को कहते हैं कि जो कुछ आत्मा, मन, प्राण, इन्द्रिय और शरीर में चेशा होती है, जैसे कोई मनुष्य चलते हुए हाथ को देख कर अनुमान करता है कि जिससे यह हाथ चलता है वही क्रिया है । जो अनुमान से जानने योग्य है वह आंख आदि इन्द्रियो में ग्रहण करने में कैसे आ सकती है ? किन्तु विज्ञान ही से दिखलाई देती है ।

धातु और प्रत्ययस्थ अनुबन्धो के प्रयोजन—जिन धातुओं के उदात्त अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लृ, ए और ओ, ये अनुबन्ध इत्संज्ञक होते हैं उनसे परस्मैपद और जिन के पूर्वोक्त ही अनुदात्त अकारादि स्वर इत्संज्ञक हो उन और व्यञ्जनो में ङकार जिन का इत्संज्ञक होता है उनसे आत्मनेपद होता है <sup>१</sup> । जिस का स्वरित अकारादि तथा व्यकार इत्संज्ञक हो उनसे आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों होते हैं <sup>२</sup> जिनका आकार इत् जाता है उन और जिन का ईकार इत् जाता है उन से परे निष्ठासंज्ञक प्रत्ययो का इत्

१. अनुदात्तङित आत्मनेपदम् । भा० ९७ । २ स्वरितङितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले । भा० १०५ ।

का आगम नहीं होता<sup>१</sup>। जिनका ह्रस्व इकार इत् जाता है उनको जुम् का आगम होता है<sup>२</sup>। जिनका उकार इत् जाता है उन से परे क्त्वा प्रत्यय को इट् का आगम विकल्प<sup>३</sup> करके और निष्ठा प्रत्यय को इडागम नहीं<sup>४</sup> होता है। जिनका ऊकार इत् जाता है उन से परे सामान्य आर्धधातुक प्रत्यय को इट् का आगम विकल्प<sup>५</sup> करके और निष्ठा प्रत्यय को इट् का आगम नहीं<sup>६</sup> होता। जिनका ह्रस्व ऋकार इन जाता है चङ्परकणिच् परे हो तो उनके उपवा को ह्रस्व नहीं होता<sup>७</sup>। जिनका लृकार इत् जाता है उन से परे क्लि प्रत्यय के स्थान मे अङ् आदेश होता है<sup>८</sup>। जिनका एकार इन जाता है उनको इडादि सिच् के परे परस्मैपद मे वृद्धि नहीं होती है<sup>९</sup>। जिन का ओकार इत् जाता है उन से परे निष्ठा के लकार का नकार आदेश होता है<sup>१०</sup>। जिनका वि इत् जाता है उन से परे वर्तमान काल मे क्त प्रत्यय होता है<sup>११</sup>। जिन का टु इत् जाता है उन से परे अथुच् प्रत्यय होता है<sup>१२</sup>। जिन का डु इत् जाता है उन से क्ति प्रत्यय होता है<sup>१३</sup>। और जिन का ष इत् जाता है उन से स्त्रीलिङ्ग मे अङ् प्रत्यय होता है<sup>१४</sup>, इत्यादि प्रयोजन जानो ।

- १ आकार—आदितश्च। आ० ११७०। ईकार-ईवीदितो निष्ठायाम् । आ० ११७५। २ इदितो जुम् धातो । आ० १२८। ३ उदितो वा । आ० १५४४। ४ यस्य विभाषा। आ० ११६२। ५ स्वरतिसूतिसूय-तिध्वजूदितो वा। आ० १४०। ६ यस्य विभाषा। आ० ११६२। ७ नागलोपिशास्वृदिताम्। आ० ४६७। ८ पुषादिद्युताद्यलूदित ~~पदेषु~~ पदेषु। आ० २१७। ९ ह्ययन्तक्षश्चसजागृणिश्चयेदिताम्। आ० ११६२। १० ओदितश्च। आ० ११५६। ११-जीत क्त। आ० १२३१। १२ टियतोऽथुच्। आ० १४३०। १३ ङित्तः क्तिन्। आ० १४३९। १४ विद्भिदादिभ्योऽङ्। आ० १४६३।

अब संक्षेप से प्रत्ययस्थ अनुबन्धों के प्रयोजन कहते हैं—जिनका ककार, गकार और डकार इत् जाता है वे प्रत्यय परे हो तो अङ्ग की गुण और वृद्धि नहीं होती । [ कित् परे रहने पर ] वचि स्वाप [ और यज ] आदि धातुओं को सप्रसारण<sup>२</sup> और अन्तादात्त स्वर<sup>३</sup> भी होता है, और कित् डित् के परे ग्रह आदि धातुआ का सप्रसारण भी हाता है<sup>४</sup> । और चित् णित् प्रत्यय के परे अजन्त अङ्ग तथा उग्राभूत अकार को वृद्धि<sup>५</sup> हाती और प्रकृति को आद्युदात्त स्वर<sup>६</sup> भी हाता है । चित् का अन्तोदात्तस्वर प्रयोजन है<sup>७</sup> । टित् का प्रयोजन डीप् प्रत्यय<sup>८</sup>, डित् का प्रयोजन टिलोप<sup>९</sup>, तित् का प्रयोजन स्वरितस्वर<sup>१०</sup> होता है ।

आगमो [ अनुबन्धो ] के प्रयोजन—टित्, कित् और मित् ये तीन प्रकार के आगम होत है । इन के नियम ये है कि प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय मे टित् आगम जिस को विधान करे उस के आदि का अवयव<sup>११</sup>, कित् आगम जिस का विधान करे उस के अन्त का अवयव और मित् आगम जिसको विधान करे उसके अन्त अच से परे<sup>१२</sup> होता है ।

(प्रश्न) आदि और अन्त का क्या लक्षण है ?

- १ द्विति च । आ० ३४ । २. वचिस्वपियजादीना क्कित । आ० २८३ । ३ कित् । सौ ३६ । ४. ग्रहिय्यावयिव्यभि० । आ० २८६ । ५. अचोऽङ्गिति । आ० ६१ । अत उपधायाः । आ० १२७ । ६. णित् अन्तान्तरित्यम् । सौ० २९ । ७. चित् । सौ० ३४ । ८. टिट्हाणज्झयसज्झज्झमात्रच् । स्त्रै० ३५ । ९. ति विशतेर्दिति । अष्टा० १४२ । १०. तिस्वरितम् । सौ० ४७ । ११. आद्यन्तौ टकितौ । सन्धि० ८० । १२. मिदचोऽन्त्यात् पर । सन्धि० ८१ ।

<

## भूमिका

( उत्तर ) “यस्मात् पूर्व नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते ।  
यस्मात् पूर्वमस्ति परं च नास्ति सोऽन्त इत्युच्यते” । महाभाष्ये  
अध्याय १ । पादे १ । सूत्रम् २१ ।

जिसके पूर्व कुछ न हो और पर हो वह आदि कहाता है, और  
जिस के पूर्व कुछ है और पर नहीं है उसको अन्त कहते है ।

( प्रश्न ) कौन कौन धातु सट् और कौन कौन अनिट्  
होते हैं ?

( उत्तर ) “अथ के पुनरनुदात्ताः ? आदन्ता अदरिद्रा ।  
इवर्णान्ताश्चि-श्चि-डी शी-दीधी वेवीड । उकारान्ता यु-रु-णु-क्षु-  
क्षु-न्तूर्णवर्जम् । ऋदन्तश्चाऽजागृ-वृड्-वृञ् । इकि कवर्गा-  
न्तानाम् । पचि-वचि-सचि-मुचि-रिचि-विचि-प्रच्छि-यजि-भजि-  
भञ्जि-रञ्जि-सृजि त्यजि-भुजि-भ्रसिज-मसिज-रुजि-युजि-णजि-विजि-  
सञ्जि-खञ्जयश्चवर्गान्तानाम् । अदि-सदि-शदि-हदि-छदि-तुदि-  
नुदि-खिदि-भिदि-स्कन्दि-क्षुदि-स्विद्यति-पद्यति-विन्द-विन्ति-विद्यति-  
राधि-युधि-बुधि-शुधि-ऋधि-रुधि-साधि-व्यधि-वन्धि-सिध्यति-हनि-मन्य-  
तयम्वर्गान्तानाम् । तपि-तिपि-वपि-शपि-क्षुपि-लुपि-लिपि स्वप्यापि-  
क्षिपि-सृपि-नृपि-दृपि-यभि-रभि लभि-यमि-रमि-नमि-गमय पवर्गान्ता-  
नाम् । रुशि-रिशि-दिशि-विशि-लशि-स्पृशि-दृशि-ऋशि-मृशि-दंशि  
पृथ्यति-त्विषि-कृषि-श्लिषि-विषि-पिषि-शिषि-शुषि-तषि-दुषि-द्विषि-  
घमि-वसि-दहि-दहि-वहि-दुहि-नहि-रुहि-लिहि-मिहयश्चाणान्तानाम् ।  
“वमि. प्रसारणी” । महा० अ० ७ । पा ० । सू० १० ।

आकारान्तो मे एक दरिद्रा धातु को छोड़ क शेष सब अनिट्  
है । इवर्णान्तो म शि, शिव, डी, जी, दीधी, वेवी इन छ धातुओं

को छोड़ के शेष अनिट्, उवर्णान्तो में यु, रु, णु, क्षु, क्ष्यु, स्तु, ऊणु इन सात धातुओं को छोड़ के शेष अनिट्, ऋवर्णान्तो में जागु, वृड्, वृष्, धातुओं को छोड़ के बाकी अनिट् [ हैं ], कवर्णान्तो में एक शक्ति धातु अनिट् बाकी सब सेट्, चवर्णान्तो में यथाक्रम से पठति पचि आदि बाईस ( २२ ) धातु अनिट् बाकी सब सेट्, तवर्णान्तो में यथापठित अदि आदि अट् बाईस ( २८ ) धातु अनिट् अन्य सब सेट् । पवर्णान्तो में तिपि आदि यथापठित बीस ( २० ) धातु अनिट् अन्य सब सेट् और ऊष्मान्त अर्थात् श ष स और ह जिन के अन्त में हो उन में रुशि आदि इक्तीस ( ३१ ) धातु अनिट् अन्य सब सेट् हैं । इन में वम धातु वह समझना चाहिये कि जिस को सम्प्रसारण होता है अर्थात् आच्छादनार्थवाची का प्रहण नहीं समझना । पूर्वोक्त सेट् अनिट् धातुओं की व्यवस्था महाभाष्यकार ने इस प्रकार लिखी है परन्तु उसमें सब धातुओं का इक्प्रत्ययान्त निर्देश किया है इस बात का बोध ठीक ठीक नहीं होता, सो इसके विशेष व्याख्यान गणस्थ धातुओं में देखने से विदित होगा ।

इस विषय में किन्हीं प्राचीन शिष्ट † वैयाकरणों की बनाई कारिका भी है सो आगे लिखते हैं.—

अनिट् स्वरान्तो भवतीति दृश्यताम् ,

इमांस्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः ।

अदन्तमृदन्तमृताञ्च वृड्बृष्णौ,

श्विडोडिवर्णेष्वथ शीङ्श्रिजावपि ॥ १ ॥

† ये अनिट् कारिकाएं आचार्य व्याघ्रभूति विरचित हैं । देखो, माघवीया धातुवृत्ति—शिष धातु पृष्ठ ११२, क्रुश धातु पृष्ठ १५२ ।

गणस्थमूदन्तमुतां च कस्तुवौ,  
 लुवन्तथोर्णातिमथो युणुत्तणवः ।  
 इति स्वरान्ता निपुणं समुचितास्,  
 ततो हलन्तानपि सन्निबोधत ॥ २ ॥

धातु दो प्रकार के होते हैं—एक स्वरान्त, दूसरे व्यञ्जनान्त ।  
 उनमें स्वरान्त एकाच् धातु सब अनिट् होते हैं परन्तु अकारान्त,  
 दीर्घ ऋकारान्त, ह्रस्व ऋकारान्तो मे—वृड् वृञ्, इवर्णान्तो मे शिव  
 डीङ् शीङ् और शिञ्, गणो मे पढ़े सब अकारान्त तथा  
 उवर्णान्तो मे—रु स्तु क्षु ऊर्णु यु णु और षणु, इन सब को छोड़ के  
 [ सब अनिट् हात है ] अर्थात् ये अकारान्त आदि जो गिनाये  
 हैं सब सेट है \* । इस के आगे हलन्त—

शकिस्तु कान्तेष्वनिडे रु इष्यते,  
 घसिञ्च सान्तेषु वसिः प्रसारणी ।  
 रभिस्तु भान्तेष्वथ मैथुने घभिस्,  
 तनस्तृतीयो लभिरेव नेतरे ॥ ३ ॥

\* स्वरान्तो मे महाभाष्यकार न अनेकाच वी अपेक्षा छोड़ के  
 आकारान्तो मे दरिद्रा और इवर्णान्तो मे दीधीङ्, वेवीङ् धातु गिनाये हैं,  
 और कारिका बनाने वालों का अभिप्राय यह है कि 'एकाच् उपदेशे-  
 लु०' ( आ० ११० ) सूत्र मे जो एकाच् ग्रहण है उसका आश्रय ~~येकर~~  
 ये धातु सेट और अनिट् है । अर्थात् दोनों प्रकार का व्याख्यान ठीक  
 है इससे महाभाष्य और कारिकाओं में परस्पर कुछ विरोध  
 नहीं आसकता ।



ककारान्तो मे एक शक, सकारान्तो मे घस और निवासार्थ वाला वस तथा भकारान्तो मे रभ, लभ और मैथुन अर्थ वाला यभ, ये तीन धातु अनिट् हैं बाकी सब सेट् समझने चाहिये ।

अभिर्जमन्तेष्वनिडेक इष्यते,  
रमिश्च यश्च श्यनि पठ्यते मनिः ।  
नमिश्चतुर्थो हनिरेव पञ्चमो,  
गमिश्च षष्ठः प्रतिषेधवाचिनाम् ॥ ४ ॥

मकारान्तो मे यम, रम, नम, गम ये चार और नकारान्तो मे हने तथा दिवादिगण मे पढ़ा मन य दो वातु अनिट् है ।

पाचिं वचिं विचिरिचिरञ्जिप्रच्छतीन्,  
निजि सिचिं मुचिभजिभञ्जिभृञ्जतीन् ।  
त्यजिं यजि युजिहजिसञ्जिमञ्जतान्,  
भुजिं स्वजिं सृजिविजी<sup>१</sup> विद्वयनिट् स्वरान् ॥ ५ ॥

चकारान्तो मे पच, वच विच, रिच, सिच, मुचि ये छः । छकारान्तो मे एक प्रच्छ, जकारान्तो मे रंज, निज, भज, भञ्ज, भ्रञ्ज, त्यज, यज, युज, रुज, सञ्ज, मञ्ज, भुज, स्वञ्ज, सृज, त्रिज ये पन्द्रह धातु अनिट् है बाकी सब सेट् समझना चाहिये ।

१ कहीं कहीं 'यमिर्जमन्तेषु' पाठ है ।

२ कहीं कहीं 'सृजिमृजी' पाठ है वह ठीक नहीं, क्योंकि मृज् धातु ऊर्ध्व होने से विकल्प से इट् का आगम ( भा० १४० ) होता है । अनुदात्त का दूसरा फल 'अम्' आगम ( भा० २७५ ) भी इससे नहीं देखा जाता । महाभाष्य के पूर्वोद्धृत पाठ मे स्पष्ट रूप से 'विजि' ग्रहण किया है ।

अदिं हृदि स्कन्दिभिदिच्छिदिच्छुदीन्,  
 शदिं सदिं स्वद्यतिपद्यतीखिदिम् ।  
 तुदिं नुदिं विद्यति विन्तं इत्यपि,  
 प्रतीहि दान्तान् दश पञ्च चानिटः ॥ ६ ॥

दकारान्तो मे अद, हृद, स्कन्द, भिद, छिद, क्षुद, शद, सद,  
 खिद, पद, विद य तीनों दिवादिगण क तथा विद रुधादिगण का  
 भी खिद, तुद, नुद ये पन्द्रह धातु अनिट् है ।

रुधिस्सराधिर्युधिबंधिसाधयः,  
 क्रुधिञ्जुधी शुध्यतिबुध्यतीव्यधिः ।  
 इमे तु धान्ता दश येऽनितो मतास्,  
 ततः परं सिध्यतिरेव नेतरे ॥ ७ ॥

धकारान्तो मे रुध, राध, युध, बन्ध, साध, क्रुध, क्षुध, दिवादि  
 गण का शुध बुध तथा सिध [ य तान ] और व्यध ये ग्यारह  
 धातु अनिट् है ।

तपि तिपि चापिमथो वपि स्वपि,  
 लिाप लुपिं तृप्यनिदृप्यतो सृपिम ।  
 स्वरेण नीचेन शपि छुपि क्षिपि,  
 प्रतीहि पान्तान् पठितांस्त्रयोदश ॥ ८ ॥

पकारान्तो मे तप, तिप, आप, वप, स्वप, लिप, लुप, दिवत्पदि  
 गण के तृप, हृप'ये दा, सृप,शप, छुप, क्षिप ये तरह वातु अनिट् है ।

१ तृप और हृप को अनुदात्त पढ़ने का प्रयोजन केवल 'अम्' का  
 आगम ( आ० २७५ ) है । रधादि के नियम ( आ० २०७ ) से इट्  
 का विकल्प होता है ।

दिशिं दृशिं दंशिमथो मृशिं स्पृशिम्,  
रिशिं, रुशिं क्रोशतिमष्टमं विशिम् ।  
लिशिं च शान्ताननिटः पुराणगाः,  
पठन्ति पाठेषु दशैव नंतरान् ॥ ६ ॥

शकारान्तो मे दिश, दृश, दश, मृश, स्पृश, रिश, रुश, क्रुश, विश, लिश ये दश धातु अनिट् हैं ।

शिषिं पिषि शुष्यतिपुष्यती त्विषिम्,  
बिषिं श्लिषिं तुष्यतिदुष्यती द्विषिम् ।  
इमान् दशैवोपदिशन्त्यनिट्विधौ,  
गणेषु षान्तान् कृषिकर्षती तथा ॥ १० ॥

षकारान्तो मे शिष, पिष, त्विष, विष, श्लिष, द्विष दिवादि गण के शुष, पुष, तुष, दुष ये चार और तुदादि और भ्वादि दोनो गण का कृष, य ग्यारह धातु अनिट् हैं ।

दिहिर्दुहिर्मेहतिरोहतो वहिर्नहिस्तु षष्ठो दह-  
तिस्तथा लिहिः ।

इमेऽनिटोऽष्टाविह मुक्तसंशया,  
गणेषु हान्ताः प्रबिभज्य कीर्त्तिताः ॥ ११ ॥

हकारान्तो मे दिह, दुह, मिह, रुह, वह, नह, दह, लिह ये धातु अनिट् हैं ।

जहा सेट् गिनाये हैं वहा बाकी अनिट् और जहा अनिट् गिनाये हैं वहा बाकी सेट् समझ लेना चाहिये । इस ग्रन्थ मे जितने सेट् अनिट् धातु है उन सब की व्यवस्था मुख्य तो यही समझनी चाहिये और उदात्तोपदेश से सेट् और अनुदात्तोपदेश से अनिट् समझते है । जो धातु उपदेश में उदात्त है उन पर कोई चिह्न नहीं

होता और जो उपदेश में अनुदात्त होते हैं उनके आदि वर्ण के नीचे अनुदात्त की तिर्छी रेखा कर देते थे, और परस्मैपद आत्मनेपद के लिए यह संकेत था कि जिनका अन्त्य वर्ण अनुदात्त चिह्नित इत् हो और जो उपदेश † में डित् हो उनसे आत्मनेपद, शेषो से परस्मैपद और जिन क अन्त्य वर्ण स्वरित् संज्ञक इत् हो उन से तथा जो उपदेश म चित् हो उनसे उभयपद समझते थे, इससे बहुत लाघव के साथ सब बोध हो जाता था। अब विद्या की प्रवृत्ति कम हो जाने के कारण यह परम्परा बिगड़ गई है। अब इस ग्रन्थ में अनुदात्त से अनिट्, अनुदात्तेत् स आत्मनेपद और उदात्त से सेट्, उदात्तेत् से परस्मैपद समझते हैं, फिर भी आत्मनेपदी और परस्मैपदी शब्द भी सर्वत्र अत्यन्त सुगम होने के लिए लिख दिये हैं कि जिससे किसी को भ्रम न पड़ सके। इन सब प्रकारों से इत्संज्ञक वर्णों और सेट् अनिट् की व्यवस्था को ठीक २ जान के पढ़ने पढ़ाने वाले सब लोग शुद्ध प्रयोगों से व्यवहार और अर्थज्ञान से उपयुक्त हो। जो धातु उपदेश में उदात्त = सेट् है उन से परे आर्ध-

† कैथट, हरदत्त, दीक्षित आदि सब अर्वाचीन वैयाकरण 'अचुकु-टिषति, मे सञ् के डिट् अतिदेश ( आ० ३४५ ) से प्राप्त होने वाले आत्मनेपद को हटाने के लिए उपदेश का अनुवृत्ति मानते हैं। परन्तु उनका ऋथ न ठीक नहीं है, क्योंकि उपदेश के अनन्तर इत् सज्ञा होती है—उपदेशोत्तरकालमित्सज्ञा ( महाभाष्य १।१।२५ ) जब इत् सज्ञा ही उपदेश के अनन्तर होगा तब उपदेश में डित् कैसे हो सकती है—महाभाष्यकार ने उक्त पाद म अत्मनेपद की निवृत्ति के लिये सेहभ्यन्त सेवति माना है ( महाभाष्य १।२।१ मिद्धन्तु पूर्वस्वकार्यातिदेशात् ) अतः डित् परे रहने पर जो कार्य हो उसी के प्रति सञ् डित् होगा, न कि कि जो कार्य हो उसके प्रति।

धातुक प्रत्ययो को इडागम हो जाता है । और जो उपदेश में अनुदात्त = अनिट् है उनसे परे आर्द्धधातुकसंज्ञक प्रत्ययो को इडागम नहीं होता है ।

इस ग्रंथ में ग्यारह लकार अर्थात् लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ् क्रम से लिखे हैं, अन्य ग्रन्थों में लेट् लकार [ जो ] केवल वैदिक प्रयोग विषयक है सा नहीं लिखा है, यहा विस्तार पूर्वक इसके प्रयोग लिखेगे, लिङ् दो बार इसलिए लिखा है कि इसके दो प्रकार के अर्थों में के दो प्रकार प्रयोग होते हैं । और दशगण अर्थात् भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्र्यादि और चुरादि क्रम से लिखे हैं, इसके पीछे बारह प्रक्रिया \* अर्थात् णिजन्त, सन्नन्त, यङ्ङन्त, यङ् लुगन्त, नामधातु, कण्ड्वादि, प्रत्ययमाला, आत्मनेपद, परस्मैपद, भावकर्म, कमेकत्तो और लकाराथे, ये भी क्रम में विस्तार पूर्वक लिखे जावेंगे और इतना ही तिङन्त का विषय है इसी को 'आख्यात' भी कहते हैं, और जा सूत्र सामान्य करके सब वातुओं में लगते हैं उनको प्रथम-

† वस्तुतः लकार दश ही हैं । लिङ् के दो भेद होने से इन्हे पृथक् पृथक् गिना है ।

\* सस्कारविधि के वेदारम्भसस्कारान्तगत 'पठनपाठन व्यवस्था' प्रकरण में लिखा है—“धातुपाठ और दश लकारों के रूप सध्वाना तथा दश प्रक्रिया भी सध्वानी” । यहा सिद्धातकौमुदी आदि अर्वाचीन ग्रन्थों के अनुसार व्याख्या की है । अत एव अत्मनेपद, भावकर्म आदि का पृथक् निर्देश किया है । वस्तुतः ऋषि दयानन्द को प्रत्येक धातु के दशो प्रक्रिया के रूप सध्वाने इच्छा है । धातुपाठ की क्षीरतरङ्गिणी, धातु-प्रदीप और माधवीया धातुवृत्ति आदि प्राचीन ग्रंथों में ऋषि दयानन्द अभिमत क्रम ही उपलब्ध होता है । सस्कारविधि निदिष्ट दश प्रक्रिया

अथम एक ही वार लिखेंगे और जो किन्ही विशेष धातुओं में लगते हैं उन का एकवार लिखकर पीछे जहाँ उनका सम्बन्ध होगा वहा २ इस अन्ध की सूत्र संख्या जो उन के आगे लिखी होगी, व्याख्या में रख दिया करेंगे, उसके अनुसार उन सूत्रों का सम्बन्ध सब लोग बहा २ देख लेंगे ।

। इति भूमिका ।

---

ये हैं—१ कर्तृ प्रक्रिया ( इस में यथाप्राप्त परस्मैपद, भात्मनेपद् ), २ कर्म प्रक्रिया, ३ भाव प्रक्रिया, ४ कर्मकर्तृ प्रक्रिया, ५ सञ्जन्त प्रक्रिया, ६ यदन्त प्रक्रिया, ७ यदल्लुगन्त प्रक्रिया, ८ णिजन्त प्रक्रिया, ९ प्रत्ययमाला, १० नामधातु प्रक्रिया । यहा यह ध्यान रहे कि निम्न प्रकार शुद्ध धातु की कर्तृ-कर्म-भाव-कर्मकर्तृ चार प्रक्रिया में रूप सधवाये जाते हैं उसी प्रकार सञ्जन्त, यदन्त आदि सब के चारों प्रक्रियाओं में रूप सधवाने चाहिये ।

## अथ आख्यातिकः

१. [ भू<sup>१</sup> ] सत्तायाम् उदात्त उदात्तेत् परस्मैभाषः<sup>२</sup> । यह धातु परस्मैपदी है । भू शब्द सत्ता<sup>३</sup> = होने अर्थ का वाचक है । इस अर्थ को कहने के योग्य होने से भू शब्द समर्थ है । जो इससे किसी अर्थ का बोध न होता तो असमर्थ समझा जाता, फिर असमर्थ से कोई कार्य भी नहीं हो सकता । इस विषय की परिभाषा “समर्थः

१ धातु के स्वरूप में सशय न हो इसलिये ‘भू’ आदि धातुओं में विभक्ति का निर्देश नहीं किया ।

२ परस्मैभाषा यह परस्मैपद की पूर्वाचार्यों की सज्ञा है ।

३ धातुपाठ में धातुओं के जो अर्थ दिये हैं वे प्रायः उपलक्षणार्थ हैं । महाभाष्य (अ० १ । ३ । १ ॥ ६ । १ । ९) में लिखा है—‘बह्वर्था अपि धातवो भवन्ति’ अर्थात् धातुएँ बहुत अर्थ वाली भी होती हैं । धातुपाठ में भी ‘कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायामेव’ (भ्वादि० २१-२४) में एवकार से अर्थ का अवधारण करना इस बात का ज्ञापक है । सूत्रकार ने भी ‘गन्धनावक्षेपण०’ (अ० १ । २ । ३२) इत्यादि सूत्रों में अनेक अर्थों का निर्देश किया है । इसलिये ‘क्षीरभोजिन्याः श्रुतन्धर. पुत्रो भवति’ वाक्य में ‘उत्पत्ति’, ‘अशुक्ल पट शुक्लो भवति’ में अभूततद्भाव ( पहिले न हो पीछे होना ) आदि अर्थ देखे जाते हैं । ‘सुखमनुभवति, हिमवतो राज्ञा प्रभवति, सेना पराभवति’ इत्यादि वाक्यों में जो विभिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं वे ‘भू’ धातु के ही हैं । उपसर्ग केवल अन्तर्निहित धात्वर्थ के च्योतक होते हैं ।

पदविधिः<sup>१</sup> सन्धिविषय<sup>१</sup> में लिख चुके हैं, और शब्द का लक्षण भी नामिक की भूमिका<sup>२</sup> में लिखा है। भू शब्द सत्ता अर्थ के साथ समर्थ हुआ तो इसकी धातुसंज्ञा होकर कृत् प्रत्ययो की उत्पत्ति आदि कार्य होते हैं।

१—भूवादयो धातवः ॥ १ । ३ । १ ॥

भू शब्द से लेकर जो दशगणो में शब्द पढ़े हैं उन सब की धातु संज्ञा होती है। इस से भू शब्द की धातु संज्ञा होकर—

२—धातोः ॥ ३ । १ । ६१ ॥

[ यह अधिकार सूत्र है। आगे कहे हुए ] सब तव्यत् आदि प्रत्यय धातुसंज्ञक शब्दों से होते हैं।

३—कृदतिङ् ॥ ३ । १ । ६३ ॥

धातु से विहित [ तिङ्भिन्न ] जो प्रत्यय हैं वे कृत्संज्ञक हो । यहां तिङन्त की अपेक्षा में—

४—वर्तमाने लट् ॥ ३ । २ । १२३ ॥

आरम्भ से लेकर जब तक क्रिया की समाप्ति न हो तब तक वर्तमान काल समझना चाहिये। वर्तमान अर्थ के वाचक धातुओं से लट् प्रत्यय हो। अब ये कृत्संज्ञक लट् आदि प्रत्ययों भाव, कर्म और कर्ता इन तीन अर्थों में सामान्य करके होते हैं। उनका विभाग—

५—लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः ॥ ३।४।६६॥

\* इन तीनों अङ्गों में से पहिले से अध्याय, दूसरे से पाद और तीसरे से सूत्र सख्या समझनी चाहिये।



सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता अर्थ में तथा अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में लकार होना है। यहां भू धातु से कर्ता अर्थ में लट् आया। 'भू-लट्' इस अवस्था में

६—हलन्त्यम् ॥ १ । ३ । ३ ॥

उपदेश में धातु आदि के समुदाय का जो अन्त्य वर्ण है वह इत् संबन्धक होने पर।

७—तस्य लोपः ॥ १ । ३ । ६ ॥

इत् संबन्धक वाले वर्ण का लोप हो जाता है। यहां टकार की इत्संज्ञा और लोप हो कर प्रत्यय के आदि लकार की भी इत्संज्ञा "लशक्तद्धिते" सूत्र से प्राप्त है सो अगले सूत्र में लकार के स्थान में आदेशविधानरूप ज्ञापक से नहीं होती।

८—तस्य ॥ ३ । ४ । ७७ ॥

लकार के स्थान में वक्ष्यमाण आदेश हो।

९—तिप्त्सम्भिसिप्थस्थमिब्वस्मस्ताताञ्भ-  
थासाथान्ध्वमिड्वहिमहिङ् ॥ ३ । ४ । ७८ ॥

तिप्, तस्, भि, सिप्, थस्, थ; मिप्, वस्, मस्, त, आताम्, ऋ; थास्, आथाम्, ध्वन्; इट्, वाहि, महिङ् ये १८ अठारह आदेश लकार के स्थान में होते हैं।

१०—लः परस्मैपदम् ॥ १ । ४ । ६८ ॥

लकार के स्थान में जो आदेश हैं वे परस्मैपदसंबन्धक हों। इससे सामान्य करके विधान है, परन्तु उसके अपवाद "तङ्गानां" सूत्र से तङ् आदि नव की आत्मनेपद संज्ञा का है, इससे तिप् [ से

मस् ] पर्यन्त ९ नव की परस्मैपद सज्ञा जाना<sup>१</sup> । अब भू धातु से परस्मैपद हों वा आत्मनेपद इस सन्देह की निवृत्ति के लिये—

११—शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् ॥ १।३।७८ ॥

जिन धातुओं से आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय कहे हैं उनको छोड़ कर शेष धातुओं से परस्मैपदसंज्ञक प्रत्यय हो। यहा भू से तिप् आदि नव प्रत्यय प्राप्त हुए।

१२—तिङ्स्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥

१।४।१०० ॥

तिङ्स्म्बन्धी जो तिप् आदि प्रत्यय है वे यथाक्रम से तीन-तीन प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञक हो अर्थात्—तिप्, तस्, फि, प्रथम, सिप्, थस्, थ, मध्यम और मिप्, वस्, मस्, उत्तम पुरुष जानो।

१३—तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः ॥

१।४।१०१ ॥

उन्ही तिङ्स्म्बन्धी तिप् आदि तीन-तीन के समुदाय में प्रत्येक एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक हो, अर्थात् तिप् एकवचन, तस् द्विवचन और फि बहुवचन। इसी प्रकार सिप् आदि में जानो।

१ इस प्रकरण में एक सज्ञा का अधिकार है। जो सज्ञा अनवकाश या परे होती है वह सावकाश या पूर्व सज्ञा को बाध लेती है। अत 'तिप्' से 'मस्' पर्यन्त ९ प्रत्ययों और शट्, शानच् की ही परस्मैपद सज्ञा होती है।

२ यहाँ प्रथम द्वन्द्व समास होता है तत्पश्चात् एकशेष। यथा—  
प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च प्रथममध्यमोत्तमा' । प्रथममध्यमोत्तमाश्च प्रथम-  
मध्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमा। इससे शेष नव आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्ययों में भी क्रमशः तीन-तीन की प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा हो जाती है।

**१४-युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्य-  
पि मध्यमः ॥ १ । ४ । १०४ ॥**

तिङन्तक्रिया के समानाधिकरण युष्मद् शब्द उपपद के रहते हुए युष्मद् शब्द का प्रयोग हो वा न हो ता भी धातु से मध्यम पुरुष हो ।

**१५-अस्मद्युत्तमः ॥ १ । ४ । १०६ ॥**

तिङन्त के साथ एकाधिकरण अस्मत् शब्द उपपद हो, उस का प्रयोग हो वा न हो तो भी धातु से उत्तम पुरुष हो ।

**१६-शेषे प्रथमः ॥ १ । ४ । १०७ ॥**

तिङन्त के साथ युष्मद् और अस्मद् से भिन्न एकाधिकरण नाम उपपद हो, उस का प्रयोग हो वा न हो तो भी धातु से प्रथम पुरुष हो । यहाँ शेष कर्ता की विवक्षा में लकार के स्थान में जो तिप् आदि आदेश है उन में से प्रथम पुरुष का एकवचन तिप् आया । "भू-तिप्" इस अवस्था में—

**१७-यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये-  
ऽङ्गम् ॥ १ । ४ । १३ ॥**

जिस धातु वा प्रातिपादिक से जिस प्रत्यय का विधान हो उस धातु वा प्रातिपादिक का आद्यक्षर जिस के आदिमें हो उस समुदाय की प्रत्ययके पर रहने पर अङ्ग संज्ञा होती है अर्थात् प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो विकरण प्रत्यय है उस की भी अङ्ग संज्ञा हो जावे<sup>१</sup> ।

१ द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने ( ना०९ ) इस नियम से ।

२. सूत्र के 'तदादि' पद में उत्तरपदलोपी समास है—तस्य आदि तदादि, तदादिरादिर्गस्य तत् तदाद्यादि । तत् = प्रकृति, तस्यादिस्त-

१८-तिङ्शित् सार्वधातुकम् ॥ ३ । ४ । ११३ ॥

धातु के अधिकार में कहे जो तिङ् और शित् प्रत्यय [ हैं ] वे सावधातुकरसंज्ञक हो। इस से तिप् आदि की सार्वधातुक संज्ञा हुई।

१९-कर्त्तरि शप् ॥ ३ । १ । ६८ ॥

कर्त्तावाची सार्वधातुक परे हो तो धातु से परे शप् प्रत्यय हो। इस से भू और तिप् के बीच में शप् प्रत्यय हो कर “भू-शप्-तिप्” इस अवस्था में दोनों हल् प्रकारों की ( ६ ) से इत्संज्ञा होकर ( ७ ) से लोप होकर “भू-श-ति” रहा।

२०-लशक्वतद्धिते ॥ १ । ३ । ८ ॥

प्रत्यय के आदि में जो लकार, शकार और कवर्ग [ हैं ] उन की इत्संज्ञा होवे। इस से “श्” की इत्संज्ञा होकर ( ७ ) से लोप हो गया। “भू-अ-ति” इस अवस्था में—

२१-सार्वधातुकार्धधातुकयोः ॥ ७ । ३ । ८४ ॥

गुण वृद्धि आदि संज्ञा और इक् ही के स्थान में नियम होना सन्धिविषय में लिख चुक है<sup>१</sup>। सावधातुक और आधेधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो इगन्त अङ्ग के स्थान में गुण आदेश हो। इससे उकार का अन्तरतम ओकार गुण होकर “भो-अ-ति” इस अवस्था में—

२२-एचोऽयवायावः ॥ ६ । १ । ७६ ॥

इति = प्रकृति का पूर्व वर्ण, तदादिरादिर्यस्य = वह वर्ण आदि में है जिस समुदाय के उस की अङ्ग संज्ञा होती है।

१. गुणसंज्ञा—सन्धि० १९। वृद्धिसंज्ञा—सन्धि० १८। इक् का नियम—सन्धि ७८।

एच् प्रत्याहार के स्थान में अय, अव, आय, आव् ये चार आदेश यथासंख्य करके हों। ओकार को अव् होकर-भवति। द्विवचन की विवक्षा में "भव-तस्"। तिङ् प्रत्ययो की विभक्ति संज्ञा नामिक<sup>१</sup> में हो चुकी है। यहाँ तस् के सकार की इत् संज्ञा प्राप्त है, उसका निषेध करते हैं—

२३--न विभक्तौ तुस्माः ॥ १ । ३ । ४ ॥

विभक्ति में जो तवर्ग, सकार और मकार [ हैं ] वे इत्संज्ञक न हों। तिङन्त की पदसंज्ञा भी कर चुके हैं नामिक म<sup>२</sup>।

२४--ससजुषो रुः ॥ ८ । २ । ६६ ॥

पदान्त सकार और सजुष् शब्द के अन्त्य वर्णों को रुँ आदेश हो।

२५--उपदेशेऽजनुनासिक इत् ॥ १ । ३ । २ ॥

उपदेश में जो अनुनासिक अच् है उस की इत्संज्ञा हो। इस से उकार की इत्संज्ञा होकर-"भव-तस्"।

२६--खरवसानयोर्विसर्जनीभ्यः ॥ ८ । ३ । १५ ॥

खर् प्रत्याहार के परे तथा अवसान में वर्तमान जो रेफ उसके स्थान में विसर्जनीय आदेश हो। इस से रेफ को विसर्ग होकर—"भवतः"। "भव-भि" यहाँ—

२७--भ्रोऽन्तः ॥ ७ । १ । ३ ॥

प्रत्यय के आदि अवयव भ्रकार को अन्त आदेश होवे। तकार में अकार उच्चारणार्थ है, किन्तु आदेश हलन्त ही होता है। "भव-अन्-इ"। दोनों अकारों को पररूप एकादेश<sup>३</sup> होकर— भवन्ति। भव + सिप् = भवसि, भव + थस् = भवथः, भव + थ = भवथ। भव + मिप्—

### २८-अतो दीर्घो यञि ॥ ७ । ३ । १०१ ॥

यञादि सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो अदन्त अङ्ग को दीर्घ आदेश होवे। यहां शप् के अकार की अङ्ग संज्ञा होने से दीर्घ होता है—भवामि, भव + वस् = भवावः, भव + मस् = भवामः। स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्व भवसि, युवां भवथः, यूयं भवथ, अह भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः।

इन लकारों का क्रम वर्णक्रम से चलाया करते हैं। जैसे—लट्, लिट्, लुट्, लृट् लोट् लोट् ये ६ छटित् और ऐसा ही क्रम डित् लकारों [ लङ्, लिङ् लुङ् लृङ् ] में जानो। इस क्रम के अनुसार लट् के आगे लिट् प्राप्त हुआ। जितने सूत्र प्रथम लकार में लिख दिये उन को अब नहीं लिखेंगे, जो जो विशेष आते जावेंगे उन को लिखेंगे। [ लिट्—

### २९-परोक्षे लिट् ॥ ३ । २ । ११५ ॥

यहां भूत और अनद्यतन की अनुवृत्ति आती है। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में हुए कार्यों के वाचक धातुओं से लिट् लकार होवे। परोक्ष २९ का अर्थ—

का०-परोभावः परस्याक्षे परोक्षे लिटि दृश्यताम् ।  
उत्त्वं वाऽऽदेः परादक्षणः सिद्धं वाऽऽस्मान्निपातनात् ॥

### महा० ३ । २ । ११५ ॥

जिससे विषयों के साथ ज्ञान की व्याप्ति हो उसका 'अक्ष' कहते हैं अर्थात् पांच ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण अक्ष शब्द से समझना चाहिये। और इन्द्रियों से जो परे हो उसको परोक्ष कहते हैं। अक्ष शब्द के परे 'पर' शब्द को 'परो' आदेश, अथवा अकार को उकार वा परोक्ष शब्द को पृषोदरादि मान के इस सूत्र में निपातन

भा०--कथं जातीयकं पुनः परोक्षं नाम ?  
केचित् तावदाहुर्वर्षशतवृत्तं परोक्षमिति । अपर  
आहुर्वर्षसहस्रवृत्तं परोक्षमिति । अपर आहुः  
कुड्यकटान्तरितं परोक्षमिति । अपर आहुर्द्वयहवृत्तं  
त्रयहवृत्तं वेति । महा० ३ । २ । ११५ ॥

परोक्ष जो अपने सामने न हुआ हो, उस की कितनी अवधि  
समझनी चाहिये, इस विषय में ऋषि लोगो का बहुत भिन्न भिन्न  
विचार है । कोई कहते हैं कि जो १०० सौ वर्ष पहले हो चुका हो,  
कोई कहते हैं कि जो १००० हजार वर्ष प्रथम हो गया हो, कोई  
कहते हैं कि जो भित्ति और चटाई के आड में हो और कोई कहते  
हैं कि दो वा तीन दिन पहले हुआ हो उस को परोक्ष समझना  
चाहिये । सो यह सब प्रकार से परोक्ष हो सकता है, क्योंकि मुख्य  
परोक्ष के साथ सब का सम्बन्ध हो सकता है । “भू—लिट्” यहां  
टकार इकार की इत्सज्ञा और लोप होकर लकार के स्थान में तिप्  
आदि नव हो जाते हैं ।

३०-लिट् च ॥ ३ । ४ । ११५ ॥

• यह सूत्र सार्वधातुक संज्ञा का अपवाद है । लिट् के स्थान में  
जो तिप् आदि आदेश है वे आर्धधातुक संज्ञक हो । यहाँ एक संज्ञा  
का अधिकार तो है ही नहीं, इस कारण पक्ष में सार्वधातुक संज्ञा  
भी प्राप्त है, इसलिये एव शब्द की अनुवृत्ति<sup>१</sup> समझनी चाहिये कि  
आर्धधातुक संज्ञा ही हो, अन्य नहीं ।

१ लङ् शाकटायनस्यैव ( अ० ३ । ४ । १११ ) सूत्र से मण्डूक-  
श्रुति-न्याय से ‘एव’ की अनुवृत्ति समझनी चाहिये । अथवा—“उन्द-  
स्युभयथा” ( अ० ३ । ४ । ११७ ) सूत्र में ‘उभयथा’ के ग्रहण से

३१-परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणत्वमाः ॥

३।४।८२ ॥

धातु से परे लिट् लकार के स्थान में परस्मैपदसंज्ञके जो तिप् आदि आदेश हैं उनको णल् आदि नव आदेश यथासंख्य करके हो जावें। “भू-णल्”—

३२-चुट् ॥ १।३।७ ॥

प्रत्यय के आदि जो चवर्ग, टवर्ग उन की इत्सज्ञा हो। यहाँ णकार लकार की इत्सज्ञा और लाप होकर—“भू-अ” इस अवस्था में—

३३-इन्धि भवतिभ्यां च ॥ १।२।६ ॥

इन्धि और भू धातु से परे जो लिट् वह कित्संज्ञक<sup>१</sup> हो। [ यह सूत्र पित् लिट् के लिये है।<sup>१</sup> ] इस से णल् को कित् होकर—

ज्ञापित होता है कि इस प्रकरण में सार्वधातुक और आर्धधातुक दोनो सज्ञाओं का समावेश नहीं होता। अन्यथा वेद में दोनो सज्ञाओं के सिमुच्चय के लिये ‘छन्दसि च’ इतना ही सूत्र बना देते।

१. पतञ्जलि ने ‘गाडकुटादिभ्योऽङ्गिन्डित्’ ( अ० १।२।१ ) सूत्र के भाष्य में प्राचीन वृत्तिकारों के चार पक्ष दर्शाये हैं। १ भावना, २ संबन्ध, ३ संज्ञा, ४ अतिदेश। इस ग्रन्थ में तृतीय पक्ष के अनुसार जहाँ डित् कित् का विधान किया है वहाँ उन की डित् कित् सज्ञाएँ मानी हैं। यहीं संज्ञापक्ष प्राचीन दशपादी-उणादि-वृत्तिकार ने भी माना है। देखो हमारी संपादित गवर्नमेण्ट सस्कृत कालेज बनारस से प्रकाशित ६० उ० वृत्ति पृष्ठ १९, २१, ४७, ५९ इत्यादि।

२. इन्धेः संयोगार्थं ग्रहण भवतेः पिदर्थम् ( महा० १।२।६ ) अर्थात् इस सूत्र में ‘इन्धि’ का ग्रहण सयोगान्त होने से और ‘भवति’ का ग्रहण पित् लिट् के लिये किया है।



३४—क्ङिति च १ । १ । २० ॥

क्त्, गित् और ङित् प्रत्यय परे हो तो इक् के स्थान में गुण वृद्धि न हां । इस से गुण का निषेध हो गया । [ अथवा “भू-अ” इस अवस्था में ] द्विर्वचन, यणादेश, गुण, वृद्धि आदि कार्य भी प्राप्त हैं इन सब का बाधक वुक् होता है ।

३५—भुवो वुग् लुङ् लिटोः ॥ ६ । ४ । ८८ ॥

अजादि लुङ् और लिट् लकार परे हो तो भू अङ्ग को वुक् का आगम होता है । उक् मात्र की इत्सज्ञा होकर—भूव्-अ ।

३६—एकाचो द्वे प्रथमस्य ॥ ६ । १ । १ ॥

यह आधिकार सूत्र है । धातु के प्रथम एकाच् अवयव को द्वित्व होवे ।

१. “यत् कृतेऽपि प्राप्नोत्यकृतेऽपि तन्नित्यम्” इस नियम से वुक् निय है, क्योंकि वह यणादेश, गुण और वृद्धि के होने पर भी प्राप्त होता है और न होने पर भी । परन्तु यणादेश, गुण, वृद्धि ये वुक् हो जाने पर प्राप्त नहीं होते अतः वे अनित्य है । नित्य और अनित्य में नित्य बलवान् होता है (पारि० ३८) । इसलिये वुक् यणादि को बाध लेता है । यद्यपि द्विर्वचन वुक् करने पर भी प्राप्त होता है तथापि वह ‘शब्दान्तरस्य प्राप्नुयन् विधिरनित्यः’ ( पारि० ४२ ) इस नियम से अनित्य है, क्योंकि वुक् होने पर ‘भूव्’ को द्विर्वचन की प्राप्ति होती है और वुक् न होने पर ‘भू’ मात्र को । इसी प्रकार वुक् भी अनित्य है । यदि द्विर्वचन पहले हो तो ‘भू-भू’ समुदाय को वुक् प्राप्त होता है और यदि द्विर्वचन से पहले वुक् हो तो ‘भू’ मात्र को । अतः दोनों के अनित्य होने पर ‘पूर्व से पर बलवान् होता है’ (पारि० ३८) इस नियम से वुक् द्विर्वचन को परस्व के कारण बाधता है ।

३७—अजादेद्वितीयस्य ॥ ६ । १ । २ ॥

यहां भी एकाच् की अनुवृत्ति आती है। अजादि धातुओंके द्वितीय एकाच् अवयव को द्वित्व होवे।

३८—लिटि धातोरनभ्यासस्य ॥ ६ । १ । ८ ॥

लिट् लकार परे हो तो अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच् और अजादि धातु के द्वितीय एकाच् अवयव को द्विर्वचन होवे। इस में विशेष यह है कि जहां धातुओं में अनेक अच् होते हैं वहां प्रथम एकाच् और द्वितीय एकाच् अवयव का कहना बन सकता है, और जिन में एक ही अच् है वहा उसी एकाच् [ को व्यपदेशिवद् भाव से प्रथम एकाच् मानकर ] द्वित्व हो जाता है। यहां भी एकाच् अवयव 'भूव्' मात्र को द्विर्वचन होकर—“भूव्-भूव्-अ” यहां—

३९—पूर्वोऽभ्यासः ॥ ६ । १ । ४ ॥

द्विर्वचन का जो पूर्वभाग है वह अभ्यास संज्ञक हो। प्रथम 'भूव्' की अभ्यास सज्ञा होकर—

४०—हलादिः शेषः ॥ ७ । ४ । ६० ॥

अभ्यास का आदि हल् शेष रहे, अन्य हलो का लोप हो जावे। इस से प्रथम “भूव्” के “व्” का लोप होके—भू—  
भूव्-अ।

४१—ह्रस्वः ॥ ७ । ४ । ५६ ॥

अभ्यास के अच् को ह्रस्व आदेश हो। ह्रस्व उकार हुआ।

४२—भवतेरः ॥ ७ । ४ । ७३ ॥

लिट् लकार परे हो तो भू धातु के अभ्यास को अकार आदेश हो। ह्रस्व उकार को प्रमाणकृत आन्तये से ह्रस्व अकार होकर—  
भ-भूव्-अ।

४३—अभ्यासे चर्च ॥ ८ । ४ । ५४ ॥

अभ्यास मे जो भल् उनको चर् और जश् आदेश हो । यहा भकार को षकार हो जाता है ।•

४४—असिद्धवदत्राभात् ॥ ६ । ४ । २२ ॥

इस सूत्र से लेकर इस पाद की समाप्तिपर्यन्त एक प्रयोग मे दो [ समानाश्रय ] कार्य प्राप्त हों तो आभात् शास्त्रीय कार्य करने मे आभात् शास्त्रीय काय असिद्ध हो जावे । इस से वुक् के आगम को असिद्ध मान कर उवङ् आदेश प्राप्त होता है इसलिये—

४५—वा० वुग्युटावुवङ्यणोः कर्तव्ये सिद्धौ वक्तव्यौ ॥ ६ । ४ । २२ ॥

उवङ् और यणादेश करने मे वुक् और गुट् का आगम यथासख्य करके असिद्ध न माने जावें, किन्तु सिद्ध ही समझने चाहिये । इस से उवङ् नही होता । बभूव । 'भू—अतुस्' यहां गुण प्राप्त है ।

४६—असंयोगाल्लिट् कित् ॥ १ । २ । ५ ॥

असंयोगान्त धातुओ से परे जो अपित् लिट् वह कित् सज्ञक होवे । तिप्, सिप्, मिप् के स्थान मे जो आदेश हैं उन को छोड़कर अन्य अपित् समझने चाहिये । इस से कित् होकर ( ३४ ) से गुण नही होता । [ अथवा पूर्ववत् गुण आदि को बाधकर "वुक्" हो जाता है । ] भूव + अतुस् = बभूवतुः, बभूव् + उस् = बभूवुः, । बभूव्-थल्—

४७—आर्धधातुकस्येड् वलादेः ॥ ७ । २ । ३५ ॥

१. अचि श्नुधातुभ्रुवा य्वोरियडुवडौ ( आ० १५९ ) सूत्र से ।

अङ्ग से परे जो वलादि आर्धधातुक उस को इट् का आगम हो। थल् आदि मे इट् होकर—“बभूविथ”। “बभूव् + अथुस् = बभूवथुः, बभूव् + अ = बभूव, बभूव् + णल् = बभूव, बभूव् + इट् + व = बभूविव, बभूव् + इट् + म = बभूविस”। इस के पश्चात् क्रम से प्राप्त लुट्—

४८—अनद्यतने लुट् ॥ ३ । ३ । १५ ॥

पूर्व रात्रि के मध्य से लेकर अपर रात्रि के मध्य पर्यन्त अद्यतन काल कहाता है<sup>१</sup>, वह जिसमें न हो उस को अनद्यतन कहते हैं, सो भूत्, भविष्यत् दोनो के साथ सम्बन्ध रखती है। भविष्यत् अनद्यतन के अर्थ के वाचक धातु से लुट् लकार होवे। “भू—लुट्”—

४९—स्यतासी लुटुटोः ॥ ३ । १ । ३३ ॥

यहा किसी अनुबन्धविशेष की सूचना नही की इस से “लु” करके लुट् और लुङ् दोनो का बोध होता है। और यह सूत्र शप् आदि विकरण प्रत्ययो का अपवाद है। [ लु और ] लुट् लकार परे हो तो धातु से स्य और तासि प्रत्यय यथासंख्य करके हो। यहां लुट् के परे तासि हुआ। “भू—तासि—लुट्”।

५०—आर्धधातुकं शेषः ॥ ३ । ४ । ११४ ॥

धात्वधिकार मे कहे तिङ् और शित् प्रत्ययो मे भिन्न जो प्रत्यय वे आर्धधातुकसंज्ञक होते हैं। इससे तासि प्रत्यय की आर्धधातुक संज्ञा, और लुट् के स्थान मे तिबादि आदेश होकर—“भू+

१. अहहभयतोऽर्धरात्रमेधोऽद्यतन काल इति पूर्वे वैयाकरणा ।  
द्र० काशिका १ । २ । ५७ ॥

तासि—तिप” । यहां “तासि” मे अनुनासिक इकार की इत्संज्ञा १ और लोप होकर—

१, तासि के इकार की इत्संज्ञा होने से “मन्—त्—आ” ( आत्मनेपद की ) इस अवस्था में “अनिदिता हल उपधायाः ङिति” ( आ० १३९ ) सूत्र से नकार का लोप नहीं होता, क्योंकि “मन्त्” भङ्ग इदित् है । महाभाष्य ( ६ । ४ । २१ ) के सिद्धान्तानुसार “असिद्धवदत्राभात्” ( आ० ४४ ) सूत्र मे “आङ्” अभिविधि अर्थ में है । तदनुसार नकार लोप करने में टिलोप के असिद्ध हो जाने से नलोप की प्राप्ति ही नहीं है, पुन उसकी रक्षा की क्या चिन्ता ? जब “आ” को मर्यादा अर्थ में मानकर “भ-अधिकार से पूर्व” ऐसा अर्थ करते हैं तब टिलोप को असिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती, उस अवस्था में इकार की इत्संज्ञा मानना युक्त है । अन्यो का मत है कि “असो-रलोपः” ( आ० ३५२ ) सूत्र मे अकार का तपर करना ‘असिद्धवदत्राभात्’ नियम के अनित्यत्व का ज्ञापक है ( तपर करने का प्रयोजन यही है कि “आसीत्” इत्यादि मे आकार लोप न हो । अकार लोप करने मे ‘आभात्’ नियम से ‘आट्’ असिद्ध ही हो जायगा, पुनः उस के लोप की प्राप्ति ही नहीं । इस प्रकार तपर करना व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि आभाच्छास्त्रीय असिद्धत्व अनित्य है ) । उसके अनित्य होने से ‘मन्ता’ आदि में नकार की रक्षा के लिये इदित् करना चाहिये । यह मत भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञापक से इष्ट प्रयोगो की सिद्धि मात्र होती है ( ज्ञापकादिष्टसिद्धि. ), ज्ञापक को मान कर किसी प्रयोग मे दोषोद्भावन नहीं किया जाता, यही समस्त वैयाकरणों का मत है । कुछ वैयाकरणों का कथन है कि इकार उच्चारणार्थ है । यह भी ठीक नहीं, उनके मत मे सकार की इत्संज्ञा का निषेध कैसे होगा । महर्षि ने इस सूत्र के अष्टाध्यायीभाष्य मे इकार का प्रयोजन “सकार की रक्षा” लिखा है वह युक्ततर है ।

### ५१—लुटः प्रथमस्य डारौरसः ॥ २ । ४ । ८५ ॥

लुट् लकार के प्रथम पुरुष को डा, रौ और रस् आदेश यथासंख्य करके हो। तिप् के स्थान में डा आदेश होकर डकार की इत् संज्ञा होने से तास् प्रत्यय के आस् मात्र का लोप<sup>१</sup> होकर—“भू—इ—त्—आ” यहा—

### ५२—पुगन्तलघूपधस्य च ॥ ७ । ३ । ८६ ॥

सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो पुगन्त और लघु वर्ण जिसकी उपधा में हो उस [ अङ्ग ] को गुण हो। इस से इट् के आगम को लघूपध मान कर गुण प्राप्त हुआ, इसलिये—

### ५३—दीधीवेवीटाम् ॥ १ । १ । २१ ॥

दीधी और वेवी धातु तथा इट् का आगम इन को गुण वृद्धि न हो। फिर आर्धधातुक तास् के परे भू को गुण और अवादेश होकर—“भविता”।

### ५४—रि च ॥ ७ । ४ । ५१ ॥

रेफादि प्रत्यय परे हो तो तास् और अस्ति<sup>२</sup> के सकार का लोप

१ ‘डा’ को डित् करने का कोई प्रयोजन नहीं है, अत वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि “भसज्ञा” के न होने पर भी डित्करण सामर्थ्य से ‘टे.’ ( अ० ६ । ४ । १४३ ) से टि का लोप हो जाता है ( डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्थ्यात् ) । २. भट्टोजिदीक्षित अस्ति से परे रादि प्रत्यय की असंभवा मान कर इस सूत्र में अस्ति की अनुवृत्ति नहीं लाते, वह ठीक नहीं है। लोक में संभावना न होने पर भी वेद में हो सकती है। काशिकार ने अस् धातु का ‘व्यतिरे’ छान्दस उदाहरण दिया। इसलिये अस्ति की अनुवृत्ति लानी चाहिये।

हो जावे । भवितास् + रौ = भवितारौ, भवितास् + रस् = भवितार ।

५५—तासस्त्योर्लोपः ॥ ७ । ४ । ५० ॥

सकारादि प्रत्यय परे हो तो तास् और अस्ति के सकार का लोप हो जावे । जैसे—भवितास् + सिप् = भवितासि, भवितास् + थस् = भवितास्थः, भवितास् + थ = भविता थ, भवितास् + मिप् = भवितास्मि, भवितास् + वस् = भवितावः, भवितास् + मस् = भवितास्म । [ “लृट्”— ]

५६—लृट् शेषे च ॥ ३ । ३ । १३ ॥

क्रियार्थ क्रिया उपपद हां वा न हो तो भी भविष्यत् अर्थ के वाचक धातु से लृट् लकार होवे । “भू—लृट्” । यहां (४९) से स्य प्रत्यय, गुण, तिबादि आदेश, स्य प्रत्यय को इट् का आगम और अवादेश होकर—

५७—आदेशप्रत्यययोः ॥ ८ । ३ । ५६ ॥

इण और कवर्ग से परे जो आदेश और प्रत्यय का अवयव सकार उस को मूर्द्धन्य आदेश हो जावे । जैसे—भवि + स्य + तिप् = भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम । [ “लेट्”— ]

५८—लिङ्गर्थे लेट् ॥ ३ । ४ । ७ ॥

यहां छन्द की अनुवृत्ति आती है । जो विधि आदि और हेतु हेतुमान् लिङ् लकार के अर्थ है । उनमे धातुमात्र से वैदिकप्रयोग-विषयक लेट् लकार होवे । यहां भू धातु से लेट्, तिबादि आदेश होकर “भू—तिप्” इस अवस्था मे शप् विकरण प्राप्त है ।

५६—सिब् बहुलं लेटि ॥ ३ । १ । ३४ ॥

धातु से सिप् प्रत्यय हो लेट् लकार परे हो तो बहुल करके । विकल्प का पर्यायवाची बहुल ग्रहण समझना चाहिये । इसी से पक्ष में शप् भी होता है । सिप् में से इप् मात्र की इत् संज्ञा हो जाती है ।

६०—वा०—सिब्बहुलं णिट्कृतयः ॥ ३ । १ । ३४ ॥

सिप् प्रत्यय बहुल = विकल्प से णित् समझना चारिये । सिप् को आर्धधातुक मानकर इडागम हो जाता है ।

६१—अचोऽञ्जिति ॥ ७ । २ । ११५ ॥

अजन्त अङ्ग को वृद्धि हो वित्, णित् प्रत्यय परे हो तो । ऊकार को औ वृद्धि होकर “भौ-इ-स्-ति” यहाँ—

६२—लेटोऽडाटौ ॥ ३ । ४ । ४४ ॥

लेट् लकार को अट् और आट् के आगम पर्याय से हो । टकार की इत् संज्ञा होकर—भावि + स् + अ + ति = भाविषति, भाविष् + आट् + ति = भाविषाति ।

६३—इत्तश्च लोपः परस्मैपदेषु ॥ ३ । ४ । ६७ ॥

लेट् लकार सम्बन्धी परस्मैपदविषयक इकार का लोप विकल्प करके हो । [ पदान्त में झलो को जशादेश<sup>१</sup> होकर ] अवसान में झलो के स्थान में चर आदेश विकल्प करके होते हैं<sup>२</sup> । भाविषत्, भाविषात्, भाविषद्, भाविषाद् । जिस पक्ष में णित् संज्ञा के न नही होने से वृद्धि नही होती वहाँ—भविषति, भविषाति, भविषत्, भविषात्, भविषद्, भविषाद् । और सिप् प्रत्यय के विकल्प से जिस पक्ष में शप् होता है वहाँ—भवति, भवाति, भवत्, भवात्, भवद्, भवाद् । “तस्”

१. झलं जशाऽन्ते । सन्धि० १९० । २ वावसाने । ना० १११ ॥



अन्य सब कार्य पूर्व के समान । भाविषतः, भाविषातः, भविषतः  
भविषातः भवतः, भवात । “क्लि” — भाविषन्ति, भाविषान्ति ।  
इकारलोप होने के पश्चात् संयोगान्त तकार का लोप होकर—  
भाविषन् भाविषान्, भविषन्ति, भविषान्ति, भविषन्, भविषान्,  
भवन्ति, भवान्ति, भवन्, भवान् । “सिप” भाविषमि, भाविषासि ।  
यहां इकारलोप के पश्चात् सकार को विसर्जनीय हो जाते हैं ।  
भाविषः, भाविषाः, भविषसि, भविषासि, भविष, भविषाः  
भवसि भवासि, भवः, भवाः । “थस्” — भाविषथ. भाविषाथः,  
भविषथः, भविषाथः, भवथः, भवाथ । “मिप” यहा अट् और  
आट् की आगम होने के कारण यच्चादि न होने से दीर्घ नहीं  
होता । अट् पक्ष मे ( सन्धि० १५३ से ) पररूप एकादेश होता है ।  
“भाविषमि, भाविषामि, भाविषम्, भाविषाम्, भविषमि, भवि  
षामि, भविषम्, भविषाम्, भवमि, भवामि, भवम्, भवाम् ।  
“वस्, मस्”—

६४—स उत्तमस्य ॥ ३ । ४ । ६८ ॥

लेट लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प करके  
लोप होवे । भाविषव, भाविषव ; भाविषाव, भाविषावः, भविषव,  
भविषवः; भविषाव, भविषावः, भवव, भवव, भवाव, भवावः । भवि-  
षम, भाविषमः, भाविषाम, भाविषामः, भविषम भविषमः, भविषाम,  
भविषामः; भवम, भवमः; भवाम, भवामः । “लोट्”—

६५—लोट् च ॥ ३ । ३ । १६२ ॥

विधि आदि अर्थों मे घातु से लोट् लकार हो । और—

६६—आशीषि लिङ्लोटौ ॥ ३ । ३ । १७३ ॥

आशीवाद् अर्थ मे भी लिङ् और लोट् लकार हो । ‘ भव्-अ-  
ति’ इस अवस्था मे—

६७--एः ॥ ३ । ४ । ८६ ॥

लोट् लकार के इकार को उकार आदेश हो जावे । भवतु ।

६८--तुह्योस्तातड्काशिष्यन्यतरस्याम् ॥ ७ ।

१ । ३५ ॥

आशीर्वाद अर्थ में जो तु और हि उन को तातड् आदेश विकल्प करके होवे । यहा तृतीयाध्याय के चतुर्थ पाद में "एः" सूत्र के आगे तात् आदेश पढ़ने से लोट् के अन्त्य इकार को आदेश हो ही जाता फिर इतने गौरव और अन्यत्र पढ़ने से ज्ञापक होता है कि तातड् आदेश में झित्करण अन्त्य अल् के स्थान में होने के लिये नहीं, किन्तु गुण वृद्धि के निषेध और सम्प्रसारण आदि कार्य होने के लिये है । अड्मात्र की इत्सज्ञा होकर—भवतात् ।

६९--लोटो लड्वत् ॥ ३ । ४ । ८५ ॥

लोट् लकार को लड्वत् कार्य हो । लड्वत् शब्द में वतिप्रत्यय षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों के स्थान में हो सकता है, सो यहां षष्ठ्यर्थ में वति समझना चाहिये सप्तम्यर्थ में नहीं, क्योंकि लड् के परे जो अट् का आगम आदि कार्य होते हैं वे लोट् के परे न हो ।

७०--तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः ॥ ३ । ४ । १०१ ॥

झित् लकार के जो तस्, थस्, थ और मिप उन को ताम्, तम्, त और अम् आदेश यथासंख्य करके हो । जैसे—भवताम् । भव—मि ( ६७ ) से 'उ' होकर भवन्तु । भव—सिप—

७१--सेर्ह्यपिच्च ॥ ३ । ४ । ८७ ॥

लोट् लकार का जो सि उस को अपित् हि आदेश होवे । पित्वधर्म का अतिदेश आदेश में प्राप्त है इसलिये अपित् कहा है ।

७२—अतो हेः ॥ ६ । ४ । १०५ ॥

अदन्त अङ्ग से परे जो हि उस का लुक् हो जावे । “भव” । पक्ष मे ( ६८ ) से तातड् होकर—भवतात् । भव + थस् = भवतम् । भव + थ = भवत ।

७३—मेर्निः ॥ ३ । ४ । ८६ ॥

लोट् लकार का जो मि उस को नि आदेश हो । यहा इकार उच्चारणरूप ज्ञापक से ही उकारादेश नही होता है—“ भव-नि ” ।

७४—आडुत्तमस्य पिच्च ॥ ३ । ४ । ६२ ॥

लोट् लकार के उत्तम पुरुष को आट् का आगम हो, और वह पित् हो जावे । अपित् सार्वधातुक को पित् आगम होने से गुण आदि कार्य और संप्रसारण का निषेध हा जाता है । परन्तु यहां भ्वादि गण मे इस का कुछ काम नही पडता, क्योंकि यहा तो शप् प्रत्यय को मानकर सब काम होते है । किन्तु अदादि जुहोत्यादि मे काम पडेगा । यहां सवेत्र शप् के अकार के साथ दीर्घ एकादेश हो जाता है । भव-आ-नि = भवानि । “भव-वस्” । [ ( ६९ ) से लड्वत् अतिदेश होकर— ]

७५—नित्यं डितः ॥ ३ । ४ । ६६ ॥

डित् लकार के उत्तम पुरुष का जो सकार उस का नित्य ही लोप होवे । भवाव, भवाम । [ “लड्”— ]

७६—अनद्यतने लड् ॥ ३ । २ । १ १ ॥

अनद्यतन भूत अर्थ के वाचक धातु से लड लकार होवे ।

७७—लुड्लड्लृड्ल्वडुदात्तः ॥ ६ । ४ । ७१ ॥

लृक्, लङ् और लृक् लकार परे हो तो धातु को उदात्त अट् का आगम हो'। भू के आदि में होता है।

७८—इत्श्च ॥ ३ । ४ । १०० ॥

ङित् लकार का जा परस्मैपदविषयक इकार उस का लोप होवे।  
अभवत्! अभव + तस् = अभवताम् (७०) से ताम्। अभवन्,  
अभवः, अभवतम्, अभवत, अभव + मिप् = अभवम् (७०) से  
अम् और पररूप एकादेश होता है। अभवाव, अभवाम।  
[“लिङ्”— ]

७९—विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्न-  
प्रार्थनेषु लिङ् ॥ ३ । ३ । १६१ ॥

विधि = प्रेरणा. निमन्त्रण = अवश्याचरण, आमन्त्रण =

१. अट् आट् का आगम तिबादि प्रत्यय और विकरण प्रत्यय करने के अनन्तर होता है, पूर्व नहीं। यज वप आदि संप्रसारण होने वाली धातुओं को कर्मप्रक्रिया में हलादि मानकर पहले अट् आगम किया जाय तो “ ऐज्यत, औप्यत” प्रयोग ही निष्पन्न नहीं होंगे। इसलिये यज धातु से ‘त’ प्रत्यय, उस के अनन्तर ‘यक्’, यक् को मानकर संप्रसारण—‘इज्-य-त’ इतना कार्य करके अङ्ग को अजादि मानकर आट् का आगम होता है। इसीलिये सतिशिष्ट ( पीछे से ) होने से अट् आट् का स्वर सब से बलवान् होता है। कई लोग अट् का आगम विकरण से पूर्व करते हैं और विधानसामर्थ्य से अट् आट् के स्वर को बलवान् मानते हैं यह भूल है। विकरण से पूर्व अट् आट् करने पर अट् स्वर को भ्वादि अदादि जुहोत्यादि गण की धातुओं में अवकाश मिल जाता है। अतः उ, इनम्, इना, श आदि विकरणों में विकरणस्वर की प्राप्ति को कौन रोकेंगा। अतः अट् आट् का आगम विकरण के पश्चात् ही करना चाहिये।

यथेष्ट आचरण, अधीष्ट = सत्कारपूर्वक क्रिया, सम्प्रभ्र = सम्यक् पूछना, प्रार्थना = मागना इन अर्थों में धातु से लिङ् लकार होवे ।  
‘भव-तिप्’ ।

**८०—यासुट् परस्मैपदषूदात्तो ङिच्च ॥ ३ । ४ । १०३ ॥**

यह सूत्र सीयुट् का अपवाद है । परस्मैपदविषयक लिङ् लकार को यासुट् का आगम हो, सो उदात्त और ङित्सङ्गक हो जावे । इस आगम को उदात्तविधान करने से ज्ञापक होता है कि अन्य आगम जिन में स्वरविशेष का विधान न किया हो वे सब अनुदात्त होते हैं । और लकार के स्थान में जो तिप् आदि आदेश होते हैं वे ङित् नहीं होते, क्योंकि उनके ङित् होने से उन को हुआ आगम भी ङित् हो ही जाता फिर ङित् कहने से यही ज्ञापक होता है कि यहा स्थानिवद्भाव नहीं होता ।

**८१—सुट् तिथोः ॥ ३ । ४ । १०७ ॥**

लिङ् लकार के जो तकार, थकार उनको सुट् का आगम हो । सुट् का आगम यासुट् का बाधक इसलिये नहीं होता कि लिङ् को यासुट् और तकार थकार को सुट् कहने से विषयभेद हो जाता है; और एक विषय में उत्सर्गोपवाद की प्रवृत्ति हाती है ।

**८२—लिङ्ः सलोपोऽनन्त्यस्य ॥ ७ । २ । ७६ ॥**

सार्वधातुकविषयक लिङ् के अनन्त्य सकार का लोप हो जावे । इसमें यासुट् और सुट् दोनों के सकारों का लोप हो जाता है, और आशिष् लिङ् में परस्मैपद और आत्मनेपद में आर्धधातुकविषय के हाने से ये सकार बने रहते हैं । भव—या—तिप् ।

**८३—अतो येयः ॥ ७ । २ । ८० ॥**

अदन्त अङ्ग से परे जो सार्वधातुक का अवयव ‘या’ उसको

इय् आदेश होवे । “लोपो व्योर्वलि” सूत्र से हल् यकार का लोप होकर—भव + इ + तिप् = भवेत्, भव + इ + तस् = भवेताम् ।

८४—भेर्जुस् ॥ ३ । ४ । १०८ ॥

लिङ् लकार का जो कि उसको जुस् आदेश होवे । जकार की इत्सञ्ज्ञा [ होकर—]

८५—उस्यपदान्तात् ॥ ६ । १ । ६५ ॥

अपदान्त अवर्ण से उस् परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो जावे । इसकी प्राप्ति तो है, परन्तु परत्व और नित्यत्व से इय् आदेश हो जाता है फिर प्राप्ति नहीं रहती । इस सूत्र का काम अदादि गण में पड़ेगा कि जहां इय् आदेश की प्राप्ति नहीं होती । भव + इय् + उस् = भवेयुः, भव + इय् + सिप् = भवेः, भव + इय् + थस् = भवेतम्, भव + इय् + थ = भवेत्, भव + इय् + मिप् = भवेयम्, भव + इय् + वस् = भवेव, भव + इय् + मस् =

१ अ० ६ । १ । ६५ ॥

२ “यत् कृतेऽपि प्राप्नोत्यकृतेऽपि तन्नित्यम्” इस न्याय से इयादेश नित्य है । पररूप एकादेश करने पर ‘अन्नादिवच्च’ ( सन्धि ११५ ) के नियम से यास् का अन्त्यावयव मानकर इयादेश की प्राप्ति होती है । वस्तुतः यहा “उस्यपदान्तात्” ( आ० ८५ ) सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं होती । क्योंकि यह सूत्र अवर्ण से उस् परे रहने पर पररूप करता है । “विप्रतिषेधे परकार्यम्” (सन्धि० ११४) सूत्र के भाष्य (१ । २।४) में “अतो या इयः” ऐसा व्याख्यान करने से प्रतीत होता है कि इयादेश ‘सकारान्त ‘यास्’ को होता है अर्थात् इयादेश सकार लोप का अपवाद है । अतः यहा “लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य” ( आ० ८२ ) से सकार का लोप ही नहीं होता । सकार लोप न होने से अवर्ण से परे ‘उस्’ नहीं मिलता ।

भवेम । [ “आशिषि लिङ्” ] आशीर्वाद अर्थ मे ( ६६ ) सूत्र से लिङ् आया ।

८६—लिङाशिषि ॥ ३ । ४ । ११६ ॥

आशीर्वाद अर्थ मे जो लिङ् उसके स्थान मे जां तिवादि आदेश वे आर्धधातुकसङ्गक हो ।

८७—किदाशिषि ॥ ३ । ४ । १०४ ॥

परस्मैपदविषयक लिङ् लकार को जो यासुट् का आगम ङित् कहा है वह आशीर्वाद अर्थ मे कित् समझना चाहिये । [ कित् होन सं गुण नही होता ] आर्धधातुक सङ्गा होने से शप् विकरण प्राप्त नही, अन्य किसी का विधान नही है । भू + यास् + तिप् = भूयात् । यहा पदान्त मे संयोग के आदि यासुट् के सकार का लोप हो जाता है<sup>१</sup> । भू + यास् + तस् = भूयास्ताम्, भू + यास् + ङि = भूयासु, भू + यास् + सिप् = भूयाः, भू + यास् + थस् = भूयास्तम्, भू + यास् + थ = भूयास्त, भू + यास् + मिप् = भूयासम्, भू + यास् + वस् = भूयास्व, भू + यास् + मस् = भूयास्म । ( “लुङ्” )—

८८—लुङ् ॥ ३ । २ । ११० ॥

सामान्यभूत अर्थ के वाचक धातुओं से लुङ् लकार हो । शप् विकरण की प्राप्ति मे—

८९—चिल लुङि ॥ ३ । १ । ४३ ॥

लुङ् लकार परे हो तो धातु से चिल प्रत्यय होवे ।

९०—ञ्लेः सिच् ॥ ३ । १ । ४३ ॥

लुङ् लकार परे हो तो चिल के स्थान मे सिच् आदेश हो जावे । इकार चकार की इत्सङ्गा हो जाती है ।

६१—गातिस्थाद्युपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु ॥

२ । ४ । ७७ ॥

गाति, स्था, घुसंज्ञक, पा, भू इन धातुओं से परे जो सिच् उसका लुक् हो जावे। सिच् का लुक् होने के पश्चात् उस को स्थानिवत् मान के उस से परे अपृक्त हलादि सार्वधातुक तिप् को ईट् का आगम प्राप्त है, इसलिये—

६२—वा०—आहिभूवोरीट्प्रतिषेधः\* ॥ १ । १७ । ०॥

आह आदेश और भू से परे जो सिच् का लुक् उस को स्थानिवद्भाव न हो। स्थानिवत् के निषेध से ईट् का आगम नहीं होता। अब भू अङ्ग को तिप् के परे गुण पाता है इसलिये—

६३—भूसुवोस्तिङि ॥ ७ । ३ । ८८ ॥

\* इस वार्तिक को सिद्धान्तकौमुदी वालो ने न समझ कर “अस्तिसिचोऽपृक्ते” (आ १३२) इस सूत्र का व्याख्यान मूल महाभाष्य और काशिका आदि से विपरीत किया है, जो कदाचित् उनका व्याख्यान ठीक होवे तो वार्तिक व्यर्थ हो जावे और असम्भव अभिप्राय सूत्र से निकाला है इसलिये मान्य नहीं हो सकता, यथोक्ति ऋषियो के अभिप्राय से विरुद्ध इन के पाण्डित्य को कौन मान सकता है ?।

[ माधवीया धातुवृत्ति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कई प्राचीन वैयाकरण इस वार्तिक से शुद्ध भू धातु में भी ईट् का प्रतिषेध करते थे। वस्तुतः यहां इस वार्तिक की प्रवृत्ति नहीं होती। यह वार्तिक अस्थानीय, ‘भू’ आदेश के विषय में ही प्रवृत्त होता है। महाभाष्यकार ने ‘अस्तिसिचोऽपृक्ते’ (अ० ७ । ३ । ९६) सूत्र में द्विसकार निर्देश मानकर ‘विद्यमान सिच् को ईट् का आगम होता है’ ऐसा अर्थ किया है। यहां सिच् का लोप हो गया है अतः ईट् का आगम नहीं होगा। ]



अव्यवहित सार्वधातुक तिङ् परे हो तो भू और सू अङ्गो को गुण न होवे । ( ७७ ) सूत्र से अडागम हो कर—अट्+भू+तिप्=अभूत्, अमू+तस्=अभूताम्, अमू+वुक्+म्नि=अभूवन्, अमू+सिप्=अमूः, अमू+थस्=अभूतम्, अमू+थ=अभूत, अमू+वुक्+मिप्+अभूवम्, अमू+वस्=अभूव, अमू+मस्=अभूम ।

### ६४—न माङ्योगे ॥ ६ । ४ । ७४ ॥

माङ् अव्यय शब्द के योग में लुङ्, लङ् और लृङ् लकारों को जो अट् और आट् के आगम कहे हैं वे न हों । जैसे—इह मा भूत्, मा भवान् भूत्, मा स्म भवत्, मा स्म भूत् । इत्यादि में अट् का आगम नहीं होता और आट् के आगम का निषेध आगे अजादि धातुओं में दिखलाया जावेगा । [ “लृङ्”— ]

### ६५—लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियाऽतिपत्तौ ॥

३ । ३ । १३६

जो हेतुहेतुमद्भाव आदि लिङ् लकार के निमित्त अर्थ हैं उनमें क्रिया की असिद्धि गम्यमान हो तो धातु से लृङ् लकार हो जावे । ( ७७ ) से अट् और स्य प्रत्यय आदि कार्य होकर—अट्+भू+इट्+स्य+तिप्=अभविष्यत्, अभविष्यताम्, अभविष्यन्; अभविष्य, अभविष्यतम्, अभविष्यत । अभविष्य+मिप्=अभविष्यम्, यहाँ अम् के अकार के साथ पररूप हा जाता है । अभविष्याव, अभविष्याम्” ।

अथ तवर्गीयान्ताश्चतुस्सप्ततिः<sup>१</sup>, [ तत्रैधादयः षट्त्रिंशदात्मनेपदिनः ] । २ [ एध ] वृद्धौ = बढ़ना । अब यहाँ से आगे एध आदि तवर्गीयान्त ७४ चौहत्तर<sup>१</sup> धातुओं का व्याख्यान है । भू

१ एधादि आत्मनेपदी ३६, अतादि परस्मैपदी ३८ = ७४ ।

धातु मे जितने सामान्य विषयक सूत्र लिखे है वे यहा नहीं लिखे जावेंगे। पूर्ववत् वर्तमान अर्थ मे लट् आया।

**६६-तडानावात्मनेपदम् ॥ १ । ४ । ६६ ॥**

लकार के स्थान मे तड् और आन (= शानच्, कानच् ) आत्मनेपदसंज्ञक आदेश हो। [ तड् ] इस से त से लेकर महिष् तक नव [ प्रत्ययो ] का ग्रहण है। एध्+शप्+त = एधत।

**६७-अनुदात्तङित आत्मनेपदम् ॥ १ । ३ । १२ ॥**

अनुदात्त वर्ण जिन का इत् गया हां और ङित् धातुओ से त आदि ९ नव आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय हो। यहा भी एध मे अनुदात्त अकार इत् जाता है,<sup>१</sup> इस कारण इससे आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय आये। शप् विकरण होकर—

**६८-टित आत्मनेपदानां टेरे ॥ ३ । ४ । ७६ ॥**

टित् लकारो के स्थान मे जो आत्मनेपदसंज्ञक आदेश उन के टिभाग को ए आदेश हो जावे। एध्+शप्+त = एधते।

**६९-सार्वधातुकमपित् ॥ १ । २ । ४ ॥**

सार्वधातुकसंज्ञक अपित् प्रत्ययो की ङित् संज्ञा हो।

**१००-आतो ङितः ॥ ७ । २ । ८१ ॥**

अदन्त अङ्ग से परे जो ङित् प्रत्ययो का आकार उस को इय् आदेश हो जावे। आम् भाग को एकार<sup>२</sup> होकर—एध्+शप्+आताम् = एधेते, एध्+शप्+भ = एधन्ते।

**१०१-थासः से ॥ ३ । ४ । ८० ॥**

टित् लकार के थास् को से आदेश होवे। एध्+शप्+थास् =

<sup>१</sup> उपदेशेऽजनुनासिक इत् ( ना० ११ ) सूत्र से। २. टित् भास्म-नेपदाना टेरे ( आ० ९८ ) सूत्र से।

एधसे, एध् + शप् + आथाम् = एधेथे, एध् + शप् + ध्वम् + एधध्वे ।  
 एध् + शप् + इट् = एधे । यहा गुण एकार के परे पररूप एकादेश<sup>१</sup>  
 हो जाता है। एध् + शप् + वहि = एधावाहे, एध् + शप् + महिङ् =  
 एधामहे । [ “लिट्” — ]

१०२-इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ॥ ३ । १ । ३६ ॥

लिट् लकार परे हा तो इजादि और गुरुमान् धातुओ से आम्  
 प्रत्यय हा जावे, परन्तु ऋच्छ धातु से न होवे ।

१०३-आमः ॥ २ । ४ । ८१ ॥

आम् से परे जो लि उसका लुक् हो जावे । इससे लिट् का  
 लुक् होकर—

१०४-कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥ ३ । १ । ३६ ॥

इस सूत्र मे लिट् ग्रहण किया है । इसी से यहां लुक् हुए लिट् का  
 रूपातिदेश समझना चाहिये । आमन्त से लिट् लकार परे हो तो  
 कृञ् भू और अस् धातुओ का अनुप्रयोग अर्थात् इन सामान्य  
 धातुओ का आम्प्रत्ययान्त एध आदि विशेष धातुओ से परे एक  
 प्रयोग मे समावेश किया जावे । आत्मनेपद प्रकरण मे<sup>२</sup> अनुप्रयोग  
 शब्द के साथ कृञ् धातु का ग्रहण किया है इसी ज्ञापक से “कृञ्च-  
 वस्तियोगे”<sup>३</sup> इस सूत्र से लेकर “कृञो”<sup>४</sup> इस सूत्र मे कृञ् के  
 अकारपर्यन्त प्रत्याहार ग्रहण से तीनों<sup>५</sup> धातुओ का अनुप्रयोग

१ अतो गुणे ( सन्धि० १५३ ) सूत्र से । २ आम्प्रत्ययवत् कृञो-  
 ऽनुप्रयोगस्य । ( अ० १ । ३ । ६३ ) सूत्र मे । ३. अष्टा० ५ । ४ ।  
 ४० ॥ ४. अष्टा० ५ । ४ । ५८ ॥ ५. कृञ् प्रत्याहार के मध्य मे  
 “अभिविधौ संपदा च” ( अ० ५ । ४ । ५३ ) सूत्र मे चौथी संपूर्वक पद  
 धातु भी पढ़ी है, परन्तु उस का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि कृञ् आदि  
 का विशेष अर्थवाली एध आदि धातुओ के पीछे अनुप्रयोग करना है ।

क्रिया जाता है, और ये कृञ् आदि तीनों धातु सामान्यार्थवाचक और आमप्रत्ययान्त विशेषार्थवाचक है इस कारण एक अर्थ के साथ दोनों धातुओं का सम्बन्ध होजाता है। यह कृञ् धातु चित् है।

१०४—स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ॥

१ । ३ । ७२ ॥

यह सूत्र परस्मैपद का बाधक है। क्रिया का फल कर्ता के लिये होवे तो स्वरित और चित् धातुओं से आत्मनेपद हो, अन्यत्र परस्मैपद। इस से क्रिया का फल अन्य के लिये होने से कृञ् धातु से परस्मैपद प्राप्त है, इसलिये—

१०६—आमप्रत्ययवत् कृजोऽनुप्रयोगस्य ॥

१ । ३ । ६३ ॥

जिस धातु से आम प्रत्यय क्रिया हो उस से जो आत्मनेपद होता हो तो अनुप्रयुक्त कृञ् से भी आत्मनेपद और आमप्रत्ययान्त धातु परस्मैपद हो तो परस्मैपद हो जावे। यहा एध धातु आत्मनेपदी है, इसलिये कृञ् से भी आत्मनेपद प्रत्यय ही होते हैं।

१०७—लिट्स्तभ्योरेशिरेच् ॥ ३ । ४ । ८१ ॥

लिट् लकार के स्थान मे जो त और भ हैं उन को एश् और इरेच् आदेश यथासख्य करके हो जावें। त सम्पूर्णा के स्थान मे शित् आदेश होकर—“एध-आम्-कृ-ए” इस अवस्था मे एकार की

कृ, भू और भस् ये तीन धातुएँ तो सामान्य अर्थवाली हैं अत इन का सम्बन्ध प्रत्येक विशेष अर्थवाली धातु के साथ हो सकता है। सपूर्वक पद धातु विशेष अर्थवाली है, अत इसका अन्य विशेष अर्थवाली धातु के पीछे प्रयोग नहीं हो सकता। क्योंकि दो विभिन्न अर्थवाली धातुएँ एक अर्थ को नहीं कह सकती। इसलिये सपदा का ग्रहण नहीं होता।

किस्संज्ञा होने से गुण, वृद्धि तो प्राप्त नहीं, परन्तु द्विवचन का बाधक परस्व से यणादेश हो जाता है, उसको स्थानिवत् मान' कर पुनः द्विवचन होना है। एध-आम्-कृ-कृ-ए।

१०८-उरत् ॥ ७ । ४ । ६६ ॥

अभ्यास के ऋकार को अत् आदेश होवे। ऋ के स्थान में रपर होने के नियम से अर होकर रेफ का लोप (४०) से हो जाता है।

१०९-कुहोरचुः ॥ ७ । ४ । ६२ ॥

अभ्यास के जो कवर्ग और हकार उनको चवर्ग आदेश होता है। एध्+आम्+चक्+ए=एधाञ्चक्रे,<sup>१</sup> एध्+आम्+चक्+आताम्=एधाञ्चक्राते, एधाञ्चक्+इरेच्=एधाञ्चक्रिरे।

११०-एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् ॥ ७ । २ । १० ॥

उपदेश में जो एकाच अनुदात्त धातु हो उस से परे वलादि आर्धधातुक प्रत्यय को इट् का आगम न हो। इस से थास् के स्थान में 'से' के परे इडागम न हुआ। एधाञ्चकृ+थास्=एधाञ्चकृषे, एधाञ्चक्राथे।

१११-इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गत् ॥

८ । ३ । ७८ ॥

१ द्विवचनेऽङ्गि ( सन्धि० ९६ ) सूत्र से।

२. प्रक्रिया इस प्रकार समझनी चाहिये—'एध्+लिट्' तदन्तर 'आम्, लिट् का लुक्, प्रत्ययलक्षण मानकर आमन्त की प्रतिपदिक सज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति, "कृन्मेजन्त" ( अ० १ । १ । ५३ ) से अव्यय सज्ञा, सुप् का लुक्, 'कृ' का अनुप्रयोग, "मोऽनुस्वार" ( सन्धि १९१ ) से मकार को अनुस्वार "वा पदान्तस्य" ( सन्धि १९८ ) से विकल्प से परसवर्ण—'एधाञ्चक्रे, एधां चक्रे' ये दो रूप होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये।

इणन्त अङ्ग से परे जो सांध्यम्, लुङ् और लिट् का धकार उसको मूधेन्य आदेश हो। धकार का अन्तरातम ढकार हो जाता है। एधाञ्चकृ + ध्वम् — एधाञ्चकृद्वे, एधाञ्चकृ + इट् = एधाञ्चक्रे, एधाञ्चकृवहे, एधाञ्चकृमहे। भू का अनुप्रयोग पूर्व के समान, कि जैसा साधन केवल भू का लिट् मे लिख आये है। एधाम्बभूव, एधाम्बभूवतु, एधाम्बभूवु, एधाम्बभूविथ, एधाम्बभूवथु; एधाम्बभूव, एधाम्बभूव, एधाम्बभूविव, एधाम्बभूविम।

११२—अत आदेः ॥ ७ । ४ । ७० ॥

अभ्यास के आदि अकार को दीर्घादेश होवे। अस् धातु के अभ्यास के अकार को पररूप एकादेश प्राप्त है इसलिये दीर्घादेश कहा है। एध् + आम् + अ + अस् + णल् = एधामास, एधामासतु; एधामासु; एधामासिथ, एधामासथु, एधामास, एधामास, एधामासिव, एधामासिम। यहा अस् धातु को आर्धधातुकविषय मे भू आदेश अस् धातु के अनुप्रयोगवचनसामर्थ्य से ही नहीं होता। इस के आगे लुट्—प्रथमपुरुष त, आताम्, ऋ के स्थान मे डा आदि आदेश हो के—एधिता, एधितारौ, एधितारः, एधितासे, एधितासाथे।

११३—धि च ॥ ८ । २ । २५ ॥

धकारादि प्रत्यय परे हो तो सकार का लोप हो जावे। यहा ध्वम् प्रत्यय के परे तास के सकार का लोप हो जाता है। एधितास् + ध्वम् = एधिताध्वे।

११४—ह एति ॥ ७ । ४ । ५२ ॥

एकार परे हो तो तास् और अस्ति के सकार को हकारादेश होवे। एधितास् + इट् = एधिताहे, एधितास्वहे, एधितास्महे। इस के आगे लृट्—स्य आदि सब कार्य्य होकर—एध् + इट् + स्य + त = एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते, एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे; एधिष्ये,

एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । अब इस क आगे क्रम से 'लेट्'—प्रथम शप् का अपवाद सिप् विकरण—

११५—वैतोऽन्यत्र ॥ ३ । ४ । ६६ ॥

आकार को जहां ऐकार कहा है उस विषय को छोड़ के लेट् लकार सम्बन्धी जो एकार उसको ऐकार आदेश विकल्प करके हो जावे । टिभाग को जो एकारादेश कह चुके हैं वही एकार को यहाँ ऐकार समझना चाहिये । “एध्+इट्+सिप्+अट्+त = एधिषतै, एध्+इट्+सिप्+आट्+त—एधिषातै, एधिषते, एधिषाते” । शप् पक्ष में—एधतै, एधातै, एधते, एधाते ।

११६—आत ऐ ॥ ३ । ४ । ६५ ॥

लेट् लकार सम्बन्धी आकार को ऐकार आदेश नित्य ही हो जावे । इससे “आताम्, आथाम्” के आकार को ऐकार होता है । उस ऐकार के परे अट् आट् को वृद्धि एकादेश हो जाने से रूपभेद नहीं होता । “एध्+इट्+सिप्+अट्+आताम् । एधिषतै, एधैते । ऋ—एधिषन्तै, एधिषान्तै, एधिषन्ते एधिषान्ते, एधन्तै, एधान्तै, एधन्ते एधान्ते । थस्—एधिषसै, एधिषासै, एधिषसे, एधिषासे, एधसै, एधासै, एधसे, एधासे । आथाम्—एधिषैथे, एधैथे । ध्वम्—एधिषध्वै, एधिषाध्वै, एधिषध्वे, एधिषाध्वे, एधध्वै, एधाध्वै, एधध्वे, एधाध्वे । इट्—एधिषै, एधिषे, एधै, एधे । यहाँ जिस पक्ष में इट् प्रत्यय के एकार का ऐकार आदेश होता है वहाँ अट् और आट् के आगम को वृद्धि एकादेश होजाने से प्रयोग भिन्न नहीं होते । वहि—एधिषवहै, एधिषावहै, एधिषवहे, एधिषावहे, एधवहै, एधावहै, एधवहे, एधावहे । महिङ्—एधिषमहै, एधिषामहै, एधिषमहे, एधिषामहे,

एधमहै, एधामहै, एधमहे एधामहे । यहाँ भी जब अट होता है तब वस् मस् प्रत्ययो के यच्वादि न होने से दीर्घ नहीं होता, इस लिये दोनो के दो-दो रूप होते हैं । “लोट्”—

११७—आमेतः ॥ ३ । ४ । ६० ॥

लोट् लकार का जो एकार उस को आम् आदेश हो जावे । टिभाग को जो एकार कहा है उसी को यहाँ आम् आदेश समझना चाहिये । एध् + शप् + त = एधताम्, एधेताम्, एधन्ताम् ।

११८—सवाभ्यां वामौ ॥ ३ । ४ । ६१ ॥

सकार, वकार से परे जो लोट् लकार का एकार उस को व और अम् आदेश यथासंख्य करक हो । एध् + शप् + थास् = एधस्व, एधेथाम्, एधध्वम् ।

११९—एत ऐ ॥ ३ । ४ । ६२ ॥

लोट् लकार के उत्तम पुरुष का जो एकार उस को ऐ आदेश होवे । यह आम् आदेश का बाधक है । एध् + शप् + अट् + ऐ = ऐधै, ऐधावहै, ऐधामहै । इस के आगे “लङ्”—पूर्व के समान अन्य सब कार्य जानो ।

१२०—आडजादीनाम् ॥ ६ । ४ । ७२ ॥

लृङ्, लङ् और लृङ् लकार परे हो तो अजादि धातुओ को आट् का आगम हो जावे । अट् का अपवाद आट् का आगम है । वृद्धि एकादेश होकर—“आट् + एध् + अ + त = ऐधतं, ऐधेताम्, ऐधन्त, ऐधथाः, ऐधेथाम्, ऐधध्वम्; ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि । आगे “लिङ्”—

१२१—लिङः सियुद् ॥ ३ । ४ । १०२ ॥



लिङ् लकार को सीयुट् का आगम हो। सीयुट् और सुट् दोनो सकारों का लोप (८२) से होकर—“एध्+अ+इय्+त = एधेत, \*एधेयाताम्।

१२२—भक्त्य रन् ॥ ३।४।१०५ ॥

लिङ् लकार का जो भक्कार उस को रन् आदेश हो जावे। एधेरन्; एधेथाः, एधेयाथाम्, एधेध्वम्।

१२३—इटोऽत् ॥ ३।४।१०६ ॥

लिङ् लकार के स्थान में जो इट् आदेश उसको अत् आदेश हा जावे। तपरकरण दीर्घ की निवृत्ति के लिये है। एधेय, एधेवहि, एधेमहि। आशिष् लिङ् की आर्धधातुक संज्ञा होने से सकार का लोप नहीं होता। सीयुट् और सुट् दोनो सकारों को मूर्धन्यादेश (५७) से हो जाता है। एध्+इट्+सीयुट्+सुट्+त = एधिषीष्ट। यहाँ मूर्धन्य षकार के योग में तवर्ग को टवर्गे<sup>१</sup> हो जाता है, और आताम् में तकार को कहा सुट् का आगम आकार से परे होता है। एध्+सीयुट्+आ+सुट्+ताम् = एधिषीयास्ताम्, एधिषीरन्। यहाँ रेफादि रन् आदेश के परे सीयुट् के यकार का लोप हो जाता है। एधिषीष्ठाः, एधिषीयास्थाम्, एधिषीध्वम्, एधिषीय, एधिषीवहि, एधिषीमहि। इस के आगे “लुङ्”—इस में कुळ विशेष नहीं है। आट्+एध्+सिच्+त = ऐधिष्ट, ऐधिषाताम्।

१२४—आत्मनेपदेष्वनतः ॥ ७।१।५ ॥

यह सूत्र अन्त आदेश का बाधक है। अकारभिन्न से परे आत्मनेपदविषयक प्रत्यय के आदि ऋकार को अत् आदेश होवे। आ + एध् + इट् + स् + ऋ = ऐधिषत, ऐधिष्ठाः, ऐधिषाथाम्। ध्वम्

के धकार को ( १११ ) सूत्र से मूर्धन्य नहीं होता, क्योंकि “इट्” इणन्त अङ्ग नहीं है ॐ । “ऐध् + इट् + स् + ध्वम् = ऐधिध्वम्” यहाँ ( ११३ ) से सकार का लोप ही जाता है । ऐधिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि । “लृङ्”—इस में कुछ विशेष नहीं । आट् + एध् + इट् + स्य + त = ऐधिष्यत, ऐधिष्येताम्, ऐधिष्यन्त; ऐधिष्यथा,॥

ॐ सिद्धान्तकौमुदी में जो “ऐधिध्वम्” प्रयोग लिखा है सा किसी प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि “इट्” इणन्त अङ्ग कैसे समझा जावे “इणः षीध्व०”<sup>२</sup> सूत्र में अग ग्रहण का यही प्रयोजन है कि “एधिषीध्वम्” यहाँ मूर्धन्यादेश न हो जावे, और लृङ्ग लकार में कदाचित् इट् की अङ्ग सन्ना हो भी जावे तो भी अगले “विभाषेट.” सूत्र में इट् का पृथक् निर्देश होने से स्पष्ट है कि इण् के ग्रहण से इट् का ग्रहण नहीं होता । अतः जब ‘ऐधिध्वम्’ में इणन्त अङ्ग नहीं फिर “ऐधिध्वम्” प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है ।

२ इस सूत्र में गोबलीवर्द-न्याय से इड्भिन्न ही अङ्ग लिया जाता है । न्यासकार ने “विभाषेट.” ( आ० १९१ ) सूत्र को उभयत्र विभाषा माना है । ‘अलविध्वम्’ इस उदाहरण में पूर्व सूत्र “इण षीध्वम्०” ( आ० १११० ) से मूर्धन्यादेश की अप्राप्ति दर्शायी है । यदि “इण षीध्वम्” सूत्र में इट् भी अङ्ग के ग्रहण से गृहीत हो जावे तो ‘अलविध्वम्’ प्रयोग में भी “इण षीध्वम्” सूत्र से नित्य प्राप्ति होगी, न कि अप्राप्ति । इस से विदित होता है कि न्यासकार के मत में ‘एधिषीध्वम्’ में मूर्धन्यादेश नहीं हो सकता । चन्द्राचार्य ने इस पाणिनीय सूत्र का यही अभिप्राय समझ कर अपने व्याकरण में “धातोः सीलुढोश्च धो ङ.” सूत्र में विस्पष्ट धातु ग्रहण किया है । धातु ग्रहण करने पर ‘एधिषीध्वम्’ में किसी प्रकार मूर्धन्यादेश नहीं हो सकता । इस से भी स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्य अङ्ग ग्रहण से इट् का ग्रहण नहीं मानते । अतः कौमुदीकार का यहाँ मूर्धन्यादेश दर्शाना नितान्त अशुद्ध है ।

ऐधिष्येथाम्, ऐधिष्यन्वम, ऐधिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामाहि ॥  
३ [ ❀ स्पर्ध ] सङ्घर्षे = घिसना<sup>१</sup> और ईर्ष्या । इस के प्रयोग  
एध के समान जानने । जैसे—स्पर्धते, स्पर्धते इत्यादि । परन्तु  
लिट् के रूप विशेष हैं—

१२५—शर्पूर्वाः स्वयः ॥ ७ । ४ । ६१ ॥

अभ्याससम्बन्धी शर् जिन के पूर्व हैं वे स्वयं बाकी रहै, अन्य  
हलो का लोप हो जावे । स्पर्ध + स्पर्ध् + त, (१०७) से एश् = पस्पर्धे,  
पस्पर्धाते, पस्पर्धिरे, पस्पर्धिषे, पस्पर्धाथे, पस्पर्धिभ्वे; पस्पर्धे,  
पस्पर्धिवहे, पस्पर्धिमहे, स्पर्धिता; स्पर्धिष्यते; स्पर्धिषतै, स्पर्धिषातै,  
स्पर्धिषते, स्पर्धिषाते इत्यादि; स्पर्धताम्; अस्पर्धेत; स्पर्धेत; स्पर्धिषीष्ट ।  
अस्पर्धिष्यत ॥ ४ [ गाधृ ] प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च = सत्कार,  
प्राप्त होने की इच्छा, गाँठना । गाधते । अभ्यास के अच् को हस्  
और गकार को जकार होकर—जगाध् + ए = जगाधे, जगाधाते,  
जगाधिरे; गाधिता, गाधिष्यते, गाधिषतै, गाधिषातै, गाधताम्,  
अगाधत, गाधेत, गाधिषीष्ट, अगाधिष्ट, अगाधिष्यत ॥

\* एक यह नियम इस ग्रन्थ में पढ़ने पढ़ाने वालों को ध्यान में रखना  
चाहिये कि भू के तुल्य परस्मैपदा धातुओं के प्रयोग और एध के समान आत्म-  
नपदा धातुओं के प्रयोग समझे । यहाँ से आगे सब धातुओं के ग्यारहों लकारों  
के एक-एक प्रयोग लकारों के क्रमानुसार लिखेंगे और जहाँ विशेष सूत्र लग के  
विशेष प्रयोग बनेंगे वहाँ सब रूप लिख दिया करेंगे और असिद्ध प्रयोग चिह्नित  
अवयवों के सहित रक्खे जाते हैं वे आगे विशेष विशेष धातुओं के प्रयोगों ही में  
रक्खेंगे और जो एक अर्थ में एक प्रकार के बहुत धातु होंगे उनमें से एक के  
अयोग लिख दिया करेंगे उसी के समान दूसरों के समझने होंगे ।

१ धातुवृत्तिकार आदि 'सघर्ष' का अर्थ 'प्रतिपक्षी को हराने की  
इच्छा' करते हैं ।

५ [ बाधृ ] विलोडने = हटा देना । बाधते, बबाधे, बाधिता, बाधिष्यते, बाधिषतै, बाधिषातै, बाधिषते, बाधिषाते इत्यादि, बाधताम, अबाधत, बाधेत, बाधिषीष्ट, अबाधिष्ट, अनाधिष्यत ॥  
 ६, ७ [ नाधृ, नाधृ<sup>१</sup> ] याञ्जोपतापैश्वर्याशीःषु । याञ्जा = मांगना, उपताप = पीड़ा, ऐश्वर्य = उत्तम पदार्थ, आशीः = इच्छा । आशीर्वाद अर्थ ही में नाथ धातु से आत्मनेपद<sup>२</sup> और [ अन्य ] अर्थों में परस्मैपद होता है । जैसे—सर्पिषो नाथते । अन्यत्र—नाथति, नाथतः, नाथन्ति इत्यादि । शेष रूप बाधृ क समान होते हैं ॥ ८ [ दध् ] धारणे = धारण करना । दधते, दधेते, दधन्ते इत्यादि ।

१२६—अत एकहल्मध्येऽनादेशादेर्लिटि ॥

६ । ४ । १२० ॥

जिस लिट् को मान के धातु के अभ्यास को आदेश नहीं हुआ हो उस के परे धातु के अभ्यास का लोप हो और दो हलो के बीच में जो अकार है उस को एकार आदेश हो जावे कित् लिट् परे हो तो । जैसे—द + दध् + ए = देधे, देधाते, देधिरे, देधिषे, देधाथे, देधिध्वे, देधे, देधिवहे, देधिमहे, दधिता, दधिष्यते । ‘लेट्’ में विशेष—

१ धातुप्रदीपकार ‘नाधृ’ को णोपदेश मानता है । वह महाभाष्य के ‘सर्वे नादयो णोपदेशाः नृतिनन्दिनर्दिनक्विनटिनाथृनृवर्जम्’ में नाधृ को नहीं पढ़ता । अन्य वृत्तिकार इसे नोपदेश ही मानते हैं और “नाथृनाधृ-नृवर्जम्” ऐसा भाष्य का पाठ मानते हैं । मुद्रित भाष्यपुस्तकों में भी यही पाठ उपलब्ध होता है । देखो महाभाष्य ६ । १ । १६४ ।

२ आशिषि नाथः ( महा० १ । ३ । २१ ) वार्तिक से ‘आशी’ अर्थ में ही आत्मनेपद होता है ।

१२७—अत उपधायाः ॥ ७ । २ । ११६ ॥

अङ्ग के उपधा अकार को वित्, णित् प्रत्ययो के परे वृद्धि हो जावे । इस से णित् पक्ष में वृद्धि होती है । दाधिषतै, दाधिषातै, दाधिषते, दाधिषाते, दधिषतै, दधिषातै, दधिषते, दधिषाते, दधतै, दधातै, दधते, दधाते, दाधिषैते, दधिषैते, दधैते इत्यादि, दधताम्, अदधत, दधेत, दधिषीष्ट, अदधिष्ट, अदधिष्यत ॥

९ [ स्कुदि ] आप्रवणे = कृदना ।

१२८ इदितो नुम् धातोः ॥ ७ । १ । ५८ ॥

जिस धातु का इ इत् गया हो उस को नुम् का आगम हो । 'नुम्' मित् का आगम अन्त्य अच् से परे हुआ । स्कु + नुम् + इ + शप् + त = स्कुन्दते, स्कुन्देते, स्कुन्दन्ते । लिट् में - चुस्कुन्दे, चुस्कुन्दाते, चुस्कुन्दिरे, स्कुन्दिता; स्कुन्दिष्यते; स्कुन्दिषतै, स्कुन्दिषातै; स्कुन्दिताम्, अस्कुन्दत; स्कुन्देत; स्कुन्दिषीष्ट, अस्कुन्दिष्ट; अस्कुन्दिष्यत ॥ १० [ शिवदि ] श्वैत्ये = श्वेत होना । शिवन्दते; शिशिवन्दे; शिवन्दिता, शिवन्दिष्यते, शिवन्दिषतै, श्विन्दिषातै, श्विन्दिताम्, अशिवन्दत, शिवन्देत, शिवन्दिषीष्ट; अशिवन्दिष्ट, अशिवन्दिष्यत ॥ ११ [ वदि ] अभिवादनस्तुत्योः = नमस्कार और प्रशंसा । वन्दते, ववन्दे; वन्दिता; वन्दिष्यते; वन्दिषतै, वन्दिषातै, वन्दताम्; अवन्दत; वन्देत; वन्दिषीष्ट; अवन्दिष्ट, अवन्दिष्यत ॥ १२ [ भदि ] कल्याणे सुखे च = शुभ गुणों को प्राप्त होना और सुखी होना । भन्दते, बभन्दे, भन्दिता, भन्दिष्यते, भन्दिषतै, भन्दिषातै, भन्दताम्, अभन्दत, भन्देत, भन्दिषीष्ट, अभन्दिष्ट, अभन्दिष्यत ॥ १३ [ मदि ] स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । स्तुति = प्रशंसा करना, मोद

= हर्ष होना, मद = अभिमान, स्वप्न = सोना, कान्ति = कामना करना, गति = ज्ञान, <sup>२</sup> गमन, प्राप्ति । मन्दते, ममन्दे, मन्दिता, मन्दिष्यते, मन्दिषतै, मन्दिषातै, मन्दिषते, मन्दिषाते इत्यादि, मन्दिताम्, अमन्दत, मन्देत, मन्दिषीष्ट, अमन्दिष्ट, अमन्दिष्यत ॥ १४ [ स्पदि ] किञ्चिच्चलने = मन्द मन्द चलना । स्पन्दते, पस्पन्दे, स्पन्दिता, स्पन्दिष्यते, स्पन्दिषतै, स्पन्दिषातै, स्पन्दताम्, अस्पन्दत, स्पन्देत, स्पन्दिषीष्ट, अस्पन्दिष्ट, अस्पन्दिष्यत ॥ १५ [ क्लिदि ] परिदेवने = दुःखी होना । क्लिन्दते, चिक्लिन्दे, क्लिन्दिता, क्लिन्दिष्यते, क्लिन्दिषतै, क्लिन्दिषातै, क्लिन्दताम्, अक्लिन्दत, क्लिन्देत, क्लिन्दिषीष्ट, अक्लिन्दिष्ट, अक्लिन्दिष्यत ॥ १६ [ मुद ] हर्षे = आनन्द होना । मोदते, मुमुदे, मोदिता, मोदिष्यते मोदिषतै मोदिषातै, मोदताम्, अमोदत, मोदेत, मोदिषीष्ट, अमोदिष्ट, अमोदिष्यत ॥ १७ [ दद ] दाने = देना । ददते ।

१२६—न शसददवादिगुणानाम् ॥ ६ । ४ । १२६ ॥

दद धातु को लिट लकार मे अकार को एकार और अभ्यास का लोप प्राप्त है इसलिये यह सूत्र है । शस, दद, वकारादि और गुण हुए अकार को एकार तथा उनके अभ्यास का लोप न होवे । दद-दद-ए = दददे, दददाते, दददिरे, ददिता; ददिष्यते, दादिषतै, दादिषातै, दादिषते, दादिषाते, ददिषतै, ददिषातै, ददिषते, ददिषाते इत्यादि, ददताम्, अददत, ददेत, ददिषीष्ट, अददिष्ट, अददिष्यत ॥ १८, १९ [ ष्वद, स्वर्द ] आस्वादने = खाद लेना ।

१३०—धात्वादेः षः सः ॥ ६ । १ । ६३ ॥

धातु के आदि षकार को सकारादेश होवे । स्वदते, स्वर्दते; सस्वदे, सस्वर्दे; स्वदिता, स्वर्दिता; स्वदिष्यते, स्वर्दिष्यते; स्वादिषतै

स्वादिषातै, स्वर्दिषतै, स्वदिषातै; स्वदताम्, स्वदताम्; अस्वदत,  
अस्वदत, स्वदेत, स्वदेत; स्वदिषीष्ट, स्वर्दिषीष्ट; अस्वदिष्ट, अस्वर्दिष्ट;  
अस्वविष्यत, अस्वर्दिष्यत ॥ . २० [ उर्द ] माने' क्रीडायां च<sup>१</sup>  
= तोलना, खेलना ।

१३१—उपधायां च ॥ ८ । २ । ७८ ॥

धातु के उपधाभूत हल् जिन से परे हो ऐसे रेफ और वकार  
की उपधा इक् को दीर्घ हो जावे । इस से उर्द धातु के उकार को  
सब लकारो मे दीर्घ ऊकार<sup>२</sup> हो जाता है । ऊर्दते । और यह धातु  
इजादि गुरुमान् भी है इस से एध के समान लिट लकार मे आम  
प्रत्यय आदि सब कार्य हो जाते हैं । ऊर्दाश्चक्रे, ऊर्दाश्चक्राते, ऊर्दा-  
श्चक्रिरे, ऊर्दाम्बभूव, ऊर्दामास; ऊर्दिता, ऊर्दिष्यते, ऊर्दिषतै,  
ऊर्दिषातै, ऊर्दताम्, ( १२० ) ऊर्दत, ऊर्दत, ऊर्दिषीष्ट, ऊर्दिष्ट,  
ऊर्दिष्यत ॥ २१—२४ [ कुर्द, खुर्द, गुर्द गुद<sup>३</sup> ] क्रीडायामेव  
= खेलने ही मे । पूर्व के समान उपधा को दीर्घ<sup>३</sup> होकर—कूर्दते,  
खूर्दते, गूर्दते, चुकूर्द, चुखूर्द, जुगूर्द; गोदते, जुगुदे; कूर्दिता, कूर्दिष्यते,

१ समताकार के मत मे 'मान' का अर्थ का 'सुख' है । २. कई  
वैयाकरण चकार से 'भास्वादन' अर्थ का समुच्चय करते हैं । ३ चान्द्र  
वैयाकरण "दु ओ स्फूर्जा वज्रनिर्घोषि" धातु में उपधा के दीर्घ पाठ से  
ज्ञापन करते हैं कि 'उर्द, कुर्द, खुर्द' आदि में 'उपधायां च' से दीर्घ नहीं  
होता, अन्यथा 'स्फूर्जा' में दीर्घ विधान व्यर्थ होता है । उनके मत में—  
'उर्दते, कुर्दते, खुर्दते, गुर्दते' प्रयोग बनते हैं । अन्य वैयाकरण 'स्फूर्जा'  
दीर्घपाठ से 'उपधाया च' सूत्र का अनित्यत्व ज्ञापन करते है उन के मत  
में 'उर्दते, ऊर्दते, कुर्दते, कूर्दते' दोनों प्रयोग बनते हैं ।

४ सायण और क्षीरस्वामी आदि 'गुद' शब्द को 'क्रीडायाम्'  
अर्थ के साथ जोड़ते है, धातु नहीं मानते ।

कूर्दिषतै, कूर्दिषातै, कूर्दताम्, अकूर्दत, कूर्देत, कूर्दिषीष्ट, अकूर्दिष्ट,  
अकूर्दिष्यत; गोदिता, गोदिष्यते, गोदिषतै, गोदिषातै, गोदताम्,  
अगोदत, गोदेत, गोदिषीष्ट, अगोदिष्ट, अगोदिष्यत ॥ २५ [ षूद ]  
क्षरणे = झरना वा नष्ट होना । ( १३० ) सूदते, सुसूदे, सूदिवा,  
सूदिष्यते, सूदिषतै, सूदिषातै, सूदताम्, असूदत, सूदेत, सूदिषीष्ट,  
असूदिष्ट, असूदिष्यत । जो धातु उपदेश मे मूर्धन्य षकारादि हैं उनकी  
व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिये कि—

भा०—अज्दन्त्यपराः सादयः षोपदेशाः ।

स्मिङ्-स्वदि-स्विदि-स्वञ्ज-स्वपयश्च । सृपि-सृजि-  
स्तृ-स्त्या-सेकृ-सृवर्जम् ॥ ६ । १ । ६३ ॥

जिन धातुओ के सकार से अच् तथा दन्त्य अक्षर परे हो वें  
सब षोपदेश धातु समझने चाहियें<sup>३</sup> । दन्त्य अक्षरो मे दन्त्योष्ठ्य  
वकार का ग्रहण नहीं होता है इसी से स्वदि आदि धातु पृथक् पढ़े  
हैं, और सृप् आदि धातु अजदन्त्यपर हैं इन को षोपदेश नहीं सम-  
झना चाहिये ॥ २६ [ ह्राद ] अव्यक्ते शब्दे = स्पष्ट उच्चारण का  
न होना । हादते, जहादे, हादिता, हादिष्यते, हादिषतै, हादिषातै,  
हादताम्, अहादत, हादेत, हादिषीष्ट, अहादिष्ट, अहादिष्यत ॥

२७ [ ह्लादी ] सुखे च = सुख होना । यहां चकार से अव्यक्त शब्द की

१ यद्यपि महाभाष्यकार ने इस परिगणन मे 'एकाच्' ग्रहण नहीं  
किया, तथापि "धातोरेकाचो" ( ३ । १ । २२ ) के 'सूचिसूत्रिमूत्रि०,  
इत्यादि वार्तिक के 'सोसूच्यते सोसूच्यते' उदाहरणो मे षत्व नहीं किया,  
इससे विदित होता है कि यह परिगणनएकाच् धातुओ का ही है । यद्यपि  
इस परिणाम से 'ष्वस्क' धातु मे षोपदेशत्व की प्रतीति नहीं होती, तथापि  
"सुब्धातुष्विठुष्वस्कतीना प्रतिषेध" ( महा० ६ । १ । ६४ ) वातिक  
में प्रतिषेधविधान-सामर्थ्य से इसे षोपदेश समझना चाहिये ।



अनुवृत्ति आती है और इसी प्रकार जिन-जिन धातुओं के अर्थ के पश्चात् चकार पढ़ा हो वहाँ वहाँ सर्वत्र पूर्व धातु के अर्थ का सम्बन्ध समझ लेना चाहिये । ह्लादते, जह्लादे, इत्यादि ॥ २८ [ स्वाद ] आस्वादने = चाखना । स्वादते, सस्वादे ॥ २९ [ पर्द ] कुत्सिते शब्दे = निन्दित शब्द करना । पदते, पपदे, पदिता, पदिष्यते, पदेताम्, अपर्दत, पर्देत, पदिषीष्ट, अपर्दिष्ट, अपर्दिष्यत ॥ ३० [ यती ] प्रयत्ने = पुरुषार्थ करना । यतते, येते, येताते, येतिरे । यतिता, यतिष्यते, यातिषतै, यातिषातै, यतताम्, अयतत, यतेत, यतिषीष्ट, अयतिष्ट, अयतिष्यत ॥ ३१, ३२ [ युतृ, जुतृ ] भासने = प्रकाश होना । योतते, युयुते, जोतते, जुजुते; योतिता, जोतिता; योतिष्यते, जोतिष्यत इत्यादि ॥ ३३, ३४ [ विथृ वेथृ ] याचने = मागना । वेथते, विविथे, विवेथे, अभ्यास को ह्रस्व इकार हो जाता है । वेथिता, वेथिष्यते ॥ [ ३५ अथि ] शैथिल्ये = शिथिलता । इदित् को नुम् ( १२८ ) से होकर—अन्थते, शन्थे, अन्थिता, अन्थिष्यते ॥ ३६ [ अथि ] कौटिल्ये = टैढ़ापन । अन्थते, जगन्थे ॥ ३७ [ कथ ] श्लाघायाम् = प्रशंसा करना । कथते, चकथे, कथिता, कथिष्यते, कथिषतै, कथिषातै, कथताम्, अकथत, कथेत, कथिषीष्ट, अकथिष्ट, अकथिष्यत । इत्येधादय उदात्ता उदात्तेत आत्मनेपदिनः षट्त्रिंशत् ॥

अथा [ तादयो ] ऽष्टात्रिंशत् परस्मैपदिनः । अब तवर्गान्तो मे अङ्गीस ( ३८ ) धातु परस्मैपदी हैं ॥ ३८ [ अत ] सातत्यगमने = निरन्तर चलना । परस्मैपद मे तिप् आदि नव ( ९ ) प्रत्यय आये । अत् + शप् + तिप् = अतति, अततः, अतन्ति; अतसि, अतथः, अतथ, अतामि, अतावः, अतामः । “लिट्”—मे द्विर्वचन

१. यह धातु अपानवायु के शब्द के लिये है ।

होने के पश्चात् अभ्यास को दीर्घ (११२) से और एकादेश होकर—आत, आततु, आतुः, आतिथ, आतथुः, आत, आत, आतिव, आतिम । “लुट्”—अतित्ता, अतितारौ, अतितारः, अतित्तासि, अतित्तास्यः, अतित्तास्य; अतित्तास्मि, अतित्तास्वः, अतित्तास्मः । “लृट्”—अतिष्यति, अतिष्यतः, अतिष्यन्ति; अतिष्यसि, अतिष्यथः, अतिष्यथ; अतिष्यामि, अतिष्याव, अतिष्यामः । “लेट्”—आतिषति, आतिषाति, अतिषति, अतिषाति इत्यादि। “लोट्”—अततु, अततात्, अतताम्, अतन्तु; अत अततात्, अततम्, अतत; अतानि, अताव, अताम् । “लिट्”—आट् (११९) से और उसके साथ वृद्धि होकर—आतन्, आतताम्, आतन्, आतः, आततम्, आतत, आतम्, आताव, आताम् । “लिट्”—अतेत्, अतेताम्, अतेयु, अतेः, अतेतम्, अतेत; अतेयम्, अतेव, अतेम् । “आशिष् लिट्”—संयोगादि यास् के सकार का “स्को संयोगा०” सूत्र से लोप—अत्यात्, अत्यास्ताम्, अत्यासुः, अत्याः, अत्यास्तम्, अत्यास्त, अत्यासम्, अत्यास्व, अत्यास्म । “लुङ्”—[ “आट् + अत् + सिच् + इट् + त्” इस अवस्था मे—]

१३२—वदव्रजहलन्तस्याचः ॥ ७ । २ । ३ ॥

परस्मैपद् विषय मे सिच् प्रत्यय परे हो तो वद, व्रज और हलन्त धातुओं के अच् को वृद्धि होवे । यहां अच् ग्रहण इक् की निवृत्ति के लिये है । वद, व्रज धातु भी हलन्त हैं इनका पृथक् ग्रहण इसलिये है कि लघु अकार जिनकी उपधा मे हो ऐसी हलादि धातुओं को विकल्प से वृद्धि कही है<sup>२</sup> सो इन दोनो को नित्य ही होगी । इससे अत धातु को वृद्धि प्राप्त हुई ।

१३३—नेटि ॥ ७ । २ । ४ ॥

इडादि सिच् परे हो तो पूर्वोक्त हलन्त धातुओं के अच् को वृद्धि न होवे । [ इस से वृद्धि का निषेध हो गया । ]

१३४—अस्तिसिच्चाऽपृक्ते ॥ ७ । ३ । ६६ ॥

अस्ति धातु और सिच् प्रत्यय से परे अपृक्त हलादि सार्वधातुक को ईट् का आगम हो । "आट् + अत् + इट् + स् + ईट् + त्" इस अवस्था में—

१३५—इट ईटि ॥ ८ । २ । २८ ॥

इट् से परे सकार का लोप हो ईट् परे हो तो । फिर त्रिपादी में हुए सिच् के लोप को असिद्ध मान कर सन्धि प्राप्त नहीं है इसलिये—

१३६—वा०—सिजलोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः ॥ महा० ८ । २ । ६ ॥

दीर्घ एकादेश करने में सिच् के सकार का लोप सिद्ध समझना चाहिये । फिर दीर्घ एकादेश होकर—आतीत्, आतिष्ठाम् ।

१३७—सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ॥ ३ । ४ । १०६ ॥

सिच् प्रत्यय, अभ्यस्तसङ्गक धातु और विद् धातु से परे जो ङित् लकार का फि उस को जुस् आदेश होवे । यहाँ सिच् से परे फि का जुस् होता है । आट् + अत् + सिच् + जुस् = आतिषुः ।

“अत्” धातु को आट् के आगम पक्ष में तो वृद्धि होने न होने में कुछ भेद नहीं, परन्तु जहाँ आट् का निषेध है वहाँ विशेष है । जैसे—  
मा भवानतीत्, अतिष्ठाम्, अतिषुः ॥ आती., आतिष्ठम्, आतिष्ठ;  
आतिषम्, आतिष्व, आतिष्म । [ “लृङ्”— ] आतिष्यत्,  
आतिष्यताम्, आतिष्यन्, आतिष्यः, आतिष्यतम्, आतिष्यत,  
आतिष्यम्, आतिष्याव, आतिष्याम ॥ ३९ [ चिती ] संज्ञाने =  
ठीक-ठीक जानना । ( ५१ ) सूत्र से लघूपध चित् धातु को

गुण होकर—चित् + शप् + तिप् = चेतति, चेततः, चेतन्ति; चिचेत । [सूत्र ४६ से अर्पित् लिट् क्ति होकर] (४५) से गुण नहीं होता—चिचित्तुः, चिचित्तुः; चिचेतिथ, चिचित्थुः, चिचित्, चिचेत, चिचित्थिव, चिचित्थिम; चेतता; चेतित्थयति; चेतित्थति, चेतित्थति, चेतति. चेतति, चेतत्, चेतात् इत्यादि; चेततु, चेततात्; अचेतत्; चेतैत्; (८७. ३४) चित्यात्, अचेतीत्; अचेतिष्यत् ॥ ४० [ च्युतिर् ] आसेचने = सीचना । (५२) से गुण—च्योतति, चुच्योत, चुच्युततुः; च्योतिता, च्योतिष्यति; च्योतिषति, च्योतिषति इत्यादि; च्योततु, च्योततात्; अच्योतत्; च्योतेत्; च्युत्यात्, च्युत्यास्ताम्, च्युत्यासुः इत्यादि ।

१३८—हरितो वा ॥ ३ । १ । ५७ ॥

जिस धातु का इर् भाग इत्संज्ञक हुआ हो उस धातु से परे क्लि के स्थान [में] अङ् आदेश विकल्प करके हो । अट् + च्युत् + अङ् + तिप् = अच्युतत्, अच्युतताम्, अच्युतन्, अच्युतः, अच्युततम्, अच्युततः, अच्युतम् अच्युताव, अच्युताम् । जिस पक्ष में अङ् नहीं होता वहां—अच्योतीत्, अच्योतिष्ठाम, अच्योतिषुः, इत्यादि; अच्योतिष्यत् ॥ ४१ [ श्च्युतिर्<sup>१</sup> ] क्षरणे = भ्रमना वा नाश होना । श्च्योतति, चुश्च्योत इत्यादि च्युत् के समान जानो ॥ ४२ [ मन्थ ] विलोडने = बिलोना । मन्थति, मन्थतः, मन्थन्ति; ममन्थ; मन्थिता, मन्थिषति, मन्थिषति—मन्थति, मन्थाति, मन्थतु; अमन्थत्; मन्थेत् ।

१३९—अनिदितां हल उपधायाः क्ति ॥

६ । ४ । २४ ॥

१ कई वृत्तिकार क्षरण अर्थ में 'श्च्युतिर्' धातु भी मानते हैं । वेद के 'मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतम्' ( ऋ० ४ । ५७ । २ ) मन्त्र में इसका प्रयोग भी उपलब्ध होता है ।

कित् क्ति प्रत्यय परे हों तो जिसका ह्रस्व इकार इत् न गया हो ऐसा जो हलन्त अङ्ग उसकी उपधा के नकार का लोप होवे । [ ( ८५ ) से कित् ] मन्थ + यासुट् + तिप् = मथ्यात्, अमन्थीत्, अमन्थिष्यत् ॥ ४३-४६ [ कुथि, पुथि, लुथि, मथि ] हिंसासंक्लेशनयोः = मारना और अति दुःख देना । ( १२८ ) से नुम् होके—कुन्थति, चुकुन्थ, कुन्थिता, कुन्थिष्यति, कुन्थिषति, कुन्थिषाति, कुन्थतु, अकुन्थत्, कुन्थेत, कुन्थ्यात् । इदित् के होने से “कुन्थ्यात् ” मे ( १३९ ) से नकार का लोप नहीं हुआ । अकुन्थीत्, अकुन्थिष्यत् । पुथि आदि के रूप कुथि के समान होते हैं । ४८ [ सिध् ] गत्याम् = ज्ञान, गमन, प्राप्ति । यहां धातु के आदि षकार को स होकर—सेधति, सेधतः, सेधान्ति; सिषेध, सिषिधतुः, सिषिधुः; सेधिता; सेधिष्यति; सेधिषति, सेधिषाति; सेधतु; असेधत्; सेधेत्, सिध्यात्, असेधीत्, असेधिष्यत् ॥ ४९ [ सिध् ] शास्त्रे माङ्गल्ये च = शिक्षा और मङ्गलाचारण । इस धातु के सार्वधातुक लकारो मे तो पूर्व सिध् धातु के समान और दीर्घ ऊकार इत् गया है इसलिये [ आर्धधातुक लकारो मे ] विशेष है ।

१४०—स्वरतिसूतिसूयतिधूञ्जुदितो वा ॥ ७ २ ४४ ॥

स्वरति, सूति, सूयति, धूञ् और ऊदित् धातुओ से परे वलादि आर्धधातुक को विकल्प करके इट् का आगम हो । “लिट्”—सिषेध, सिषिधतुः, सिषिधुः ! अनिट् पक्ष मे—सिध्—थल् ।

१४१—ऋषस्तथोर्धोऽधः ॥ ८ । २ । ४० ॥

धा धातु को छोड़ के ऋष् प्रत्याहार से परे जो त और थ उन को ध आदेश हो । यहां थल् के थकार को ध होकर—सिसिध्+

१. कई लोग ‘सिधु’ उदित् पढ़ते हैं । इसका उदित्व अनार्ष है । यह न्यासकार ने ( भ० ७ । २ । १० ) में बड़े प्रयत्न से सिद्ध किया है ।

ध = सिषेद्ध । यहा पूर्व धकार को ऋष् के परे जश्त्व हो जाता है । पक्ष मे—सिषेधिय<sup>१</sup> । सिषिधियुः, सिषिध, सिषेध, सिषिध्व, सिषिधिव, सिषिध्म, सिषिधिम । “लुट्”—सिध् + तास् + डा = सेद्धा । यहां भी पूर्ववत् तास् के तकार को धकार और पूर्व का जश्त्व होता है । सेद्धारौ, सेद्धारः; सेद्धासि, सेद्धास्थः, सेद्धास्थ; सेद्धास्मि, सेद्धास्वः; सेद्धास्मः । सेट् पक्ष मे—सेधिता, सेधितारौ, सेधितारः इत्यादि । “लृट्”—सिध् + स्य + तिप् = सेत्स्यति । यहां खर् के परे ‘भल्’ धकार को “खरि च<sup>३</sup>” सूत्र से ‘चर’ तकार हो जाता है । सेत्स्यतः; सेत्स्यन्ति; सेधिष्यति, सेधिष्यतः; सेधिष्यन्ति । “लेट्”—सेत्सति, सेत्साति, सेधिषति, सेधिषाति, सेत्सत्, सेत्सात्, सेत्सद्, सेत्साद्, सेधति, सेधाति इत्यादि । सेधतु, असेधत्, सेधेत् । [ “आशीर्लिङ्” ]—सिध्यात्, सिध्यास्ताम्, सिध्यासुः । “लुङ्”—अनिट् पक्ष मे—अट् + सिध् + सिच् + इट् + तिप् = असैत्सीत् ( १३२ ) ( १३५ ) ।

१४२—भ्रलो भ्रलि ॥ ८ । २ । २६ ॥

१. धातुप्रदीपकार मैत्रेयरक्षित त्रयादिनियम ( अ० ७ । २ । १३ ) से प्राप्त इट् को सब से बलवान् मानता है । इसलिये उसके मत में “स्वरतिसूति” ( अ० ७ । २ । ४४ ) इत्यादि सूत्र से प्राप्त इड्विकल्प को बाधकर भी नित्य इट् होता है । काशिकाकार ने “अचस्तास्वत्” ( अ० ७ । २ । ६१ ) सूत्र की वृत्ति में ‘विधोता, विधविता, विधविथ, तास् में विकल्प इट् को बाधकर थल में नित्य इडागम होता है’ लिखा है । न्यासकार भी इसी के अनुकूल है । तदनुसार ‘सिषेद्ध’ यही रूप बनेगा । हरदत्त और धातुवृत्तिकार ने दोनो पक्ष ( थल में इड्विकल्प और नित्यत्व ) लिखे हैं । वास्तविकता क्या है इस पर कृतभाष्यपरिश्रम विद्वान् विचार करें । २. सन्धि० २३५ ।

भ्रल्ल से परे जो सकार उसका लोप हो भ्रल्ल परे हो तो। असिध् + स + ताम् = असैद्धाम् । यहां स लोप होने के पश्चात् ताम् के तकार को ध और पूर्व को जश्त्व हो जाता है। असिध् + स + मि = असैत्सुः, असिध् + स + ईट् + सिप् = असैत्सीः, असिध् + स + थस् = असैद्धम्, असैद्ध, असैत्सम्, असैत्त्व, असैत्सम् । सेट् पक्ष में असेधीत्, असेधिष्ठाम्, असेधिषुः इत्यादि । “लुङ्”—अट् + सिध् + इट् + स्य + तिप् = असेत्स्यत्, असेत्स्यताम्, असेत्स्यन्, असेत्स्यः, असेत्स्यतम्, असेत्स्यत, असेत्स्यम्, असेत्स्याव, असेत्स्याम् । सेट् पक्ष में—असेधिष्यत्, असेधिष्यताम्, असेधिष्यन् ॥ ४९ [खाद] भक्षणे = खाना । इस धातु का ऋकार इत् जाता है । खादति, चखाद, खादिता, खादिष्यति, खादिषति, खादिषाति, खादतु, अखादत्, खादेत्, खाद्यात्, अखादीत्, अखादिष्यत् ॥ ५० [खद] स्थैर्ये हिंसायां च = स्थिर होना, मारना, और चकार से भक्षण अर्थ का भी समुच्चय होता है । खदति, खद् + खद् + गल् = चखाद (१२७), चखदतुः, चखदुः, चखदिथ, चखदथुः, चखद ।

१४३—एलुत्तमो वा ॥ ७ । १ । ६१ ॥

उत्तम पुरुष का गल् आदेश विकल्प करके णित्संज्ञक होवे । खाभाविक णित् को विकल्प करने से प्राप्तविभाषा है । चखाद, चखद । णित्पक्ष में वृद्धि होती है अन्यत्र नहीं । खदिता, खदिष्यति, खादिषति, खादिषाति, खदतु, अखदत्, खदेत्, खद्यात् ।

१४४—अतो हलादेर्लघोः ॥ ७ । २ । ७ ॥

परस्मैपदविषयक इडादि सिच् परे हो तो हलादि अङ्ग के लघु अकार को विकल्प करके वृद्धि होवे । अखादीत्, अखदीत् ।

यहा इडादि सिच् में वृद्धि का निषेध प्राप्त है<sup>१</sup> इसलिये विधान है । अखदिष्यत् ॥ ५१ [ बद् ] स्थैर्ये = स्थित होना । बदति, बबाद, बेदतुः, बेदुः ।

१४५—थलि च सोऽट् ॥ ६ । ४ । १२१ ॥

सेट् थल् परे हो तो लिट् लकार को मान कर जिस धातु के आदि को कोई आदेश न हुआ हो उस के अभ्यास क् लोप और दो हलो के बीच में जो अकार है उस को एकारादेश होजावे । बद् + बद् + ईट् + थल् = बेदथ, बेदथुः, बेद, बबाद, बबद्, बेदिव, बेदिम, बदिता, बदिष्यति, बादिषति, बादिषाति, बदिषति, बदिषाति, बदति, बदाति, बदतु, अबदत्, बदेत्, बद्यात्, अबादीत् ( १४४ ) अबदीत्, अबदिष्यत् ॥ ५२ [ गद् ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना । गदति, जगाद्, जगदतु, गदिता, गदिष्यति, अगादीत्, अगदीत् इत्यादि ॥ ५३ [ रद् ] बिलेखने = काटना और जोतना । रदति, रराद्, रदिता, अरादीत्, अरदीत् ॥ ५४ [ णद् ] अव्यक्ते शब्दे = अप्रकट शब्द होना ।

१४६--णो नः ॥ ६ । १ । ६४ ॥

धातु के आदि णकार को नकारादेश होवे । नदति, ननाद्, नेदतुः, नेदुः, नेदिथ, नेदथुः, नेद, ननाद्, ननद्, नेदिव, नेदिम, नदिता, नदिष्यति, नादिषति, नादिषाति, नदतु, अनदत्, नदेत्, नद्यात्, अनादीत्, अनदीत् ।

णोपदेश धातुओं की व्यवस्था—

भा०—सर्वे नादयो णोपदेशाः । नृति, नन्दि, नर्दि, नक्कि, नादि, नाथु, नाष्ट, नृ-वर्जम् ॥ अ० ६ । १ । ६४ ॥

१ नेदि ( भा० १३३ ) सूत्र से ।



नकारादि धातु सब णोपदेश समझने चाहिये, परन्तु नृति आदि धातुओं को छोड़ कर । अर्थात् नृति आदि णोपदेश नहीं, इसलिये णोपदेशों को कहा कार्य नृति आदि को नहीं होगा ॥

५५ [ अर्द ] गतौ ॐ याचने च=मांगना । अर्दति, अर्दत, अर्दन्ति ।

१४७—तस्मान्नुड् द्विहलः ॥ ७ । ४ । ७१ ॥

दीर्घ किये हुए अभ्यास के अकार से परे जो द्विहल् धातु उसको नुट् का आगम होवे । नुट् टित् होने से अभ्यास से परे द्वितीय भाग के आदि मे होता है । आ + नुट् + अर्द + गल्—आनर्दे, आनर्दतुः, आनर्दुः, आनर्दित्य, आनर्दथुः, आनर्द, आनर्द, आनर्दिव, आनर्दिम, अर्दिता, अर्दिष्यति, अर्दिषति, अर्दिषाति, अर्दतु, अर्दत्, अर्दत्, अर्दात्, आर्दात्, आर्दिष्टाम्, आर्दिषुः, आर्दिष्यत् ॥ ५६, ५७ [ नर्द, गर्द ] शब्दे = शब्द होना । नर्दति, गर्दति, ननर्दे, जगर्द, नर्दिता, नर्दिष्यति, नर्दिषति, नर्दिषाति, नर्दतु, अनर्दत्, नर्दत्, नर्दात्, अनर्दात्, अनर्दिष्यत् ॥ ५८ [ तर्द ] हिंसायाम् = मारना । तर्दति । तर्दत् ॥ ५९ [ कर्द ] कुत्सिते शब्दे = निन्दित शब्द करना । कर्दति, चर्कद, अकर्दात् ॥ ६० [ खर्द ] दन्तशूके<sup>१</sup> = दातो से काटना । खर्दति, खर्दवे,

ॐ इस बात पर भी ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि गति, हिंसा आदि अर्थ जो अनेक धातुओं के बहुधा आते है उनके अर्थ भाषा मे बार-बार नहीं लिखेगे, और जिस अर्थ के साथ चकार पढ़ते है वहा पूव धातु के अर्थ का समुच्चय सवेत्र समझना चाहिये ॥

१. कई लोग 'दन्दशूके' पढ़ते हैं । 'दन्दशूकी विलेशय.' इस कोश के प्रमाण से दन्दशूक सर्प का नाम है । अत सर्पसम्बन्धिनी दशन क्रिया इस का अर्थ है । भट्टिकार ने 'इषमति रघुसिहे

अखर्दीत्, अखर्द्वित् ॥ ६१, ६२ [ अति, अदि ] बन्धने  
 = बांधना । ( १२७ ) अन्तति, अन्दति, आ + अन्त् + गल्  
 ( १४७ ) = आनन्त, आनन्द, अन्तिता, अन्तिष्यति, अन्तिषति,  
 अन्तिषाति, अन्ततु, आन्तत्, अन्तेत्, अन्त्यात्, आन्तीत्,  
 आन्तिष्यत् ॥ ६३ [ इदि ] परमैश्वर्ये = विद्या, धन, पुत्रादि  
 की प्राप्ति । इद् + शप् + तिप् = इन्दति । यह धातु तुमागम होने  
 के पश्चात् इजादि गुरुमान् हा जाता है । फिर ( १०२ ) ( १०३ )  
 ( १०४ ) इत्यादि सूत्रों से इन्द् + आम् + कृ + गल् = इन्दाञ्चकार,  
 इन्दाञ्चकृ, इन्दाञ्चकृः ।

### १४८—कृ सृ भृ वृ स्तु द्रु सु श्रु वो लिटि ॥ ७।२।१३॥

कृ, सृ, भृ, वृ, स्तु, द्रु, सु, श्रु इन धातुओं से परे जो लिट्  
 वलादि आर्धधातुक उस को इट् का आगम न होवे । कृ आदि  
 सब धातु अनिट् हैं इन से परे सामान्य आर्धधातुक को इट् का  
 निषेध हो ही जाता । फिर यह कृ सृ भृ ग्रहण नियमार्थ है कि  
 जितने अनिट् धातु हैं उन सब से परे लिट् को इडागम हो जावे  
 इन कृ आदि से परे न हो । इसी नियम से—“एधाञ्चकृषे,  
 एधाञ्चकृवहे, एधाञ्चकृमहे, ऊर्दाञ्चकृषे” इत्यादि मे इट् नहीं होता  
 और थल् मे विशेष है—

### १४९—ऋतो भारद्वाजस्य ॥ ७।२।६३॥

तास् प्रत्यय के परे नित्य अनिट् जो ऋकारान्त धातु उस  
 से परे थल् वलादि आर्धधातुक को भारद्वाज आचार्य के मतमे  
 इट् का आगम न होवे । इन्दाञ्चकृ + थल् = इन्दाञ्चकथे । थल्

इन्द्रश्चकान् जिघासौ श्लोक मे इन्द्रश्चक शब्द हिस्समात्र में  
 प्रयुक्त किया है ।

के पितृ होने से गुण हो जाता है । इन्दाञ्चक्रथुः, इन्दाञ्चक्रु ।  
 इन्दाञ्चकार ( १४३ ) इन्दाञ्चकर, इन्दाञ्चकृव, इन्दाञ्चकृम,  
 इन्दिता, इन्दिष्यति, इन्दिषति, इन्दिषाति, इन्दतु, ऐन्दत्, इन्देत्,  
 इन्द्यात्, ऐन्दीत्, ऐन्दिष्यत् ॥ ६४, ६५ [ बिदि, भिदि<sup>१</sup> ]  
 अवयवे = अवयव करना । बिन्दति, भिन्दति, बिबिन्द, बिभिन्द,  
 बिन्दिता, बिन्दिष्यति, बिन्दिषति, बिन्दिषाति, बिन्दतु, अबिन्दत्,  
 बिन्देत्, बिन्द्यात्, अबिन्दीत्, अबिन्दिष्यत् ॥ ६६ [ गडि<sup>२</sup> ]  
 चदनैकदेशे = मुख के अवयव से क्रिया करना । गणडति,  
 जगणड, गणिडता, गणिड्यति ॥ ६७ [ गिदि ] कुत्सायाम्  
 = निन्दा । निन्दति, निनिन्द ॥ ६८ [ टुनदि ] समृद्धौ =  
 सम्पत् का होना ।

१ कई वृत्तिकार 'भिदि' धातु नहीं पढते ।

२ तवर्गान्तो मे डकारान्त 'गडि' धातु का पाठ अप्रासङ्गिक है ।  
 टवर्गान्त शौट्टादि मे यह धातु आगे भी पटी है । मैत्रेय, क्षीरस्वामी इस  
 धातु को नहीं पढते । काश्यप के मत मे 'अति, अदि, बिदि, इदि,  
 गडि' इन पाच धातुओ के तिङन्त रूप नहीं होते । जयन्तभट्ट ने  
 न्यायमञ्जरी ( वृष्ट ४१४ प० २५ ) मे लिखा है कि गडि के तिङन्त  
 प्रयोग नहीं होते, केवल 'गणड' शब्द सिद्ध करने के लिये यह धातु  
 पढी है । अतः सम्भव है तिङन्तरूप के अभाव की साम्यता से अति  
 अदि के प्रकरण मे डकारान्त गडि धातु पढी हो । अन्य धातु-  
 वृत्तिकार इन के तिङन्त रूप भी उद्धृत करते हैं । महाभाष्य ७ । १ ।  
 ९५ के 'घरतिरस्मायविशेषेणोपदिष्ट, स घृत घृणा घर्म इत्येव विषय ।  
 रशिरस्मायविशेषेणोपदिष्ट, स राशि रशना रश्मि इत्येवं विषय ।  
 लशिरस्मायविशेषेणोपदिष्ट स लोष्ट इत्येव विषय' पाठ से विदित  
 होता है कि प्रत्येक धातु के तिङन्त रूप मानना आवश्यक नहीं है ।

## १५०—आदिर्जिटुडचः ॥ १ । ३ । ५ ॥

धातु के आदि जो वि, टु और डु इन की इत्सज्ञा हो। यहा टुनदि धातु के टु की इत्सज्ञा होकर लोप हो जाता है। [नन्दति, ननन्द, नन्दिता, नन्दिष्यति] ॥ ६९ [चदि] आह्लादने दीप्तौ च=आनन्द और प्रकाश का होना। चन्दति, चचन्द ॥ ७० [त्रदि] चेष्टायाम् = अवयवो का चलाना। त्रन्दति, तत्रन्द, त्रन्दिता ॥ ७१-७३ [कदि, क्रदि, क्लदि] आह्लादने रोदने च = बुलाना, रोना। कन्दति, क्रन्दति, क्लन्दति, चकन्द, चक्रन्द, चक्लन्द, कन्दिता, कन्दिष्यति, कन्दिषति, कन्दिषाति, कन्दतु, अकन्दत्, कन्देत्, कन्द्यात्, अकन्दीत्, अकन्दिष्यत् ॥ ७४ [क्लिदि] परिदेवने = क्लेश होना। क्लिन्दति, चिक्लिन्द, क्लिन्दिता ॥ ७५ [शुन्ध] शुद्धौ = पवित्र करना। शुन्धति, शुशुन्ध, शुन्धिता, शुन्धिष्यति शुन्धिषति, शुन्धिषाति, शुन्धतु, अशुन्धत्, शुन्धेत्, शुन्ध्+यासुट्+तिप्=शुध्यात् (१३९), अशुन्धीत्, अशुन्धिष्यत् ॥ अतादय उदात्ता उदात्तेतोऽष्टात्रिंशत् परस्मैपदिन. समाप्ता ॥

अथ त्रयोनवतिः कवर्गीयान्ता.। [तत्र शीकादायो द्वाचत्वारिंशदात्मनेपदिनः।] अब आगे कवर्गीयान्त ९३ धातुओ का व्याख्यान है। उनमे प्रथम शीकृ आदि ४२ ( बयालीस ) आत्मनेपदी हैं। ७६ [शीकृ] सेचने = सीचना। ऋकार की इत्सज्ञा। एध् के समान प्रयोगसिद्धि जानो। शीकते, शिशीके, शीकिता, शीकिष्यते, शीकिषतै, शीकिषातै, शीकताम्, अशीकत, शीकेत, शीकिषीष्ट, अशीकिष्ट, अशीकिष्यत् ॥ ७७ [लोकृ] दर्शने = देखना। लोकते, लोकेते, लोकन्ते, लोकसे, लोकेथे, लोकध्वे, लोके, लोकावहे, लोकामहे। लुलोके, लुलोकाते, लुलोकिरे, लुलोकिषे,

लुलोकाथे, लुलोकिध्वे; लुलोके, लुलोकिवहे, लुलोकिमहे । लोकिता, लोकितारौ, लोकितारः, लोकितासे, लोकितासाथे, लोकिताध्वे, लोकिताहे; लोकितास्वहे, लोकितास्महे । लोकिष्यत, लोकिष्येते, लोकिष्यन्ते, लोकिष्यसे, लोकिष्येथे, लोकिष्यध्वे; लोकिष्ये, लोकिष्यावहे, लोकिष्यामहे । लोकिषतै, लोकिषातै, लोकिषते, लोकिषाते, लोकतै, लोकातै, लोकते, लोकाते, लोकिषैते, लोकैते; लोकिषन्तै, लोकिषान्तै, लोकिषन्ते, लोकिषान्ते, लोकन्तै, लोकान्तै, लोकन्ते, लोकान्ते; लोकिषसै, लोकिषासै, लोकिषसे, लोकिषासे, लोकसै, लोकासै, लोकसे, लोकासे; लोकिषैथे, लोकैथे, लोकिषध्वै, लोकिषाध्वै, लोकध्वै, लोकाध्वै, लोकध्वे लोकाध्वे; लोकिषै, लोकिषे, लोकै, लोकै; लोकिषवहै, लोकिषावहै, लोकवहै, लोकावहै, लोकवहे, लोकावहे, लोकिषमहै, लोकिषामहै, लोकिषमहे, लोकिषामहे, लोकमहै, लोकामहै, लोकमहे, लोकामहे । लोकताम्, लोकेताम्, लोकन्ताम्, लोकस्व, लोकेथाम्, लोकध्वम्, लोकै, लोकावहै लोकामहै । अलोकत, अलोकेताम्, अलोकन्त, अलोकथा., अलोकेथाम्, अलोकध्वम्, अलोके, अलोकावहि, अलोकामहि । लोकेत, लोकेयाताम्, लोकेरन्, लोकेथाः, लोकेयाथाम्, लोकेध्वम्, लोकेय, लोकेवहि, लोकेमहि । लोकिषीष्ट, लोकिषीयास्ताम्, लोकिषीरन्, लोकिषीष्ठाः, लोकिषीयास्थाम्, लोकिषीध्वम्; लोकिषीय, लोकिषीवहि, लोकिषीमहि । अलोकिष्ट, अलोकिषाताम्, अलोकिषत, अलोकिष्ठा., अलोकिषाथाम्, अलोकिध्वम्, अलोकिषि, अलोकिष्वहि, अलाकिष्महि । अलोकिष्यत, अलोकिष्येताम्, अलोकिष्यन्त, अलोकिष्यथा, अलोकिष्येथाम्, अलोकिष्यध्वम्, अलोकिष्ये, अलोकिष्यावहि, अलोकिष्यामहि ॥ ७८ [ श्लोक ]

सङ्घाते = इकट्टा करना । इस धातु का अर्थ योगरूढ़ होने से धर्मसञ्चय ( कीर्ति ) और पदवाक्यो का संचय ( श्लोक ) कहाता

है । श्लोकते, शुश्लोके, श्लोकिता, श्लोकिष्यते, श्लोकिषतै, श्लोकिषातै, श्लोकताम्, अश्लोकत, श्लोकेत, श्लोकिषीष्ट, अश्लोकिष्ट, अश्लोकिष्यत ॥ ७९, ८० [द्रेक, ध्रेक] शब्दोत्साहयः = शब्द करना और उत्साह होना । द्रेकते, दिद्रेके, द्रेकिता, द्रेकिष्यते, द्रेकिषतै, द्रेकिषातै, द्रेकिताम्, अद्रेकत, द्रेकेत, द्रेकिषीष्ट, अद्रेकिष्ट, अद्रेकिष्यत; ध्रेकते, दिध्रेके ॥ ८१ [रेक] शङ्कायाम् = सन्देह करना । रेकते, रिरेके, रेकिता, रेकिष्यते ॥ ८२-८६ [सेक, स्नेक, स्त्रकि, श्रकि, श्लकि] गत्यर्था । इन पांचों का गति अर्थ है । सेकते, सिसेके, सेकते सिस्नेके, स्नेकते, सस्नेके, शस्नेके, श्लस्नेके, शश्लके ॥ ८७ [शक्कि] शङ्कायाम् = संशय करना । शक्कते, शशक्के ॥ ८८ [अकि] लक्षणे = चिह्न । अक्कते, अक्क + अड्क् + एश् = आनक्के ( ११२, १४७ ), आनक्कते, आनक्किरे, अक्किता, अक्किष्यते ॥ ९९ [वकि] कौटिल्ये = टैड़ा होना । वक्कते, ववक्के, वक्किता, वक्किष्यते, वक्किषतै, वक्किषातै, वक्कताम्, अवक्कत, वक्केत, वक्किषीष्ट, अवक्किष्ट, अवक्किष्यत ॥ ९० [मकि] मण्डने = भूषण । मक्कते, ममक्के ॥ ९१ [कक] लौल्ये = चलित होना । ककते, चकके । ९२, ९३ [कुक, वृक] आदाने = लेना । कोकते, चुकुके, वर्कते, ववृके ।

१५१—वा०—ऋदुपधेभ्यो लिटः कित्त्वं गुणात्  
पूर्वविप्रतिषेधेन ॥ महा० १ । २ । ५ ॥

जिन की सपधा मे ऋकार हो उन धातुओं से परे लिट् प्रत्यय, गुण होने से पूर्व विप्रतिषेध करके कित्त्वत् हो जावे । प्रयोजन यह है कि ऋदुपध धातुओं से भी लुट् आदि आर्धधातुक प्रत्ययों के परे गुण को अवकाश है । और अपित् लिट् अतुस् आदि में संप्रसारण होना कित्त्व को अवकाश है और “ववृके” आदि

में परस्व से गुण प्राप्त है, सो न हो जावे ॥ १४ [ चक ]  
 तृसौ प्रतिघाते च = तृप्त होना और मारना । चकते; चेके, चेकाते,  
 चेकिरे; चकिता, चकिष्यते, चाकिषतै, चाकिषातै, चकिषतै,  
 चकिषातै, चाकिषते, चाकिषाते, चकिषते, चकिषाते,  
 चकतै, चकातै, चकते, चकाते, चाकिषैते, चकिषैते, चकैते  
 इत्यादि, चकताम्; अचकत, चकेत, चकिषीष्ट, अचकिष्ट,  
 अचकिष्यत ॥ १५—१०६ [ ककि, वकि, श्वकि, त्रकि,  
 ढौकृ, त्रौकृ, ष्वस्क, वस्क, मस्क, टिकृ, टीकृ तिक्, तीकृ, रधि,  
 लधि ] गत्यर्थाः । ये १५ ( पन्द्रह ) धातु गति = ज्ञान, गमन,  
 प्राप्ति अर्थे मे हैं । कङ्कते, चकङ्के, वङ्कते, ववङ्के, श्वङ्कते,  
 शश्वङ्के, तत्रङ्के, ढौकते, डुढौके, त्रौकते, तुत्रौके ।

१५२—वा०—सादेशे सुब्धातुष्ठिवुष्वस्क-  
 तीनां सत्वप्रतिषेधः ॥ महा० ६ । १ । ६३ ॥

सुब्धातु ( नामधातु ) ष्ठिवु और ष्वस्क धातुओं के आदि  
 षकार को दन्त्य सकार न होवे । सुब्धातु—षोढ इवाचरति,  
 षोढीयति, षण्ढीयति । ष्ठिवु धातु आगे आवेगा । ष्वस्क—  
 ष्वस्कते, ष्वस्कंते, ष्वस्कन्ते, षष्वस्के, ष्वस्किता, ष्वस्किष्यते,  
 ष्वस्किषतै, ष्वस्किषातै, ष्वस्कताम्, अष्वस्कत, ष्वस्कते,  
 ष्वस्किषीष्ट, अष्वस्किष्ट, अष्वस्किष्यत; वस्कत, ववस्के, मस्कते,  
 ममस्के, टैकते, टिटिके, टिटिकाते, टिटिकिरे, टैकिता, टैकिष्यते,  
 टैकिषतै, टैकिषातै, टैकताम्, अटैकत, टैकेत, टैकिषीष्ट, अटैकिष्ट,  
 अटैकिष्यत; टीकते, टिटिके, तेकते, तितिके; तीकते, तितिके;  
 रङ्घते, ररङ्घे; लङ्घते, ललङ्घे ॥ [ लधि ] भोजननिवृत्तौ च  
 लङ्घन करना । ११०-११२ [ अधि, वधि, मधि ] गत्याक्षेपे =  
 निन्दित चलना । अङ्घते, आनङ्घे, आनङ्घाते, आनङ्घिरे,

अङ्घिता, अङ्घिष्यते, वङ्घते, ववङ्घे, मङ्घते. ममङ्घे ॥  
 [ मघि ] कैतवे च = धूर्त्तपन । ११४—११६ [ राघृ,  
 लाघृ, द्राघृ, ध्राघृ ] सामर्थ्ये = समर्थ होना । राघते, रराघे,  
 लाघते, ललाघे, द्राघते, दद्राघे, ध्राघते, दध्राघे ॥ [ द्राघृ ] =  
 आयामे च = विस्तार होना । ११७ [ श्लाघृ ] कथने =  
 प्रशंसा करना, श्लाघते, शश्लाघे, श्लाघिता श्लाघिष्यते,  
 श्लाघिषतै, श्लाघिषातै, श्लाघताम्, अश्लाघत, श्लाघेत, श्लाघिषीष्ट,  
 अश्लाघिष्ट, अश्लाघिष्यत ॥ इति शीकादय उदात्ता अनुदात्तेतो  
 द्विचत्वारिंशदात्मनेभाषाः समाप्ताः । ये शीक आदि सेट्  
 आत्मनेपदी बयालीस ( ४२ ) धातु पूरे हुए ।

अथ [ फक्कादय एकपञ्चाशत् ] परस्मैपादिनः । अब  
 आगे फक्क आदि परस्मैपदी ५१ धातु लिखते हैं । ११८  
 [ फक्क ] नीचैर्गतौ = मन्द-मन्द चलना वा अयोग्य व्यवहार  
 करना । फक्कति, पफक्क, फक्किता, फक्किष्यति, फक्किषति, फक्किषाति,  
 फक्कतु, अफक्कत्, फक्केत्, फक्क्यात्, अफक्कीत्, अफक्किष्यत् ॥  
 ११९ [ तक ] हसने = हंसना । तकति, तताक, तेकतुः,  
 तेकुः, तेकिथ, तेकथु, तेक, तताक, ततक, तेकिव, तेकिम, तकिता,  
 तकिष्यति, ताकिषति, ताकिषाति, तकिषति, तकिषाति, तकति,  
 तकाति, तकतु, अतकत्, तकेत्, तक्यात्, अताकीत्, अतकीत्,  
 अताकिष्टाम्, अतकिष्टाम्, अतकिष्यत ॥ १२० [ तकि ]  
 कृच्छ्रजीवने = कष्ट से जीवना । तङ्कति, ततङ्क, तङ्किता ॥  
 १२१ [ बुक्क ] भ्रूषणे = भ्रूसना । बुक्कति, बुबुक्क, बुक्किता,  
 बुक्किष्यति ॥ १२३ [ कख ] हसने । कखति, चकाख,  
 कखिता, अकाखीत्, अकखीत् ॥ १२३—१२७ [ ओखृ,  
 राखृ, लाखृ, द्राखृ, ध्राखृ ] शोषणालमर्थयो. = सूखना, भूषण,  
 पर्याप्ति और निषेध । ऋकार की इत्सज्ञा । ओखति, राखति,



ओखाञ्चकार (१०२) इत्यादि सूत्र लगते है। ओखिता, ओखिष्यति, ओखिषति, ओखिषाति, ओखतु, औखत्, ओखेत्, ओख्यात्, औखीत्, औखिष्यत् ॥ १२८, १२९ [ शाखु श्लाखु ] व्याप्तौ = व्याप्त होना। शाखति, श्लाखति, शशाख, शश्लाख ॥ १३१—१५८ [ उख, उखि, वख, वखि, मख, मखि, णख, णखि, रख, रखि, लख, लखि, इख, इखि, ईखि, वल्गु, रगि, लगि, अगि, वगि, मगि, तगि, त्वगि, श्रगि, श्लगि, इगि, रिगि, लिगि ] गत्यर्थाः। ओखति। 'उ+ओख्+णल्' इस अवस्था मे—

१५३—अभ्यासस्याऽसवर्णे ॥ ६ । ४ । ८७ ॥

असवर्ण अच् परे हो तो अभ्यास के इवर्ण उवर्ण को इयङ् उवङ् आदेश हो। यह सूत्र यणादेश का बाधक है, और गुण हो जाने से यह धातु इजादि गुरुमान् तो हो जाता है, परन्तु सन्निपातपरिभाषा<sup>१</sup> अर्थात् जो जिस के आश्रय से समर्थ होता है वह उसका विरोधी न होना चाहिये [ यहा लिडादेश 'णल्' प्रत्यय को मान कर गुण होता है, गुण को मानकर आम् प्रत्यय होता है, आम् प्रत्यय के होने से उसी लिडादेश णल् का लुक् हो जावे ] इस नियम से आम् नहीं होता। उ+ओख्+णल्=उवोख। उखतुः—यहां सवर्ण अच् के परे उवङ् नहीं होता, सवर्णदीर्घ एकादेश हो जाता है। उखुः, उवोखिथ, उखथुः, उख, उवोख, उखिव, ऊखिम, ओखिता, ओखिष्यति, ओखिषति, ओखिषाति, ओखतु, ओखतात्, औखत्, ओखेत्, उख्यात्, औखीत्, औखिष्यत्। उह्वति, उह्वञ्चकार, उह्वञ्चक्रुः, उह्वञ्चाम्बभूव, उह्वामास। वखति,

१ सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य। पारि० ७४।

ववाख. ववखतुः ( १२९ ) । वड्खति, ववड्ख । मखति, ममाख, मेखतुः, मेखुः, मखिता, मखिष्यति, माखिषति, माखिषाति, मखिषति, मखिषाति, माखिषत्, माखिषात्, माखिषद्, माखिषाद्, मखिषत्, मखिषात्, माखिषद्, मखिषाद्, मखति, मखाति, मखत्, मखात्, मखद्, मखाद् इत्यादि, अमाखीत्, अमखीत् । नखति ननाख, नेखतुः । नड्खति, ननड्ख । एखाति, इयेख ( १५३ ), एखिता, एखिष्यति, ऐखिषति, ऐखिषाति, एखतु, एखतात्, ऐखत्, एखेत्, इख्यात्, ऐखीत्, ऐखिष्यत् । इड्खति, इड्खाश्चकार, ऐड्खीत् । ईड्खति, ईड्खाश्चकार । वल्लगति, ववल्लग । रङ्गति, ररङ्ग । लङ्गति, ललङ्ग । अङ्गति, आनङ्ग ( १४७ ) । वङ्गति, ववङ्ग, इङ्गति, इङ्गाश्चकार, इङ्गामास, इङ्गाम्बभूव, इङ्गिता, इङ्गिष्यति इत्यादि ॥ १५८—१६१ [ रिख त्रख, त्रिखि, शिखि, ] इत्यपि केचित् । रिख आदि चार धातु किन्ही आचार्यों के मत मे पूवे डख आदि धातुओ के समान गत्यर्थ हैं । रेखति, रिरेख, रिरिखतुः, रेखिता, रेखिष्यति, रेखिषति, रेखिषाति, रेखतु, अरेखत्, रेखेत्, रिख्यात्, अरेखीत्, अरेखिष्यत् । त्रखति, तत्राख । त्रिड्खति, तित्रिड्ख । शिड्खति, शिशिड्ख ॥ [ त्वगि ] कम्पने च = कांपना । त्वङ्गति । तत्वङ्ग ॥ १६२—१६४ [ युगि, जुगि, बुगि, ] वर्जने = वर्ज देना । युङ्गति, युयुङ्ग । १६५ [ घघ ] हसने = हसना । घघति, जघाघ, जघघ, घाघिषति, घाघिषाति, घघिषति, घघिषाति, अघाघीत्, अघघीत्, अघघिष्यत् ॥ १६६ [ मघि ] मण्डने = समाधान करना<sup>१</sup> । मड्घति, ममड्घ ॥

१ मण्डन का अर्थ 'भूषित करना' भी होता है ।

१६७ [लघि] शोषणे । लङ्घति, ललङ्घ ॥ १६८ [शिघि] आघ्राण  
=सूचना । शिङ्घति, शिशिङ्घ, शिङ्घिता, शिङ्घिष्यति,  
शिङ्घिषति, शिङ्घिषाति, शिङ्घतु, अशिङ्घत्, शिङ्घेत्,  
शिङ्घ्यात्, अशिङ्घीत्, अशिङ्घिष्यत् ॥ इति फक्कादय उदात्ता  
उदात्ते एकपञ्चाशत् समाप्ताः । फक् आदि ५१ धातु समाप्त हुए ॥

अथ चवर्गीयान्तास्त्रिनवतिः । [ तत्र वर्चादय एकविश-  
त्यात्मनेपदिन' । ] अब यहा से आगे ९३ ( तिरानवे ) धातुओ  
का व्याख्यान है [ उनमे वर्चादि २१ आत्मनेपदी है ] ॥

१६९ [ वर्च ] दीप्तौ = प्रकाश होना । वर्चते, ववर्चे, वर्चिता, वर्चि-  
ष्यते, वर्चिषतै, वर्चिषातै, वर्चताम, अवर्चत, वर्चत, वर्चिषीष्ट,  
अवर्चिष्ट, अवर्चिष्यत ॥ १७० [ षच ] सेचने सेवने च =

सीचना, सेवा करना । सचते, सेचे, सेचाते, सेचिरे, सचिता,  
सचिष्यते, साचिषतै, साचिषातै, साचिषते, साचिषाते, सचिषतै,  
सचिषातै, सचिषते, सचिषाते, सचतै, सचातै, सचते, सचाते,  
सचताम, असचत, सचेत, सचिषीष्ट, असचिष्ट, असचिष्यत ॥

१७१ [ लोचृ ] दर्शने = देखना । लोचते, लुलोचे, लोचिषतै,  
लोचिषातै ॥ १७२ [ शच ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना ।

शचते, शेचे, शाचिषतै, शाचिषातै, अशचिष्ट ॥ १७३ १७४  
[ श्वच, श्वचि ] गतौ । श्वचते, श्वञ्चते, शश्वचे, शश्वच्चे,  
श्वचिषतै ॥ १७५ [ कच ] बन्धने = बाधना । कचते, कचचे,

कचिता, कचिष्यते, काचिषतै, काचिषातै, कचताम, अकचत,  
कचेत, कचिषीष्ट, अकचिष्ट, अकचिष्यत ॥ १७६, १७७

१. धातुप्रदीपकार मैत्रेय को छोड़कर अन्य कोई वृत्तिकार इसे नहीं  
पढ़ता । भट्टिकार 'अन्ये चालङ्घिषु. शैलान् गुहास्वन्ये न्यनेषत'  
श्लोक मे इसका गत्यर्थ मे प्रयोग करता है ।

[ कचि, काचि ] दीप्तिबन्धनयो = प्रकाश और बांधना । कञ्चते, काञ्चते, चकञ्चे, चकाञ्चे ॥ १७८, १७९ [ मच, मुचि ] कल्कने = अभिमान करना । मचते, मुञ्चते, मेचे, मुमुञ्चे, मचिता, मचिष्यते, माचिषतै, माचिषातै, मचताम्, अमचत, मचेत, मचिषीष्ट, अमचिष्ट, अमचिष्यत ॥ १८० [ मचि ] धारणोच्छ्रायपूजनेषु = धारण, बढ़ना, सत्कार करना । मञ्चते, ममञ्चे, मञ्चिषतै, मञ्चिषातै ॥ १८१ [ पचि ] व्यक्तीकरणे = प्रकट करना । पञ्चते, पपञ्चे, पञ्चिषतै पञ्चिषातै ॥ १८२ [ ष्टुच ] प्रसादे = प्रसन्न होना । स्तोचते, तुष्टुचे, स्तोचिषतै, स्तोचिषातै, स्ताचताम्, अस्तोचत, स्तोचेत, स्तोचिषीष्ट, अस्तोचिष्ट, अस्तोचिष्यत् ॥ १८३ [ ऋज ] गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु = गति—ज्ञान, गमन. प्राप्ति, स्थिति, संचय, समीप मे वस्तु जाड़ना । अर्जते, ऋज्+ऋज्+एश्= आनृजे ( १०८ ) ( ४० ) ( ११२ ) ( १४७ ), आनृजाते, आनृजिरे, अर्जिता, अर्जिष्यते, अर्जिषतै, अर्जिषातै, अर्जताम्, आर्जत, अर्जेत, अर्जिषीष्ट, आर्जिष्ट, आर्जिष्यत ॥ १८४, १८५ [ ऋजि, भृजी ] भर्जने = भूजना । ऋञ्जते, भर्जते, ऋञ्जाञ्चके, बभृजे, ऋञ्जिता, भर्जिता, ऋञ्जिष्यते, भर्जिष्यते, आर्जिष्ट, अभर्जिष्ट ॥ १८६—१८८ [ एजृ, भ्रेजृ, भ्राजृ ] दीप्तौ = प्रकाश होना । एजते, एजाञ्चके, एजाम्बभूव, एजामास, एजिता, एजिष्यते, एजिषतै, एजिषातै, एजताम्, ऐजत, एजेत, एजिषीष्ट, ऐजिष्ट, ऐजिष्यत । भ्रेजते, विभ्रेजे । भ्राजते, बभ्राजे, इत्यादि ॥ १८९ [ ईज ] गतिकुत्सनयोः = गति, निन्दा । ईजते, ईजाञ्चके, ईजाम्बभूव, ईजामास, ईजिता, ईजिष्यते, ईजिषतै, ईजिषातै, ईजताम्, ऐजत, ईजेत, ईजिषीष्ट, ऐजिष्ट, ऐजिष्यत । इति वर्चादय उदात्ता अनुदात्तेत एकविंशतिः समाप्ताः ॥

अथ [ शुचादयो ] द्विसप्ततिर्ब्रज्यन्ताः परस्मैपदिनः ।  
 अब यहां से आगे परस्मैपदी ७२ [ बहत्तर ] धातुओं का व्याख्यान  
 है ॥ १६० [ शुच ] शोके = शोचना । शोचति, शुशोच,  
 शुशुचतुः, शोचिता, शोचिष्यति, शोचिषात्, शोचिषाति, शोचिषत्,  
 शोचिषात्, शोचिषद्, शोचिषाद्, शोचति, शोचाति, शोचतु,  
 अशोचत्, शोचेत्, शुच्यात्, अशोचीत्, अशोचिष्यत् ॥  
 १६१ [ कुच ] शब्दे तारे = एकरस शब्द होना । कोचति, चुकोच,  
 कोचिषति, कोचिषाति ॥ १६२, १९३ [ कुञ्च, कुञ्च ]  
 गतिकौटिल्याल्पीभावयोः = टैड़ा चलना, थोड़ा होना । कुञ्चति,  
 क्रुञ्चति, चुकुञ्च, चुक्रुञ्च, कुच्यात् ( १३९ ), क्रुञ्च्यात् ॥  
 १९४ [ लुञ्च ] अपनयने = दूर करना । लुञ्चति, लुलुञ्च,  
 लुञ्चिता, लुच्यात् ( १३६ ), अलुञ्चत्, अलुञ्चिष्यत् ॥  
 १६५ [ अञ्चु ] गतिपूजनयो = गति और पूजा । अञ्चति,  
 अञ्चिषति, अञ्चिषाति, अच्यात् \* ॥ १९६—२०३ [ वञ्चु,  
 चञ्चु, तञ्चु, त्वञ्चु, प्रञ्चु, म्लुञ्चु, झुञ्चु, म्लुञ्चु ]  
 गत्यर्थाः । वञ्चति, वच्यात्, चच्यात्, तच्यात्, त्वच्यात्,  
 मुच्यात्, म्लुच्यात् ।

१५४—जृस्तम्भुञ्चुम्लुञ्चुग्रुञ्चुग्लुञ्चुग्लुञ्चुश्वि-  
 भ्यश्च ॥ ३ । १ । ५८ ॥

\* अञ्चु धातु के नकार का लोप गति अर्थ में ही होता है और  
 “ नाञ्चे पूजायाम् ” । ( अ० २ । ४ । ३० ) इत सूत्र से पूजा अर्थ में  
 नकार का लोप नहीं होता वहा “ अञ्च्यात् ” प्रयोग होता है ॥

१. परेश्र घाङ्कयो. ( अ० ८ । २ । २२ ) सूत्र के महाभाष्य से  
 ज्ञापित होता है कि ‘क्रुञ्च’ धातु नकारोपध नहीं है । अत सूत्र १३  
 से अनुनासिक का लोप नहीं होता ।

ज्, स्तम्भु, मुचु, म्लुचु, पुचु, ग्लुचु, ग्लुञ्चु, और च्चि धातुओं से परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान में अद् आदेश विकल्प करके होवे। अमुचत्, अमोचीत्, अम्लुचत्, अम्लोचीत् ॥ २०४—२०७ [ मुचु, ग्लुचु, कुचु, खुचु ] स्तेय-करणे = चोरी करना। मोचति, जुमोच, जुमुचतु, मोचिता, मोचिष्यति, मोचिषति, मोचिषाति, मोचतु, अमोचत्, मोचेत्, मुच्यात्, अमुचत्, अमोचीत्, ग्लोचति, ग्लुच्यात्, अग्लुचत्, अग्लोचीत्, कोजति, चुकोज, कुज्यात्, अकोजीत्, खुज्यात्, अखोजीत् ॥ २०८, २०९ [ ग्लुञ्चु, षस्ज ] गतौ। ग्लुञ्चति, जुग्लुञ्च, ग्लुच्यात् (१३९), अग्लुचत्, अग्लोचीत्। सज्जति ऋ, ससज्ज, सज्जिता, सज्जिष्यति, सज्जिषति, सज्जिषाति, सज्जतु, असज्जत्, सज्जेत्, सज्ज्यात्, असज्जीत्, असज्जिष्यत् ॥ सज्जतिः स्वरित्तोदित्येके। किन्ही आचार्यों के मत में यह सस्ज धातु स्वरितेत्, अर्थात् [ कर्त्रभिप्राय मे ] आत्मनेपदी भी है। इससे सज्जते, ससज्जे इत्यादि प्रयोग भी होते हैं ॥ २१०, २११ [ गुज गुजि ] अव्यक्ते शब्दे = अप्रकट शब्द का होना। गोजति, गुञ्जति, जुगुञ्ज, गुञ्ज्यात्, अगुञ्जीत्, अगुञ्जिष्यत् ॥

\* सस्ज धातु के हल् सकार को “स्तो ष्चुना ष्चु.” ( सन्धि० २१३ ) इस सूत्र से ञकार और उस शकार को “ञला जश् ञशि” ( सन्धि० २३४ ) इस सूत्र में ञकार हो जाता है ॥

१. वस्तुतः महाभाष्यकार के ‘यद्भिप्रायेषु सज्जते’ ( महा० ३।० १।२७ ) इस प्रयोग से ज्ञापित होता है कि यह धातु आत्मनेपदी भी है। स्वरितेत् मानने पर अकर्त्रभिप्राय में आत्मनेपद नहीं हो सकता। महाभाष्यकार का उपर्युक्त प्रयोग अकर्त्रभिप्राय विषयक ही है। अतः किन्ही आचार्यों का इमे स्वरितेत् मानना अयुक्त है।

२१२ [ अर्च ] पूजायाम् । अर्चति, आनर्च ( ११२ ) ( १४७ ),  
 अर्चिता, अर्चिष्यति, अर्चिषति, अर्चिषाति, अर्चतु, आर्चत्,  
 अर्चेत्, अर्च्योत्, आर्चीत्, आर्चिष्यत् ॥ २१३ [ म्लेच्छ ]  
 अव्यक्ते शब्दे । म्लेच्छति, मिम्लेच्छ ॥ २१४, २१५ [ लच्छ,  
 लाच्छि ] लक्षणे = चिह्न करना । लच्छति, ललच्छ, लच्छिता,  
 लच्छिष्यति, लच्छिषति, लच्छिषाति, लच्छतु, अलच्छत्, लच्छेत्  
 लच्छन्नात्, अलच्छीत्, अलच्छिष्यत् ; लाच्छति, ललाच्छ ॥  
 २१६ [ वाच्छि ] इच्छायाम् । वाच्छति, ववाच्छ ॥  
 २१७ [ आच्छि ] आयामे = विस्तार । आच्छति, आच्छ<sup>१</sup>, आ-  
 च्छिता, आच्छिष्यति, आच्छिषति, आच्छिषाति, आच्छतु,  
 आच्छत्, आच्छेत्, आच्छ्यात्, आच्छीत्, आच्छिष्यत् ॥  
 २१८ [ ह्रीच्छ ] लज्जायाम् । ह्रीच्छति, जिहीच्छ ॥  
 २१९ [ हुर्छा ] कौटिल्ये = कुटिलपन । ( १३१ ) इस सूत्र से रेफ  
 की उपधा को दीर्घ होकर—हूर्च्छति, जुहूर्च्छ, हूर्च्छिता, हूर्च्छिष्यति,  
 हूर्च्छिषति, हूर्च्छिषाति, हूर्च्छतु, अहूर्च्छत्, हूर्छेत्, हूर्छ्यात्,  
 अहूर्च्छीत्, अहूर्च्छिष्यत् ॥ २२० [ मुर्छा ] मोहसमुच्छ्रा-  
 ययोः = अज्ञान, बढ़ना । मूर्च्छति, मुमूर्च्छे ॥ २२१ [ स्फुर्छा ]

१ अभ्यास में ह्रस्व का विधान होने से अभ्यास में अकार ह्रस्व ही मिलेगा फिर “अत आदे” ( आ० ११२ ) सूत्र में तपर करना व्यर्थ है । अतः तपरकरण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि अभ्यास में जो स्वभावतः ह्रस्व है उसे ही दीर्घ होता है जो दीर्घ को ह्रस्व हुआ है उसे दीर्घ नहीं होता । इसलिये यहा ‘आच्छ’ में अभ्यास को दीर्घ नहीं हुआ और दीर्घ न होने से १४७ से नुट् का आगम भी नहीं हुआ । अन्य आचार्य सूत्र ११२ में तकार को मुखसुखार्थ ज्ञासते हैं उनके मत में “आनच्छ” प्रयोग बनता है ।

विस्तृतौ = विस्तार । स्फूर्च्छति, पुस्फूर्च्छ ( १२४ ), अस्फूर्च्छति ॥  
 २२२ [ युञ्ज ] प्रमादे । युञ्जति, युयुञ्छ ॥ २२३ [ उञ्छि ] उञ्छे =  
 उञ्चना । उञ्छति, उञ्छान्चकार, उञ्छाम्बभूव, उञ्छामास,  
 उञ्छिता, उञ्छिष्यति, उञ्छिषति, उञ्छिषाति, उञ्छतु, अञ्-  
 छत्, उञ्छेत्, उञ्छ्यात्, अञ्छीत्, अञ्छिष्यत् ॥  
 २२४ [ उञ्छी ] विवासे = समाप्ति । व्युञ्छति, उञ्छति । उञ्छी  
 धातु के बहुधा वि उपसर्गपूर्वक ही प्रयोग आते हैं । और इस  
 धातु में छकार के परे तुगागम् होने से इजाद गुरुमान् होने से  
 आम् प्रत्यय होता है इसमें 'अनृच्छः' यह प्रतिषेध ज्ञापक है ।  
 व्युञ्छान्चकार ॥ २२५—२३० [ ध्रज, ध्राजि, धृज, धृजि,  
 ध्वज, ध्वाजि ] गतौ । ध्रजति, ध्रञ्जति, धर्जति, धृञ्जति,  
 ध्वजति, ध्वञ्जति; दध्राज, दध्रञ्ज, दधर्ज, दधृजतुः, दधृञ्ज,  
 दध्वाज, दध्वञ्ज, अध्राजीत्, अध्रजीत्, अध्रञ्जीत्, अधर्जात्,  
 अधृञ्जीत्, अध्वाजीत्, अध्वजीत्, अध्वञ्जीत् ॥  
 २३१ [ कृज ] अव्यक्ते शब्दे । कृजति, चुकृज, अकृजीत् ॥  
 २३२, २३३ [ अर्ज, षर्ज ] अर्जने = सचय करना । अर्जेति,  
 आनर्ज, अर्जिता, अर्जिष्यति, अर्जिषति, अर्जिषाति, अर्जत्, अर्जेत्,  
 अर्जत्, अर्ज्यात्, अर्जात्, अर्जिष्यत्, सर्जति, ससर्ज ॥ २३४ [ गर्ज ]  
 शब्दे = गर्जना । गर्जति, जगर्ज ॥ २३५ [ तर्ज ] भर्त्सने =  
 धमकाना । तर्जेति ॥ २३६ [ कर्ज ] व्यथने । कर्जेति,  
 चकर्जे ॥ १३७ [ खर्ज ] पूजने = सत्कार । खर्जेति,  
 चखर्जे ॥ २३८ [ अज ] गतिक्षेपणयो = गति और फेकना ।  
 अजति, अजतः, अजन्ति ।

१५५—अजेवर्यघञपोः ॥ २ । ४ । ५६ ॥

घञ् और अप् प्रत्ययो को छोड़ कर अन्य आर्धधातुकविषय



में अज धातु को वी आदेश होवे । यहां लिट् मे वी होकर—  
वी+वी+णल् = विवाय ( ६० ) ।

१५६—अनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ॥ ६ । ४ । ८२ ॥

संयोग जिसके पूर्व न हो ऐसा जो अनेकाच् धातु का अवयव  
इवर्ण उसको अच् परे हो तो यण् आदेश हो जावे । वी+वी+  
अतुस् = विव्यतुः, विव्युः । यहां यणादेश होने के पश्चात् वकार  
की उपधा अभ्यास के इकार को ( १३१ ) सूत्र से दीर्घ प्राप्त है, परंतु  
“प्रतिषेधे स्वरदीर्घयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवत् ”  
( सन्धिवि० ९३ ) इस वार्तिक से दीर्घविधि के करने मे लोपरूप जो  
अच् के स्थान मे आदेश है वही स्थानिवत् न हो अन्य आदेश तो  
स्थानिवत् हो ही जावे, इससे यणादेश के स्थानिवत् हो जाने से  
दीर्घ नहीं होता । अब इस वी अनिट् धातु से परे थल् मे ( १४८ )  
सूत्र के नियम से नित्य इडागम प्राप्त हुआ ।

१५७—अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् ॥

७ । २ । ६१ ॥

तास् प्रत्यय के परे नित्य अनिट् जो अजन्त धातु उन से परे  
जो थल् वलादि आर्धधातुक उसको इट् का आगम न होवे । फिर  
( १४९ ) सूत्र से भारद्वाज आचार्य के मत मे ऋकारान्तो के  
निषेध का नियम होने से भारद्वाज के मत में इस वी धातु से परे  
थल् को इट् होता है अन्य ऋषियो के मत मे नहीं । वि+वी+  
इट्+थल् = विवयिथ, विवेथ, विव्यथुः, विव्य, विवाय, ( १४३ )  
विवय, यहां णित् के विकल्प होने से पक्ष में ( २१ ) से गुण हो  
जाता है । विव्यिथ, विव्यिम और वलादि आर्धधातुकविषय में  
महाभाष्य के “इदमपि सिद्धं भवति प्राजितेति” इत्यादि

व्याख्यानरूप प्रमाण से विकल्प कर के वी आदेश होता है, इस से थल मे “आजिथ” यह भी प्रयोग होता है<sup>१</sup>। “लुट्:”—वेता, वेतारौ, वेतार., वेतासि, वेतास्य:, वेतास्य, वेतास्मि, वेतास्व:, वेतास्म:, अजिता, अजितारौ, अजितार:, वेष्यति, वष्यत:, वेष्यन्ति, अजिष्यति; वैषति, वैषाति, वैषत्, वैषात्, वैषद्, वैषाद्, वैषति, वैषाति, वैषत्, वैषात्, वैषद्, वैषाद्, आजिषति, आजिषाति, अजिषति, अजिषाति इत्यादि, अजतु, आजत्, अजेत्, वीयात् ।

१५८—सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ॥ ७ । २ । १ ॥

परस्मैपद विषय में सिच् प्रत्यय परे हो तो इगन्त-अङ्ग को वृद्धि होवे । अट् + वी + सिच् + तिप् = अवैषीत्, अवैष्टाम्, अवैषु, अवैषी:, अवैष्टम्, अवैष्ट, अवैषम्, अवैष्व, अवैष्म, आजीत्, आजिष्टाम्, आजिषु:, अवैष्यत्, आजिष्यत् ॥

२३९ [ तेज ] पालने = पालना । तेजति, तितेज, तेजिता, तेजिष्यति, तेजिषति, तेजिषाति, तेजतु, अतेजत्, तेजेत्, तेज्यात्, अतेजीत्, अतेजिष्यत् ॥ २४० [ खज ] मन्थे = विलोडना ।

खजति, चखाज, चखज, अखाजीत्, अखर्जात् ॥

२४१ [ खजि ] गतिवैकल्ये = बुरे प्रकार चलना<sup>२</sup> । खञ्जति, चखञ्ज ॥ २४१ [ एजृ ] कम्पने = कांपना । एजति,

एजाञ्चकार, एजाम्बभूव, एजामास, एजिता, एजिष्यति, एजिषति, एजिषाति, एजतु, एजेत्, एजेत्, एज्यात्, एजीत्, एजिष्यत् ॥

१ धातुवृत्तिकार के मत में ‘वस् मस्’ में भी “आजिव, आजिम” प्रयोग बनते हैं । अन्य वैयाकरणों के मत में वस् मस् में क्र्यादिनियम से इट् की नित्यप्राप्ति होने से वलादि आर्धधातुक नहीं रहता अतः वे नित्य ‘वी’ आदेश मानते हैं ।

२. लगाइ कर चलना ।

२४३ [ दुओस्फूर्जा ] वज्रनिर्घोषे = भयकर शब्द होना<sup>१</sup> । दु की इत्संज्ञा ( १५० ) और ओकार की “उपदेशे” ( आ० २५ ) सूत्र से इत्संज्ञा होकर—स्फूर्जति, पुस्फूर्जे, स्फूर्जिता, स्फूर्जिष्यति, स्फूर्जिषति, स्फूर्जिषाति ॥ २४४ [ क्षि<sup>२</sup> ] क्षये = नाश । यह धातु अकमेक और अनिट् है । क्षयति, [ २१ ] क्षयतः, क्षयन्ति, क्षयसि, क्षयथ, क्षयथ, क्षयामि, क्षयावः, क्षयाम., चिक्षाय ( ६० ) †

१५६—अचि रनुधातुभ्रवां र्वोरियडुवडौ ॥

६ । ४ । ७७ ॥

रनु प्रत्यय, धातु और भ्र शब्द इन के इवणं उवणं को इयङ् उवङ् आदेश यथासख्य करके हो अच् परे हो तो । क्षि + क्षि + अतुस् = चिक्षियतुः, चिक्षियुः, चिक्षियथ, ( १५८ ) ( १४९ ) चिक्षेथ, चिक्षियथुः, चिक्षिय, चिक्षाय, चिक्षय, चिक्षियिव, चिक्षियिम, क्षेता, क्षेतारौ, क्षेतारः, क्षेप्यति, क्षैषति, क्षैषाति, क्षैषति, क्षैषाति, क्षयतु, अक्षयत्, क्षयेत् ।

१६०—अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः ॥ ७-४। २५ ॥

कृत्सङ्गक प्रत्यय और सार्वधातुक विषय को छोड़कर र्यकारादिकित् डित् प्रत्यय परे हो तो अजन्त अङ्ग को दीर्घ आदेश हो । क्षि + यासुट् + तिप् = क्षीयात्, क्षीयास्ताम्, क्षीयासुः, क्षीया., अक्षैषीत्, अक्षैष्टाम्, अक्षैषुः अक्षैषीः, अक्षैष्टम्, अक्षैष्ट, अक्षैषम्, अक्षैष्व, अक्षैष्म, अक्षैष्यत् ॥ २४५ [ क्षीज ] अव्यक्ते

१. बिजली की कड़क = शब्द होना ।

२. धातुवृत्तिकार का मत है— उत्तर धातु की साम्यता से अजन्त ‘क्षि’ धातु भी यहा पडा है । नव्य लोग ‘अजन्त प्रकरण में ही इस का पाठ होना चाहिये’ ऐसा मानते हैं ।

शब्दे<sup>१</sup> । क्षीजति, चिञ्जी, अक्षीजीत्, अक्षीजिष्यत् ॥  
 २४६, २४७ [ लज, लाजि ] भर्जने = भूञ्जना । लजति, ललाज,  
 ललज, लाजिषति, लाजिषाति, अलाजीत्, अलजीत्, लब्जति,  
 ललब्ज ॥ २४८, २४९ [ लाज, लाजि ] भर्त्सने च =  
 धमकाना । लाजति, ललाज, ललाजतु, लाब्जति ॥  
 २५०, २५१ [ जज, जजि ] युद्धे = लड़ाई । जजति, जजाज,  
 जजज, जाजिषति, जाजिषाति, अजाजीत्, अजजीत्, ज्वजति,  
 जजब्ज ॥ २५२ [ तुज ] हिंसायाम् । तोजति, तुतोज,  
 तुतुजतु, तोजिता ॥ २५३ [ तुजि ] पालने च । चकार से  
 हिंसा अर्थ भी जानो । तुब्जति, तुतुब्ज ॥ २५४—२५९  
 [ गज, गजि, गृज, गृजि, मुज, मुजि ] शब्दार्थाः = शब्द होना ।  
 गजति, गब्जति, गजेति, गृब्जति, मोजति, मुब्जति, जगाज,  
 जगब्ज, जगर्ज, जगृब्ज, मुमोज, मुमुब्ज, अगाजीत्, अग-  
 जीत् ॥ [ गज ] मदे च = अहंकार । चकार से शब्दार्थ भी है ॥  
 २६०, २६१ [ वज, व्रज ] गतौ । वजति, ववाज, ववजतुः  
 ( १२८ ), ववजु, ववाज, ववज, वाजिषति, वाजिषाति, वजतु,  
 अवजत्, वजेत्, वज्यात्, अवाजीत्, अवजीत्, अवजिष्यत्;

१ इस धातु को 'कृज' ( धातु सख्या २३० ) के साथ पढ़ना चाहिये यह नवीन वैयाकरणों का मत है । अप्रसिद्ध होने से 'कृज' के साथ नहीं पढ़ा, यह सायण का मत है । धातुप्रदीपकार मैत्रेयरक्षित लिखता है—क्षीज और कृज में अर्थ का भेद होने से पृथक्-पृथक् पढ़ा है । 'कृजन्ति कपोता.' यहाँ 'कपोत शब्द करते हैं' अर्थ है । 'क्षीजति दासी' यहाँ 'दुःखी होकर शब्द करती है' यह अर्थ प्रतीत होता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । हमारा विचार है क्षीज धातु का अर्थ 'क्षीजना' ( क्रोध में बढ़बढाना ) है ।

व्रजति, वव्राज, अव्राजीत् ( १३५ ) से नित्य वृद्धि होती है ।

१६१—तुजादीनां दीर्घाऽभ्यासस्य ॥ ६ । १ । ७ ॥

तुज आदि जिन धातुओं के अभ्यास को वेद में दीर्घादेश आवे, उसकी सिद्धि इस सूत्र से समझनी चाहिये । तूतुजानः, जागाज, मूमोज, वावाज, वाव्राज, दाधार, मामहानः इत्यादि । यह सूत्र सामान्य करके प्रवृत्त हाता है ॥ इति शुचादय उदात्ता-उदात्तैः क्षिबर्ज परस्मैपदिनः समाप्ताः ॥

अथ टवर्गीयान्ता अष्टाधिकं शतम् [तत्राष्टादय षट्त्रिंश-दात्मनेपदिनः] । अब टवर्गोन्त १०८ एकसौ आठ धातुओं का व्याख्यान है, उनमें से प्रथम [अष्टादि] ३६ धातु आत्मनेपदी हैं । २६२ [ अट्ट ] अतिक्रमणहिसनयो. = उल्लघना, मारना । अट्टते, आनट्टे, अट्टिता, अट्टिष्यत, अट्टिष्यतै, अट्टिष्यतै, अट्टताम्, आट्टत, अट्टेत, अट्टिषीष्ट, आट्टिष्ट, आट्टिष्यत ॥ २६३ [ वेष्ट ] वेष्टने = लपेटना । वेष्टते, विवेष्टे । अवेष्टिष्ट ॥ २६४ [ चेष्ट ] चेष्टायाम् = क्रिया करना । चेष्टते, चिचेष्टे, अचेष्टिष्ट ॥ २६५, २६६ [ गोष्ट,

१ यह धातु दोषध है । इसलिये सन् में 'नन्दा संयोगादय' ( आ० ३२६ ) से दकार का द्विवचन नहीं होता, अतः 'अट्टिषति' रूप होगा । कई वैयाकरण इसे तोषध मानते हैं । इस पक्ष में भी दो मत हैं । अनेक वैयाकरण "पूर्वत्रासिद्धीयमद्विवचने" ( पारि० १०४ ) इस नियम से षुत्व को सिद्ध मानकर 'अट्टिषति' प्रयोग मानते हैं । अन्य 'उभौ साभ्यासस्य' ( आ० ८९२ ) सूत्र से अभ्यास को गत्व विधान करने से "पूर्वत्रासिद्धीयमद्विवचने" इस नियम को अनित्य मानते हैं, क्योंकि पूर्व नियम से धातु को विधान किया हुआ गत्व अभ्यास में ही जाता । अतः वे 'अट्टिषति' प्रयोग स्वीकार करते हैं । इस प्रकार सन् में मत भेद से तीन प्रयोग बनते हैं ।

लोष्ट ] सङ्घाते = समुदाय । गोष्टते, जुगोष्टे, गोष्टिता, गोष्टिष्यते, गोष्टिषतै, गोष्टिषातै, गोष्टताम् अगोष्टत, गोष्टेत, गोष्टिषीष्ट, अगोष्टिष्ट, अगोष्टिष्यत, लोष्टते, लुलोष्टे ॥ २६७ [ घट्ट ] चलने । घट्टते, जघट्टे, घट्टिता ॥ २६८ [ स्फुट ] विकसने = फैलना । स्फोटते, पुस्फुटे, स्फोटिता, स्फोटिष्यते, स्फोटिषतै, स्फोटिषातै, स्फोटताम्, अस्फोटत, स्फोटेत, स्फोटिषीष्ट, अस्फोटिष्ट, अस्फोटिष्यत ॥ २६९ ( अठि ) गतौ । अगठते, आनगठे ॥ २७० [ वठि ] एकचर्यायाम् = एक का सेवन<sup>१</sup> । वगठते, ववगठे ॥ २७१, २७२ [ मठि, कठि ] शोके = शोचना । मगठते, ममगठे, कगठते, चकगठे, कगिठता, कगिठिष्यत, कगिठिषतै, कगिठिषातै, कगठताम्, अकगठत, कगठेत, कगिठिषीष्ट, अकगिठिष्ट, अकगिठिष्यत ॥ २७३ [ मुठि ] पालने = रक्षा । मुगठत; मुमुगठे ॥ २७४ [ हेठ ] विबाधायाम् = मूर्खता । हेठते, जिहेठे ॥ २७५ [ एठ ] च<sup>२</sup> । एठते, एठाव्चक्रे, एठाम्बभूव, एठामास ॥ २७६ [ हिडि ] गत्यनादरयोः = चलना, तिरस्कार । हिगडत, जिहिगडे, हिगिडता, हिगिडिष्यते, हिगिडिषतै, हिगिडिषातै, हिगडताम्, अहिगडत, हिगडेत, हिगिडिषीष्ट, अहिगिडिष्ट, अहिगिडिष्यत ॥ २७७ [ हुडि ] सङ्घाते । हुगडते, जुहुगडे ॥ २७८ [ कुडि ] दाहे = जलना । कुगडते, चुकुगडे, ॥ २७९ [ वडि ] विभाजने = विभाग करना । वगडते, ववगडे ॥ २८० [ मडि ] च । मगडते ॥ २८१ [ भडि ] परिभाषणे = बहुत बोलना<sup>३</sup> । भगडते, बभगडे, भगिडता, भगिडिष्यते, भगिडिषतै, भगिडिषातै, भगडताम्, अभगडत, भगडेते, भगिडिषीष्ट, अभगिडिष्ट, अभगिडिष्यत ॥ २८२ [ पिडि ] सङ्घाते । पगडत

१. एकचर्या = अकेला जाना—सायण । २. मूर्खता करना अर्थात् एंठना । ३. क्षीरस्वामी आदि परिभाषण का 'सङ्घ विषय मे बोलना' अर्थ करते हैं । इसीलिये दूत को 'भडिळ' कहते हैं ।

पिपिण्डे ॥ २८३ [मुडि] मार्जने = शोधना । मुण्डते, मुमुण्डे ॥  
 २८४ [तुडि] तोडने = तोड़ना । तुण्डते ॥ २८५ [हुडि] वरणे =  
 ग्रहण करनी । हरण इत्येके । किन्ही आचार्यों के मत में यह धा तु  
 हरने अर्थ में है । हुण्डते, जुहुण्डे ॥ २८६ [चाडि] कोपे = क्रोध ।  
 चण्डते, चचण्डे, चण्डिता, चण्डिष्यते, चण्डिषतै, चण्डिषातै,  
 चण्डिताम्, अचण्डित, चण्डेत, चण्डिषीष्ट, अचण्डिष्ट, अच-  
 ण्डिष्यत् ॥ २८७ [शडि] रुजायां सङ्घाते च = रोग, समुदाय ।  
 शण्डते, शशण्डे ॥ २८८ [तडि] ताडने = ताड़ना । तण्डते,  
 ततण्डे ॥ २८९ [पडि] गतौ । पण्डते, पपण्डे ॥ २९० [कडि]  
 मदे = अहंकार; कण्डते, चकण्डे ॥ २९१ [खडि] मन्थे । खण्डते,  
 चखण्डे ॥ २९२, २९३ [हेडु; होडु] अनादरे = तिरस्कार । हेडते ।  
 होडते, जिहेडे, जुहोडे ॥ २९४ [वाडु] आप्लाव्ये = सब प्रकार  
 चलना । वाडते, ववाडे ॥ २९५, २९६ [द्राडु ध्राडु] विशरणे =  
 मारना । द्राडते, दद्राडे । ध्राडते, दध्राडे ॥ २९७ [शाडु] श्ला-  
 घायाम् = प्रशंसा । शाडते । शशाडे । इत्यद्दादय उदात्ता अनु-  
 दात्तेत । षट्त्रिंशत् समाप्ताः । य अट्ट आदि ३६ धातु समाप्त  
 हुए ॥

अथ [शौटादयः] परस्मैपदिनं द्वांसप्ततिः । अब ७२ बहत्तर  
 धातु परस्मैपदी कहते हैं ॥ २९८ [शौटु] गर्वे = अभिमान । शौटति,  
 शुशौट, शौटिता, शौटिष्यति, शौटिषति । शौटिषाति, शौटतु, अशौटत्,  
 शौटैत्, शौट्यात्, अशौटीत्, अशौटिष्यत् ॥ २९९ [यौटु] बन्धने  
 = बान्धना । यौटति ॥ ३००, ३०१ [म्लेटु म्लेटु] उन्मादे =  
 उन्मत्त होना । म्लेटति, मिम्लेट; म्लेटति, मिम्लेट ॥ ३०२ [कटे]  
 वर्षाविरणयोः = वर्षना, ढांकना । इस धातु का एकार इत्संज्ञक  
 होता है, प्रयोजन आगे लिखा है । कटति, चकाट, चकटतु, चकटुः,  
 कटिता, कटिष्यति, काटिषति, काटिषाति, कटिषति, कटिषाति,

[ मुट, पुट ' ] मर्दने = मलना । मोटति, पोटति, मुमोट, पुपोट, मोटिता, मोटिष्यति मोटिषति, मोटिषाति, मोटतु, अमोटत्, मोटैत्, मुट्यात्, अमोटीत्, अमोटिष्यत् ॥  
 ३३३ [ चुडि ] अल्पीभावे = थोडा होना । चुण्डति, चुचुण्ड ॥  
 ३३४ [ मुडि ] खण्डने = काटना । मुण्डति, मुमुण्ड, मुण्डिता, मुण्डिष्यति, मुण्डिषति, मुण्डिषाति, मुण्डतु, अमुण्डत्, मुण्डेत्, मुण्ड्यात्, अमुण्डीत्, अमुण्डिष्यत् ॥ [ पुडि ] चेत्येके । किन्ही ऋषियो के मत मे पुडि धातु भी मुडि के समान खण्डन अर्थ मे है ॥ ३३५, ३३६ [ रुटि, लुटि ] स्तेये = चोरी । रुण्टति, लुण्टति, रुण्ट, लुण्ट, लुण्टिता, लुण्टिष्यति, लुण्टिषति, लुण्टिषाति, लुण्टतु, अलुण्टत्, लुण्टेत्, लुण्ट्यात्, अलुण्टीत्, अलुण्टिष्यत् ॥ [ रुठि, लुठि ] इत्येके । किन्हीं आचार्यों के मत में रुठि लुठि धातु भी चोरी अर्थ में हैं । रुण्ठति, लुण्ठति, रुण्ठ, लुण्ठ ॥ ३३७ [ स्फुटिर् ] विशरणे = मारना । स्फोटति, पुस्फोट, स्फाटिता, स्फोटिष्यति, स्फोटिषति, स्फोटिषाति, स्फोटतु, अस्फोटत्, स्फोटैत्, स्फुट्यात्, अस्फुटत्, अस्फोटीत् ( १३८ ), अस्फोटिष्यत् ॥ ३३८ [ पठ ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना । पठति, पपाठ, पेठतुः, पेठुः, पेठिथ, पठिता, पठिष्यति, पाठिषति, पाठिषाति, पठिषति, पठिषाति, पठतु, अपठत्, पठेत्, पठ्यात्, अपाठीत्, अपठीत्, अपठिष्यत् ॥ ३३९ [ वठ ] स्थौल्ये = मोटा होना । वठति, ववाठ । ववठतुः, ववठुः, वठिता, वठिष्यति, वाठिषाति, वाठिषाति,

१ कुछ वृत्तिकार 'प्रुट', और अन्य 'प्रुड' पाठ मानते है । कई वैयाकरण 'मुड प्रुड' पाठ मानते हैं । डान्त प्रकरण के अनुरोध से यही ठीक प्रतीत होता है ।



बठु, अबठत्, बठेत्, बठ्यात्, अवाठीत्, अबठीत्, अबठिष्यत् ॥ ३५० [मठ] मदनिवासयोः = अभिमान, करना, वपना । मठति, ममाठ, मेठतुः, अमाठीत्, अमठीत् ॥ ३४१ [कठ] कृच्छ्रजावने = दुःख से जीना । कठति, चकाठ, चकठतुः, अकाठीत्, अकठीत् ॥ ३४२ [रठ] परिभाषणे = बहुत बोलना । रठति, रराठ, रेठतुः, अराठीत्, अरठीत् ॥ ३४३ [हठ] प्लुतिशठत्वयोः = कूदना, मूर्खपन । हठति, जहाठ, जहठतुः, अहाठीत्, अहठीत्, अहठिष्यत् ॥ बलात्कार इत्येके । किन्हीं आचार्यों के मत में हठ धातु बलात्कार करने अर्थ में है ॥ ३४४—३४६ [रुठ, लुठ, उठ] उपघाते = समीप से मारना । रोठति, लोठति, हरोठ, लुलोठ, रोठिता, रोठिष्यति, रोठिषति, रोठिषति, रोठतु, अरोठत्, राठेत्, रुठ्यात्, अरोठीत्, अरोठिष्यत्, ओठति, उवोठ (१५३), ऊठतुः, ऊठुः, उवोठिथ, औठीत्, औठिष्यत् ॥ [ऊठ] इत्येके । किन्हीं आचार्यों के मत में यह ऊठ दीर्घ ऊकारयुक्त धातु है ह्रस्व नहीं । ऊठति, ऊठाञ्चकार, ऊठाम्बभूव, ऊठामास ॥ ३४७ [पिठ] हिंसासंक्लेशनयोः = हिंसा, अतिदुःख । पेठति, पिपेठ, पेठिता, पेठिष्यति, पेठिषति, पेठिषति, पेठतु । अपेठत्, पेठेत्, पिठ्यात्, अपेठीत्, अपेठिष्यत् ॥ ३४८ [शठ] कैतवे च = चुगली, चकार से हिंसा और संक्लेशन अर्थ भी जानो । शठति, शशाठ, शेठतुः, शठिता, शठिष्यति, शठिषति, शठिषति, शठतु, अशठत्, शठेत्, शठ्यात्, अशाठीत्, अशठीत्, अशठिष्यत् ॥ ३४९ [शुठ] प्रतिघाते = मारते हुए को मारना । शोठति, शुशोठ ॥ [शुठि] इत्येके । किन्हीं लोगो के मत में शुठि 'इदित्' धातु भी प्रतिघात अर्थ में है । शुषठति, शशुषठ ॥ ३५० [कुठि] च ।

यहां चकार से प्रतिघात अर्थ का सम्बन्ध होता है। कुण्ठति, चुकुण्ठ ॥ ३५१ [ लुठि ] आलस्ये प्रतिघाते च । यहां पूर्वोक्त प्रतिघात अर्थ का समुच्चय चकार से किया और अतिस्पष्ट होने के लिये प्रतिघात शब्द पढ़ भी दिया है। लुण्ठति, लुलुण्ठ ॥ ३५२ [ शुठि ] शोषणे = सोखना । शुण्ठति ॥ ३५३, ३५४ [ रुठि, लुठि ] गतौ । रुण्ठति, लुण्ठति ॥ ३५५ [ चुडु ] भावकरणे = अभिप्राय जताना । चुडुति, चुचुडु ॥ ३५६ [ अडु ] अभियोगे = सर्वथा योग होना । अडुति, आनडु ॥ ३५७ [ कडु ] कार्कश्ये = कठोरपन । कडुति, चकडु, अकडुति ॥ ३५८ [ क्रीडु ] विहारे = खेलना । क्रीडति, चिक्रीड, क्रीडिता, क्रीडिष्यति, क्रीडिषति, क्रीडिषति, क्रीडतु, अक्रीडत्, क्रीडेत्, क्रीड्यात्, अक्रीडीत्, अक्रीडिष्यत् ॥ ३५९ [ तुडु ] तोडने = तोड़ना । तोडति, तुतोड ॥ [ तूडु ] इत्येके । तूडति, तुतूड, तूडिता, तूडिष्यति, तूडिषति, तूडिषति, तूडतु, अतूडत्, तूडेत्, तूड्यात्, अतूडीत्, अतूडिष्यत् ॥ ३६०—३६२ [ हुडु, हूडु, होडु ] गतौ । होडति, जुहोड, जुहुडतुः, होडिता, होडिष्यति, होडिषति, होडिषति, होडतु, अहोडत्, होडेत्, हुड्यात्, अहोडीत्, अहोडिष्यत्, हूडति, जुहूड; होडति, जुहोड, जुहोडतुः, जुहोडु ॥ ३६३ [ रौडु ] अनादरे = तिरस्कार । रौडति, रुरौड ॥ ३६३, ३६५ [ रौडु, लौडु ] उन्मादे = उन्मत्तपन । रौडति,

१. चुडु, अडु, कडु ये तीन धातुएं दोषध हैं अतः क्तिप् प्रत्यय में इन के रूप क्रमशः 'चुत्, अत्, कत्' होते हैं । सनादि परे रहने पर "नन्द्वा सयोगादयः" ( आ० ३२६ ) से दकार को द्विर्वचन नहीं होता । इसलिये 'अडु' का सन् में 'अडुडिषति' प्रयोग बनता है ।

हरौड, लोडति, लुलोड ॥ ३६६ [ अड ] उद्यमने = उद्यम ।  
 अडति, आड, आडतु, आडु ॥ ३६७ [ लड ] विलासे ।  
 लडति, ललौड, लेडतु, लडिता, लडिष्यति, लाडिषति, लाडिषाति,  
 लडतु, अलडत्, लडेत्, लड्यात्, अलाडीत्, अलडीत्,  
 अलडिष्यत् ॥ ३६८ [ कड ] मदे = अहकार । कडति,  
 चकाड, चकडतुः ॥ [ कडि ] इत्येके । कणडति, चकणड ॥

३६९ [ गाडि ] वदनैकदेशै = मुख के अवयव से क्रिया  
 करना । गणडति, जगणड, गणिडता, गणिडिष्यति, गणिडिषति,  
 गणिडिषाति, गणडतु, अगणडत्, गणडेत्, गणड्यात्, अगणडीत्,  
 अगणडिष्यत् ॥ इति शौटादय उदात्ता उदात्ततो द्वासप्त तः  
 परस्मैपदिन. समाप्ताः । ये ७२ [ बहत्तर ] परस्मैपदी धातु  
 समाप्त हुए ॥

अथ पधर्गीयान्ता द्वासप्तः । तत्रानुदात्ततः स्तोभत्यन्ता-  
 स्त्रयास्त्रियुद् [ आत्मनेपदिनः ] । अब पवगान्त ७२ [ बहत्तर ]  
 धातुओं का व्याख्यान है, उनमें पहिले ३३ [ तैतीस ] धातु  
 आत्मनेपदी हैं । ३७०—३७३ [ तिपृ, तेपृ, ष्टिपृ, ष्टेपृ ] ज-  
 णार्थाः = मरना । इनमें प्रथम तिपृ धातु अनिट् है, सो भूमिका  
 में सेट् अनिट् व्यवस्था को देखो । तेपते, तेपेते, तेपन्ते, तितिपे,  
 तितिपाते, तितिपिरे । और लिट् बलादि आर्धधातुक में ( १४८ )  
 सूत्र के नियम से इडागम होजाता है । तितिपिषे, तितिपाथे,  
 तितिपिष्वे, तितिपै, तितिपिवहे, तितिपिमहे । 'तिपृ + तास + लुट्'  
 ( ११० ) सूत्र से इडागम का निषेध होकर—तेप्ता, तेप्तारै  
 तेप्तारः, तेप्तासे, तेप्तासाथे, तेप्ताष्वे, तेप्ताहे, तेप्तास्वहे, तेप्तास्महे,  
 तप्स्यते, तेप्स्येते, तेप्स्यन्ते, तेप्स्यतै, तेप्सातै, तेप्स्यते, तेप्साते,  
 तेपतै, तेपातै, तेपते, तपाते, तेपताम्, अतेपत, तेपेत ।

१६३—लिङ्सिचावात्मनेपदेषु ॥ १ । २ । ११ ॥

इग्वान् हलन्त धातु से परे जो झलादि लिङ् और सिच् सो कित्बत् हो आत्मनेपदविषय मे । यहां कित्संज्ञा होने से ( ३४ ) से गुण नहीं होता । तिप्सीष्ट, तिप्सीयास्ताम्, तिप्सीरन् । लुङ् मे—अट् + तिप् + सिच् + त ( १४२ )—अतिप्त, अतिप्साताम्, अतिप्सत, अतिप्थाः, अतिप्साथाम्, अतिप्श्वम्, ( ११३ ), अतिप्सि, अतिप्स्वाहि, अतिप्स्महि, अतेप्स्यत, अतेप्स्येताम्, अतेप्स्यन्त; तितेपे । तिपृ और तेपृ धातु में लिट् [ और वलादि आर्धधातुक ] में ही रूपभेद होता है । तेपिता, तेपिष्यते, तेपिषतै, तेपिषातै, तेपताम्, अतेपत, तेपेत, तंपिषीष्ट, अतेपिष्ट, अतेपिष्यत; स्तेपते, तिष्टिपे, तिष्टिपाते, तिष्टिपिरे, स्तेपिता, स्तेपिष्यते, स्तेपिषतै, स्तेपिषातै, स्तेपताम्, अस्तेपत, स्तेपेत, स्तेपिषीष्ट, अस्तेपिष्ट, अस्तेपिष्यत, तिष्टेपे, तिष्टेपाते, तिष्टेपिरे । [ ष्टिपृ ष्टेपृ धातु के लिट् मे ही रूपभेद होता है । ] [ थिपृ, थेपृ ] इत्यन्ये । थेपते, तिथिपे, तिथेपे ॥ [ तेपृ ] कम्पने च = कांपना ॥ २७४ [ ग्लेपृ ] दैन्ये—दीनता । ग्लेपते, जिग्लेपे ॥ ३७५ [ डुबेपृ ] कम्पने । डु की इस्सज्ञा । वेपते, विवेपे, वेपिता, वेपिष्यते, वेपिषतै, वेपिषातै, वेपताम्, अवेपत, वेपेत, वेपिषीष्ट, अवेपिष्ट, अवेपिष्यत ॥ ३७६, ३७७ [ केपृ, गेपृ, ग्लेपृ ' ] च । यहां चकार से कम्पन अर्थ का समुच्चय होता है । केपते, गेपते, ग्लेपते ॥ ३७८—७९ [ मेपृ, रेपृ, लेपृ ] गतौ । मेपते, रेपते, लेपते ॥ ३८१, ३८२ [ हेपृ, धेपृ ] च । गति अर्थ मे है । हेपते, जिहेपे, धेपते, दिधेपे, धेपिता, धेपिष्यते, धेपिषतै, धेपिषातै, धेपताम्, अधेपत्, धेपेत, धेपिषीष्ट, अधेपिष्ट,

१ यहाँ पूर्वपठित ( ३७५ ) 'ग्लेपृ' धातु अर्थान्तर दर्शन के लिये पुनः पढ़ी गई है । अत एव इस का क्रमाङ्क नहीं दिया ।

अधेपिष्यत् ॥ ३८३ [ त्रपूष् ] लज्जायाम् । त्रपते, त्रपेते, त्रपन्ते ।

१६४—तृफलभजत्रपश्च ॥ ६ । ४ । १२२ ॥

तृ, फल, भज और त्रप धातुओं के अकार को एकारादेश और अभ्यास का लोप होवे । त्रप+त्रपू+एश=त्रेपे, त्रेपाते त्रेपिरे, त्रेपिषे, त्रेपाथे, त्रेपिष्वे, त्रेपे, त्रेपिवहे, त्रेपिमेहे । इस धातु का षकार इत् जाता है, उसका तो प्रयोजन कृदन्त में आवेगा और ऊकार इत् जाने से ऊदित होकर ( १४० ) सूत्र से बलादि आधेधातुक को विकल्प से इडागम होता है । त्रपिता, त्रप्ता, त्रप्तारौ, त्रप्तारः, त्रपिष्यते, त्रपस्यते, त्रापिषतै, त्रापिषातै, त्रपिषतै, त्रपिषातै, त्रापिषते, त्रापिषाते, त्रपिषते, त्रपिषाते, त्राप्सतै, त्रापसातै, त्राप्सते, त्राप्साते, त्रप्सतै, त्रप्सातै, त्रप्सते, त्रप्साते, त्रपतै, त्रपातै, त्रपते, त्रपाते । इसी प्रकार प्रयोग 'आताम्' आदि सब प्रत्ययो में जानो । त्रपताम्, अत्रपत्, त्रपेत, त्रपिषीष्ट, त्रप्सीष्ट, अत्रपिष्ट, अत्रप्त ( १४२ ) । अत्रप्साताम्, अत्रप्सत, अत्रपिष्यत्, अत्रपस्यत् ॥ ३८४ [ कपि ] चलने=चलना । कम्पते, चकम्पे, कम्पिता, कम्पिष्यते, कम्पिषतै कम्पिषातै, कम्पिषते कम्पिषाते, कम्पताम्, अकम्पत्, कम्पेत, कम्पिषीष्ट, अकम्पिष्ट, अकम्पिष्यत् ॥ ३८५-३८७ [ रवि, लवि, अवि ] शब्दे । रम्बते, ररम्बे, लम्बत, ललम्बे, अम्बते, आनम्बे ॥ [ लवि ] अवस्त्रंसने च = लटकना । चकार से शब्द ॥ ३८८ [ कवृ ] वर्णे = रङ्ग<sup>२</sup> । कवते,

१. षित् धातुओं से "षिट्भिदादिभ्योऽङ्" ( भा० ३४६३ ) से अङ् प्रत्यय होता है । यथा—त्रपा, जरा ।

२. यहा 'वर्णे' का अर्थ 'रङ्ग' और 'शब्द' दोनों हैं । चिनकबरा रङ्ग का वाचक 'कबर' शब्द इसी धातु से निष्पन्न होता है । आख्यात-

चकबे, कबिता, कबिष्यते, काबिषतै, काबिषातै, कबताम्,  
 अकबत, कबेत, कबिषीष्ट, अकबिष्ट, अकबिष्यत ॥  
 ३८९ [ क्लीवृ ] अधाष्ट्यै = भोलापन । क्लीबते, चिक्लीबे ॥  
 ३९० [ क्षीवृ ] मदे = अहङ्कार । क्षीबते, चिक्षीबे ॥  
 ३९१ [ शीभृ ] कत्थने = कहना<sup>१</sup> । शीभते, शिशीभे ॥  
 ३९२ [ चीभृ ] च । यहा चकार से कत्थन अर्थ का समुच्चय  
 होता है । [ चीभते, चिचीभे ] ॥ ३९३ [ रेभृ ] शब्दे ।  
 रेभते, रिरेभे ॥ [ अभि, रभि ] इत्यके । अम्भते, आनम्भे,  
 रम्भते, ररम्भे ॥ ३६४, ३६५ [ ष्टभि, स्कभि ] प्रतिबन्धे =  
 बांधना । स्तम्भते<sup>२</sup>, तस्तम्भे, स्तम्भिता, स्तम्भिष्यते,  
 स्तम्भिषतै, स्तम्भिषातै, स्तम्भताम्, अस्तम्भत, स्तम्भेत,  
 स्तम्भिषीष्ट, अस्तम्भिष्ट, अस्तम्भिष्यत, स्कम्भते, चस्कम्भे ॥

चन्द्रिका १ । ४ । २० मे 'कबते' का अर्थ कविता करना किया है—  
 कबते वर्णयति च कवित्वे कवयत्यपि ।

१ कत्थन का अर्थ प्रशंसा करना है । ऊपर 'कहना' सामान्य  
 अर्थ का निर्देश किया है ।

२ 'विस्तम्भते' इस प्रयोग मे 'स्तम्भे.' ( आ० ८१७ ) से  
 मूर्धन्यादेश नहीं होता, क्योंकि यहा "जस्तम्भुञ्चु" ( आ० १५४ )  
 सूत्र मे प्रतिपदोक्त पढी हुई 'स्तम्भु' का ग्रहण होता है । इस 'ष्टभि  
 धातु का 'स्तम्भ' रूप लाक्षणिक है । "लक्षणप्रतिपदोक्तयोः  
 प्रतिपदोक्तस्यैव" ( पारि० ९१ ) इस नियम से प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण  
 होता है, लाक्षणिक का नहीं । कई लोग दोनो सूत्रो मे नकारोपध  
 'स्तम्भ' धातु पढ़ते है उन के मत मे इसको षत्व की प्राप्ति ही नहीं  
 होती । "उद् स्थास्तम्भो पूर्वस्य" ( सन्धि० २३६ ) मे दोनो का  
 ग्रहण होता है ।

स्तम्भ धातु मे इतना विशेष है कि जो उद् उपसर्ग इसके पूर्व हो तो उसके सकार को पूर्वसवर्ण " उदः स्थास्तभोः पूर्वस्य<sup>१</sup>" सूत्र से तकार हो जाता है। उत्तम्भते, उत्तम्भेते इत्यादि ॥ ३९६, ३९७ [जभी, जृभि<sup>१</sup>] गात्रविनामे = शरीर का मरोरना । जभी धातु का दीर्घ ईकार इत् जाता है ।

१६५—रधिजभोरचि ॥ ७ । १ । ६१ ॥

अजादि प्रत्यय परे हो तो रध और जभ धातु को लुम् का आगम हो। जम्भते, जजम्भे, जम्भिता, जम्भिष्यते, जम्भिषतै, जम्भिषातै, जम्भताम्, अजम्भत, जम्भेत, जम्भिषीष्ट, अजम्भिष्ट, अजम्भिष्यत, जृम्भते, जजृम्भे ॥ ३९८ [शल्भ] कत्थने । शल्भते, शशल्भे ॥ ३९९ [वल्लभ] भोजने । वल्लभते, ववल्लभे ॥ ४०० [गल्भ] धाष्ट्यै = ढीठता । गल्लभते, जगल्लभे ॥ ४०१ [स्रम्भु] प्रमादे = प्रमत्तपन । स्रम्भते, सस्रम्भे । यह धातु तालव्यादि भी है । श्रम्भते ॥ ४०२ [ष्टभु] स्तम्भने = रोकना । स्तोभते, तुष्टुभे, स्तोभिता, स्तोभिष्यते, स्तोभिषतै, स्तोभिषातै, स्तोभताम्, अस्तोभत, स्तोभेत, स्तोभिषीष्ट, अस्तोभिष्ट, अस्तोभिष्यत । इति तिपादय उदात्ता अनुदात्तेतस्तिपिवर्जमात्मनेभाषास्त्रयस्त्रिशत् समाप्ता । ये पवर्गान्तो में तिप् आदि ३३ धातु समाप्त हुए ॥

अथ [गुपादय] एकोनचत्वारिंशत् परस्मैपादिनः । अब उनचालीस ( ३९ ) धातु परस्मैपदी कहते हैं ॥ ४०३ [गुप्] रक्षणे = रक्षा करना ।

१६६—गुपूधूपविच्छिपण्णिपनिभ्य आयः ॥

३ । १ । २८ ॥

गुपू, धूप, विच्छ, पण और पन धातुओं से स्वार्थ मे आय प्रत्यय हो। यहां उदित् गुपू धातु से आय प्रत्यय होकर—गुपू+आय। यहा आय प्रत्यय की (४०) से आर्धधातुक संज्ञा और (५२) से गुण होकर—गोपायं।

१६७—सनाद्यन्ता धातवः ॥ ३।१।३२ ॥

सन् आदि प्रत्यय जिनके अन्त मे हो ऐसे प्रकृति प्रत्यय समुदायो की धातु संज्ञा हो। सन्, क्यच्, काम्यच्, क्यङ्, क्यष्, आचार अर्थ का क्विप्, णिच्, यङ्, यक, आय, ईयङ्, णिङ् ये सब सनादि प्रत्यय कहाते है। यहां 'गोपाय' की धातुसंज्ञा होकर इससे लट् आदि लकारो की उत्पत्ति और भू आदि धातुओं के समान इसको भी धातु संज्ञा के सब कार्य होते है। गोपाय+शप्+तिप्+गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपायसि, गोपायथः, गोपायेथ, गोपायामि, गोपायावः, गोपायामः। यहां शप् के अकार के साथ गोपाय के अकार को पररूप एकादेश हो जाता है।

१६८—आयादय आर्धधातुके वा ॥३।१।३१॥

आर्धधातुक प्रत्ययो की विवक्षा मे गोपाय आदि धातुओं से आय आदि प्रत्यय विकल्प करके हो। 'गोपाय—लिट्' यहां—

१६९—कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ॥

३।१।३५ ॥

लिट् लकार परे हो तो कास् धातु और प्रत्ययान्त धातुओं से आम प्रत्यय हो, वेदविषय मे न हो।

१७०—वा०—कास्यनेकाज्ग्रहणं कर्तव्यम् ॥

३।१।३५ ॥



“कास्प्र०” इस सूत्र में वार्तिककार प्रत्यय ग्रहण के स्थान में ‘अनेकाच्’ ग्रहण करते हैं अर्थात् “कासनेकाच् आममन्त्रे लिटि” ऐसा सूत्र करना चाहिये, इसका प्रयोजन आगे आवेगा। अनेकाच् कहने से प्रत्ययान्त धातुओं का भी ग्रहण हो जाता है<sup>२</sup>। वहाँ गोपाय प्रत्ययान्त धातु से आम् प्रत्यय होकर—‘गोपाय-आम्-लिट्’ यहाँ—

१ कैयट, हरदत्त आदि वैयाकरणों का भी यही मत है कि प्रत्यय ग्रहण को हटाकर अनेकाच् ग्रहण करना चाहिये। परन्तु यह मत अयुक्त है। हमारा विचार है कि वार्तिककार सूत्र में ‘अनेकाच्’ शब्द का ग्रहण और करना चाहते हैं। इस में ये हेतु है—‘कासनेकाच् ग्रहणम्’ यह न्यासान्तर का रूप नहीं है, यदि न्यासान्तर करना होता तो ‘कासनेकाच्’ ऐसा निर्देश करते। वार्तिककार ने सूत्र के एकदेश ‘कास्’ शब्द में सप्तमी का निर्देश करके सूत्र का निर्देश किया है। महाभाष्यकार ने भी ‘प्रत्यय को हटाकर’ ऐसा व्याख्यान नहीं किया। भाष्यकार ने ३।२।११ में ‘अवगल्भाञ्चक्रे, विहोडाञ्चक्रे, विक्रीबाचक्रे’ में आम् प्रत्यय का निर्देश किया है, और आत्मनेपद के लिये गल्भ, क्लीब, होड को अनुदात्तेत् माना है। अनुदात्तेत् होने पर ये धातुएँ एकाच् ही होती हैं। यदि सूत्र में से प्रत्यय ग्रहण हटा दिया जाये तो इन में आम् की प्राप्ति कैसे होगी। उत्तरकालीन जैनेन्द्र व्याकरण के रचयिता आचार्य देवमन्दी ने भी भाष्य का यही अभिप्राय समझा था, अत एव उसने ‘कासनेकाच्त्याल्लिट्वत्न्याम्’ सूत्र की रचना की है। जैनेन्द्र व्याकरण में ‘त्य’ प्रत्यय की संज्ञा है।

२. यह सर्वांश में ठीक नहीं। आचार्य अर्थ में एकाक्षर से क्तिप् होने पर उनका ग्रहण कैसे होगा। हाँ, जो प्रत्ययान्त अनेकाच् हैं उनका ग्रहण हो जायगा।

१७१—आर्धधातुके ॥ ६ । ४ । ४६ ॥

यह अधिकारसूत्र है ।

१७२—अतो लोपः ॥ ६ । ४ । ४८ ॥

आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो अदन्त अङ्ग का लोप हो । यहा गोपाय के अन्त्य अकार का लोप होकर । गोपाय् + आम् + कृ + कृ णल् = गोपायाञ्चकार ( १०४ ) इत्यादि सूत्र लगते हैं । गोपायाञ्च-  
क्रतुः, गोपायाञ्चक्रुः, गोपायाम्बभूव, गोपायामास । और जिसे पक्ष  
मे ( १६८ ) सूत्र से आय प्रत्यय नहीं होता वहां । जुगोप्, जुगु-  
पत्, जुगुप् । यह धातु ऊदित् है, इस कारण वलादि आर्धधातुक  
मे ( १४० ) सूत्र से विकल्प करके इडागम होता है । जुगोपिथ,  
जुगोप्थ, जुगुपथुः, जुगुप, जुगोप, जुगुपिव, जुगुव्व, जुगुपिम,  
जुगुम्म । “लुट्”—गोपायिता, गोपायितारौ, गोपायितारः । आय  
प्रत्यय के अभावपक्ष मे—गोपिता, गोपितारौ, गोपितार । अनिट् पक्ष  
मे—गोप्ता, गोप्तारौ, गोप्तारः । गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति,  
गोपायिषति, गोपायिषाति, गोपिषति, गोपिषाति, गोप्सति, गोप्साति,  
गोपायति, गोपायाति, गोपायतु, अगोपायत्, गोपायेत्, गोपाय्यात्  
( १७२ ), गोपाय्यास्ताम्, गोपाय्यासुः, गुप्यात्, अगोपायीत्,  
अगोपीत्, अगोप्सीत्, अगोप्ताम् ( १४२ ), अगोप्सुः, अगोप्सीः,  
अगोप्सम्, अगोप्, अगोप्सम्, अगोप्स्व, अगोप्स्म, अगोपायिष्यत्,  
अगोपिष्यत्, अगोप्स्यत् ॥ ४०४ [ धूप ] सन्तापे = दुःख  
होना । धूपायति, धूपायतः, धूपायाञ्चकार, धूपायाम्बभूव, धूपाया-  
मास ( १६९ ) इत्यादि सूत्र लगते हैं । दुधूप ( १६८ ), दुधूपत्,  
धूपायिता, धूपिता, धूपायिष्यति, धूपिष्यति, धूपायिषति, धूपायिषाति,  
धूपिषति, धूपिषाति, धूपायतु, अधूपायत्, धूपायेत्, धूपाय्यात्,

चूप्यात्, अचूप्यात्, अचूपीत्, अचूप्यायिष्यत्, अचूपिष्यत् ॥  
 ४०५, ४०६ [ जप, जल्प ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना ।  
 जपति, जल्पति, जजाप, जेषतुः, जेषुः, जपिता, जपिष्यति, जापिषति,  
 जापिषाति, जपतु, अजपत्, जपेत् . जप्यात्, अजापीत्, अजपीत्,  
 अजपिष्यत् ॥ [ जप ] मानसे च = विचार-पूर्वक मन मे जपना ।  
 ४०७ [ चप ] सान्त्वने = शान्त होना । चपति ॥ ४०८  
 [ पप ] समवाये = सम्बन्ध होना । सपति ॥ ४०९, ४१० [ रप,  
 लप ] व्यक्ताया वाचि । रपति, लपति, प्रलपति ॥  
 ४११ [ चुष ] मन्दायां गतौ = धीरे-धीरे चलना । चोपति, चुचोप,  
 चोपिता, चोपिष्यति, चोपिषति, चोपिषाति चोपतु, अचोपत्,  
 चोपेत्, चुप्यात्, अचोपीत्, अचोपिष्यत् ॥ ४१२—४१९  
 [ तुप, तुम्प, त्रुप, त्रुम्प, तुफ, तुम्फ, त्रुफ, त्रुम्फ ] हिंसार्थाः ।  
 तोपति, तुतोप, तोपिता, तोपिष्यति, तोपिषति, तोपिषाति, तोपतु,  
 अतोपत्, तोपेत्, तुप्यात्, अतोपीत् . अतोपिष्यत् । तुम्पति, तुतुम्प,  
 तुतुम्पतु । यहा सगोगान्त तुम्प धातु से परे लिट् ( ४६ ) से कित्-  
 वत् नहीं होता इससे नलोप भी नहीं हुआ, और प्र उपसर्ग से परे  
 “प्रात्तुम्पतौ गवि कर्तरि” यह पारस्करप्रभृतिगण<sup>१</sup> का सूत्र है ।  
 गौ कर्ता हो तो प्र उपसर्ग से परे तुम्प धातु को सुट् का आगम हो  
 जाता है “प्रस्तुम्पति” । और गणसूत्र मे शितप्<sup>२</sup> का निर्देश  
 करने से “प्रतोतुम्पीति” यहां यङ्लुक् मे सुट् नहीं होता<sup>३</sup> । तु-

१ गणसूत्र । अष्टा० ६ । १ । १५३ ॥ सन्धि० ३२५ ।

२ इक्शितपौ धातुनिर्देशे ( आ० १४७६ ) से धातुनिर्देश में शितप् प्रत्यय होता है ।

३ प्राचीन वैयाकरणो का श्लोक है—शितपा ऋषानुबन्धेन निर्दिष्ट यद् गणेन च । यत्रैकाग्रहण चैव पञ्चैतानि न यङ्लुकि ॥ अर्थात् शितप

प्यात्, त्रुप्यात्, तुफ्यात्, त्रुफ्यात् ( १३९ ), अतुम्पीत्, अतुम्पि-  
ष्यत् ॥ ४२०—४३३ [ पर्प, रफ, रफि, अर्ब, पर्ब, लर्ब,  
वर्ब, मर्ब, कर्ब, खर्ब, गर्ब, शर्ब, षर्ब, चर्ब ] गतौ, [ चर्ब ]  
अदने च । चर्ब धातु ( खाने ) और ( गति ) दोनो अर्थ मे है ।  
पर्पति, पपपे, रफति, रम्फति, अर्बेति, आनर्ब, अर्बिता, अर्बिष्यति,  
अर्बिषति, अर्बिषाति, अर्बेतु, अर्बेत्, अर्बेत्, अब्यात्, आर्बीत्,  
आर्बिष्यत्, पर्बेति, लर्बेति, वर्बेति, मर्बेति, कर्बेति खर्बेति, गवति,  
शर्बेति, सबेति, चर्बेति, चर्बेत्, चर्बिता, चर्बिष्यति, चर्बिषति, चर्बि-  
षाति, चर्बेतु, अचर्बेत्, चर्बेत्, चर्ब्यात्, अचर्बीत्, अचर्बिष्यत्, ॥  
४३४ [ कुवि ] आच्छादने = ( ढाकना ) कुम्बति, चुकुम्ब ॥  
४३५, ४३६ [ लुवि, तुवि ] अर्दने = गति और मागना । लुम्बति,  
तुम्बति, लुलुम्ब, तुतुम्ब ॥ ४३७ [ चुवि ] चक्रसंयोगे = चु-

शप्, अनुबन्ध, गण से निर्देश और जहा एकाच् ग्रहण किया है वे विधिया  
यद्गुणन्त से नहीं होती । यथा—द्वितप् से—“ धुमास्यतिहन्ति०”  
( आ० ८८९ ) से ‘प्रणिष्यति’ मे णत्व होता है, ‘प्रनिसासेति’ में नहीं  
होता । शप् से—“ भरज्जपिसनाम्” ( आ० ५१५ ) से ‘बिभरिषति,  
बुभूर्षति’ मे इट चिकल्प होता है, ‘बर्भरिषति’ मे विकल्प नहीं होता,  
नित्य होता है । अनुबन्ध से—अनुबन्ध से निर्देश दो प्रकार से होता है,  
स्वरूप से या इत्सञ्जक से । स्वरूप से —“शीड सावंधातुके गुण०”  
( आ० ३२० ) से ‘शयते’ मे गुण होता है, ‘शेशीत.’ मे नहीं होता ।  
इत्सञ्जक से—“अनुदात्तडित आत्मनेपदम्” ( आ० ९७ ) से ‘शयते’ मे  
आत्मनेपद होता है, ‘शेशीत.’ मे नहीं होता । गण से—“द्विादिभ्य  
इयन्” ( आ० ३९६ ) से ‘द्विव्यति’ मे इयन् होता है, ‘देदेवीति’ मे नहीं  
होता । एकाच् से—“एकाच उपदेशे अनुदात्तात्” ( आ० ११० ) से  
‘भेत्ता’ में इट का निषेध होता है, ‘बेभेदिता’ मे नहीं होता । यहाँ सर्वत्र  
“प्रकृतिग्रहणे यद्गुणन्तस्यापि” ग्रहण भर्वात्” इस नियम से प्राप्त होता था ।

म्बति, चुचुम्ब, ॥ ४३८, ४३९ [ षृम्भु, षृम्भु ] हिंसाथौ ।  
सर्भति, स्सर्भे, सर्भिता, सर्भिष्यति, सर्भिषति, सर्भिषाति, सर्भतु,  
असर्भत्, सर्भत्, सृभ्यात्, असर्भीत्, असर्भिष्यत्, सृम्भति,  
ससृम्भ, सृभ्यात्, ॥ [ पिभु षिम्भु ] इत्येके । किन्ही लोगो  
के मत मे य दोनो धातु इकारवान् हैं । सेभति, सिम्भति, सिभ्यात् ॥  
४४०, ४४१ [ शुभ शुम्भ ] भाषणे = बोलना, भासने इत्येके =  
प्रकाश, हिंसायामित्यन्ये ❀ । शोभति, शुशोभ, शोभिता, शोभि-  
ष्यति, शोभिषति, शोभिषाति, शोभतु, अशोभत्, शोभेत्, शुभ्यात्,  
अशोभीत्, अशोभिष्यत्; शुम्भति शुशुम्भ, शुभ्यात्, ॥ इति गुपा-  
दय उदात्ता उदात्तेत एकोनचत्वारिंशत्समाप्ताः । ये गुप आदि  
३९ ( उनतालीस ) धातु समाप्त हुए ॥

अथानुनासिकान्ता द्विचत्वारिंशत् । तत्र [ धिण्यादयोऽ ]  
नुदात्तेतो दश [ आत्मनेपदिन ] । अब अनुनासिकान्त ४२  
( बयालीस ) धातु कहते है, उनमे प्रथम धिणि आदि दश  
आत्मनेपदी है ॥ ४४२-४४४ [ धिणि, घुणि, घृणि ] ग्रहणे =  
ग्रहण करना । धिण्यणते । यहा नुम् का आगम होकर “धुना धुः”  
सूत्र से नुम् के तवगे = नकार को टवगे = णकार हो जाता है ।  
धिण्यणते, धिण्यणन्ते, जिधिण्यणे, धिधिण्यता, धिधिण्यस्यते, धिधिण्य-  
षतै, धिधिण्यषातै, धिधिण्यताम्, अधिण्यणत, धिण्यणेत, धिधिण्य-  
षीष्ट, अधिधिण्यष्ट, अधिधिण्यस्यत, घुण्यणते, घृण्यणते ॥ ४४५,  
४४६ [ घुण, घूर्ण ] भ्रमणे = विचरना । घोण्यते, जुघुण्ये,  
घोण्यता, घोण्यस्यते, घोण्यषतै, घोण्यषातै, घोण्यताम्, अधो-  
ण्यत, घोण्येत, घोण्यषीष्ट, अधोण्यष्ट, अधोण्यस्यत; घूर्ण्यते,

\* “इत्येके” और “इत्यन्ये” इत्यादि शब्द धातुपाठ में बहुधा आया  
करते हैं । उनका अर्थ कश्चर लिख दिया है, अब आगे बार-बार नहीं लिखेगे ।

जुधूर्ण ॥ ४४७ [पण] व्यवहारे स्तुतौ च = लेना देना और प्रशंसा ॥ ४४८ [पन] च । यहां चकार से स्तुति अर्थ का ही सम्बन्ध होता है व्यवहार का नहीं । इसीलिये पन धातु पृथक् पढ़ा है, नहीं तो इकट्ठा ही पढ़ते । पण तथा पन धातु अनुदान्तेत् है, स्तुत्यर्थक पन धातु के साहचर्य से पण धातु से भी आय प्रत्यय स्तुति अर्थ में ही होता है<sup>१</sup> । आधेधातुक लकारो मे आय प्रत्यय के अभाव पक्ष में इनको आत्मनेपद होने का अवकाश मिलने से आयप्रत्ययान्त पण [ और पन ] धातु से आत्मनेपद नहीं होता । पण + आय + शप् + तिप् = पणायति, पणायतः, पणायन्ति, पणायाम्ब्रकार, पणायाम्ब्रभूव, पणायामास, ( १६८ ) पेणे, पेणाते, पेणारे, पणायितासि, पणितासे, पणायिष्यति, पणायिष्यते, पणायतु; अपणायत्; पणायेत्, पणाय्यात्; पणायिष्यत्; अपणायीत्, अपणायिष्यत्; अपणायिष्यत, अपणायिष्यत् । व्यवहार अर्थ में—पणते, पणते, पणन्ते । पन धातु स्तुति अर्थ में ही है ।

१ 'सहचरितासहचरितयो सहचरितस्यैव ग्रहणम्' ( पारि० ९० ) नियम से पण धातु से व्यवहार अर्थ में आय प्रत्यय नहीं होता । भट्टिकारने 'न चोपलेभे वणिजा पणायाम्' इत्यादि में व्यवहार अर्थ में भी आय प्रत्यय माना है, वह ठीक नहीं है । पाणिनि ने वणिक् शब्द साधक 'पणेरिज्यादेश्च व' ( उ० २ । ७० ) में आयप्रत्ययान्त का निर्देश नहीं किया । पाणि शब्द साधक 'अशिपणायो रुडायलुकौ च' ( उ० ४ । १३३ ) में आय प्रत्ययान्त का निर्देश तथा उसके लुक् का विधान किया है । पाणिशब्द स्तुत्यर्थक पण धातु से ही निष्पन्न होता है । अत एव निरुक्त २ । २६ में 'पाणि पणायते पूजाकर्मणः, प्रगृह्यपाणी देवान् पूजयतीति' अर्थात् 'पाणि शब्द पूजार्थक पण धातु से निष्पन्न होता है क्योंकि दोनों हाथ जोड़कर देवों को पूजते है' लिखा है ।

पनायति, पनायाञ्चकार, पनायाम्बभूव, पनायामास, पेनै, पेनाते, पेनिरे, पनायितासि, पनितासे, पनायिष्यति, पनिष्यते, पनायिषति, पनायिषाति पानिषतै, पानिषातै; पनायतु, अपनायत्, पनायेत्; पनाय्यात्, पनिषीष्ट; अपनायीत्, अपनिष्ट, अपनायिष्यत्, अपनिष्यत् । ४४९ [ भाम ] क्रोधे । भामते, बभामे, भामितासे, भामिष्यते, भामिषतै, भामिषातै, भामताम्, अभामत, भामेत, भामिषीष्ट, अभामिष्ट, अभामिष्यत् ॥ ४५० [ क्षमूष् ] सहने = सहना । क्षमते । यह भी धातु ऊदित है । चक्षमे, चक्षमाते, चक्षमिरे, चक्षमिषे, चक्षंसे<sup>१</sup> ( १४० ) से इट् का आगम विकल्प करके होता है । चक्षमाथे, चक्षमिभ्वे, चक्षन्ध्वे, चक्षमे ।

१७३—म्बोश्च ॥ ८ । २ । ६५ ॥

म और व परे हो तो मकारान्त धातु क मकार को नकारादेश होवे । यहा व, म के परे क्षम धातु के मकार को न होकर मूर्धन्य षकार से परे गत्व हो जाता है । चक्षगवहे, चक्षमिवहे, चक्षगमहे, चक्षमिमहे; क्षमिता, क्षन्ता, क्षन्तारौ, क्षन्तारः, क्षन्तासे; क्षमिष्यते, क्षंस्यते, क्षामिषतै, क्षामिषातै, क्षमिषतै, क्षमिषातै, क्षामिषते, क्षामिषाते, क्षमिषते, क्षमिषाते, क्षांसतै क्षांसातै, क्षासते क्षांसाते क्षंसतै, क्षसातै, क्षंसते, क्षंसाते, क्षमतै, क्षमातै, क्षमते, क्षमाते । इसी प्रकार प्रयोग “आताम्” आदि सब प्रत्ययो मे जानो । क्षमताम्, अक्षमत, क्षमेत, क्षमिषीष्ट, क्षंसीष्ट, अक्षमिष्ट, अक्षस्त, अक्षमिष्यत्, अक्षंस्यत्, यहां सर्वत्र अनिट् पक्ष मे क्षम धातु के मकार को अनुस्वार हो जाता है<sup>२</sup> ॥ ४५१ [ कमु ] कान्तौ = इच्छा ।

१७४—कमेर्णिङ् ॥ ३ । १ । ३० ॥

१ यहा पृष्ठ ४८ की टि० १ देखो ।

२. नश्चापदान्तस्य झलि ( सन्धि० १९२ ) सूत्र से ।

कम धातु से णिङ् प्रत्यय हो स्वार्थ मे । पश्चात् ( १६७ ) से धातुसंज्ञा और णिङ् प्रत्यय के परे ( १२७ ) से 'कम' के अकार को वृद्धि होके 'कामि' धातु से णिङ् प्रत्यय के डित् होने से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं । कम् + णिङ् + शप् + त = कामयते, कामयेते, कामयन्ते । कामि + आम् + लिट्—

१७५—अयामन्तालवार्येत्स्विष्णुषु ॥ ६। ४। ५५ ॥

आम्, अन्त, आलु, आर्य, इत्नु और इष्णु प्रत्यय परे हो तो णि के स्थान मे अय आदेश हो । ( ११७ ) सूत्र से लोप पाया था सो न हो अर्थात् लोप का अपवाद यह सूत्र है । कामयाञ्चक्रे ( १६९ ), कामयाञ्चक्राते, कामयाञ्चक्रिरे, कामयाम्बभूव, कामया-मास । ( १६८ ) सूत्र से णिङ् प्रत्यय के अभाव पक्ष मे—चकमे, चकमाते, चकमिरे, कामयिता, कामयितारौ, कामयितारः, कामयितासे, [ कमिता, कमितारौ, कमितारः, । कमितासे, कामयिष्यते, कमिष्यते, कामयिषतै कामयिषातै, कामिषतै, कामिषातै, [ कमिषतै, कमिषातै, ] कामयताम्, अकामयत, कामयेत, कामयिषीष्ट, कमिषीष्ट । 'कामि + च्लि + लुङ्' यहाँ च्लि प्रत्यय के स्थान मे सिच् प्रत्यय प्राप्त है उस का अपवाद—

१७६—णिश्चिद्रुस्रुभ्यः कर्तरि चङ् ॥ ६। ४। ५१ ॥

एयन्त, श्रि, द्रु और स्रु धातुओ से परे च्लि प्रत्यय के स्थान मे चङ् आदेश हो कर्ता मे लुङ् परे हो तो । 'अट् + काम् + इ + चङ् + त' इस अवस्था मे—

१७७—णेरनिटि ॥ ३। १। ४८ ॥

अनिडादि आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो णि का लोप होजावे । इसी विषय मे ( १५६ ) सूत्र से यण् आदेश परत्व से प्राप्त है [ उसका अपवाद ]—



१७८-वा०-एयल्लोपाविद्यङ्गुणवृद्धिदीर्घेभ्यः

पूर्वविप्रतिषेधेन भवतः ॥ ६ । ४ । ४८ ॥

णिलोप और ( १७२ ) सूत्र सँ अकार का लोप ये दोनो कार्य इयङ्, यण्, गुण्, वृद्धि और दीर्घ से पूर्वविप्रतिषेध करके हो जाते हैं। णिलोप को “कार्यते” यहा अवकाश है, क्योंकि कारि धातु से एक प्रत्यय के परे भावकर्मप्रक्रिया मे णि का लोप होजाता है, और “श्रियौ” यहां इयङ् आदेश को, “विच्यतुः, विच्यु.” यहां यण् आदेश को, “चेता, स्तोता” यहां गुण् को, “सखायौ” यहां वृद्धि को और “चीयते, स्तूयते” यहां दीर्घादेश को अवकाश है, और “णेरनिटि” सूत्र से ये सब इयङ् आदि कार्य परे हैं। इन सब कार्यों का और णिलोप का जहां एक प्रयोग मे आकर भगडा पड़ता है वहा परविप्रतिषेध मानने से इयङ् आदि कार्य प्राप्त है [ परन्तु ] वार्तिककार के प्रमाण से पूर्वविप्रतिषेध मानकर णिलोप हो जाता है इयङ् आदि नहीं होते। जैसे—अट् + तक्षि + चङ् + तिप् = अततक्षत्। यहां ( १५९ ) सूत्र से इयङ् आदेश प्राप्त है उसको बाध के णिलोप होता है। ‘आट् + आटि + चङ् + तिप् = आटिटत्’ यहां ( १५६ ) से यणादेश प्राप्त है उससे पूर्वविप्रतिषेध करके णिलोप हो जाता है। ‘कारि + युच् + टाप् = कारणा’ यहा ( २१ ) सूत्र से परत्व से गुण् पाता है उसका अपवाद होकर णिलोप होता है। ‘कारि + एवुल् + सु = कारकः; यहा ( ६० ) सूत्र से वृद्धि प्राप्त है उससे पूर्वविप्रतिषेध करके णिलोप होजाता है, और ‘कारी + यक् + त = कार्यते’ यहां ( १६० ) सूत्र से परत्व से दीर्घ प्राप्त है उससे भी पूर्वविप्रतिषेध करके णिलोप होजावे इसलिये “एयल्लोपावि०” यह वार्तिक है। और ‘अट् + कामि + चङ् + त’ यहां तो ( १५६ ) सूत्र से यणादेश परत्व से प्राप्त है उससे पूर्वविप्र-

तिषेध करके ( १७७ ) सूत्र से णिलोप हो जाता है । फिर 'अट् + काम् + चङ् + त्' इस अवस्था में—

१७६—णौ चङ्युपधाया ह्रस्वः ॥ ७ । ४ । १ ॥

चङ्परक णि के परे जिसकी अङ्ग संज्ञा है उसकी उपधा को ह्रस्वादेश होजावे । यहाँ 'काम्' को ह्रस्व होकर—'अट् + कम् + चङ् + त्' इस अवस्था में—

१८०—चङि ॥ ६ । १ । ११ ॥

चङ् प्रत्यय परे हो तो अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच् अवयव को और अजादि धातु के द्वितीय एकाच् अवयव को द्वित्व हाजावे । 'अट् + कम् + कम् + चङ् + त्'—यहाँ 'कम्' भाग को द्वित्व और ( १०९ ) से ककार को चकार तथा ( ४० ) से अभ्यास के हल् मकार का लोप हुआ ।

१८१—सन्वत्तलघुनि चङ्परेऽनगलोपे ॥

७ । ४ । ६३ ॥

धातु का लघु अक्षर जिससे परे हो ऐसा जो अभ्यास उसको जिस के परे अक् प्रत्याहार में किसी वर्ण का लोप न हुआ हो ऐसे चङ्परक णि परे हो तो सन्वत् कार्य हो अर्थात् सन् प्रत्यय के परे जो कार्य होता है सो अभ्यास को भी होजावे । चङ् प्रत्यय के परे जो णि का लोप होता है वह भी अक्-लोप है, परन्तु इसी सूत्र में चङ् जिससे परे हो ऐसे णि की अपेक्षा होने से णिलोप से अन्य अगलोप समझा जाता है, और णिलोप को स्थानिवत् मान के इस सूत्र के अर्थ की प्रवृत्ति होती है ।

१८२—सन्वतः ॥ ७ । ४ । ७६ ॥

सन् प्रत्यय परे हो तो अभ्यास के अकार को इकार आदेश हो । 'अट् + कि + कम् + चङ् + त्' इस अवस्था में—

१८३—दीर्घो लघोः ॥ ७ । ४ । ६४ ॥

धातु के लघु अभ्यास को दीर्घ आदेश हो अनग्लोपी चङ्परक णि परे हो तो । यहा “कि” को दीर्घ और चङ् मे ‘च ङ्’ का लोप होकर—अट् + ची + कम् + अ + त = अचीकमत, अचीकमेताम्, अचीकमन्त, अचीकमथाः, अचीकमेथाम् अचीकमध्वम्, अचीकमे अचीकमावहि, अचीकमामहि । और जिस पक्ष मे आयादि णिङ् प्रत्यय ( १६८ ) से नहीं होता, वहा—

१८४—वा०—कमेरुपसङ्ख्यानम् ॥ ३ । १ । ४८ ॥

केवल कम धातु से परे जो क्लि उसके स्थान मे चङ् आदेश हावे । अट् + कम् + चङ् + त = अचकमत ( १८० ), अचकमेताम् अचकमन्त, अचकमथाः, अचकमेथाम्, अचकमध्वम्, अचकमे, अचकमावहि, अचकमामहि । इति धियादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा दश समाप्ता । ये धिणि आदि दश धातु समाप्त हुए ॥

अथ [ अणादयस् ] त्रिशत् परस्मैपदिनः । अब [ अण आदि ] ३० अनुनासिकान्त परस्मैपदी धातु कहते हैं । ४५२-४६१ [ अण, रण, वण, भण, मण, कण, कण, व्रण, अण, ध्वण ] शब्दार्था । अणति, रणति, वणति, आण, आणतु, आणुः, अणिता, अणिष्यति, आणिषति, आणिषाति, अणतु, आणत्, अणेत्, अणयात्, आणीत्, आणिष्यत्; ववाण, ववणतुः (१२८), ववणुः, वणिता, वणिष्यति, वाणिषति, वाणिषाति, वणतु, अवणत्, वणेत्, वणयात्, अवाणीत्, अवणीत्, अवणिष्यत्; भणति, बभाण, बभणतु अभाणीत्, अभणीत्, मणति, कणति, कणति, ब्रणति, भ्रणति, ध्वणति ॥ [ धण ] इत्येके । धणति, दधाण, दधणतुः, धणिता, धणिष्यति, धाणिषति, धाणिषाति, धणतु,

अधणत्, धणेत्, धणयात्, अधाणीत्, अधणीत्, अधणिष्यत् ॥  
 ४६२ [ ओणृ ] अपनयने = हटाना । ओणति, ओणाञ्चकार,  
 ओणाम्बभूव, ओणामास, ओणिता, ओणिष्यति, ओणिषति,  
 ओणिषाति, औणत्, ओणेत्, ओणयात्, औणीत्,  
 औणिष्यत् ॥ ४६३ [ शोणृ ] वर्णगत्योः = रंग और गति ।  
 शोणति, शुशोण ॥ ४६४ [ श्रोणृ ] सङ्घाते । = समुदाय ।  
 श्रोणति, शुश्रोण ॥ ४६५ [ श्लोणृ ] च = सङ्घात अर्थ मे ।  
 श्लोणति, शुश्लोण ॥ ४६६ [ पैणृ ] गतिप्रेरणश्लेषणेषु =  
 गति, प्रेरणा और गीला करना । पैणति, पिपैण, पिपैणतुः, पिपैणुः,  
 पैणिता, पैणिष्यति, पैणिषति, पैणिषाति, पैणतु, अपैणत्, पैणेत्,  
 पैणयात्, अपैणीत्, अपैणिष्यत् ॥ ४६७, ४६८ [ ध्रण, वण ]  
 शब्दे । यहां ध्रण धातु उपदेश मे नान्त है पीछे रेफ से परे णत्व हो  
 जाता है' । ध्रणति, वणति, बवाण, बेणतुः ॥ ४६९ [ कनी ]  
 दीप्तिकान्तिगतिषु = प्रकाश, इच्छा और गति । कनति, चकान,  
 चकनतुः कनिता, कनिष्यति, कनिषति, कनिषाति, कनतु अकनत्,  
 कनेत्, कन्यात्, अकानीत्, अकनीत्, अकनिष्यत् ॥ ४७०, ४७१  
 [ घ्न, वन ] शब्दे । स्तनति, तस्तान, तस्तनतुः, स्तनिता, स्तनिष्यति,

१ नकारोपदेश का फल—यङ्लुक के 'दन्ध्रन्ति' आदि प्रयोग में  
 अभ्यास उत्तर भाग 'ध्रण' के णकार को असिद्ध होकर नकार मानकर  
 'नदचापदान्तस्य झलि' ( सन्धि० १९२ ) से अनुस्वार होके 'अनुस्वारस्य  
 ययि परसवर्ण' ( सन्धि० १९७ ) से परसवर्ण होकर नकार का श्रवण  
 होता है । इस नकार को रेफ के सयोग मे णकार नहीं होता, क्योंकि  
 णत्वविधायक 'रषाभ्यां नो ण.०' ( भा० ८७० ) सूत्र के प्रति परसवर्ण  
 नकारविधायक सूत्र असिद्ध है अर्थात् 'रषाभ्या' सूत्र की दृष्टि में यहा  
 नकार नहीं है, अनुस्वार है ।

स्तानिषति, स्तानिषाति, स्तनतु, अस्तनत्, स्तनेत्, स्तन्यात्, अस्ता-  
नीत्, अस्तनीत्, अस्तनिष्यत्, वनति ॥ [ वन, ४७२ षण ]  
सम्भक्तौ = भक्ति । वन धातु का दूसरा अर्थ होने से फिर पढ़ा  
है । सनति, ससान, सेनतुः, सेनुः । यह बात सब धातुओं मे  
समझना चाहिये कि जहां लिट् लकार को मान कर अभ्यास को  
कुछ आदेश होता है वहीं ( १२५ ) सूत्र से 'अनादेशादि' निषेध  
लगता है कि जैसे—बभणुतुः, बभणुः । और जहां धातु के आदि  
षकार को स और णकार को न हो जाता है वहां निषेध नहीं  
लगता, इसीसे 'सेनतुः, सेनुः' यहाँ एत्वाभ्यासलोप ( १२५ ) से  
होता है । सनिता, सनिष्यति, सानिषति, सानिषाति, सनतु, अस्-  
नत्, सनेत् ।

१८५—ये विभाषा ॥ ६ । ४ । ४३ ॥

यकारादि कित् डित् प्रत्यय परे हो तो जन, सन और खन  
धातुओं को आकार आदेश विकल्प करके हो । अलोन्य परिभाषा  
के आश्रय से अन्य अल् नकार के स्थान मे होता है । ( ८५ ) से  
यासुट् होता है । सन् + यासुट् + सुट् + तिप् = सायात्, सन्यात्,  
असानीत्, असनीत्, असनिष्यत् ॥ ४७३ [अम] गत्यादिषु ।  
गति आदि (गति, शब्द और सम्भक्ति) अर्थों में अम् धातु है । अमति,  
आम, आमतु, आमु, अमिता, अमिष्यति, आमिषति, आमिषाति,  
अमतु, आमत्, अमेत्, अम्यात्, आमीत्, आमिष्यत् ॥  
४७४—४७६ [ द्रम हम्म, मीमृ ] गतौ । द्रमति, दद्राम; हम्मति,  
जहम्म; मीमति, मिमीम । द्रम धातु मकारान्त अकारोपध है । इस  
मे विकल्प से वृद्धि ( १४४ ) से प्राप्त है सो ( १६२ ) सूत्र से नहीं  
होती । अद्रमीत्, अद्रमिष्यत् ॥ [ मीमृ ] शब्दे च । यहाँ चकार,  
गति और शब्द दोनों अर्थ का बोध होने के लिये है ॥ ४७७—  
४८० [ चमु, छमु, जमु, झमु ] अदने = खाना ।

१८६—ष्टिवुकलमुचमां शिति ॥ ७ । ३ । ७५ ॥

ष्टिवु, छमु और चमु धातुओं के अच् को दीर्घ आदेश हो शित् प्रत्यय परे हो तो । इस सूत्र से इन धातुओं को सामान्य कर के दीर्घ प्राप्त है ।

१८७—वा०-दीर्घत्वमाङि चम इति वक्त-  
द्वयम् ॥ ७ । ३ । ७५ ॥

आङपूर्वक ही चम धातु का दीर्घ हो, सर्वत्र नहीं । आचामति; आचामतः, आचामन्ति । आङ का नियम इसलिये किया है कि— 'उच्चमति, विचमति' यहा दीर्घ न हो । चचाम, चेमतुः, चेमुः, आचचाम, आचेमतुः, आचेमुः, चमिता, चमिष्यति, चामिषति, चामिषाति, चमतु, आचामतु, अचमत्, आचामत्, चमेत्, आचामेत्, चम्यात्, आचमीत् ( १६२ ), आचमिष्यत्; छमति, चच्छाम, चच्छमतुः, अच्छमीत्; जमति, जजाम, जेमतुः, जेमुः, जमिता, जमिष्यति, जामिषति, जामिषाति, जमतु, अजमत्, जमेत्, जम्यात्, अजमीत्; भमति, जभाम, जभमतुः । [ जिमु ] इत्येके । जेमति जिजेम, । ४८१ [ क्रमु ] पादविक्षेपे = पग फेंकना ।

१८८-वा—भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुकलमुत्रसिन्नु-  
टिलषः ॥ ३ । १ । ७० ॥

भ्राश, भ्लाश, भ्रमु, क्रमु, क्लमु, त्रसि, त्रुटि और लष धातुओं से विकल्प करके श्यन् प्रत्यय हो कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो, और पक्ष मे शप् हो जाता है । इस सूत्र मे प्राप्ताप्राप्त विभाषा है । क्योंकि इन मे जो धातु दिवादिगण के हैं उनसे तो श्यन् प्रत्यय नित्य ही प्राप्त है और अन्य गणों के धातुओं से अप्राप्त है और श्यन् प्रत्यय तथा अन्य सब विकरण प्रत्यय ( स्य, तास्, सिप् ) आदि शप् प्रत्यय के अपवाद हैं ।

१८६—क्रमः परस्मैपदेषु ॥ ७ । ३ । ७६ ॥

परस्मैपदसंज्ञक प्रत्यय परे हो [ जिस शित् प्रत्यय के, उसके परे रहने पर ] क्रम धातु के अच् को दीर्घ होवे । क्रम् + श्यन् + तिप् = क्राम्यति, क्रम + शप् + तिप् = क्रामति । और परस्मैपद का ग्रहण इसलिये है कि 'आक्रमत आदित्यः' यहा आत्मनेपद मे दीर्घ न होवे । चक्राम, चक्रमतुः, चक्रमुः, क्रमिता, क्रमिष्यति क्रामिषति, क्रामिषाति, क्राम्यतु, क्रामतु, अक्राम्यत्, अक्रामत्, क्रामेत्, क्राम्येत्, क्रम्यात्, अक्रमीत्, अक्रमिष्यत् ॥ इत्यणादय उदात्ता उदात्तेतर्हित्रशत् परस्मैभाषाः समाप्ता । ये ३० ( तीस ) धातु परस्मैपदी समाप्त हुए ॥

अथ यवर्गीयान्ता द्वात्रिंशदधिकं शतम् । [ तत्रायादयः षट्त्रिंशदात्मनेपदिन । ] अब एकसौ बत्तीस ( १३२ ) धातु यवर्गीयान्त कहते हैं [ इनमें अय आदि ३६ छत्तीस आत्मनेपदी हैं ] । ४८२—४८८ [ अय, वय, पय, मय, चय, तय, णय, ] गतौ । अय् + शप् + त = अयते ।

१६०—दयायासश्च ॥ ३ । १ । ३७ ॥

दय, अय और आस धातुओं से आम प्रत्यय हो लिट् लकार परे हो तो । अय् + आम् + कृ + कृ + एश् = अयाञ्चक्रे, अयाञ्चक्राते, अयाञ्चकिरे, अयितासे, अयिष्यते, आयिषतै, आयिषातै, अबताम, आयत, अयेत, अयिषीष्ट, अयिषीयास्ताम्, अयिषीरन्, अयिषीष्ठाः, अयिषीयास्थाम् । अय् + इट् + सीध्वम्—

१६१—विभाषेतः ॥ ८ । ३ । ७६ ॥

इण् से परे जो इट् उससे परे जो सीध्वं, लुक् और लिट् का घकार उसको मूधेन्य आदेश विकल्प करके होजावे । घकार

के स्थान में अन्तरतम आदेश ढकार हो जाता है। अयिषीढ्वम्, अयिषीध्वम्, अयिषीय, अयिषीवहि, अयिषीमहि, आयिष्ठ, आयिषाताम् आयिषत, आयिष्ठाः, आयिषाथाम्, आयिढ्वम्, आयिध्वम्, आयिषि, आयिष्वहि, आयिष्महि, आयिष्यत।

१६२—उपसर्गस्याद्यतौ ॥ ८ । २ । १६ ॥

अय धातु के परे पूर्व जो उपसर्ग उसके रेफ को लकार आदेश हो। जैसे—प्र+अयते=प्लायते, पलायते, पलायाञ्चक्रे। निस् और दुस् उपसर्गों के सकार को रुत्व त्रिपादी में होता है उसको असिद्ध मानने से 'निरयते, दुरयते' प्रयोग होते हैं [अथोत् लत्व नहीं होता]। और जहां निर्, दुर् उपसर्ग हों वहां 'निलयते, दुलयते' रूप बनते हैं। वयते, ववये, (१२९), वयिता, वयिष्यते, वायिषतै, वायिषातै, वयताम्, अवयत, वयत, वयिषीष्ट, वयिषीढ्वम्, वयिषीध्वम्, अवयिढ्वम्, अवयिध्वम्, अवयिष्यत। पयते, पेये, पेयात्, पेयिरे, पयिषीढ्वम्, पयिषीध्वम्, अपयिढ्वम्, अपयिध्वम्। इसी प्रकार मय आदि के जानो। [णय] रक्षणे च। गय धातु के गति और रक्षा दोनो अर्थ हैं। नयते, नेये, नयिता, नायिषतै, नायिषातै, नयताम्, अनयत, नयेत, नयिषीष्ट, नयिषीढ्वम्, नयिषीध्वम्, अनयिढ्वम्, अनयिध्वम्, अनयिष्यत ॥ ४८९ [दय] दानगतिरक्षण-हिंसादानेषु = देना, गति, रक्षा, मारना और लेना। दयते, दयाञ्चक्रे (१९०), दयिता, दयिष्यत ॥ ४९० [रय] गतौ। रयते, रेये ॥ ४९१ [ऊयी] तन्तुसन्ताने = सूत का फैलाना। उयते, ऊयाञ्चक्रे ॥ ४९२ [पूयी] विशरणे दुर्गन्धे च = मारना और दुर्गन्ध करना। पूयते, पुपूये, पूयिता ॥ ४९३ [क्नूयी] शब्दे उन्दे च = शब्द और गीलापन। क्नूयते, चुक्नूये ॥ ४९४ [क्ष्मायी] विधूनने = कम्पाना। क्ष्मायते।



चक्ष्माये ॥ ४६५, ४९६ [स्फायी, ओप्यायी] वृद्धौ = बढना। स्फायते, पस्फाये। ऊयी आदि धातुओं में दीर्घ ईकार इत् जाता है और प्यायी धातु में ओकार और ईकार दोनों की इत्संज्ञा होती है। प्यायते।

१६३—लिङ्यञोश्च ॥ ६। १। २६ ॥

लिट् लकार और यङ् प्रत्यय परे हो तो प्यार्या धातु को पी आदेश हो। “प्याय् + लिट्” इस अवस्था में प्रथम द्विवचन प्राप्त है, उसको बाधकर पी आदेश हो जाता है। पीछे इस<sup>१</sup> की प्राप्ति बनी रहने से<sup>२</sup> द्वित्व होता है। पी + पी + एश् = पिप्ये (१५६) से यणादेश होता है। पिप्याते, पिप्यिरे, पिप्यिषे, प्यायिता, प्यायिष्यत, प्यायिषतै, प्यायिषातै, प्यायताम्, अप्यायत, प्यायेत, प्यायिषीष्ट, प्यायिषीढ्वम्, प्यायिषीध्वम् (१९१)।

१६४—दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्य

तरस्याम् ॥ ३। १। ६१ ॥

दीपी, जनी, बुध, ताय और प्यायी धातुओं से परे जो च्लि प्रत्यय उस के स्थान में विकल्प कर के चिण् आदेश होवे, त शब्द परे हो तो। यहां प्यायी धातु से परे होता है, अन्य धातु आगे आवेगे। अट् + प्याय् + चिण् + त, इस अवस्था में—

१६५—चिणो लुक् ॥ ६। ४। १०४ ॥

चिण् से परे जो प्रत्यय उसका लुक् हो। यहां चिण् से परे ‘त’ का लुक् होता है। अट् + प्याय् + चिण् = अप्यायि।

१. अर्थात् द्विवचन की।

२. पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् ( पारि० ३९ ) इस परिभाषा के नियम से।

यहां ( च् ण ) की इत्संज्ञा और लोप होजाता है । और जिस पक्ष में च्लि के स्थान में चिण नहीं होता वहां—अप्यायिष्ट, अप्यायिषाताम्, अप्यायिषत, अप्यायिष्ठाः, अप्यायिषाथाम्, अप्यायिढ्वम्, अप्यायिभ्वम् ( १९१ ), अप्यायिषि, अप्यायिष्वहि, अप्यायिष्महि, अप्यायिष्यत ॥ ४९७ [ ताद्यृ ] सन्तानपालनयोः = अपत्य और रक्षा । तायते, तायेते, तायन्ते, तताये, ततायिभ्वे, ततायिढ्वे, तताये, ततायावहे, ततायामहे, तायितासे, तायिष्यते, तायिषतै, तायिषातै, तायताम्, अतायत, तायेत, तायिषीष्ट, अतायिष्ट, अतायिष्यत ॥ ४९८ [ शल ] चलनसंवरणयोः = चलना और ढांकना । शलते, शेले, शेलाते, शेलिरे, शलितासे, शलिष्यते, शालिषतै, शालिषातै, शलताम्, अशलत, शलेत, शलिषीष्ट, शलिषीढ्वम्, शलिषीभ्वम्, अशलिष्ट, अशलिढ्वम्, अशलिभ्वम्, अशलिष्यत ॥ ४९९, ५०० [ वल, वल्ल ] संवरणे, संचरणे च = स्वरण और सम्यक् विचरना । वलते, वल्लते, ववले ( १२९ ), ववले, वलिता वलिष्यते, वलिषतै, वलिषातै, वलताम्, अवलत, वलेत, वलिषीष्ट, अवलिष्ट, अवलिष्यत ॥ ५०१, ५०२ [ मल, मल्ल ] धारणे = पदार्थों का धारण करना । मलते, मल्लते, मेले, मेलाते, मेलिरे, ममले, मलिता, मलिष्यते, मालिषतै, मालिषातै, मलताम्, अमलत, मलेत, मलिषीष्ट, अमलिष्यत ॥ ५०३, ५०४ [ भल, भल्ल ] परिभाषणार्हिसादानेषु = बहुत बोलना, मारना और देना । भलते, भल्लते, बभले, बभल्ले, भलितासे, भलिष्यते, भालिषतै, भालिषातै, भलताम्, अभलत, भलेत, भलिषीष्ट, अभलिष्ट, अभलिष्यत ॥ ५०५ [ कल ] शब्दसंख्यानयोः = शब्द और गणना । कलते, चकले, चकलिढ्वे, चकलिभ्वे, कलितासे, कलिष्यते, कालिषतै, कालिषातै, कल-

ताम्, अकलत, कलेत, कलिषीष्ट, कलिषीढ्वम्, कलिषीध्वम्, अक-  
लिष्ट, अकलिढ्वम्, अकलिध्वम्, अकलिष्यत ॥ ५०६ [कल्ल]  
अव्यक्ते शब्दे = अप्रकट बोलना । कल्लते, चकल्ले ॥ ५०७,  
५०८ [तेवृ, देवृ] देवने = खेलना । तेवते, देवते, तितेवे, दिदेवे,  
तितेविढ्वे ( १९१ ) तितेविध्वे, तेवितासे, तेविष्यते, तेविषतै,  
तेविषातै, तेवताम्, अतेवत, तेवेत, तेविषीष्ट, तेविषीढ्वम्,  
तेविषीध्वम्, अतेविष्ट, अतेविढ्वम्, अतेविध्वम् ॥ ५०९—  
५१४ [पेवृ, गेवृ, ग्लेवृ, पेवृ, मेवृ, मूलेवृ] सेवने = सेवन ।  
सेवते, सिषेवे, गेवते, जिगेवे, ग्लेवते, जिग्लेवे, पेवते, पिपेवे,  
मेवते, मिमेवे, मूलेवते, भिमूलेवे ॥ ५१५—५१७ [शेवृ,  
खेवृ, केवृ] इत्यप्यके । शेवते, शिशेवे, खेवते, चिखेवे, केवते,  
चिकेवे ॥ ५१८ [रेवृ] प्लवगतौ = शीघ्र चलना । रेवते,  
रिरेवे, रेवितासे, रेविष्यते, रेविषतै, रेविषातै, रेवताम्, अरेवत,  
रेवेत, रेविषीष्ट, अरेविष्ट, अरेविष्यत ॥ इत्याद्यादय उदात्ता अनु-  
दात्तेन आत्मनेभाषाः सप्तत्रिंशत् समाप्ताः । ये अय आदि ३६  
धातु समाप्त हुए ॥

अथ [ मव्यादयः ] परस्मैपादिनः पञ्चनवतिः । अब यवर्गा-  
न्तो मे [ मव्यादि ] ९५ ( पिच्यानवे ) धातु परस्मैपदी कहते हैं ।  
५१९ [ मव्य ] बन्धने = बांधना । मव्यति, ममव्य, ममव्यतुः,  
मव्यिता, मव्यिष्यति, मव्यिषति, मव्यिषाति, मव्यतु, अमव्यत्,  
मव्येत्, मव्यात्, अमव्यीत्, अमव्यिष्यत् ॥ ५२०—५२२ [सूर्द्य,  
ईर्द्य, ईर्ष्य ] ईर्ष्यार्थाः = ईर्षा । सूक्ष्यति, ईक्ष्यति, ईर्ष्यति, ईक्ष्या-  
श्चकार, ईर्ष्याश्चकार, ईष्योम्बभूव, ईष्योमास, ईष्यिता, ईष्यिष्यति,  
ईष्यिषति, ईष्यिषाति, ईष्येतु, ऐष्येत्, ईष्येत्, ईष्यात्, ऐष्यात्,

ऐर्ध्विष्यत् ॥ ५२३ [ह्य] गतौ । ह्यति, जहाय, जहयतुः, ह्यिता, ह्यिष्यति, हायिषति, हायिषाति, ह्यतु, अहयत्, हयेत्, हय्यात्, अहयीत् ( १६२ ) वृद्धि नहीं होती ॥ ५२४, ५२५ [ शुच्य, चुच्य ] अभिषवे = यन्त्र से साररूप रस खीचना । शुच्यति, चुच्यति ॥ ५२६ [हर्य] गतिकान्त्योः = गति और इच्छा । हर्यति, जहर्य ॥ ५२७ [अल] भूषणपर्याप्तिवारणेषु = भूषण, सामध्ये और निषेध । अलति, आल, आलतुः, आलुः, अलिता, अलिष्यति, आलिषति, आलिषाति, अलतु, आलत्, अलेत्, अल्यात् ।

१६६-अतो लान्तस्य ॥ ७ । २ । २ ॥

अकार के समीप जो रेफ और लकार तदन्त अङ्ग के अकार को वृद्धि हो परस्मैपद विषय मे सिच् प्रत्यय परे हो तो । ( १४४ ) सूत्र से विकल्प करके वृद्धि प्राप्त है उसका यह अपवाद है । मा भवनालीत्, आलिष्टाम्, आलिषु । अकार के समीप रेफ लकार इसलिये कहे है कि "अवधीत्" यहां अकार के समीप भकार है रेफ नहीं [ इसलिये यहां वृद्धि नहीं होती ] ॥ ५२८ [जिफला] विशरणे = मरना । इस धातु मे 'वि' और 'आ' दो वर्ण इत् होते हैं । फलति, पफाल, फेलतु, फेलुः । यहां अभ्यास के भल् फकार को चर पकार होता है इस कारण अनादेशादि के न होने से ( १२५ ) एत्वाभ्यासलोप प्राप्त नहीं है, सो ( १६४ ) सूत्र से हो

१ इस धातु पर धातुप्रदीपकार मैत्रेय लिखता है—'कई वैयाकरण इस धातु का अनुनासिक स्वरित अकार इत्संज्ञक मानते है इसलिये यह धातु उभयपदी है । अन्तस्थ प्रकरण के अनुरोध से उभयपदी धातु को भी यहा पदा है ।' वस्तुत मैत्रेय का कथन अयुक्त है । सब धातु-वृत्तिकार इसे परस्मैपदी मानते हैं । यदि यह धातु स्वरितेत् होता तो इसे धातु धातु के समीप पडने से अन्तस्थप्रकरण का व्याघात भी नहीं होता । इससे प्रतीत होता है कि 'अल' का स्वरितेत्त्व ठीक नहीं है ।

जाता है । फलिता, फलिष्यति, फालिषति, फालिषाति, फलतु, अफलत्, फलेत्, फल्यात्, अफालीत् ( १९६ ), अफलिष्यत् ॥ ५२९—५३२ [ मील, शमील, संमील, द्मील ] निमेषणे = नेत्रो को शीघ्र खोलना मीचन। मीलति, मिमील, मीलिता, मीलिष्यति, मीलिषति, मीलिषाति, मीलतु, अमीलत्, मीलेत्, मील्यात्, अमीलीत्, अमीलिष्यत्; शमीलति, शिशमील, स्मीलति, सिस्मील, क्षमीलति; चिक्षमील ॥ ५३३ [ पील ] प्रतिष्ठम्भे = रोकना । पीलति, पिपील ॥ ५३४ [ नील ] वर्णे = नीला रंग । नीलति, निनील ॥ ५३५ [ शील ] समाधौ = निरन्तर योगाभ्यास करना । शीलति, शिशील ॥ ५३६ [ कील ] बन्धने = बांधना । कीलति, चिकील ॥ ५३७ [ कूल ] आवरणे = ढाकना । कूलति, चुकूल, कूलिता, कूलिष्यति, कूलिषति, कूलिषाति कूलतु, अकूलत्, कूलेत्, कूल्यात्, अकूलीत्, अकूलिष्यत् ॥ ५३८ [ शूल ] रुजायां सङ्घाते च = पीड़ा और समूह । शूलति ॥ ५३९ [ तूल ] निष्कर्षे = बाहर निकालना । तूलति, तुतूल, ॥ ५४० [ पूल ] सङ्घाते = पूलति, पुपूल ॥ ५४१ [ मूल ] प्रतिष्ठायाम् । मूलति ॥ ५४२ [ फल ] निष्पत्तौ = सिद्ध होना । फलति, पफाल, फेलतु, फेलु ( १६४ ), अफालीत् ( १९६ ) ॥ ५४३ [ चुल्ल ] भावकरणे = अभिप्राय जानना । चुल्लति, चुचुल्ल ॥ ५४४ [ फुल्ल ] विकसने = फूलना । फुल्लति, पुफुल्ल ॥ ५४५ [ चिल्ल ] शैथिल्ये भावकरणे च = शिथिलता और अभिप्राय जानना । चिल्लति, चिचिल्ल, चिल्लिता, चिल्लिष्यति, चिल्लिषति, चिल्लिषाति, चिल्लतु, अचिल्लत्, चिल्लेत्, चिल्ल्यात्, अचिल्लीत्, अचिल्लिष्यत् ॥ ५४६ [ तिल ] गतौ । तलति, तितेल, तितिलतु., तेलिता, तेलिष्यति, तेलिषति, तेलिषाति, तेलतु, अतेलत्, तेलेत्, तिल्यात्, अतेलीत्, अतेलिष्यत् ॥ [ तिञ्ज ] इत्यन्ये । तिञ्जति ॥ ५४७—५५२ [ वेलृ, चेलृ, केलृ, खेलृ,

द्वेलु, वेल्न ] चलने = चलना । वेलति, विवेल, विवेलतु, वेलिता, वेलिष्यति, वेलिषति, वेलिषाति, वेलतु, अवेल्त, वेलेत्, वेल्यात्, अवेलीत्, अवेलिष्यत्; चेलति, चिचेल; केलति, चिकेल; खेलति, चिखेल; क्ष्वेलति; चिश्खेल, वेळति, विवेळ ॥ ५५३—५५६ [ पेल, फेल, खेल, शेल, षल, ] गतौ । खेल धातु दूसरी वार अर्थ भिन्न होने से पदा है । पेलति, पिपेल; फेलति, पिफेल, शेलति, शिशेल; सेलति, सिषेल ॥ ५५७ [ खल ] सञ्चलने = चलायमान होना । खलति, चखाल, (१२५), खलिता, खलिष्यति, खलिषति, खलिषाति, खलतु अखलत्, खलेत्, खल्यात्, अखलीत् (१९६), अखलिष्यत् ॥ ५५८ [ खल ] सञ्चये । खलति, चखाल, अखलीत् ॥ ५५९ [ गल ] अदने = खाना । गलति, जगाल, अगलीत् ॥ ५६० [ षल ] गतौ । सलति, ससाल, सैलतुः, सेलुः, असालीत् ॥ ५६१ [ दल ] विशरणे = मारना । दलति, ददाल देलतुः, दलिता, दलिष्यति दलिषति, दलिषाति, दलतु, अदलत्, दलेत्, दल्यात्, अदालीत्, अदलिष्यत् ॥ ५६२, ५६३ [ श्वल, श्वल ] आशुगमने = शीघ्र चलना । श्वलति, शश्वाल, अश्वलीत्; श्वलति, शश्वल ॥ ५६४, ५६५ [ खोल, खोर्त् ] गतिप्रतिघाते = चलने से रुक जाना । खोलति, चुखाल; खोरति, चुखार, अखलीत्, अखोरीत् ॥ ५६६ [ धोर्त् ] गतिचातुर्ये = चतुराई से चलना । धोरति, दुधोर, अधोरीत् ॥ ५६७ [ त्सर ] छद्मगतौ = ढेढ़ा चलना । त्सरति, तत्सार, तत्सरतुः, त्सरिता, त्सरिष्यति, त्सरिषति, त्सरिषाति, त्सरतु, अत्सरत्, त्सरेत्, त्सर्यात्, अत्सारीत् (१९६), अत्सरिष्यत् ॥ ५६८ [ क्मर ] हूर्द्धने = कुदिलता । क्मरति, चक्मर, चक्मरतुः, अक्मारीत् ॥ ५६९—५७२ [ अभ्र, वभ्र, मभ्र, चर, ] गत्यर्थाः । अभ्रति, वभ्रति, मभ्रति, चरति, आचरति,

प्रचरति, विचरति; आनभ्र, यहां अभ्यास को दीर्घ ( ११२ ) और उस से परे द्विहल् धातु को नुट् का आगम ( १४७ ) इत्यादि सूत्रों से होता है। ववभ्र, आभ्रीत्, अबभ्रीत्, अमभ्रीत्, यहां अकार के समीप रेफ के न होने से ( ११६ ) सूत्र से वृद्धि नहीं होती। चचार, चेरतुः, चरिता, चरिष्यति, चारिषति, चारिषाति, चरतु, अचरत्, चरेत्, चर्यात्, अचारीत् ( १९६ ), अचरिष्यत् ॥ [ चर ] भङ्गणे च । चर धातु का यह दूसरा अर्थ होने से पुनः पढ़ा है ॥ ५७३ [ छिवु ] निरसने = थूकना । इस धातु, के आदि षकार को ( १५२ ) वार्तिक से सकार नहीं होता, और ( १८६ ) सूत्र से इकार को दीर्घ होकर—छीवति, तिष्ठेव, तिष्ठिवतुः, तिष्ठिवुः । और इस धातु का दूसरा वर्ण किन्हीं आचार्यों के मत में ठकार ही है अथोत् जब ठकार है तो षोपदेश नहीं और जब थकार है तब षोपदेश है । ठकार पक्ष में—टिष्ठेव, टिष्ठिवतुः, टिष्ठिवुः, टिष्ठेविथ, टिष्ठिवथुः, टिष्ठिव, टिष्ठेव, टिष्ठिविव, टिष्ठिविम इत्यादि प्रयोग अभ्यास ही में विशेष होंगे । छेविता, छेविष्यति, छेविषति, छेविषाति, छीवति, छीवाति, छीवतु, अछीवत्, छीवेत् ।

१६७—हलि च ॥ ८ । २ । ७७ ॥

हल् प्रत्याहार में कोई वर्ण परे हो तो रेफान्त और वकारान्त धातु की उपधा का जो इक् उस को दीर्घ आदेश होवे । छिव्+यासुट्+सुट्+तिप्=छीव्यात् । यहां यासुट् का यकार हल् प्रत्याहार में है । अछेवीत्, अछेविष्टाम्, अछेविष्यत् ॥ ५७४ [ जि ] जये<sup>१</sup> = उन्नति को प्राप्त होना । यह धातु अनिट् और

१ उत्तर धातु की समानता के कारण भजन्त को भी इसी प्रकरण में पढ़ा है यह मैत्रेय का मत है । अन्य वैयाकरणों का कहना है कि इसे अजन्त प्रकरण में ही पढ़ना चाहिये ।

अकर्मक है, क्योंकि इवर्णान्तो मे जो सेट् पढ़े हैं उनमे इसका पाठ नहीं, और इस धातु का स्वार्थ कृतो से भिन्न अन्य किसी मे नहीं घटता, इस कारण अकर्मक है। जि + शप् + तिप् = जयति, (२१) सूत्र से गुण और (२२) से अय् आदेश होता है। जयतः, जयन्ति ।

१६८—सन्लिटोर्जेः ॥ ७ । ३ । ५७ ॥

सन् और लिट् प्रत्यय परे हो तो जि धातु के अभ्याम से परे उत्तर भाग को कवर्गादेश हो। जि-णल्। इस अवस्था मे प्रथम (६१) सूत्र से वृद्धि होकर द्वित्व होता है। जै + जै + णल् = जिगाय, यहां परभाग के जकार को गकार हो जाता है। जिग्यतुः, जिग्युः (१५६) सूत्र से यणादेश होता है। जिगेथ, (१५७) सूत्र से थल् में इट् का निषेध और—जिगयिथ (१४९) सूत्र से भारद्वाज के मत मे ऋकारान्तो के निषेध का नियम होने से इडागम हो जाता है। जिग्यथुः, जिग्य, जिगाय (१४३) जिगय, जिग्यिव, जिग्यिम। 'लुट्'—जेता, जेतारौ, जेतारः, जेतासि, जेतास्थ, जेतास्थ, जेतास्मि, जेतास्वः, जेतास्म। 'लृट्'—जेथ्यति, जेथ्यत, जेथ्यन्ति, जेथ्यसि, जेथ्यथ, जेथ्यथ, जेथ्यामि, जेथ्यावः, जेथ्यामः। 'लेट्'—जैषति, जैषाति, जैषत्, जैषात्, जैषद्, जैषाद्, जेषति, जेषाति, जेषत्, जेषात्, जेषद्, जेषाद्, जयति, जयाति, जयत्, जयात्, जथद्, जयाद्, इत्यादि। इसी प्रकार तस् आदि मे जानो। [ 'लेट्'— ] जयतु, जयतात्, जयताम्, जयन्तु, जय, जयतात्, जयतम्, जयत, जयानि जयाव, जयाम। [ 'लृट्'— ] अजयत्, अजयताम्, अजयन्, अजयः, अजयतम्, अजयत, अजयम्, अजयाव, अजयाम। [ 'लिङ्'— ] जयेत्, जयेताम्, जयेथुः, जये, जयेतम्, जयेत्, जयेथम्,



जयेव, जयेम । [ 'आशीर्लिङ्'— ] ( १६० ) सूत्र से दीर्घ होकर—  
 जीयात्, जीयास्ताम्, जीयासुः, जीयाः, जीयास्तम्, जीयास्त,  
 जीयासम्, जीयास्व, जीयास्म । [ 'लुङ्'— ] अट् + जि + सिच् +  
 तिप् = अजैषीत् ( १५८ ) सूत्र से इकार को वृद्धि हो जाती है,  
 अजैष्टाम्, अजैषुः, अजैषीः, अजैष्टम्, अजैष्ट, अजैषम्, अजैष्व,  
 अजैष्म । [ 'लृङ्'— ] अजेष्यत्, अजेष्यताम्, अजेष्यन् ।  
 ५७५ [ जीव ] प्राणधारणे = प्राणो का धारण करना । जीवति,  
 जिजीव, जीविता, जीविष्यति, जीविषति, जीविषाति, जीवतु,  
 अजीवत्, जीवेत्, जीव्यात्, अजीवीत्, अजीविष्यत् । जीव  
 धातु के गुरुपध होने से ( ५२ ) सूत्र से गुण नहीं होता ॥  
 ५७६—५७९ [ पीव, मीव, तीव, णीव ] स्थौल्ये = मोटापन ।  
 पीवति, मीवति, तीवति, नीवति ॥ ५८०, ५८१ [ क्षिबुः,  
 क्षेवु ] निरसने = फेंकना । क्षेवति, चिक्षेव, चिक्षिवतुः, चिक्षिवतुः,  
 क्षेविता, क्षेविष्यति, क्षेविषति, क्षेविषाति, क्षेवतु, अक्षेवत्, क्षेवेत्,  
 क्षीव्यात्, ( १९७ ) सूत्र से वकार की उपधा को दीर्घ होता है ।  
 अक्षेवीत्, अक्षेविष्यत् ॥ ५८२—५८६ [ उर्वी, तुर्वी, थुर्वी,  
 दुर्वी, धुर्वी ] हिंसार्थाः । ( १३१ ) सूत्र से रेफ की उपधा उकारो  
 को दीर्घ आदेश हो जाता है । ऊवेति, ऊर्वाञ्चकार, ऊर्वाञ्चक्रतुः,  
 ऊर्वाञ्चक्रुः, ऊर्वाञ्चकर्थ, ऊर्वाञ्चभूव, ऊर्वामास, ऊर्विता,  
 ऊर्विष्यति, ऊर्विषति, ऊर्विषाति, ऊर्वतु, और्वत्, ऊर्वेत्, ऊर्व्यात्,  
 और्वीत्, और्विष्यत्; तूर्वति, तुतूर्व, थूर्वति, तुथूर्व, दूर्वति, दुदूर्व;  
 धूर्वति, दुधूर्वे ॥ ५८७ [ गुर्वी ] उद्यमने = उद्यम । गूर्वति,

१. सायण, क्षीरस्वामी और भट्टोजि दीर्घोपध 'क्षीवु' धातु मानते हैं, केवल मैत्रेय ऋक्सोपध मानता है । दीर्घोपध पक्ष में—“क्षीवति, चिक्षीव, क्षीविता क्षीविष्यति, क्षीविषति, क्षीविषाति, क्षीवतु, अक्षीवत्, क्षीवेत्, क्षीव्यात्, अक्षीवीत्, अक्षीविष्यत्” प्रयोग बनते हैं ।

जुगुव् ॥ ५८८ [ मुर्वी ] बन्धने=बाधना । मूर्वति, मुमूर्व, ॥  
 ५८९—५९१ [ पुर्व, पर्व, मर्व ] पूरणे=पूरा करना । पूर्वति,  
 पुपूर्व; पर्वति, पपर्व, पर्विता, पर्विष्यति, पर्विषति, पर्विषाति, पर्वतु,  
 अपर्वत्, पर्वत्, अपर्वीत्, अपर्विष्यत्, [ मर्वति, ममर्व ] ॥  
 ५९२ [ चर्व ] अदने=खाना । चर्वति, चचर्व ॥ ५९३ [ भर्व ]  
 हिंसायाम् । भर्वति, बभवे ॥ ५९४—५९६ [ कर्व, खर्व,  
 गर्व ] दर्पे=अहंकार करना । कर्वति, चकर्व; खर्वति, चखर्व, गर्वति,  
 जगर्व ॥ ५९७—५९९ [ अर्व, शर्व, षर्व ] हिंसायाम् । अर्वति,  
 आनर्व, आनर्वतुः, शर्वति, सर्वति ॥ ६०० [ इवि ] व्याप्तौ =  
 व्याप्त होना । इन्वति । इस धातु मे नुम् के नकार को परसवर्ण  
 की प्राप्ति न होने से वकार मे मिल जाता है । इन्वाञ्चकार, इन्वा-  
 म्बभूव, इन्वामास, इन्विता, इन्विष्यति, इन्विषति, इन्विषाति,  
 इन्वतु, ऐन्वत्, इन्वेत्, इन्व्यात्, ऐन्वीत्, ऐन्विष्यत् ॥  
 ६०१—६०३ [ पिवि, मिवि, णिवि ] सेवने सेचने च=सेवन  
 करना और सीचना । पिन्वति, पिपिन्व; मिन्वति, मिमिन्व; निन्वति,  
 निनिन्व ॥ ६०४, ६०७ [ हिवि, दिवि, घिवि, जिवि ] प्रीण-  
 नार्थाः=वृप्ति होना । हिन्वति, जिहिन्व; दिन्वति, दिदिन्व, दिन्वि-  
 ता, दिन्विष्यति, दिन्विषति, दिन्विषाति, दिन्वतु, अदिन्वत्,  
 दिन्वेत्, दिन्व्यात्, अदिन्वीत्, अदिन्विष्यत् ।

१६६-धिन्विकृण्योर च<sup>१</sup> ॥ ३ । १ । ८० ॥

कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो धिन्वि और कृषिव  
 धातु से उ प्रत्यय और इन धातुओं को अकार आदेश हो जावे ।

१. इस सूत्र पर अर्वाचीन वैयाकरण कहते हैं कि इस सूत्र में  
 वकार का लोपमात्र कर देने से कार्य चल सकता था, क्योंकि वकारलोप  
 करने पर गुण का निषेध 'न धातुलोप आर्धधातुके' ( आ० ५५४ )

अकार आदेश सामान्य विधान होने से अलोन्त्यपरिभाषा के बल से अन्य् अल् वकार के स्थान में होता है, और यह उप्रत्यय शप्

सूत्र से ही जाता, पुन अकार का विधान करके उसका लोप और स्थानिवद्भाव के द्वारा गुणनिषेध करना इस बात का ज्ञापक है कि वार्तिककार द्वारा भावी में होने वाला 'न धातुलोप०' का प्रत्याख्यान सूत्रकार पाणिनि को भी ज्ञात और अभीष्ट था, अत एव इसी ज्ञापक के आधार पर अर्वाचीन वैयाकरण 'यथोत्तर मुनीना प्रामाण्यम्' ( पाणिनि की अपेक्षा कात्यायन और उसकी अपेक्षा पतञ्जलि अधिक प्रामाणिक है ) ऐसा स्वकल्पित परिभाषारूप वचन पढ़ते हैं । परन्तु यह सब प्रलापमात्र है । 'न धातुलोप' सूत्र से गुण का निषेध वहीं होता है जहाँ आर्धधातुक को मानकर धातु का लोप हुआ हो, परन्तु यहाँ आर्धधातुक प्रत्यय 'उ' की उत्पत्तिकाल में ही वलोप का विधान होगा । एक काल में उत्पन्न हुए दो साथियों में निमित्तनिमित्ती भाव की कल्पना नहीं होती । यदि कहा जाय कि उप्रत्यय की उत्पत्ति के अनन्तर वलोप का विधान करेंगे, तो ऐसा करने पर पुनः 'ध्विन्विकृण्यो' का ग्रहण करना होगा और वह बहुत गौरवास्पद होगा ।

इस विषय में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि महाभाष्यकार पतञ्जलि पाणिनि के जिन सूत्रों या सूत्रांशों का प्रत्याख्यान करते हैं वहाँ पाणिनि का खण्डन अर्थात् दोषदर्शन कराना इष्ट नहीं है अपितु प्रकारान्तर से प्रयोगसिद्धि दर्शाना ही अभीष्ट है । अन्यथा—“सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदस्मिन्, पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात् ।” महा० ६ । १ । ७७ ॥ अर्थात्—सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्ध रूपी सामर्थ्य से मैं इस शास्त्र में कुछ भी अनर्थक नहीं देखता इत्यादि महाभाष्यकार का वचन प्रमत्तगीतवत् अयुक्त होगा । महाभाष्यकारप्रदर्शित प्रकारान्तर से दर्शाई शब्दसिद्धि से उत्तरकालीन चन्द्रादि वैयाकरणों ने अत्यन्त लाभ उठाया है । यह उनके ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है ।

का अपवाद है। उ प्रत्यय की तिङ् और शित् से भिन्न होने के कारण ( ५० ) सूत्र से आर्धधातुक संज्ञा होती है। 'धिन्-अ-उ' ( १७२ ) सूत्र से अकार का लोप होकर—'धिन् + उ + तिप्' इस अवस्था में 'उ' आर्धधातुक प्रत्यय को मानकर धि के इकार को ( ५२ ) सूत्र से गुण प्राप्त है, सो 'अचः परस्मिन् पूर्वविधौ' इस परिभाषा सूत्र से अकारलोप के स्थानिवत् होने से गुण नहीं होता। फिर उ प्रत्यय को ( २१ ) सूत्र से गुण होकर—धिन् + उ + तिप् = धिनोति, धिन् + उ + तस् = धिनुतः। यहां ( ९९ ) सूत्र से तस् की ङित् संज्ञा होकर ( ३४ ) से गुण का निषेध होता है। धिन्वन्ति, धिनोषि, धिनुथः, धिनुथ, धिनोमि।

२००—लोपश्चास्यान्यतरस्यां ङ्वोः ॥ ६।४।१०७॥

संयोग जिसके पूर्व न हो ऐसा जो प्रत्यय का उकार उसका विकल्प करके लोप हो व और म परे हों तो। धिनु + वस् = धिन्वः, धिन्मः, धिनुवः, धिनुमः, दिधिन्व, दिधिन्वतुः, धिन्विता, धिन्विष्यति, धिन्विषति, धिन्विषाति, धिनवति, धिनवाति, यहां ( २१ ) सूत्र से गुण होकर ओकार को अट् आट् निमित्त अक् आदेश होता है। धिनोतु, धिनुतात्, धिनुताम्, धिन्वन्तु।

२०१—उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् ॥ ६।४।१०६॥

सयुक्त अक्षर जिसके पूर्व न हो ऐसा जो प्रत्यय का उकार तदन्त अङ्ग से परे जो हि उसका लुक् होवे। धिनु + हि = धिनु, धिनुतात्, धिनुतम्, धिनुत, धिनु + मिप् = धिनवानि। यहां ( ७३ ) सूत्र से ( नि ) आदेश, और ( ७४ ) सूत्र से आट् का आगम पित् होकर वस् मस् में भी गुण होजाता है—धिनवाव, धिनवाम;

अधिनोत्, अधिनुताम् अधिन्वन्, अधिनोः, अधिनुतम्, अधिनुत, अधिनवम्, अधिन्व, अधिनुव, अधिन्म, अधिनुम। 'विधिलिङ्' मे अदन्त अङ्ग से परे यासुट् के न'होने से ( ८३ ) सूत्र से इय् आदेश नहीं होता। धिनुयात्, धिनुयाताम्, धिनुयुः, धिनुयाः, धिनुयातम्, धिनुयात, धिनुयाम्, धिनुयाव, धिनुयाम। और यहां ( ८० ) से यासुट् के ङित् होने से ( ३४ ) सूत्र से गुण का निषेध होता है, और आशिष् लिङ् की ( ८६ ) सूत्र से आर्धधातुक संज्ञा होने से उ प्रत्यय नहीं होता। धिन्व्यात्, धिन्व्यास्ताम्, धिन्व्यासुः, अधिन्वीत्, अधिन्विष्टाम्, अधिन्विषुः, अधिन्विष्यत्; जिन्वति, जिजिन्व, जिन्विता, जिन्विष्यति, जिन्विषति, जिन्विषाति, जिन्वतु, अजिन्वत्, जिन्वेत्, जिन्व्यात्, अजिन्वीत्, अजिन्विष्यत् ॥ ६०८—६१० [ रिवि, रवि, धवि ] गत्यर्था । रिष्वति, रिरिष्व, ररष्वति, ररष्व। यहां नुम् के नकार को णत्व होता है। धन्वति, दधन्व ॥ ६११ [ कृवि ] हिंसाकरणयोश्च = हिंसा और करना। चकार से यह धातु गत्यर्थ भी है। और धिवि धातु में जो सूत्र लगते हैं वे सब इस में भी जानो, परन्तु—

२०२—वा०—ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम् ॥

महा० ८। ४। १ ॥

ऋवर्ण से परे जो नकार उस को णकार आदेश हो। इस वार्तिक से नुम् के नकार को सर्वत्र ऋकार से परे णत्व होता है। कृ+नुम्+व+उ+तिप् = कृणोति, कृणुतः, कृण्वन्ति, कृणोषि, कृणुथः, कृणुथ, कृणोमि, कृण्व, कृणुव, कृणमः, कृणुमः, चकृणव, चकृणवतु, कृण्वता, कृण्विष्यति, कृण्विषति, कृण्विषाति, कृणवति, कृणवाति, कृणोतु, अकृणोत्, अकृणव, अकृणुव, अकृणम,

अकृणुम्, कृणुयात्, कृण्व्यात्, अकृण्वीत्, अकृण्विष्यत् ॥ ६१२  
 [ मव ] बन्धने = बांधना । मवति, ममाव, मेवत्, मेतुः, मविता,  
 मविष्यति, मविषति, मविषाति; मवतु, अमवत्, मवेत्, मव्यात्,  
 अमावीत्, अमवीत्, अमविष्यत् ॥ ६१३ [ अव ] रक्षणग-  
 तिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छा-  
 दीप्त्यवाप्त्यालिङ्गनहिंसादानभागवृद्धिषु = गति, रक्षा, शोभा,  
 प्रीति, तृप्ति, बोध होना, प्रवेश करना, सुनना, अध्यक्ष का कार्य  
 साधना, मागना, चेष्टा, इच्छा, प्रकाश, प्राप्ति, लिपटना, हिंसा,  
 देना, विभाग करना और बढ़ाना । अवति, आव, आवतुः, आवुः,  
 अविष्यति, अविषति, अविषाति, अवतु, आवत्, अवेत्, अव्यात्,  
 आवीत्, आविष्यत् ॥ इति मव्यादय उदात्ता उदात्तेतो जयति-  
 वर्ज परस्मैभाषाः पञ्चनवतिः । ९५ मव्य आदि धातु समाप्त हुए ॥

[ अथैको वकारान्त उभयतोभाषः । ] अब एक वकारान्त  
 उभयपदी धातु कहते हैं । ६१४ [ धावु ] गतिशुद्ध्यो. = गति  
 और शुद्धि । यह धातु स्वरितेत् है, अर्थात् इसका अन्य वर्ण  
 स्वरित इत्संज्ञक होता है, ( १०५ ) सूत्र से क्रिया का फल कर्ता के  
 लिये हो तो आत्मनेपद, अन्यत्र परस्मैपद होता है, इसलिये उभयपद  
 के प्रयोग होते हैं । धावते, धावेते, धावन्ते, धावति, धावतः,  
 धावन्ति, दधावे, दधाव, धावितासे, धावितासि, धाविष्यते,  
 धाविष्यति, धाविषतै, धाविषातै, धाविषति, धाविषाति, धावताम्,  
 धावतु, अधावत्, अधावत्, धावेत्, धावेत्, धाविषीष्ट, धाव्यात्,  
 अधाविष्ट, अधावीत्, अधाविष्यत्, अधाविष्यत् ॥

अथोष्मान्ता [ एकोनचत्वारिंशदधिकं शतम् । तत्र धुक्षा-  
 दय ] आत्मनेपदिन एकपञ्चाशत् । अब ऊष्मान्त अर्थात् श,  
 ष, स, ह, ये वर्ण जिनके अन्त में हैं ऐसे [ १३९ एक सौ उनतां-  
 लीस धातुएं कहते हैं उनमें धुक्ष आदि ] ५१ ( इक्यावन ) धातु कहते

६। ६१५, ६१६ [ धुत्, धिक्ष ] सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु  
 = प्रकाश, दुःख और जीवन । धुत्ते, दुधुत्ते, धिचते, दिधिचे,  
 धुक्षितासे, धुक्षिष्यते, धुक्षिषतै, धुक्षिषातै, धुक्षताम्, अधुक्षत,  
 धुक्षेत, धुक्षिषीष्ट, अधुक्षिष्ट, अधुक्षिष्यत ॥ ६१७ [ वृक्ष ]  
 वरणे = ग्रहण करना । वृत्ते, ववृत्ते ॥ ६१८ [ शिक्त ]  
 विद्योपादाने = विद्या का ग्रहण करना । शिक्तत, शिशिक्ते ॥ ६१९  
 [ भिक्त ] भिक्तायामलाभे लाभे च = भीख मागना मिले वा न  
 मिले । भिक्तते, विभिक्ते ॥ ६२० [ क्लेश ] अव्यक्ताया वाचि =  
 अस्पष्ट बोलना, वाधन इत्यन्त्ये = और किसी किसी के मत में  
 दुःख देने अर्थ में भी है । क्लेशते, चिक्लेशे, क्लेशितासे, क्लेशि-  
 ष्यत, क्लेशिषतै, क्लेशिषातै, क्लेशताम्, अक्लेशत, क्लेशेत,  
 क्लेशिषीष्ट, अक्लेशिष्ट, अक्लेशिष्यत ॥ ६२१ [ दत्त ] वृद्धौ  
 शीघ्रायै च = बढना और शीघ्रता करना । दत्तते, ददत्ते ॥ ६२२  
 [ दीक्ष ] मौण्ड्येज्योपनयननियमव्रतादेशेषु = मुण्डन, यज्ञ,  
 यज्ञोपवीतधारण, नियम, सत्यभाषण आदि वा चान्द्रायण तथा  
 ब्रह्मचर्यादि का उपदेश । दीक्षते, दिदीक्षे ॥ ६२३ [ ईक्ष ]  
 दर्शने = विचारपूर्वक देखना । ईक्षत, ईक्षाञ्चक्रे, ईक्षाम्बभूव,  
 ईक्षामास ॥ ६२४ [ ईष ] गतिहिसादर्शनेषु = गति, हिसा  
 और देखना । ईषते, ईषाञ्चक्रे, ईषाम्बभूव, ईषामास, ईषितासे,  
 ईषिष्यते, ईषिषतै, ईषिषातै, ईषताम्, ऐषत, ईषेत, ईषिषीष्ट, ऐषिष्ट,  
 ऐषिष्यत ॥ ६२५ [ भाष ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना ।  
 भाषते, बभाषे, भाषिता, भाषिष्यत, भाषिषतै, भाषिषातै,  
 भाषताम्, अभाषत, भाषेत, भाषिषीष्ट, अभाषिष्ट, अभाषिष्यत ॥  
 ६२६ [ वर्ष ] स्नेहने = चिकनाई । वर्षते, ववर्षे ॥ ६२७  
 [ गेषु ] अन्विच्छायां = खोजना । गेषते, जिगेषे ॥ [ ग्लेषु ]  
 इत्येके । ग्लेषते, जिग्लेषे ॥ ३२८ [ पेष्ट ] प्रयत्ने । पेष्टते,

पिपेषे, पेषिता, पेषिष्यते, पेषिषतै, पेषिषातै, पेषताम्, अपेषत, पेषेत,  
पेषिषीष्ट, अपेषिष्ट, अपेषिष्यत ॥ ६१९—६३२ [ जेषृ, णेषृ,  
एषृ प्रेषृ ] गतौ । जेषते, नेषते, एषते, एषाञ्चक्रे, एषाम्बभूव,  
एषामास, प्रेषते ॥ ६३३—६३५ [ रेषृ, हेषृ, हेषृ ] अव्यक्ते  
शब्दे ' = गडबड शब्द हाना । रेषत, रिरषे, हेषत, जिहेषे, हेषते,  
जिहेषे ॥ ६३६ [ कासृ ] शब्दकुत्सायाम् = निन्दित शब्द  
करना । कासते, कासाञ्चक्रे, कासाम्बभूव, कासामास (१६९) सूत्र  
से यहाँ आम् प्रत्यय हाता है । कासितासे, कासिष्यत, कासि-  
षतै, कासिषातै, कासताम्, अकासत, कासेत, कासिषीष्ट, अकासिष्ट,  
अकासिष्यत ॥ ६३७ [ भासृ ] दीप्तौ । भासते, बभासे ॥  
६३८, ६३९ [ णासृ, रासृ ] शब्दे । नासते, रासते, ररासे, रासि-  
तासे, रासिष्यते, रासिषतै, रासिषातै, रासताम्, अरासत, रासेत,  
रासिषीष्ट, अरासिष्ट, अरासिष्यत ॥ ६४० [ णस ] कौटिल्ये  
= कुटिलता । नसते, नेसे, नेसाते ॥ ६४१ [ भ्यस ] भये  
= डरना । भ्यसते, बभ्रसे ॥ ६४२ [ आङ् : शसि ] इच्छा-  
याम् । इस धातु के पूर्व आङ् उपसर्ग इसलिये पढ़ा है कि इसी  
आङ् उपसर्ग का नियम रहे अन्य उपसर्ग इसके पूर्व न लगे । आशं-  
सते, आशशसे, आशंसिता, आशंसिष्ट ॥ ६४३, १४४ [ ग्रसृ,  
ग्लसृ ] अदने = खाना । ग्रसते, ग्लसते, जग्रसे, जग्लसे, ग्रसिता,  
ग्रसिष्यते, ग्रसिषतै, ग्रसिषातै, ग्रसताम्, अग्रसत्, ग्रसेत, प्रसिषीष्ट,  
अग्रसिष्ट, अग्रसिष्यत ॥ ६४५ [ ईह ] चेष्टायाम् = क्रिया ।  
ईहत, ईहाञ्चक्रे, ईहाम्बभूव, ईहामास, ईहितासे, ईहिष्यते, ईहिषतै,  
ईहिषातै, ईहताम्, ऐहत, ईहेत, ईहिषीष्ट, ऐहिष्ट, ऐहिष्यत ॥

१ प्रथम धातु भेड़िये के शब्द मे और द्वितीय तृतीय अर्थ के शब्द  
( हिनहिनाने ) में प्रयुक्त होता है ।



६४६, ६४७ [ वहि, महि ] वृद्धौ = बढना । वंहते, महते, ववहे, वंहिता, वंहिष्यते, वंहिषतै, वंहिषातै, वहताम्, अवहत, वंहेत, वंहिषीष्ट, अवंहिष्यत ॥ ६४८ [ अहि ] गतौ । अंहते, आन्हे, आनंहाते, अंहिता, अंहिष्यते, अंहिषंतै, अंहिषातै, अंहताम्, आहत, अहेत, अहिषीष्ट, आहिष्ट, आहिष्यत ॥ ६४९, ६५० [ गर्ह, गल्ह ] कुत्सायाम् = निन्दा । गर्हत, गल्हते, जगर्ह, जगल्हे ॥ [ बर्ह बल्ह ] प्राधान्ये = श्रेष्ठता । बर्हते, बवर्हे, बल्हत, बबल्हे ॥ ६५३, ६५४ [ वर्ह, बल्ह ] परिभाषणाहिसाच्छादनेषु = बहुत बोलना, हिसा और दबाना । वहते, बल्हते, पूर्व दांनो धातुओ और इन दांनो मे इतना ही भेद है कि पहिले दांनो मे पवर्गीय ब्कार और इन दांनो मे यवर्गीय ब्कार है ॥ ६५५ [ प्लिह ] गतौ = चलना । प्लेहते, पिप्लेहे, प्लेहिता, प्लेहिष्यत, प्लेहिषतै प्लेहिषातै, प्लेहताम्, अप्लेहत, प्लेहेत, प्लेहिषीष्ट, अप्लेहिष्ट, अप्लेहिष्यत ॥ ६५६-६५८ [ वेह जेह बाह ] प्रयन्ने = पुरुषार्थ । वेहत, विवेह, विवेहिद्वे, विवेहिध्वे, वेहिता, वेहिष्यते, वेहिषतै, वेहिषातै, वेहताम्, अवहत, वेहेत, वेहिषीष्ट, वेहिषीद्वम्, वेहिषीध्वम्, अवेहिष्ट, अवेहिद्वम्, अवेहिध्वम्, अवेहिष्यत, जेहत, जिजेहे, अजेहिष्ट, बाहते, बबाहे ॥ ६५९ [ द्रोह ] निद्राक्षये = जागना । द्राहत, दद्राहे, दद्राहिद्वे, दद्राहिध्वे, द्राहितासे, द्राहिषतै, द्राहिषातै, द्राहताम्, अद्राहत, द्राहेत, द्राहिषीष्ट, अद्राहिष्ट, अद्राहिद्वम्, अद्राहिध्वम्, अद्राहिष्यत ॥ निक्षेप इत्यन्ये । किन्ही लोगो के मत मे यह धातु धन रखने अर्थ मे है ॥ ६६० [ काश ] दीप्तौ = प्रकाश होना । काशते, चकाशे, काशितासे, काशिष्यते, काशिषतै, काशिषातै, काशताम्, अकाशत, काशेत, काशिषीष्ट, अकाशिष्ट, अकाशिष्यत ॥ ६६१ [ ऊह ] वितर्के = अनेक प्रकार के तर्क उठाना । ऊहते, ऊहाञ्चक्रे, ऊहाम्बभूव, ऊहामास,

ऊहिता, ऊहिष्यते, ऊहिषतै, ऊहिषातै, ऊहिताम्, औहित, ऊहेत,  
ऊहिषीष्ट औहिष्ट, औहिढ्वम्, औहिध्वम्, औहिष्यत् ॥ ६६२  
[गाह्] धिलोडने = बिलोना । यह भी धातु ऊदित् है । गाहत,  
गाहेत, गाहन्त, गाहसे, गाहेथे, गाहध्वे, गाहे, गाहावहे, गाहामहे,  
जगाहे, जगाहाते, जगाहिरे, जगाहिषे, और जिस पद मे (१४०) से  
इट नहीं होता वहा 'जगाह् + से' इस अवस्था मे—

२०३—हो ढः ॥ ढ । २ । ३१ ॥

भल जिससे परे हो वा पदान्त मे जो हकार उस का ढकार  
आदेश हो । यहा गाह् धातु के हकार को ढकार होकर—

२०४—एकाचो बशो भष् भ्रषन्तस्य स्थवोः ॥

ढ । २ । ३७ ॥

भलादि स और ध्व परे हो वा पदान्त मे धातु का अवयव जो  
भ्रषन्त एकाच् [ उसका अवयव ] बश् प्रत्याहार मे कोई वर्ण हो  
उस को भष् आदेश हो । यहां गाह् धातु के 'बश्' गकार को 'भष्'  
षकार हो जाता है । बश् प्रत्याहार मे 'ब, ग, ङ, द' चार वर्ण हैं  
और भष् प्रत्याहार मे भी 'भ, घ, ढ, ध' चार वर्ण हैं इनका यथा-  
संख्य क्रम तो लगता है परन्तु 'ढ' स्थानी के न होने से 'ढ' आदेश  
कही नहीं आता । अब 'जघाढ् + से' इस अवस्था मे +

२०५—षढोः कः सि ॥ ढ । २ । ४१ ॥

सकारादि प्रत्यय परे हो तो षकार और ढकार को ककार  
आदेश हो जावे । यहां ककार होकर—जघाक् + से = जघाक्ते,  
( ५७ ) से षत्व होजाता है और इसी ककार षकार के सयाग को  
'क्' बोलते हैं, परन्तु यह लिखने और बोलने की परिपाटी यथाथे

१. यथासंख्यमनुदेश. समानाम् ( सन्धि ११२ ) सूत्रोक्त ॥  
स्थानेऽन्तरतम ( सन्धि० ८४ ) से भी यह कार्य हो सकता है ।

नहीं, <sup>१</sup> ठीक तो यही है कि लिखने और बोलने में 'क्+ष्' के स्वरूप स्पष्ट विदित हों। जगाहाथे, जगाहिद्वे ( १९१ ), जगाहिध्वे । और जिस पक्ष में ( १४० ) से डूट् का आगम नहीं होता वहाँ 'जघाढ+ध्वे' इस अवस्था में तवर्ग 'ध्वे' क धकार को ढकार हो जाता है <sup>२</sup> पीछे—

२०६—ढो ढे लोपः ॥ ८ । ३ । १३ ॥

ढकार का लोप हो ढकार परे हो तो। इस से गाह घातु के ढकार का लोप हो कर—जघाढवे, जगाहे, जगाहिवहे, जगाह्वहे, जगाहिमहे, जगाह्वहे । 'लुट्'—गाहिता, गाहितारौ, गाहितारः, गाहितासे । अनिट् पक्ष म—गाह्+तास्+डा = गाढा, यहाँ ( १४१ ) से तास् के तकार को धकार और ( २०३ ) से ढव्य "घुना घुः" <sup>२</sup> से धकार को ढकार और प्रथम ढकार का ( २०६ ) से लोप होता है । गाढारौ, गाढारः, गाढासे, गाढासाथे, गाढाध्वे, गाढाहे, गाढास्वहे, गाढास्महे, गाहिष्यते, गाहिष्येते, गाहिष्यन्ते । अनिट् पक्ष में—गाह्+स्य+ते = घाक्ष्यते, घाक्ष्येते, घाक्ष्यन्ते । गाहिषतै, गाहिषातै, गाह्+स्+अट्+त = घाक्षतै, घाक्षेतै, गाहतै, गाहातै, गाहते, गाहाते, गाहताम्, अगाहत, गाहेत गाहिषीष्ट, घाक्षीष्ट, गाहिषीढ्वम्, गाहिषीध्वम्, घाक्षीध्वम्, अगाहिष्ट, अगाहिषाताम्, अगाहिषत, [ अगाहिष्ठा, अगाहिषाथाम्, ] अगाहिढ्वम्, अगाहिध्वम् । अनिट् पक्ष में—अट्+गाह्+सिच्+त = अगाढ । यहा ( १४२ ) से सिच्

१ हमारे विचार में 'क्ष' के लिखने और उच्चारण में जो दोष दर्शाया है वह ठीक नहीं है, 'क्ष' के उच्चारण में स्पष्टतया 'क् ष्' वर्ण सुने जाते हैं, लिपि सारी सांकेतिक है अतः उसमें दोष दर्शाना भी उचित नहीं है ।

२ घुना घुः ( सन्धि० २१४ ) सूत्र से ।

के सकार का लोप ( १४१ ) से तकार को धकार और पूर्वोक्त रीति से सब काम जानो । अगाह् + सिच् + आताम् = अघाक्षा-  
ताम्, अघाक्षत, अगाह् + सिच् + थास् = अगाढाः, आघाक्षाथाम्,  
अघाढ्वम्, अघाक्षि, अघाक्ष्वहि, अघाक्षमहि, अगाहिष्यत, अघा-  
क्ष्यत, अघाक्ष्येताम्, अघाक्ष्यन्त ॥ ६६३ [ गृह् ] ग्रहणे =  
ग्रहण । गर्हते, जगृहे, जगृहाते, जगृहरे । यह भी ऊदित् है; और  
गाहू के समान सब काम हकारान्त के होंगे । जगृहिषे, जघृक्षे,  
जगृहाथे, जगृहिढ्वे, जगृहिध्वे, जघृढ्वे, जगृहे, जगृहिवहे, जगृहि-  
महे, जगृह्यहे, गर्हिता, गर्डा, गढारौ, गढोर, गढोसे, गर्हिष्यते,  
घक्ष्यते, घक्ष्यते, घक्ष्यन्ते, गर्हिषतै, गर्हिषातै, घक्ष्यतै, घक्ष्यतै, गर्हतै,  
गहातै, गर्हताम्, अगर्हत, गर्हत, गर्हिषीष्ट, घृक्षीष्ट ( १६३ ) से  
कित्त्वत् हो जाने से गुण नहीं होता । गर्हिषीढ्वम्, गर्हिषीध्वम्,  
घृक्षीध्वम्, अगर्हिष, अगर्हिषाताम्, अगर्हिषत, [ अगर्हिषाः,  
अगर्हिषाथाम्, ] अगर्हिष्वम्, अगर्हिष्वम् । अनिट् पत्र मे—  
'अट् + गृह् + च्लि + त' इस अवस्था मे—

२०७—शल इगुपधादनिटः क्सः ॥ ३ । १ । ४५ ॥

इक् जिसकी उपधा मे हो ऐसा जो शलन्त धातु उससे परे जो  
च्लि, प्रत्यय उसके स्थान मे क्स आदेश हो । यह सूत्र ( ९० ) का  
अपवाद है । क्स मे से ककार की इत्सज्ञा होकर—अट् + गृह् + स  
+ त = अघृक्षत, अट् + गृह् + स + आताम्, इस अवस्था मे—

२०८—क्सस्याचि ॥ ७ । ३ । ७२ ॥

क्स प्रत्यय का लोप हो अजादि प्रत्यय परे हो तो । यहां लोप-  
रूप आदेश अन्त्य अल् के स्थान मे होता है । अट् + गृह् + स +  
आताम् = अघृक्षाताम्, अघृक्षन्त, अघृक्षाथाः, अघृक्षाथाम्, अघृक्ष-  
ध्वम्, अट् + गृह् + क्स + इट् = अघृक्षि । यहां भी अजादि इट्

प्रत्यय के परे कस के अकार का लोप होजाता है । अघृत्तावहि, अघृत्तामहि, अगर्हिष्यत, अघक्ष्येत ॥ ६६४ [ ग्लह ] च । यह धातु भी प्रहण अथेमे ही है । ग्लहते, जग्लहे, ग्लहिता, ग्लहिष्यते, ग्लाहिषतै, ग्लाहिषातै, ग्लहताम्, अग्लहत, ग्लहेत, ग्लहिषीष्ट, अग्लहिष्ट, अग्लहिष्यत ॥ ६६५ [ घुषि ] कान्तिकरणे = इच्छा करना । घुषते, जुघुंषे, घुषिता, घुषिष्यते, घुषिषतै, घुंषिषातै, घुषताम्, अघुंषत, घुषेत, घुषिषीष्ट, अघुषिष्यत ॥ इति धुत्तादथ उदात्ता अनुदान्तत आत्मनेभाषा एकपञ्चाशत् समाप्ताः । ये धुत्त आदि आत्मनेपदी ५१ ( इक्यावन ) धातु समाप्त हुए ॥

अथ [ घुषिरादयः ] परस्मैपदिनोऽष्टाशीतिः । अब ८८ ( अट्टासी ) धातु परस्मैपदी कहते हैं । ६६६ [ घुषिर् ] अविशब्दने । इस शब्द का तीन प्रकार का अर्थ होता है । एक तो विशब्दन = प्रतिज्ञा, उसका निषेध, दूसरा अवि = भेड का शब्द होना और तीसरा वि = पक्षी के शब्द का निषेध अर्थात् अन्य प्राणी का शब्द होना । घाषात्, जुघाष, घोषितासि, घोषिष्यति, घोषिषति, घोषिषाति, घोषतु, अघोषत्, घोषेत्, घुष्यात्, और इस धातु मे इर् भाग की उत्सङ्गा होती है इस कारण ( १३८ ) से च्लि के स्थान मे अङ् विकल्प करक होता है—अघुप् + अङ् + तिप् = अघुषत्, अघुषाताम्, अघुषन्, अघुषः, अघुषतम्, अघुषत, अघुषम्, अघुषाव, अघुषाम । सिच् पक्ष मे—अघोषीत्, अघोषिष्टाम्, अघोषिषु, अघोषिष्यत् ॥ ६६७ [ अच् ] व्याप्तौ = व्यापकता ।

२०६—अच्चोऽन्यतरस्याम् ॥ ३ । १ । ७५ ॥

कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो अच् धातु से श्नु प्रत्यय विकल्प करके होवे । यह सूत्र ( १९ ) का अपवाद है, इस कारण पक्ष

मे शप् ही होता है। श्नु प्रत्यय के शकार की ईत्संज्ञा होकर—  
 अक्ष् + नु + तिप् = अक्ष्णाति। यहां नु के उकार को ( २१ ) से गुण  
 होता है। अक्ष्णुतः, अक्ष्णुवन्ति। यहां ( १५९ ) से श्नु प्रत्यय को  
 उवङ् आदेश होता है। अक्ष्णोषि, अक्ष्णुथः, अक्ष्णुथ, अक्ष्णोमि,  
 अक्ष्णुवः, अक्ष्णुमः, ( २०० ) संयोग पूरे होने से उकार का लोप  
 विकल्प से नहीं होता। जिस पक्ष में श्नु प्रत्यय नहीं होता वहां शप्—  
 अक्षति, अक्षतः, अक्षन्ति; आनक्ष, आनक्षतुः, आनक्षु। यह  
 भी धातु ऊदित् है इस कारण इट् का विकल्प होता है। आन-  
 क्षिथ। अनिट् पक्ष में—‘आनक्ष्-थल्’ इस अवस्था में—

२१०—स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ॥ ८ । २ । २६ ॥

पदान्त में वा फल जिस से परे हो ऐसा जो संयोग उसके  
 आदि के जो स् और क् हैं उनका लोप होवे। यहां संयोग का  
 आदि ककार है और फल थकार परे है, उस ‘क’ का लोप होकर  
 थल् के थकार को “ह्दुना ह्दुः” सूत्र से ठकार हो जाता है—  
 आनष्ट, आनक्षथु, आनक्ष, आनक्ष, आनक्षि, आनक्ष्व, आन-  
 क्षिम, आनक्ष्म, अक्षिता, अक्षितारौ। अनिट् पक्ष में—अक्ष् +  
 तास + डा = अष्टा, अष्टारौ, अष्टारः; अक्षिष्यति, ‘अक्ष् + स्य + तिप्’  
 यहां ( २१० ) संयोगादि ककार का लोप मूर्धन्य ष् को ( २०५ )  
 क और षत्व होकर—अक्षयति, अक्षयतः, अक्षयन्ति, अक्षिषति,  
 अक्षिषति, अक्षिषि अक्षति, अक्ष्णावति, अक्ष्णावाति इत्यादि,  
 अक्ष्णोतु, अक्ष्णुतात्, अक्ष्णुताम्, अक्ष्णुवन्तु ( १५९ ), अक्ष्णुहि,  
 यहां संयोगपूर्वक उकार के होने से हि का लुक् ( २०१ ) से नहीं  
 होता। अक्ष्णुतात्, अक्ष्णुतम्, अक्ष्णुत, अक्ष्णावनि, अक्ष्णावव,  
 अक्ष्णावाम। यहां आट् आगम के पित् ( ७४ ) हाने से श्नु को

गुण होजाता है। अक्षु, आक्षुत्, आक्षुताम्, आक्षुवन्, आक्षुः, आक्षुतम्, आक्षुत, आक्षुवम्, आक्षुव, आक्षुम्; आक्षत्, अक्षुयीत्, अक्षुयातम्, अक्षु + यासुट् + जस = अक्षुयुः; यहां ( ८३ ) से इय् आदेश की प्राप्ति न होने से ( ८५ ) सूत्र से पररूप एकादेश होजाता है। अक्षुयाः, अक्षुयातम्, अक्षुयात्, अक्षुयाम्, आक्षुयाव, अक्षुयाम, अक्षेत्, अक्षेताम् अक्षेयुः, अक्ष्यात्, अक्ष्यास्ताम्, अक्ष्यासुः, माभवानक्षीत्, अक्षिष्टाम्, अक्षिषुः। ( १३३ ) से वृद्धि नहीं होती, और अनिट् पक्ष में तो वृद्धि ( १३२ ) से हो जाती है—<sup>१</sup> आक्ष् + सिच् + ईट् + तिप् = आक्षीत्, आक्ष् + सिच् + तस् = आक्षाम्, यहां स्योगादि ककार का लोप ( २१० ) और सिच् के सकार का लोप ( १४२ ) से होता है। [आक्षत्,] आक्ष् + सिच् + ईट् + सिप् = आक्षीः, आक्षम्, आष्ट, आक्षम्, आक्ष्व, आक्ष्म, आक्षिष्यत्, आक्ष्यत्, आक्ष्य-

१ वद्व्रजहलन्तस्याच ( आ० १३२ ) सूत्र में योगविभाग करने से 'हलन्त' ग्रहण के बिना भी कार्य चल सकता है। कैसे ? 'वद्व्रज्यो' सूत्र में पूर्व सूत्र से 'अत्' की अनुवृत्ति आती है, अर्थ होगा— वद, व्रज धातु के अकार को सिच् परे वृद्धि हो। दूसरा सूत्र होगा— 'अच्', यहा अच् का विशेषण अङ्ग होगा। अर्थ होगा—अङ्ग के अच् को सिच् परे रहने पर वृद्धि होती है। इस प्रकार 'हलन्त' ग्रहण के बिना भी कार्य चल सकता था, पुन हलन्त ग्रहण यहा हल् समुदाय की प्रतिपत्ति के लिये है। अन्यथा 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि-वचनप्रामाण्यात्' नियम से अच् और सिच् के बीच में जहां एक हल् का व्यवधान होता वहीं 'वृद्धि' हो सकती थी। अब हल्समुदाय का ग्रहण होने से "अरांक्षीत्, अभाक्षीत्" के सदृश 'माभवान् आक्षीत्, आष्टाम्, आक्षु' में भी वृद्धि हो जाती है।

ताम् । आक्ष्यन् ॥ ६६८, ६६९ [ तच्, त्वच् ] तनूकरणे = सूक्ष्म  
करना ।

२११—तनूकरणे तच्ः ॥ ३ । १ । ७६ ॥

कर्तावाची सावेधातुक परे हो तो तनूकरण अर्थ मे वर्तमान तच्  
धातु से श्नु प्रत्यय विकल्प करके हो । यह सूत्र भी शप् का ही  
अपवाद है, और यह भी ऊदित् है, इमलिये सब लकारो मे इसका  
साधुत्व अक्षू धातु के समान जानना चाहिये । तक्षणाति, तक्ष्णुतः,  
तक्ष्णुवन्ति, तक्षति, तत्तच्, तत्तच्तु, तत्तक्षु, तत्तक्ष्थ, तत्तष्ट,  
तक्षिता, तष्टा, तष्टारौ, तष्टारः, तक्षिष्यति, तक्ष्यति, तक्षिषति,  
तक्षिषाति, तक्षति. तक्षाति, तक्ष्णवति, तक्ष्णवाति, तक्ष्णोतु, तक्षतु,  
अतक्ष्णोत्, अतक्षत्, तक्ष्णयात्, तक्षेत्, तक्ष्यात्, अतक्षीत्,  
अतक्षिष्टाम्, अतक्षिषु, अताक्षीत्, अताष्टाम्, अताक्षु, अतक्षि-  
ष्यत, अतक्ष्यत । “त्वक्षू” धातु के प्रयोग आर्धधातुक विषय मे  
ऊदित् के होने से तक्षू के तुल्य होते है, और सावेधातुक मे कुछ  
विशेष नहीं । त्वक्षति, त्वक्ष, त्व्वाक्ष्थ, त्व्वाष्ट, त्वक्षिता, त्वष्टा,  
त्वक्षिष्यति, त्वक्ष्यति, त्वक्षिषति, त्वक्षिषाति, त्वक्षति, त्वक्षाति, त्वक्षतु,  
अत्वक्षत्, त्वक्षेत्, त्वक्ष्यात्, अत्वक्षीत्, अत्वाक्षीत्, अत्वाष्टाम्,  
अत्वाक्षु, अत्वक्षिष्यत्, अत्वक्ष्यत् ॥ ६७० [ उक्ष ] सेचने =  
सीचना । उक्षति, उक्षाश्चकार, उक्षाश्चभूव, उक्षासास, उक्षिता,  
उक्षिष्यति, उक्षिषति, उक्षाषाति, उक्षतु, औक्षत्, उक्षेत्, उक्ष्यात्,  
औक्षीत्, औक्षिष्यत् ॥ ६७१ [ रक्ष ] पालने । रक्षति, ररक्ष,  
रक्षिता, रक्षिष्यति, रक्षिषति, रक्षिषाति, रक्षतु, अरक्षत्, रक्षेत्,  
रक्ष्यात्, अरक्षीत्, अरक्षिष्यत् ॥ ६७२ [ णिञ ] चुम्बने =  
चूमना । निक्षति, निनक्ष ॥ ६७३-६७५ [ तृक्ष, षृक्ष, णक्ष ]

१. देखो, पृष्ठ १२३ की टिप्पणी ।



गतौ । वृत्ति, तवृत्त, स्तृत्ति, तस्तृत्त, नत्ति, ननत्त ॥ ६७६  
 [ वत्त ] रोषे = रिसाना । वत्ति, ववत्त, वत्तिता, वत्तिष्यति,  
 वत्तिषति, वत्तिषाति, वत्तु, अवत्त, वत्तेत्, वक्ष्यात्, अवत्तीत्,  
 अवत्तिष्यत् । सङ्घात इत्यन्ये । किन्ही लोगो के मत मे यह धातु  
 संघात अर्थ में है ॥ ६७७ [ मृत्त ] सङ्घाते । मृत्ति, ममृत्त ॥  
 [ म्रत्त ] इत्येके । किन्ही के मत मे यह धातु रेफवान् है, ऋका-  
 रवान् नहीं ६७८ [ तत्त ] त्वचने = टांपना । तत्ति ॥  
 [ पत्त ] परिग्रह इत्येके = हठ करना । किन्ही का मत है । पत्ति,  
 पपत्त ॥ ६७९ [ सूदृत्त ] आदरे = मान्य करना । सूदृष्यति,  
 सुसूदृष्यत् ॥ ६८०-६८२ [ कान्ति, वान्ति, मान्ति ] काङ्क्षा-  
 याम् = अभिलाषा । काङ्क्षति, वाङ्क्षति, माङ्क्षति ॥ ६८३-  
 ६८५ [ द्रीक्षि, ध्राक्षि, ध्वाक्षि ] घोरवासिते च = पाप में वसना<sup>१</sup>  
 द्राङ्क्षति, दद्राङ्क्ष, ध्राङ्क्षति, द्धाङ्क्ष, ध्वाङ्क्षति, द्ध्वाङ्क्ष ॥  
 ६८६ [ चूष ] पाने = चूसना । चूषति, चुचूष, चूषिता, चूषिष्यति,  
 चूषिषति, चूषिषाति, चूषतु, अचूषत्, चूष्यात्, अचूषीत्, अचूषि-  
 ष्यत् ॥ ६८७ [ तूष ] तुष्टौ = सन्तोष करना । तूषति, तुतूष ॥  
 ६८८ [ पूष ] वृद्धौ = बढ़ाना । पूषति, पुपूष ॥ ६८९  
 [ मूष ] स्तेये = चोरी । मूषति, मुमूष ॥ ६९१, ६९२ [ लूष,  
 रूष ] भूषायाम् = शोभा । लूषति, रूषति, लुलूष, ररूष ॥ ६९२  
 [ शूष ] प्रसवे = उत्पत्ति । शूषति, शुशूष ॥ ६९३ [ यूष ]  
 हिंसायाम् । यूषति, युयूष ॥ ६९४ [ जूष ] च । जूषति,  
 जुजूष ॥ ६९५ [ भूष ] अलङ्कारे = गहना । भूषति,

१. अन्य वृत्तिकार इसका अर्थ 'घोरवासिते' पदमे है जिसका  
 भाषार्थ 'क्रूर शब्द करना' है । कौवा का वाचक ध्वाक्ष शब्द इसी ध्वाक्षि  
 धातु से बनता है ।

बुभूष, भूषिता, भूषिष्यति, भूषिषति, भूषिषाति, भूषतु, अभूषत्, भूषेत्, भूष्यात्, अभूषीत्, अभूषिष्यत् ॥ ६६६ [ ऊष ] रुजायाम् = रोग । ऊषति, ऊषाञ्चकार; ऊषाम्बभूव, ऊषामास ॥ ६९७ [ ईष ] उञ्छे = उञ्चना । ईषति, ईषाञ्चकार, ईषाम्बभूव, ईषामास ॥ ६९८—७०७ [ कष, खष, शिष, जष, ऋष, शष, वष, मष, रुष, रिष ] हिंसार्थाः । इन सब में शिष धातु अनिट् है<sup>१</sup> । कषति, चक्राष, चकषतु, कषिता, कषिष्यति, काषिषति, काषिषाति, कषतु, अकषत्, कपेत्, कष्यात्, अकषीत्, अकषिष्यत्, खषति, चखाष, शेषति, शिशेष, शिशिषतु., शिशेषिष, यहा ( १४८ ) सूत्र के नियम से इट् हो जाता है नहीं तो प्राप्ति नहीं थी । शेषा, शेषारौ, शेषारः, शेष्यति, शेषति, शेषाति, शेषति, शेषाति, शेषतु, अशेषत्, शेषेत्, शिष्यात् । अट् + शिष् + क्स् + तिप् = अशिषत्, अशिषताम्, अशिषन्, अशिषः, अशिषतन्, अशिषन्, अशिषाम्, अशिषाव, अशिषाम्, । यहा च्लि के स्थान में क्स् आदेश ( २०७ ) से हो जाता है । अशिष्यत् । जषति, जजाष, जेषतुः, जेषुः, जषिता, जषिष्यति, जाषिषति, जाषिषाति, जषतु, अजषत्, जषेत्, जष्यात्, अजाषीत्, अजषीत् । ऋषति, जम्भाष; शषति, शशाष, शेषतुः, वषति, ववाष, ववषतु., ( १२८ ) से एत्वाभ्यासलोप का निषेध होता है । मषति, ममाष, मेषतु., रोषति, रुरोष, रेपति, रिरेष । य दोनो धातु सेट् ही है, परन्तु तकारादि आर्धधातुक में विशेष है ।

२१२—तीषसहलुभरुषरिषः ॥ ७ । २ । ४८ ॥

इपु, सह, लुभ, रुष और रिष धातुओं से परे जो तादि आर्ध-

१ सेट् धातुओं में अनिट् शिष धातु का पाठ पान्त और परस्मैपद प्रकरण के अनुरोध से किया है ।

धातुक उसको इट् का आगम विकल्प करके हो। इस सूत्र मे प्राप्तविभाषा इसलिये है कि सर्वत्र नित्य इट् प्राप्त है उसका विकल्प विशेष विषय मे किया है। रोषिता, रोष्टा, रोष्टारौ, रोष्टारः, रेषिता, रेष्टा, रेषिष्यति, रेषिषति, रेषिषाति, रेषतु, अरेषत्, रेषेत, रिष्यात्, अरेषीत्, अरेषिष्यत् ॥ ७०८ [ भष ] भर्त्सने = धमकाना भषति, बभाष ॥ ७०९ [ उष ] दाहे = जलन । ओषति, ओषतः, ओषन्ति ।

२१३—उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् ॥ ३। १। ३८॥

उष, विद् और जागृ धातुओ से आम् प्रत्यय विकल्प करके हो लिट् लकार परे हो तो वेदविषय को छोडकर । यह बात सर्वत्र के लिये ध्यान मे रखनी चाहिये कि जिन-जिन एध आदि धातुओ से आम् प्रत्यय किया है वहा वहा सर्वत्र वेद मे आम् प्रत्यय का निषेध है, जैसे—एध् + एध् + एश् = इयेधे ( १५३ ) इत्यादि प्रयोगो की योजना वैदिक प्रयोगो मे समझ लेना चाहिये । ओषाञ्चकार, उवोष, ऊषतु, और वेद मे भी “उवोष” ही होगा । ओषिता, ओषिष्यति, ओषिषति, ओषिषाति, ओषतु, औषत्, ओषेत्, उष्यात्, औषीत्, औषिष्यत् ॥ ७१०—७१२ [ जिषु, विषु, मिषु ] सेचने = सीचना । जेषति, जिजेष । षि धातु अनिट् है<sup>१</sup> । वेषति, विवेष, विवेषिथ, विवेषिव, विवेषिम, वेष्टा, वेक्ष्यति, वेक्षति, वेक्षाति, वेषति, वेषाति, वेषतु, अवेषत्, वेषेत्, विष्यात्, अविष् + क्स + तिप् = अविक्षत्, अविक्षताम्, अविक्षन्, अवेक्ष्यत् ॥ ७१३

१. यह धातु भी शिष के सदृश षान्त प्रकरण के अनुरोध से यहां पढ़ी है ।

७१३ [पुष] पुष्टौ । अनिट् कारिका मे दिवादिगण<sup>१</sup> के पुष धातु का निर्देश किया है, इस कारण यह सेट है । पोषति, पुपोष, पोषिता, पोषिष्यति, पोषिषति, पोषिषाति, पोषतु, अपोषत्, पोषेत्, पुष्यात्, अपोषीत्, अपोषिष्यत् ॥ ७१४—७१७ [ श्रिषु, श्रिषु, पुषु, प्लुषु ] दाहे । श्रेषति, श्लेषति, शिश्रेष, शिश्लेश, प्रोषति, पुप्रोष, प्लोषति, पुप्लोष, श्लिष धातु भी अनिट् व्यवस्था मे दिवादिगण<sup>१</sup> का ही पढ़ा है ॥ ७१८—७२० [ पृषु, वृषु, मृषु ] सेचने । पर्षति, वर्षति, मर्षति, पपषे, पपृषतुः, पपृषुः, पषिता, पषिष्यति, पर्षिषति, पर्षिषाति, पर्षति, पर्षाति, पर्षतु, अपर्षत्, पर्षेत्, पर्ष्यात्, अपर्षीत्, अपषिष्यत् । मृषु सहने च, इतरौ हिंसासंक्लेशनयोश्च । मृषु धातु के सहना और सीचना तथा पृषु, वृषु धातुओं के सीचना, हिंसा और संक्लेशन तीनों अर्थ हैं ॥ ७२१ [ वृषु ] संघर्षे = घिसना । घर्षति, जघर्ष ॥ ७२२ [ हृषु ] अलीके = भूँठ । हर्षति, जहर्ष ॥ ७२३—७२६ [ तुस, हूस, हूलस, रस ] शब्दे । तोसति, तुतोस, तोसिता, तोसिष्यति, तोसिषति, तोसिषाति, तोसतु, अतोसत्, तोसेत्, तुस्यात्, अतोसीत्, अतोसिष्यत्, हूसति, जहूस, हूलसति, जहूलस, रसति, ररास, रेसतु, रेसुः, रसिता, रसिष्यति, रासिषति, रासिषाति, रसतु, अरसत्, रसेत्, रस्यात्, अरसीत्, अरासीत्, अरसिष्यत्, ॥ ७२७ [ लस ] श्लेषणक्रीडनयो = मिलना और खेलना । लसति, ललास,

१ 'शिषि पिषि शुष्यति पुष्यति' मे इयन् से निर्देश होने से । देखो भूमिका

लौसतु. ॥ ७२८ [ घस्लृ ] अदन = खाना । घसति,<sup>३</sup> जघास ।  
जघस्—अतुस्, इस अवस्था मे—

३. काशिका ७ । २ । ६१ के “यो हि तासावसन्, असत्वाच्च नित्यानिट्” इत्यादि वचन से ज्ञात होता है कि घस् धातु का पाठ भ्वादि मे नहीं था । क्षीरस्वामी ने ‘घस्लृ अदने इति केचित्’ लिखा है इससे उसके मत में भी घस् का पाठ यहा नहीं है । भट्टभास्कर ने भी घास शब्द की सिद्धि मे ‘बहुलं छन्दसि’ से घस्लादेशका विधान किया है । अत जहा घस् धातु का प्रतिपदपाठ है वही इसका प्रयोग होता है । सायण के मतानुसार लिट् और आशिपिलिट् में इस के प्रयोग नहीं होते । यह लिखता है—“इस धातु के सब प्रत्ययो में प्रयोग नहीं होते । अन्यथा ‘लिट्प्रत्ययतरस्याम्’ ( आ० २९९ ) से अद को विकल्प से घस्लृ आदेश का विधान करना व्यर्थ हो जावे, क्योंकि ‘आद आदतु आदु.’ और ‘जघास, जक्षतु, जक्षु’ दो रूप बनाने इष्ट हैं । ये दोनों स्वतन्त्र धातुओ के बन ही जावेंगे फिर विकल्प विधान व्यर्थ है । अत जिस विषय में कोई ज्ञापक है या प्रतिपद विधान है वहीं इसका प्रयोग होता है । भ्वादिगण में पाठ शप् अर्थात् लट्, लोट्, लृट्, विधिलिट् मे, लृदित् करण अड् मे और ‘घसिश्च सान्तेषु’ इत्यादि अनिट् कारिका में पाठ वलादि आधधातुक अर्थात् लुट्, लृट्, लृड् मे ज्ञापक है ।” परन्तु सायण का यह लिखना अयुक्त है । लृदित् करण ‘लुड् सनोर्घस्लृ’ ( आ० ३०२ ) से विहित आदेश में और अनिट् कारिका मे पाठ ‘कमरच्’ प्रत्यय मे चरितार्थ है । अत. ये दोनों ‘लुड्, लुट्, लृट्, लृड्’ के प्रयोगो मे ज्ञापक नहीं हो सकते । भ्वादि में पाठ पूर्वाचार्यों के मत मे नहीं है, इसलिये शप् में भी इसके प्रयोग नहीं होते । वस्तुतः वैयाकरण सिद्धान्त के अनुसार भाषा में लिट्, लुड्, सन्, घञ्, अप्, अच् और कमरच् प्रत्ययों में ही घस्लृ के प्रयोग होते हैं ।

## २१४—गमहनजनखनघसां लोपः किङ्कत्य- नाडि ॥ ६ । ४ । ६८ ॥

गम, हन, जन, खन और घस् धातुओं के उपधा आकार का लोप हो अङ्भिन्न अजादि कित् डित् प्रत्यय परे हो तो । यहां घकारस्थ अकार का लोप होकर ( एकाच् न होने से द्विवेचन की प्राप्ति नहीं होती, इसलिये 'द्विवेचनेऽचि' ( २४५ ) से स्थानी-रूप मानकर द्विवेचन होता है तत्पश्चात् ) "खरि च" सूत्र से 'घ्' को 'क्' करते समय "अच् परस्मिन् पूर्वविधौ" सूत्र से अकार को स्थानिवत् होने ने चर् आदेश न हो सके, सो "न पदान्तं" सूत्र से चर्विधि में स्थानिवत् का निषेध होकर चर् होता है । पीछे षत्व होकर—जक्षुः, जक्षुः । जघस्-थल्, इस अवस्था में—

## २१५—उपदेशेऽत्वतः ॥ ७ । २ । ६२ ॥

तास प्रत्यय के परे नित्य अनिट् उपदेश में जो अकारवान् धातु है उस से परे जो थल् उसको इट् का आगम न हो । ( १४८ ) सूत्र के नियम से लिट् मात्र में इट् प्राप्त है उसका विशेष विषय में यह अपवाद है । जघस्थ । और भारद्वाज के मत में ऋकारान्तों को तास्त्वकार्य के नियम ( १४९ ) से उपदेश में अकारवान् और अजन्तों को इडागम हो जाता है । जघसिथ, जक्षुः, जक्ष, जघास, जघस, जक्षिव, जक्षिम, घस्ता, घस्तारौ, घस्तारः । घस् + स्य + तिप्, इस अवस्था में—

## २१६—सः स्यार्धधातुके ॥ ७ । ४ । ४६ ॥

सकारादि आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो सकार को तकार आदेश हो । यहां घस् के सकार को तकार होकर—घत्स्यति,

१ सन्धि० २३५ । २ सन्धि० ९१ । ३ सन्धि० ९२ ।

४ यहां "शासिवसिघसीनाच्" ( आ० २८४ ) से षत्व होता है ।

घत्स्यतः, घत्स्यन्ति, घत्स्यसि, घात्सति, घात्साति, घत्सति, घत्साति, घसति, घसाति, घसतु, अघसत्, घसेत्, घस्यात् ।

२१७—पुषादिद्युताद्य्लृदितः परस्मैपदेषु\* ॥३१॥५५॥

दिवादिगण के पुष आदि, द्युतादि और लृ जिनका इत् गया हो उन धातुओं से परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान में अड आदेश हो परस्मैपद विषय में कर्ता विषय में लुङ् लकार परे हो तो । यहां लृदित् घस् धातु से अङ् होकर—अट् + घस् + अङ् + तिप् = अघसत्, अघसताम्, अघसन्, अघस, अघसतम्, अघसत, अघसम्, अघसाव, अघसाम; अघत्स्यत्, अघत्स्यताम्, अघत्स्यन् ।  
७२९—७३१. [ जर्ज, चर्च, भर्भ ]<sup>१</sup> परिभाषणहिंसातर्जनेषु =

\* इस सूत्र में इस भ्वादिगण के पुषादि धातुओं का ग्रहण इस कारण नहीं होता कि पुषादि के अन्तगत द्युतादि धातु भी आजाते फिर द्युतादि ग्रहण ऋषक से दिवादिगण के पुषादिको का ग्रहण होता है ।

१ ऊष्मान्त प्रकरण में इन चवर्गीयान्तो का पाठ अयुक्त है । सायण लिखता है—‘ऊष्मान्तों में पाठ अर्थ के अनुरोध से है यह मैत्रेय का मत है ।’ अर्थानुरोध हेतु तभी उपपन्न हो सकता है जब इन्हीं अर्थों में ऊष्मान्त के साथ अन्य धातुएँ पढी जावें । यहां इस अर्थ वाली ऊष्मान्त धातु कोई नहीं । क्षीरस्वामी ने यहा पर अनेक पाठान्तर लिखे हैं उनमें चान्द्र और दुर्ग के मत में ‘जत्स’ पाठ लिखा है । यदि ‘जर्ज’ के स्थान पर ‘जत्स’ पाठ ठीक मान लिया जाय तो ऊष्मान्त प्रकरण की संगति और अर्थानुरोध से अन्य दो धातुओं का पाठ यहां पर उपपन्न हो सकता है । क्षीरस्वामी पाठान्तरों का निर्देश करके लिखता है—“किमत्र सत्यम् ? देवा ज्ञास्यन्ति” । यहां अर्थनिर्देश भी भिन्न-भिन्न उपलब्ध होता है । क्षीरस्वामी केवल ‘परिभाषण’ अर्थ लिखता है, मैत्रेय ‘परिभाषण, संतर्जन’ दो अर्थ मानता है और सायणादि अर्वाचीन ‘परिभाषण, हिंसा, तर्जन’ तीन अर्थ लिखते हैं ।

अधिक बोलना, हिंसा और धमकाना । जर्जति, जजर्ज, जर्जिता जर्जिष्यति, जर्जिषति, जर्जिषाति, जर्जतु, अजर्जत्, जर्जेत्, जज्यात्, अजर्जात्, अजर्जिष्यत्, चर्चति, कर्मति, जकर्म ॥ ७३२, ७३३ [ पिष्ट्, पेसृ ] गतौ । पेसति, पिपेस, पिपिसतुः, पिपेसतुः, पेसिता, पेसिष्यति, पेसिषति, पेसिषाति, पेसतु, अपेसत्, पेसेत्, पिष्यात्, अपेसीत्, अपेसिष्यत् ॥ ७३४ [ हसे ] हसने = हँसना । इस धातु का एकार इत् जाता है । हसति, जहास, जहसतुः, हसिता, हसिष्यति, हासिषति, हासिषाति, हसतु, अहसत्, हसेत्, हस्यात्, अहसीत् ( १६२ ), अहसिष्यत् ॥ ७३५ [ णिश ] समाधौ = समाहित होना । नैशति, निनेश, नेशिता, नेशिष्यति, नेशिषति, नेशिषाति, नेशतु, अनेशत्, नेशेत्, निश्यात्, अनेशीत्, अनेशिष्यत् ॥ ७३६, ७३७ [ मिश, मश ] शब्दे रोषकृते च = शब्द और रिस करना । मेशति, मशति, ममाश, मेशतुः, मशिता, मशिष्यति, माशिषति, माशिषाति, मशतु, अमशत्, मशेत्, मश्यात्, अमाशीत्, अमशीत्, अमशिष्यत् ॥ ७३८ [ शव ]<sup>१</sup> गतौ । शवति<sup>२</sup>, शशाव, शेवतुः, अशावीत्, अशवीत्, अशविष्यत् ॥ ७३९ [ शश ] प्लुतगतौ = कूद कूद कर चलना । शशति, शशाश, शेशतुः, अशाशीत्, अशशीत् ॥ ७४० [ शसु ] हिंसायाम् । शसति, शशास,

१. शकारवान् धातुओ का प्रकरण होने से ऊष्मान्तो में शव धातु पढ़ी है ऐसा मैत्रेय का मत है ।

२. शव धातु के तिङन्त प्रयोग आर्य नहीं करते, कम्बोज में इन का प्रयोग होता है । देखो महाभाष्य अ० १, पाद १, आ० १—शवति गति कर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते । विकार एवेनमार्या भाषन्ते शव इति । ऐसा ही निरुक्त २ । २ में भी लिखा है ।



शशसतुः, ( १२८ ) एत्वाभ्यास लोप का प्रतिषेध हो जाता है ।  
 शशसुः, शशसिथ, अशासीत्, अशसीत् ॥ ७४१ [ शंसु ]  
 स्तुतौ = गुणो का वर्णन<sup>१</sup> । शंसति, शशस, अशंसीत् ॥  
 ७४२ [ चह ] परिकल्कने = सर्वथा मूलपन । चहति, चचाह,  
 चेहतु, चेहु, चहिता, चहिष्यति, चाहिषति, चाहिषाति, चहतु,  
 अचहत्, चह्यात्, अचहीत् ( १६२ ), अचहिष्यत् ॥ ७४३  
 [ मह ] पूजायाम् = सत्कार । महति, ममाह, ममेहतुः, अमहीत् ॥  
 ७४४ [ रह ] त्यागे = छोडना । रहति, रराह, रेहतु, रहिता,  
 रहिष्यति, राहिषति, राहिषाति, रहतु, अरहत्, रहेत्, रह्यात्,  
 अरहीत् ( १६२ ), अरहिष्यत् ॥ ७४५ [ रहि ] गतौ ।  
 रहति, ररंह, रह्यात् ॥ ७४६—७४९ [ बृह, बृहि, बृह, बृहि ]  
 बृद्धौ । दर्हति, दृहति, बर्हति, बृहति, ददह, ददृहतुः,  
 दर्हिता, दर्हिष्यति, दर्हिषति, दर्हिषाति, दहेतु, अदर्हत्, दर्हत्,  
 दृह्यात्, अदर्हीत्, अदर्हिष्यत् । [ बृहि ] शब्दे च । बृहति ॥  
 [ बृहिर् ] इत्येके । बर्हति, बबर्ह, अबृहत् । ( १३८ ), अबर्हीत् ॥  
 ७५०—७५२ [ तुहिर्, दुहिर्, उहिर् ] अर्दने = गति और  
 मांगना । तोहति, तुतोह, तुतुहतु, तोहिता, तोहिष्यति, तोहिषति,  
 तोहिषाति, तोहतु, अतोहत्, तोहेत्, तुह्यात्, अतुहत्, अतोहीत्,  
 अतोहिष्यत्, दाहति, दुदोह, अदुहत्, अदोहीत् । अनिट्त्व्यवस्था  
 मे जो दुह धातु पढा है वह दिह धातु के साहचर्य से अदादि का  
 समझना चाहिये । ओहति, उवोह, ऊहतु, ओहिता, मा भवानुहत्,  
 ओहीत्, ओहिष्यत् ॥ ७५३ [ अह ] पूजायाम् = सत्कार ।

१. सत्यार्थप्रकाश मे स्तुति का लक्षण ' गुणेषु गुणारोपण, दोषेषु  
 दोषारोपण च स्तुति ' किया है । समु० ४, पृ० ६१ । आर्योद्देश्यरत्न-  
 माला स० २१ और स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश स० ४८ मे भी स्तुति  
 का लक्षण देखना चाहिये ।

अर्हति, आनर्हे, आनर्हतुः, आनर्हुः, अर्हिता, अर्हिष्यति, अर्हिषति, अर्हिषाति, अर्हेतु, अर्हन्त्, अर्हेत्, अर्ह्यात्, अर्हीत्, अर्हिष्यत् ॥ इति घुषिरादय उदात्ता उदात्तेत. परस्मैभाषाः समाप्ताः । ये घुषिर् आदि ८८ धातु समाप्त हुए ॥

अथ [ घुतादयः ] कृपू-पर्यन्ताः पञ्चविंशत्यात्मनेपदिनः । अब २५ धातु आत्मनेपदी कहते हैं ॥ ७५४ [ घुत ] दीप्तौ = प्रकाश होना । द्योतते । द्युत्—द्युत्—एश् । इस अवस्था में—

२१८—द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम् ॥

७ । ४ । ६७ ॥

द्युति और स्वापि धातु के अभ्यास को संप्रसारण हो । इस सूत्र में णिच् प्रत्ययान्त स्वापि धातु का ग्रहण है । सो णिजन्त-प्रक्रिया में आवेगा । द्यु-द्युत-एश्, यहा प्रथम द्यु के यकार के स्थान में 'इ' संप्रसारण होकर—'द्व+इ+उ+द्युत्+एश्'—

२१९—संप्रसारणाच्च ॥ ६ । १ । १०६ ॥

संप्रसारण से अच् परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होवे । यहा 'इ' संप्रसारण से परे उकार को पूर्वरूप होकर—दि+द्युत्+एश् = दिद्युते, दिद्युताते, दिद्युतिरे, द्योतितासे, द्योतिष्यते, द्योतिषतै, द्योतिषातै, द्योतताम्, अद्योतत, द्योनत, द्योतिषीष्ट ।

२२०—द्युद्भ्यो लुङि ॥ १ । ३ । ६१ ॥

द्युत आदि धातुओं से परे जो लुङ् लकार उसके स्थान में परस्मैपद सन्नक प्रत्यय विकल्प करके हो । ये द्युत आदि धातु सामान्य करके आत्मनेपदी हैं, लुङ् में परस्मैपद किसी से प्राप्त नहीं, इस कारण इस सूत्र में अप्राप्त विभाषा है । फिर परस्मैपद विषय में अङ् होकर—अद्युतत्, अद्युतताम्, अद्युतन्, अद्युतः, अद्युत-

तम्, अद्युतत, अद्युतम्, अद्युताव, अद्युताम । आत्मनेपद पक्ष  
में—अद्योतिष्ट, अद्योतिषाताम्, अद्योतिषत, अद्योतिष्यत । यहां से  
लेकर कृपू धातु पर्यन्त सब धातुओं में ( २२० ) ( २१७ ) ये दोनो  
सूत्र लुङ् लकार में लगा करेंगे ॥ ७५५ [ श्विता ] वर्णे =  
श्वेतवर्ण । इस धातु का आकार इत्संज्ञक होता है उसका फल  
कृदन्त, में आवेगा । श्वेतते, श्वित्शिते, श्वेतितासे, श्वेतिष्यते, श्वेति-  
षतै, श्वेतिषातै, श्वेतताम्, अश्वेतत, श्वेतते, श्वेतिषीष्ट, अश्वितत्,  
अश्वेतिष्ट, अश्वेतिष्यत ॥ ७५६ [ जिमिदा ]\* स्नेहने =  
प्रीति । यहा ( १५० ) सूत्र से जि की इत्संज्ञा और आकार भी  
इस धातु का इत् जाता है । मेदते, मिमिदे, मिमिदाते, मिमिदिरे,  
मेदिता, मेदिष्यते, मेदिषतै, मेदिषातै, मेदताम्, अमेदत, मेदेत,  
मेदिपीष्ट, अमिदत्, अमेदिष्ट, अमेदिष्यत ॥ ७५७ [ जिष्वि-

\* इस धातु पर जो भट्टोजिदीक्षित ने “ मिदेर्गुणः ” सूत्र लगाया है सो  
सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि यह सूत्र दिवादिगण के मिद धातु से इयन् प्रत्यय के  
अपित् होने से ( ५१ ) गुण प्राप्त नहीं होता, वहा लगता है । और काशिका-  
कार ने भी दिवादिगण के ही उदाहरण इस सूत्र पर दिये हैं । और लिट् लकार  
प्रथमपुरुष एकवचन “ एश् ” में शित्करण सर्वादेशार्थ है, गुण होने के लिये  
नहीं<sup>१</sup> । और यह बात कभी नहीं हो सकती कि जो अन्त में शित् हो उसके  
शित् कार्य न हो, क्योंकि चानश् आदि की सार्वधातुक सञ्जा होती है । इस  
कारण एश् में भी गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती फिर यह सूत्र इस धातु पर  
लिखना अत्यन्त विरुद्ध है ।

१ वस्तुतः ‘ एश् ’ में उक्त सूत्र से गुण की प्राप्ति ही नहीं होती,  
क्योंकि यहा ‘ शिति ’ पद की अनुवृत्ति है । यस्मिन् विधिस्तदादाव-  
ल्लग्रहणे ( पारि० ३३ ) नियम से शित् जिसके प्रारम्भ में होगा उसी के  
परे गुण होगा । एश् में शित् आदि में नहीं है, अन्त में है ।

दा ] स्नेहनमोचनयोः=प्रीति और छोड़ देना । यहां भी पूर्ववत्  
 जि और आ इत् जाते हैं । स्वेदते, सिष्विदे, अस्विदत्, अस्वेदिष्ट,  
 अस्वेदिष्यत् ॥ [ जिक्षिददा ] इक्षेके । क्ष्वेदते, चिक्षिददे, अक्षिदत्,  
 अक्ष्वेदिष्ट ॥ ७५८ [ रुच ] दीप्तावभिप्रीतौ च=प्रकाश  
 और अत्यन्त प्रीति । रोचते, रुरुचे, रुरुचाते, रुरुचिरं. रोचितासे,  
 रोचिष्यते, रोचिषतै, रोचिषातै, रोचताम्, अरोचत, रोचेत, रोचि-  
 षीष्ट, अरुचत्, अरोचिष्ट, अरोचिष्यत् ॥ ७५९ [ घुट ]  
 परिवर्तने=सब ओर से वर्तना । घोटत, जुघुटै, घोटितासे, घोटि-  
 ष्यते, घोटिषतै, घोटिषातै, घोटताम्, अघोटत, घाटेत, घोटिषीष्ट,  
 अघुटत्, अघोटिष्ट, अघोटिष्यत् ॥ ७६०-७६३ [ रुट, लुट, लुठ,  
 उठ ] उपघाते=मारना रोटत, रुरुटै, लोटते, लुलुटै, लोठते,  
 लुलुठे, आठते, ऊठे, ऊठाते, ऊठिरे, अरुटत्, अरोटिष्ट, अलुटत्,  
 अलोटिष्ट, अलुठत्, अलोठिष्ट, औठत्, औठिष्ट ॥ ७६४ [ शुभ ]  
 दीप्तौ । शोभते, शुशुभे, शोभितासे, शोभिष्यते, शोभिषतै, शोभिषातै,  
 शोभताम्, अशोभत, शोभेत, शोभिषीष्ट, अशुभत, अशोभिष्ट, अशो-  
 भिष्यत् ॥ ७६५ [ क्षुभ ] संचलने=चलायमानहोना । क्षोभते चुक्षुभे,  
 अक्षुभत्, अक्षोभिष्ट ॥ ७६६, ७६७ [ णभ, तुभ ] हिंसायाम् ।  
 नभते, नेभे, नेभाते, नेभिरे, नभितासे, नभिष्यते, नाभिषतै, नाभिषातै,  
 नभताम्, अनभत, नभेत, नभिषीष्ट, अनभत्, अनभिष्ट, अनभि-  
 ष्यत्, अतुभत्, अतोभिष्ट ॥ ७६८-७७० [ संसु, ध्वंसु,  
 भ्रंसु ] अवस्रसने=गिरना । ध्वंसु गतौ च । स्रसत, स्रससे,  
 ध्वंसते, दध्वंसे, भ्रंसते, बभ्रसे । लुङ् लकार मे अङ् प्रत्यय के परे  
 ( १३९ ) सूत्र से नकार के अनुस्वार का लोप होकर—अस्रसत्,  
 अस्रसिष्ट, अध्वसत्, अध्वसिष्ट, अभ्रसत्, अभ्रसिष्ट ॥ ७७१, ७७२  
 [ भ्रशु, भ्रंशु ] अधःपतने=नीचे गिरना । भ्रशते, भ्रशते, बभ्रशे,  
 बभ्रंशे, भ्रशितासे, भ्रशिष्यते, भ्राशिषतै, भ्राशिषातै, भ्रशताम्,

अभ्रशत्, भ्रशत्, भ्रशिषीष्ट, अभ्रशत्, अभ्रशिष्ट, अभ्रशत्, अभ्रं-  
शिष्ट, अभ्रशिष्यत् ॥ ७७३ [ स्त्रंभु ] विश्वासे । स्त्रम्भते, स्त्र-  
म्भे, स्त्रभत्, स्त्रम्भिष्ट ॥ ७७४ [ वृत्तु ] वर्तने = वर्तना ।  
वर्तते, वर्तते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तथे, वर्तध्वे, वर्त, वर्तावहे, वर्तामहे;  
ववृते, ववृताते, ववृतिरे, ववृतिषे, ववृताथे, ववृतिध्वे, ववृते, ववृति-  
वहे, ववृतिमहे, वर्तितासे ।

२२१—वृद्भ्यः स्यसनोः ॥ १ । ३ । ६२ ॥

वृत् आदि पाच धातुओं से परे स्य और सन् प्रत्यय के विषय  
मे परस्मैपद सन्नक प्रत्यय विकल्प करके हो । यहा लुट् लकार मे  
परस्मैपद तिप् आदि होकर—'वृत्+स्य+तिप्' इस अवस्था मे  
इट् का आगम प्राप्त है इसलिये—

२२२—न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः ॥ ७ । २ । ५६ ।

वृत् आदि चार धातुओं से परे जो सकारादि आर्धधातुक  
उसको इट् का आगम न हो परस्मैपद विषय मे । फिर ( ५२ ) से  
गुण होकर—वर्त्यति, वर्त्यतः, वर्त्यन्ति । जिस पक्ष मे परस्मैपद  
प्रत्यय नहीं होते वहा—वर्तिष्यते, वर्तिष्यते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिषतै,  
वर्तिषातै, वर्तताम्, वर्तताम्, वर्तन्ताम्, अवर्तत, वर्तत, वर्तिषीष्ट,  
अवृत्तत्, अवर्तिष्ट, अवर्त्यत्, अवर्तिष्यत् ॥ ७७५ [ वृधु ]  
वृद्धौ = बढना । ७७६ [ शृधु ] शब्दकुत्सायाम् = निन्दत  
शब्द होना । इन दोनो धातुओं मे वृत् के समान साधुत्व जानो ।  
वर्धते, वर्धते, वर्धन्ते, ववृधे, वर्धितासे, वर्त्यति । अहा दन्त्योष्ठ्य  
वकार के होने से भकार ( २०४ ) नहीं होता । वर्धिष्यते, वर्धिषतै,  
वर्धिषातै, वर्धताम्, अवर्धत, वर्धत, वर्धिषीष्ट, अवृधत्, अवर्धिष्ट,  
अवर्त्यत्, अवर्धिष्यत्, शर्धते, शशृधे, शर्त्यति, शधिष्यतः,  
अशृधत्, अशर्धिष्ट, अशर्त्यत्, अशर्धिष्यत् ॥ ७७७ [ स्यन्दृ ]

प्रस्रवणे = भरना । यह धातु ऊर्दिन् है इस कारण वलादि आधे-धातुक विषय मे इट् का आगम विकल्प से ( १४० ) होता है ।  
 स्यन्दते, स्यन्देते, सस्यन्दे, सस्यन्दाते, सस्यन्दिरे, सस्यन्दिषे, सस्य-  
 न्त्से, सस्यन्दाथे, सस्यन्दिध्वे, सस्यन्ध्वे, सस्यन्दुध्वे । यहां “ झरो  
 भरि सवण ” इस सूत्र से ‘ न् ’ से परे दकार का लोप विकल्प  
 करके होता है । मस्यन्दे, मस्यन्दिवहे, सस्यन्दिमहे, सस्यन्दुवहे,  
 सस्यन्महे । यहां दकार को अनुनासिक “ यरोऽनुनासिके [ प्रत्यये  
 भाषाया नित्यवचनम् ] ”<sup>१</sup> वार्तिक से नित्य करके होता है ।  
 स्यन्दिता, स्यन्दिनारौ, स्यन्दितार, स्यन्दितासे, स्यन्ता । यहां भी  
 “ भरौ भरि० ” सूत्र से दकार लोप होता है, और लृट् मे स्य  
 प्रत्यय क परे परस्मैपद ( २२१ ) होकर ( १४० ) सूत्र अन्तरङ्ग  
 भी है तो भी उस के विकल्प का बाधकर ( २२२ ) सूत्र मे चतुर्ग्र-  
 हण सामर्थ्य से परस्मैपद विषय मे निषेध ही होता है । स्यन्त्स्यति,  
 स्यन्दिष्यते, स्यन्त्स्यते, स्यन्दिष्यतै, स्यन्दिष्यतै, स्यन्त्स्यतै, स्यन्त्सातै,  
 स्यन्दताम्, अस्यन्दत, स्यन्देत, स्यन्दिषीष्ट, स्यन्त्सीष्ट, अट् + स्यन्द +  
 अह् + तिप् = ( २२० ) ( २१७ ) ( १३६ ) अस्यदन्, अस्यदताम्,  
 अस्यदन् । आत्मनेपद विषय में—अस्यन्दिष्ट, अस्यन्दिषाताम्;  
 अनिट्पत्त मे—अस्यन्त, अस्यन्त्साताम्, अस्यन्त्सत, अस्यन्थाः,  
 अस्यन्त्साथाम्, अस्यन्ध्वम्, अस्यन्त्स, अस्यन्त्स्वहि, अस्यन्त्समहि,  
 अस्यन्त्स्यत्, अस्यन्दिष्यत्, अस्यन्त्स्यत् ॥ ७७८ [ कृपू ]  
 सामर्थ्ये = समर्थ होना ।

२२३—कृपो रो लः ॥ ८ । २ । १८ ॥

कृप धातु के गुण हुए और ऋकारान्तर्गत जो रेफ है उन दोनों  
 को लकार आदेश होता है । यहां ऋकार में जितना अंश रेफ का

है उसको ल होकर क्लृप् धातु होता है। फिर गुण ( ५२ ) होकर—कल्पते, कल्पेते, कल्पन्ते, चक्लुपे, चक्लुपाते, चक्लुपिरे। यह भी धातु ऊदित् है, इस कारण इडागम भी विकल्प से होता है। चक्लुपिषे, चक्लुप्से, चक्लुपिध्वे, चक्लुबध्वे, चक्लुपिवहे, चक्लुव्वहे, चक्लुपिमहे, चक्लुम्महे।

२२४—लुटि च क्लृपः ॥ १ । ३ । ६३ ॥

लुट् लकार स्य और सन् प्रत्यय परे हो तो कृपू धातु से परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय विकल्प करके होंगे। यहा परस्मैपद पक्ष मे—

२२५—तासि च क्लृपः ॥ ७ । २ । ६० ॥

कृप् धातु से परे जो तास् और सकारादि आर्धधातुक प्रत्यय चन को इट् का आगम न होव परस्मैपद विषय मे। कल्प्ता, कल्प्तारौ, कल्प्तारः, कल्प्तासि, [ आत्मनेपद इट् पक्ष मे—कल्पिता, कल्पितारौ, कल्पितारः, ] कल्पितासे। [ अनिट् पक्ष मे—कल्पता, कल्पतारौ, कल्पतारः, ] कल्पतासे, कल्पस्यात्, कल्पिष्यते, कल्पस्यते, कल्पिषतै, कल्पिषातै, कल्पस्यतै, कल्पसातै, कल्पताम्, अकल्पत, कल्पेत, कल्पिषीष्ट, कल्पसीष्ट, अक्लपत्, अकल्पिष्ट, अक्लुप्त ( १४२ ) सकार का लाप होता है। अकल्पस्यत्, अकल्पिष्यत्, अकल्पस्यत। “ वृत् ” सम्पूर्णे द्युतादिवृतादिश्च। ये द्युत आदि और वृत् आदि २५ धातु समाप्त हुए ॥

अथ [ घटादयस् ] त्वरत्यन्ता [ ख्योदश ] आत्मनेपदिनः। अब त्वर धातु पर्यन्त १३ धातु आत्मनेपदी कहते हैं ॥ ७७६ [ घट ] चेष्टायाम्। घटते, जघटै, जघटाते, घटितासे, घटिष्यते, घाटिषतै, घाटिषातै, घटताम्, अघटत, घटैत, घटिषीष्ट, अघटिष्ट, अघटिष्यत ॥ ७८० [ व्यथ ] भयसञ्चलनयोः= डरना और चंचल होना। व्यथते, व्यथेते, व्यथन्ते।

## २२६—व्यथो लिटि ॥ ७ । ४ । ६८ ॥

व्यथ धातु के अभ्यास को सम्प्रसारण हो लिट् लकार परे हो तो। व्यथ के 'य' का इ सम्प्रसारण होके ( २१९ ) से पूर्वरूप एकादेश होता है। विथ् + व्यथ् + एश् = विव्यथे, विव्यथाते, विव्यथिरे, व्यथितामे, व्यथिष्यते, व्याथिषतै, व्याथिषातै, व्यथताम्, अव्यथत, व्यथेत, व्यथिषीष्ट, अव्यथिष्ट, अव्यथिष्यत ॥ ७८१ [ प्रथ ] प्रख्याने <sup>१</sup> = प्रसिद्धि। प्रथते, पप्रथे, अप्रथिष्ट ॥ ७८२ [ प्रस् ] विस्तारे। प्रसते, पप्रसे ॥ ७८३ [ म्रद् ] मर्दने = मलना। म्रदते, मम्रदे ॥ ७८४ [ स्वद ] स्वदने = दौड़ना। स्वदते, चम्वदे ॥ ७८५ [ क्षजि ] गतिदानयो = गति और देना। क्षजते, चक्षजे ॥ ७८६ [ दक्ष ] गतिहिसनयो = गति और मारना। दक्षते, ददक्षे, दक्षितासे, दक्षिष्यते, दक्षिषतै, दक्षिषातै, दक्षताम्, अदक्षत, दक्षेत, दक्षिषीष्ट, अदक्षिष्यत ॥ ७८७ [ क्रप ] कृपायां गतौ च। क्रपते, क्रपेते, क्रपन्ते, चक्रपे ॥ ७८८—७९० [ कदि, क्रदि, क्लदि ] वैकल्ये। वैकल्य इत्यन्ये = विविध प्रकार की गति और सख्या <sup>२</sup>। ये तीनों धातु तवर्गान्तो मे परस्मैपदी आह्वान और रांदन अर्थ मे लिख चुके है

१ सत्याथप्रकाश प्रथम समुह्लास मे पृथिवी शब्द के निर्वचन और उणादिकोष १। १३७, १५० की वृत्ति मे 'प्रथ' धातु का विस्तार अर्थ लिखा है। उणादिकोष के प्रथम सस्करण मे सूत्र १। २८ की वृत्ति में 'प्रथते कीर्ति वा विस्तारयति विस्तृत. पदार्थो वा' पाठ था, परन्तु द्वितीय सस्करण मे किसी मूढ़ सशोधक ने ' प्रख्या-यति प्रख्यात. पदार्थो वा' पाठ बना दिया।

२ 'निर्बलता और घबराहट' अर्थ होना चाहिये।



फिर इन का यहां लिखना मित्सज्ञा, अर्थभेद और आत्मनेपद<sup>१</sup> आदि के लिये है और इस प्रकरण में 'घट धातु से लेकर फण, गतौ पर्यन्त' में बहुत ऐसे धातु लिखे हैं जिन में से किन्हीं को पूर्व लिख चुके, कोई आगे के गणों में आवेंगे और बहुतेरे ऐसे भी हैं जो कहीं नहीं आवेंगे। मित् सज्ञा का गण सूत्र इसी प्रकरण में आगे लिखा है। कन्दते, क्रन्दते, क्लन्दते, चकन्दे, चक्रन्दे, चकलन्दे, कन्दितासे, कन्दिष्यते, कन्दिषतै, कन्दिषातै, कन्दताम्, अकदन्त, कन्देत, कन्दिषीष्ट, अकन्दिष्ट, अकन्दिष्यत ॥ [ कद, क्रद, क्लद ] इत्यन्ये । कदते, क्रदते, क्लदते, चकदे, चक्रदे, चकलदे, कदितासे, कदिष्यते, कदिषतै, कदिषातै, कदताम्, अकदत, कदंत, कदिषीष्ट, अकदिष्ट, अकदिष्यत ॥ ७९१ [ जित्वरा ] सम्भ्रमे = सम्यक् भ्रान्ति<sup>२</sup> । त्वरते, तत्वरै, त्वरिता, त्वरिष्यते, त्वारिषतै, त्वारिषातै, त्वरताम्, अत्वरत, त्वरेत, त्वरिषीष्ट, अत्वरिष्ट, अत्वरिष्यत ॥ इति घटादयः पित उदात्ता अनुदात्ते आत्मनेभाषा त्रयोदश । ये घट आदि १३ धातु षित्-संज्ञक समाप्त ह्ये, षित् का प्रयोजन कृदन्त में आवेगा<sup>३</sup> ।

अथ [ ज्वरादयः ] फणान्ताः [ द्वापञ्चाशत् ] परस्मैपदिनः । अथ [ ज्वरादि ] फण धातु पर्यन्त ५२ परस्मैपदी कहते हैं ॥ ७९२ [ ज्वर ] रोगे । ज्वरति, जज्वार ॥ ७९३ [ गड ] सेचने = सीचना । गडति, जगाड, जगडतु, गडितासि, गडिष्यति, गाडिषति, गाडिषाति, गडतु, अगडत्, गडेत्, गड्यात्, अगाडीत्, अगडीत्, अगडिष्यत् ॥ ७९४ [ हेड ] वेष्टने = लपेटना ।

१ 'किन्वात्मनेपदिषु पाठसामर्थ्यात् तदर्थमपि' इति सायणः ।

२ यहा सम्भ्रम का अर्थ शीघ्रता है ।

३ षिद्भिदादिभ्योऽड् ( आ० १४६३ ) से अड् प्रत्यय होता है । जैसे घटा, व्यथा ।

हेडति, जिहेड । यह धातु अनादर अर्थ मे आत्मनेपद विषय मे आ चुका है, इस धातु की अनादर अर्थे मे मित सज्ञा नहीं होगी वहा ' हेडयति ' और मित्सज्ञा मे ह्रस्व होकर, ' हिडयति ' ॥ ७९५, ७९६ [ वट, भट ] परिभाषणे । वटति, ववाट, ववटतुः; वटितामि, वटिष्यति, वाटिषति, वाटिषाति, वटतु, अवटत्, वटेन्, वट्यात्, अवटीन्, अवाटीत्, अवटिष्यत्; भटति, बभाट ॥ ७९७ [ णट ] नृतौ<sup>३</sup> = नाचना । नटति, ननाट । यह धातु इसी अर्थ मे परस्मैपदी आ चुका है फिर यहा पढने मे यही प्रयोजन है कि नृति मे भी दो भेद है एक नाटक दूसरा नाचना । सो यहा नाचने अर्थ मे मित्संज्ञा होती है ॥ ७९८ [ छक ] प्रतिघाते = मारना । स्तकति, तस्ताक ॥ ७९९ [ चक ] तृप्तौ<sup>४</sup> । चकति, चचाक, चेकतुः, चेकु, अचाकीत्, अचकीत् ॥ ८०० [ कखे ] हस्ने । कखति, अकखीत् ( १६२ ) ॥ ८०१ [ रगे ] शङ्कयाम् । रगति, रराग, रगतुः, रंगुः, रगिता, रगिष्यति, रगिषति, रागिषाति, रगतु, अरगत, रगेत्, रग्यात्, अरगीत्, अरगिष्यन् ॥ ८०२ [ लगे ] सङ्गे = मिलना । लगति, अलगत् ॥ ८०३—८०६

१. यहा परस्मैपद प्रकरण में पाठसामर्थ्य से परस्मैपद होता है ।

२ वट वेष्टने ( ३०७ ) भट भतौ ( ३१५ ) इन का मित्सज्ञा के लिये यहा अनुवाद है ।

३. नृति शब्द का अर्थ पूर्व पृष्ठ ७५ की टि० १ में नाटक, नृत्य और नृत्त तीन के लिखे हैं । यहा नृत्य और नृत्त को सामान्यरूप से 'नाच' के अन्तर्गत माना है, क्योंकि दोनों में अङ्गविक्षेप अर्थ समान है ।

४. यह धातु तृप्ति और प्रतिघात अर्थ में आत्मनेपदी पहले ( क्रमाङ्क ९४ ) पदी है । उसकी तृप्ति अर्थ मे मित्संज्ञा होती है, और परस्मैपद प्रकरण में पाठ होने से हेड धातु के सदृश परस्मैपद होता है ।

[ हृगे, ह्लगे, षगे, ष्टगे ] संवरणे = ढांकना । हगति, हृगति, सगति, स्तगति, अहृगीत्, अह्लगीत्, असगीत्, अस्तगीत् ॥ ८०७ [ कगे ) नोच्यते <sup>१</sup> । कग धातु की विशेष अर्थ मे मित्सञ्जा नहीं कहते, क्योंकि यह धातु सामान्याथेवाची है । कगति, चकाग, अकगीत् ॥ ८०८, ८०९ [ अक, अग ] कुटिलयां गनौ = देहा चलना । अकति, अगति ॥ ८१०, ८११ [ कण, रण ] गतौ । कणति, चकाण, रणाते, रराण, रेणतुः, अकाणीत्, अकणीत्, अराणीत्, अरणीत् ॥ ८१२—८१४ [ चण, शण, श्रण ] दाने च, [ शण ] गतावित्यन्ये । किन्ही के मत मे शण धातु केवल गत्यर्थ ही है दानार्थ नहीं, चण और श्रण धातुओ के दान और गति दोनों अर्थ हैं ॥ ८१५—८१८ [ अथ, श्लथ, क्रथ, क्लथ ] हिंसार्थाः । अथति, श्लथति, क्रथति, क्लथति ॥ ८१९ [ चन ] च । चकार से हिंसा अर्थ का सम्बन्ध होता है । चनति, चचान, चेनतुः, चनिता, चनिष्यति, चानिषति, चानिषाति, चनतु, अचनत्, चनेत्, चन्यात्, अचानीत्, अचनीत्, अचनिष्यत् ॥ ८२० [ वनु ] च नोच्यते । एक वनु वातु तनादिगण मे भी पढ़ा है, परन्तु उसका पाठ यहा मित्सञ्जा क लिये नहीं, इसी कारण इसके अपूर्वे होने से इसका विशेष अर्थे यहां मित्सञ्जा प्रकरण मे नहीं कहते, और तनादिगण का वनु धातु इसी ग्रन्थ मे आगे पढ़ा है । वनति, ववान, अवानीत्, अवनीत् ॥ ८२१ [ ज्वल ] दीप्तौ <sup>२</sup> । ज्वलति,

१. कुछ वैयाकरणो का मत है—अनेकाथ होने से इस धातु का अर्थनिर्देश नहीं किया ।

२ यह धातु आगे ( क्रमाङ्क ८४५ ) इसी अर्थ में पढ़ी है, यहां मित्सञ्जा के लिये अनुवाद है ।

जज्वाल, जज्वलतु, जज्वलु, अज्वालीत् ( १९६ ), अज्वलि-  
 ध्यत् ॥ ८२२, ८२३ [ हल, लल ] सञ्चलने । हलति, हलति,  
 जह्वाल जह्वाल, अह्वालीत्, अह्वालीत् ॥ ८२४ [ स्मृ ]  
 आध्याने = प्राप्ति की इच्छापूर्वक स्मरण करना । यह धातु इसी  
 गण में आगे चिन्ता अर्थ में लिखा है । इस के प्रयोग भी वही  
 लिखे हैं । यहा आध्यान अर्थ में मित्सञ्जा होती है ॥ ८२५  
 [ वृ ] भय = डर । ८२६ [ नृ ] नये = नम्रता । ये दोनो धातु  
 क्यादिगण में आवेगे ॥ ८२७ [ श्रा ] पाके = पकाना । यह  
 अदादिगण का है [ और 'श्री पाके' इस कृतात्व भौवादिक का  
 भी ग्रहण होता है ] ॥ ८२८ [ ज्ञा ] मारणतोषणनिशामनेषु<sup>२</sup> =  
 मारना, सन्तोष और प्रत्यक्त ज्ञान । इन अर्थों में ज्ञा धातु की मित्सञ्जा  
 है, अन्यत्र नहीं । और यह धातु भी क्यादिगण का है ॥ ८२९  
 [ चलि ] कम्पने<sup>३</sup> = कांपना । यह धातु आगे आयगा ॥ ८३०  
 [ छदि ] ऊर्जने = बल वा प्राणपोषण । यह चुरादिगण में आवेगा  
 ८३१ [ लडिः ] जिह्वोन्मथने<sup>४</sup> = जीभ चलाना । यह पीछे आ चुका  
 है ॥ ८३२ [ मदी ] हर्षग्लेपनयोः = आनन्द और दीनता । यह  
 दिवादिगण का है ॥ ८३३ [ ध्वन ] शब्दे । यह इसी गण में

१. लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ( पारि० ९१ ) से भादा-  
 दिक का, लुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्यैव ( पारि० ७९ ) से  
 भौवादिक का ग्रहण होता है ।

२. यह गणसूत्र है इस का पाठ 'मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा'  
 ऐसा है । अन्य धातुओं के सादृश्य से यहा धातु का पूर्व निर्देश कर  
 किया है ।

३. गणसूत्र का पाठ 'कम्पने चलिः' है ।

४. गणसूत्र का पाठ 'जिह्वोन्मथने लडिः' है ।

क्ष्यत्, ॥ ८८१ [ कस ] गतौ । कसति, चकास, चकसतुः, कसितासि, कसिष्यति, कासिषति, कासिषाति, कसतु, अकसत्, कसेत्, कस्यात्, अकासीत्, अकसीत्, अकसिष्यत् ॥ [ वृत्<sup>१</sup> ] ज्वलादिगण समाप्त । ज्वल दीप्तौ धातु से लेकर यहां तक ज्वलादिगण कहाता है । इस का प्रयोजन कृदन्त मे आवेगा<sup>१</sup> और ये षद् आदि परस्मैपद् सात धातु समाप्त हुए ॥

अथ [ हिक्कादयो ] गूहृत्यन्ता स्वरितेतोऽष्टात्रिंशत् । अब [ हिक्कादि ] गूहू पर्यन्त स्वरितेत् ( जिन मे क्रिया का फल कर्त्ता के लिये हो तो आत्मनेपद्, अन्यत्र परस्मैपद् होता है वे उभयपदी ) ३८ अर्द्धास धातु कहत हैं ॥ ८८२ [ हिक्क ] अन्यक्ते शब्दे । हिक्कते, हिक्कति ॥ ८८३ [ अञ्चु ] गतौ याचने च = गति और मागना । अञ्चते, अञ्चति, आनञ्चे, आनञ्च, अच्यात् ( १३९ ) । ( अचु ) इत्येके । अचते, अचति, आचे, आच, अचितासे, अचितासि, अचिष्यते, अचिष्यति, आचिषतै, आचिषातै, आचिषति, आचिषाति, अचताम्, अचतु, आचत, आचत्, अचेत, अचेत्, अचिषाष्ट, अच्यात्, आचिष्ट, आचीत्, आचिष्यत, आचिष्यत् ॥ [ अचि ] इत्यपरे । इस मे इतना ही भेद है कि इदित् होने से 'अञ्च्यात्' ( १३९ ) नलोप नहीं होता ॥ ८८४ ( ढुयाचृ ] याच्ञायाम् = मांगना । याचत, याचति, ययाचे, ययाच, याचितासे, याचितासि, याचिष्यते, याचिष्यति, याचिषतै, याचिषातै, याचिषति, याचिषाति, याचताम्, याचतु, अयाचत, अयाचत्, याचेत, याचेत्, याचिषाष्ट, याच्यात्, अयाचिष्ट, अया-

१ ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण. ( भा० ९८६ ) सूत्र में कसन्त ग्रहण से ज्ञापित होता है कि यहाँ 'वृत्' करण अनार्थ है । वृत् निर्देश होने पर कसन्त ग्रहण करना व्यर्थ है ।

र्चात्, अयाचिष्यत्, अयाचिष्यत् ॥ ८८५ [ रेट् ] परिभाषणे =  
 बहुत बोलना । रेटत्, रेटति, रिरेटे, रिरेट ॥ ८८६, ८८७  
 [ चते, चदे, ] याचने । चतत्, चदत्, चतति, चदति, चेत, चेदे,  
 चचात्, चेतुः, अचतीत् (१६२) अचदीत् ॥ ८८८ [ प्रोथृ ]  
 पर्याप्तं = सामर्थ्य । प्रोथते, प्रोथाते, पुप्रोथे, पुप्रोथ ॥ ८८९, ८९०  
 ( मिट्, मेट् ) मेधाहिंसनयोः = तीक्ष्ण बुद्धि और मारना । मेदते,  
 मेदति, मिमिदे, मिमेदे, मिमंद, मिमिदत्, मिमेदत् ॥ [ मिथृ, मेथृ ]  
 मेधाहिंसनयोरित्येके । मेथत्, मेयति ॥ ८९१, ८९२ [ मिथृ,  
 मेथृ ] सङ्गमे च = मेल करना । और चकार से पूर्वोक्त दोनो  
 अर्थों का समुच्चय जानो । मेवते, मेवति, मिमिधे, मिमेधे, मिमेध,  
 मिमिधत्, मिमेधत् ॥ ८९३, ८९४ [ णिट्, णेट् ] कुत्सा-  
 सन्निकर्षयोः = निन्दा और समीप होना । नेदत्, नेदति, नेदत्,  
 निनिदे, निनेदे, निनिदत्, निनेदत् ॥ ८९५, ८९६ [ शृथु, मृथु ]  
 उन्दने = गीलापन । शर्धत्, मर्धते, शर्धति, मर्धति, शशधे, शशृ-  
 धत् ॥ ८९७ [ बुधिर् ] बोधने = बोध होना । बोधते, बोधति,  
 अबोधित् । आत्मनेपदविषय मे ( १९४ ) सूत्र से जन धातु के साह-  
 चर्य से दिवादि के बुध का ग्रहण होता है<sup>१</sup> इसलिये चिण् न हुआ  
 -अबुवत् । इरित् होने से [ पठ् मे ] अङ् ( १३८ ) -अबोधीत् ॥  
 ८९८ [ उबुन्दिर् ] निशामने = सुनाना<sup>२</sup> । इस धातु मे उ और इर्  
 भाग की इत् सज्ञा हा जाती है । बुन्दते, बुन्दति, वुवुन्दे, वुवुन्दत्,  
 अबुन्दिष्ट, अबुदत् ( १३८ ) ( १३९ ) अबुन्दीत् ॥ ८९९  
 [ वेणृ ] गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेऽु = गति, ज्ञान,

१. "निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्" इस नियम से भी 'दीपजनबुध' ( आ० १९४ ) सूत्र में—इस धातु का ग्रहण नहीं होता । २ अन्य धातुवृत्तिकार 'निशामन' का अर्थ 'चाक्षुषज्ञान' करते हैं । वाचस्पत्य कोश में 'दर्शन' और 'आलोचन' अर्थ किया है ।

चिन्ता और बाजों = ढोल आदि का प्रहण करना । [ वेन् ] इत्येके ।  
 वेणते, वेनते, वेणति, वेनति, विवेने, विवेणे, विवेणतुः, वेणितासे,  
 वेणिनासि, वेणिष्यत, वेणिष्यति, वेणिषतै, वेणिषातै, वेणिषति,  
 वेणिषाति, वेणताम्, वेणतुः, अवेणत, अवेणत्, वेणेत, वेणेत्,  
 वेणिषीष्ट, वेणयात् अवेणिष्ट, अवेणीत्, अवेणिष्यत, अवेणिष्यत् ॥  
 ९०० [ खनु ] अवदारणे = खोदना । खनेने, खनति, चखन्ने,  
 चखान । [ एश् और ] अतुस् आदि मे उपधालोप ( २१४ )—  
 चखन्तु, चखन्तुः, खनितासे, खनितासि, खनिष्यत, खनिष्यति,  
 खानिषतै, खानिषातै, खानिषति, खानिषाति, खनताम्, खनतु,  
 अखनत, अखनत्, खनेत, खनेत्, खनिषीष्ट, खन् + यासुट् + सुट्  
 + तिप् ( १८५ ) न को आकार विकल्प<sup>१</sup> से होकर—खायात्,  
 खन्यात्, अखनिष्ट, अखनीत्, ( १४४ ) अखानीत्, अखनिष्यत,  
 अखनिष्यत् ॥ ९०१ [ चीवृ ] आदानसंवरणयोः = प्रहण,  
 आच्छादन । चीवति, चिचीवे, चिचीव, ॥ ९०२ [ चायृ ]  
 पूजानिशामनयोः = सत्कार और सुनना<sup>२</sup> । चायते, चायति,  
 चचाये, चचाय, यहा वेद मे कुछ विशेष है—

२३४—चायः की ॥ ६ । १ । ३५ ॥

चाय धातु को वेद मे बहुल करके की आदेश होवे । यहां द्विवे-  
 चन होने से प्रथम ही अनेकाल् होने से चायमात्र के स्थान म की  
 होकर पश्चात् द्विवेचन होता है । की + की + एश् = चिक्ये,

१. धातुपारायणकार का मत है कि “ये विभाषा” ( आ० १८५ )  
 सूत्र में अकारयुक्त ‘य’ का निर्देश होने से ‘यक्’ और ‘यह्’ में ही  
 आत्वादेश होता है, यासुट् में नहीं । यदि इस सूत्र मे ‘य्’ व्यञ्जनमात्र  
 का निर्देश अभिप्रेत होता तो “लोपो यि” (आ० ३८६) के समान यहाँ  
 भी ‘यि’ ऐसा व्यञ्जनमात्र का निर्देश होता । २. देखो टि० २ ।

[ चिकाय, ] चिक्यतुः, चिक्युः, चचाय, बहुल प्रहण से कहीं होता है कहीं नहीं भी होता ॥ ९०३ [ वयय ] गतौ । व्ययते, व्ययति, वव्यये, वव्याय । यकारान्त होने से वृद्धि का निषेध (१६२) अव्ययीत्, अव्ययिष्ट ॥ ९०४ [ दाशृ ] दाने = देना । दाशते, दाशति, ददाश, ददाश, दाशितासे, दाशितासि, दाशिष्यते, दाशिष्यति, दाशिषतै, दाशिषातै, दाशिषति, दाशिषाति, दाशताम्, दाशतु, अदाशत, अदाशत्, दाशत, दाशत्, दाशिषीष्ट, दाश्यात्, अदाशिष्ट, अदाशीत्, अदाशिष्यत् ॥ ९०५ [ भेषृ ] भये = डर, गनाविन्येके । भेषते, भेषति, बिभेषे, बिभेष ॥ ९०६, ९०७ [ भ्रेषृ, भ्लेषृ ] गतौ । भ्रेषते, भ्रेषति, भ्लेषते, भ्लेषति ॥ ६०८ [ अस्म ] गतिदीप्त्यादानेषु = गति प्रकाश और लेना । असते, असति, आसे, आसाते, आसिरे, आस, आसतु, आसुः। ( अष ) इत्येके । किन्हीं के मत में पूर्वोक्त दन्त्य सकारान्त धातु नहीं, मूर्धन्य षकारान्त है । अषति, अषते ॥ ९०९ [ स्पश ] वाधन-स्पर्शनयोः = दुःख देना और स्पर्श करना । स्पशते, स्पशति, पस्पशे, पस्पाश (११५), अस्पशिष्ट, अस्पाशीत् अस्पशीत् ॥ ९१० [ लष ] कान्तौ = इच्छा । लषते, लष्यते, ( १८८ ) श्यन्, लष्यति, लषति, लेषे, लेषाते, लेषिरे, ललाष, लेषतुः, लेषुः, लषितासे, लसितासि लषिष्यते, लषिष्यति, लाषिषतै, लाषिषातै, लाषिषति, लाषिषाति, लषताम्, लषतु, अलषत्, लषेत्, लष्यात्, लषिषीष्ट, अलषिष्ट, अलाषीत्, अलषीत्, अलषिष्यत, अलषिष्यत्, ॥ ९११ [ चष ] भक्षण = खाना । चषात, चषते, चचाष, चेषतु. चेषे ॥ ९१२ [ छष ] हिंसायाम् । छषति, छषते, चच्छाष, चच्छषतुः, चच्छषे ॥ ९१३ [ भ्रष ] आदानसंवरणयोः = लेना, आच्छादन । भ्रषति, भ्रषते, जभाष, जभ्रषे ॥ ९१४, ९१५ [ भ्रक्ष, भ्रलक्ष ] अदने । भ्रक्षति, भ्रक्षते, भ्रलक्षति, भ्रलक्षते, वभ्रक्ष, वभ्रक्षे, ॥



[ भञ्ज ] इत्येके । भञ्जति, भञ्जते ॥ ९१६ [ प्लुञ्ज ] च । प्लुञ्जते, प्लुञ्जति ॥ ९१७ [ दास् ] दाने । दासति, दासते, ददास, ददासे ॥ ९१८ [ माहृ ] माने = तोलना । माहति, माहते, ममाह, ममाहे, अमाहिष्ट, अमाहीत् ॥ ९१९ [ गुहृ ] संवरणे = आच्छादन करना । गुह् + शप् + तिप्, यहाँ—

२३५—ऊदुपधाया गोहः ॥ ६ । ४ । ८६ ॥

गुण का निमित्त अजादि प्रत्यय परे हो तो गुह धातु की उपधा को ऊकार आदेश होवे । इस सूत्र मे गुण किये गुह का ग्रहण इसलिये किया है कि जहां इस को गुण होता है वही ऊकार होवे अन्यत्र नहीं<sup>१</sup> । ऊकार होने के पश्चात् लघूपध के न हाने से गुण नहीं होता । गूहति, गूहत्., गूहन्ति, गूहते, गूहेते, गूहन्ते, जुगूह, जुगूहतु. जुगूह्., जुगूहिथ, जुगाढ (२०३) (१४१) (२०६) जुगूहथुः, जुगूह, जुगूह, जुगूहिव, जुगूह्व, जुगूहिम, जुगूह्म; जुगूहे, जुगूहाते, जुगूहिरे, जुगूहिषे, जुगूह् + से = जुघुत्से ( २०३ ) ( २०४ ) ( २०५ ), जुगूहाथे, जुगूहिष्वे, जुगूहिद्वे, जुगूह् + द्वे यहां प्रथम ढकार का लोप ( २०६ ) होकर—

२३६—दृलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ॥ ६ । ३ । १११ ॥

जहाँ रेफ और ढकार का लोप हुआ हो वहाँ अण को दीर्घ होवे । यहा घु के उकार को दीर्घ होकर—जुघूद्वे, जुगूहे, जुगूहिवहे, जुगूह्वहे, जुगूहिमहे, जुगूह्महे, गूहितासि, गूहितासे, अनिट् पक्ष मे—गुह + तास् + डा = गोढा । यहां अजादि प्रत्यय के न होने से उपधा को ऊकार ( २३५ ) नहीं होता । गोढारौ, गोढारः, गोढासि, गोढासे, गूहिष्यति, गूहिष्यते, घोक्ष्यति, घोक्ष्यतः, घोक्ष्यन्ति, गूहिषति, गुहिषति, घोक्षति, घोक्षति, गूहति, गूहाति, गूहिषतै,

१. कई वैयाकरण गुण करके ऊकारादेश का विधान करते हैं ।

गूहिषानै, घोक्षतै, घोक्षतै, गूहतै, गूहातै, गूहतु, गूहताम्, अगूहत, अगूहत्, गूहेत्, गूहेत्, गूहिषीष्ट, अनिट् पक्ष मे । गुह् + सीयुट् + सुट् + त ( २०३, २०४, २०५, २५७, १६३, ३४ ) = घुक्षीष्ट, घुक्षीयास्ताम्, घुक्षीरन्, गूहिषीढ्वम्, गूहिषीध्वम्, घुक्षीध्वम्, गुह्यात्, अगूहिष्ट, [ अगूहिषाताम्, ] अगूहीत्, और अनिट्पक्ष मे—अट् + गुह् + क्स् + त' इस अवस्था मे—

२३७—लुगवा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे

दन्त्ये ॥ ७ । ३ । ७३ ॥

आत्मनेपदविषय मे दन्त्य अक्षर परे हो तो दुह, दिह्, लिह् और गुह् धातुओं से परे जो क्स प्रत्यय उसका लुक् विकल्प करके होवे । प्रत्ययमात्र का लुक् और लोप अन्त्य अल् के स्थान मे होता है । यहाँ दन्त्य अक्षर त, ध्वम् और थास् के परे क्स का लुक् हांता है । अट् + गुह् + क्स् + त ( २३७, २०३, १४१ ) ष्टुत्व और ( २३६ ) = अगूढ, अघुक्षत, अघुक्षताताम् ( २०८ ), अघुक्षन्त, अगुह् + क्स् + थास् ( २३७, २०३, १४१ ) = अगूढाः, अघुक्षथाः, अघुक्षथायाम्, अगूह् + क्स् + ध्वम् ( २३७, २०३, २०४, २०६, २३६ ) अगूढ्वम्, [ अघुक्षध्वम् ] अघुक्षि, [ अगूहहि ]' अघुक्षावहि, अघुक्षामहि, अगूहिष्यत, अगूहिष्यत्, अघोक्ष्यत, अघोक्ष्यत् ॥ इति हिक्कादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषा समाप्ता । ये हिक्का आदि अडलीस उभयपदी धातु समाप्त हुए ॥

अथाजन्ताः [ श्रिजादय ] उभयपादिन' पञ्च । अब श्रिञ् आदि अजन्त उभयपदी पांच धातु कहते हैं ॥ ६२० [ श्रिञ् ]

१. 'लुगवा दुहदिह०' ( आ० २३७ ) में दन्त्य शब्द से दन्त्योष्ण वकार का भी ग्रहण होता है । अन्यथा लाघवार्थ 'तौ' ( तु = तवर्ग परे ) इतना ही निर्देश करना चाहिये ।

सेवायाम्=सेवा करना । यह धातु सेट् है । व् की इत्सङ्गा होने से (१०५) उभयपद । इसी प्रकार सर्वत्र वित् धातुओ से उभयपद जानो । श्रि+शप्+तिप् (२१), गुण=श्रयति, श्रयतः, श्रयन्ति, श्रयसि, श्रयते, श्रयेते, श्रयन्ते, शिश्राय, शिश्रियतु. (१५९) शिश्रिये श्रयितासि, श्रयितासे, श्रयिष्यति, श्रयिष्यते, श्रायिषति, श्रायिषाति, श्रयति, श्रयाति, श्रायिषतै, श्रायिषातै, श्रयतु, श्रयताम्, अश्रयत्, अश्रयत, श्रयेत्, श्रयेत, श्रियात् (१६०) दीघे, श्रयिषीष्ट, अशिश्रियत् (१७६)चङ्, (१८०)द्वित्व, (१५९) इयङ्, अशिश्रियताम्, अशिश्रियन्, अशिश्रियः, अशिश्रियत, अशिश्रियेताम्, अशिश्रियन्त, अश्रयिष्यत्, अश्रयिष्यत ॥ ६२१ [ भृञ् ] भरणे=धारण और पोषण । गुण होकर—भरति, भरते, बभार, बभ्रतुः, बभ्रः । यहाँ यणादेश होता है । विशेष नियम के होने से सामान्य लिट् मे इट् का निषेध (१४८) भारद्वाज के मत मे थल् मे इट् का निषेध (१४९), और अन्य ऋषियो के मत मे थल् मे इट् का निषेध (१५७) होकर—बभर्थ, बभ्रथुः, बभ्र, बभार, बभर, बभृव, बभृम, बभ्रे, बभ्राते, बभ्रिरे, बभृषे, [ बभ्राथे, ] बभृढ्वे, [ बभ्रि, ] बभृवहे, बभृमहे, भर्तासि, भर्तासे ।

२३८—ऋद्धनोः स्ये ॥ ७ । २ । ७० ॥

ह्रस्व ऋकारान्त और ह्रन् धातु से परे जो स्य वलादि आर्ध-धातुक उसको इट् का आगम होवे । भरिष्यति, भरिष्यते, भार्षति, भार्षाति, भरति, भराति, भार्षतै, भार्षातै, [ भरतै, भरातै, ] भरतु, भरताम्, अभरत्, भरेत्, भरेत ।

२३९—रिङ् शयग्लिङ्क्षु ॥ ७ । ४ । २८ ॥

श, यक् और यकारादि कित् ङित् आर्धधातुक लिङ् लकार परे हो तो ऋकारान्त अङ्ग को रिङ् आदेश हो । ङित् होने से अन्य

अल् ऋकार के स्थान में होता है और यह सूत्र रिङ्विधान का का अपवाद है। त्रियात्, त्रियास्ताम्, त्रियासुः। आत्मनेपद-विषय में—

२४०—उञ्च ॥ १ । २ । १२ ॥

ऋणान्त धातु से परे आत्मनेपदविषय में जो क्लादि लिङ् और सिच् सो कित्त्वत् हों। कित् होने से गुण वृद्धि का निषेध (३४) होकर—भृषीष्ट, भृषीयास्ताम्, भृषीरन्, भृषीष्ठा, भृषीयास्थाम्, भृषीद्वम्, भृषीय, भृषीवहि, भृषीमहि; अभार्षीत् (१५८) वृद्धि, अभार्षाम्, अभार्षुः, अभार्षी, अभार्षम्, अभार्ष, अभार्षम्, अभार्ष्व, अभार्ष्म। आत्मनेपदविषय में सिच् कित्त्वत् (२४०) होकर—‘अट् + भृ + सिच् + त’ इस अवस्था में—

२४१—ह्रस्वादङ्गात् ॥ ८ । २ । २७ ॥

ह्रस्वान्त अङ्ग से परे जो सिच् उस का लोप होवे क्ल परे हो तो। अभृत्, अभृषाताम्। यहा क्लादि प्रत्यय के न होने से सिच् का लोप नहीं होता। अभृषत, अभृषाः, अभृषाथाम्, अभृद्वम्, अभृष, अभृष्वहि, अभृष्महि, अभरिष्यत् (२३८) इट्, अभरिष्यत् ॥ १२२ [ ह्रस् ] हरणे = पहुँचाना, ग्रहण, चोरी और नाश करना आदि ॥ १२३ [ घञ् ] धारणे = धारण करना इन दोनों धातुओं का भृच् धातु के समान साधुत्व जानो। हरति, हरते, जहार, जहतुः, जहथे, जहार, जहर, जह्व, जहे, जहाते, जहृषे, जहृद्वे, जहृवहे, हर्तासि, हतासे, हरिष्यति (२३८) इट्, हरिष्यते, हार्षति, हार्षोति, हार्षतै, हार्षातै, हरतु, हरताम्, अहरत्, अहरत, हरेत्, हरेत, हियात्—(२३९) रिङ्, हृषीष्ट (२४०)

१ इन अर्थों के क्रमश उदाहरण—भार हरति, अक्ष हरति, धन हरति, पाप हरति ।

आगे लिखा है ॥ ८३४-८४० [ दलि-वलि-स्खलि-रणि-  
ध्वनि-त्रपि-क्षपयश्चेत्यन्ये ] इन में ध्वन और रण दोनों धातु  
आचुके, और दल धातु विशरण; वल सवरण, स्खल सचलन  
और त्रपृष् लज्जा अथे में आ चुके हैं, और क्षे धातु आगे इसी गण  
में आवेगा उसका पुगन्त क्षपि निर्देश किया है ॥ ८४१ [स्वन]  
अवतंसने । यह धातु शब्द अर्थ में आगे लिखा है । घटादयो मितः ।  
'घट चेष्टायाम्' धातु से लेकर जितने धातु लिख चुके हैं उन सब  
की मित्सज्ञा होवे । इस मित् संज्ञा का प्रयोजन णिजन्त' तथा  
कर्मकर्तृप्रक्रिया<sup>१</sup> और णमुल् प्रत्यय<sup>२</sup> में आवेगा ॥ [ जर्ज ष-  
क्नसु-रञ्जोऽमन्ताश्च ] जनी-जष् और क्नसु ये तीनों दिवादिगण  
के हैं, और रञ्ज धातु भ्वादि और दिवादिगण का है । अम् जिस  
के अन्त में हो ऐसे छम्, जम्, गम्, रम्, नम् आदि सब गणो  
के धातु मित्सज्ञक हों हैं । क्नसति, चक्रास, क्नसिता, क्नसिष्यति,  
क्नासिषति, क्नासिषाति, क्नसतु, अक्नसत्, क्नसेत्, क्नस्यात्,  
अक्नासीत्, अक्नसीत्, अक्नसिष्यत् ॥ [ ज्वल-ह्वल-ह्वल-  
नमामनुपसर्गाद्वा ] इन में ज्वल, ह्वल और झल, धातु तो इसी  
मित्सज्ञा प्रकरण में लिख चुके हैं, और नम धातु अमन्त है इन  
सब की नित्य मित्सज्ञा प्राप्त है । उसका विकल्प होने से प्राप्तवि-  
भाषा है, परन्तु ये धातु उपसर्ग से परे न हो<sup>३</sup> इतना विशेष है ।

१ घटयति—यहा 'मिता ह्रस्व' ( आ० ४६१ ) से ह्रस्व हो जाता है ।

२ अशामि, अशामि । णिजन्त से कर्मवद्भाव में 'अच कर्मकर्तरि' (आ०  
७३३) से चिण्, उसके परे रहने पर 'चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम्'  
( आ० ७२६ ) से विकल्प से दीर्घत्व । ३. शमशामम्, शामशामम् ।

णिजन्त से णमुल्, 'चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम्' (आ० ७२६) से विकल्प से  
दीर्घत्व । ४ अर्थात् उपसर्ग से परे होने पर नित्य मित्सज्ञा होती है ।

[ ग्ला-स्ना-वतु-चमाञ्च ] अनुपसर्गपूर्वक ग्लै, स्ना, वतु और वम धातु की मित्सञ्जा विकल्प करके होंगे । इस सूत्र में प्राप्ताप्राप्त विभाषा यों है कि ग्ला, और स्ना धातु की मित्सञ्जा प्राप्त नहीं और [ वन धातु का घटादि में पाठ होन तथा ] वम धातु की अमन्त होने से प्राप्त है, उन दोनों का विकल्प किया है ॥ [ न कर्म्यमि-चमाम् ] कम्, अम् और चम् धातुओं की मित्सञ्जा अमन्त होने से नित्य प्राप्त है, सो न होंगे ॥ [ शमो दर्शने ] शम् धातु की दर्शन अर्थ में मित्सञ्जा न होंगे । निगामयति ॥ [ यमोऽपरिवेषणे ] यम धातु की अपरिवेषण अर्थात् भोजन से अन्य अर्थ में मित्सञ्जा न होंगे ॥ [ स्वदिरवपरिभ्याञ्च ] अव और परि उपसर्गों से परे जो स्वद धातु उसकी मित्सञ्जा न होंगे ॥ ८४२ [ फण ] गतौ । फणति, पफण ।

२२७—फणां च सप्तानाम् ॥ ६ । ४ । १२५ ॥

फण, राज, भ्राजू, भ्राश, भ्लाश, स्यमु और खन, इन सात धातुओं के अवर्ण को एकारादेश और अभ्यास का लोप विकल्प करके हों, कित्सञ्जक लिट् और सेट् थल् परे हो तो । इन धातुओं को एत्वा-भ्यासलोप किसी सूत्र से प्राप्त नहीं, इसलिये यह अप्राप्त विभाषा है । फेणुः, फेणुः, पफणुः, पफणुः, फेणित्, पफणित्, फणिता, फणिष्यति, फणिषति, फणिषाति, फणुत्, अफणत्, फणोत्, फणयात्, अफणीत्, अफाणीत्, अफणिष्यत् ॥ “वृत्” ॥ घटा-दयः समाप्ताः । ये घट आदि मित्सञ्जक धातु समाप्त हुए ॥

८४३ [ राजृ ] दीप्तौ । उदात्तः स्वरितेत् । यह धातु स्वरितेत् है, अर्थात् क्रिया का फल कर्ता के लिये हो तो आत्मनेपद ( १०५ ) होता [ है ] और अन्यत्र परस्मैपद, इस प्रकार उभय-पद के प्रयोग जानो । राजते, राजते, राजन्ते, राजति, राजतः,

राजन्ति; रजे ( २२७ ), रराजे, रराज, र्रेजतुः, रराजतुः, राजितासे, राजितासि, राजिष्यते, राजिष्यति, राजिषतै, राजिषातै, राजिषति, राजिषाति, राजताम्, राजतु, अराजतै, अराजत्, राजेत, राजेत्, राजिषीष्ट, राज्यात्, अराजिष्ट, अराजीत्, अराजिष्यत्, अराजिष्यत् ॥

८४४-८४६ [ ढुभ्राजू, ढुभ्राशृ, ढुभ्लाशृ ] दीप्तौ । उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेपदिनः । तीनो धातु आत्मनेपदी सेट हैं । इन धातुओं के ढु की इत्सज्ञा ( १५० ) [ से होती है ], भ्राजते, भ्रेजे ( २२७ ), बभ्राजे भ्राजितासे, भ्राजिष्यते, भ्राजिषतै, भ्राजिषातै, भ्राजताम्, अभ्राजत, भ्राजेत, भ्राजिषीष्ट, अभ्राजिष्ट, अभ्राजिष्यत् । भ्राश तथा भ्लाश धातु से विकल्प करके श्यन् ( १८८ ) पक्ष मे शप् होता है । भ्राश्यते भ्राश्येते, भ्राश्यन्ते, भ्राशते, भ्रेशे, बभ्राशे, भ्राशितासे, भ्राशिष्यते, भ्राशिषतै, भ्राशिषातै, भ्राश्यतै, भ्राश्यातै, भ्राशतै, भ्राशातै, भ्राशयताम्, भ्राशताम् अभ्राश्यत, अभ्राशत, भ्राश्येत, भ्राशेत, भ्राशिषीष्ट, अभ्राशिष्ट, अभ्राशिष्यत्, भ्लाश्यते, भ्लाशते, भ्लेशे, बभ्लाशे ।

अथ स्यमादयः परस्मैपदिन. षड्विंशतिः । अब स्यम आदि २६ ( छब्बीस ) धातु परस्मैपदी कहते हैं । ८४७-८४९ [स्यमु, स्वन्, ध्वन्] शब्दे । स्यमति, सस्याम, स्येतुः ( २२७ ), सस्येतुः, स्यमितासि, स्यमिष्यति, स्यामिषति, स्यामिषाति, स्येतुः, अस्यमीत् ( १६२ ), अस्यमिष्यत्, स्वन्ति, स्वेन्तुः, सस्वन्तुः, अस्वानीत्, अस्वनीत् ( १४४ ) । यहां तक फणादि सात धातु जो ( २२७ ) सूत्र मे कहे है समाप्त हुए । ध्वन्ति, दध्वान, दध्वन्तु, ध्वनित्तासि, ध्वनिष्यति, ध्वानिषति, ध्वानिषाति, ध्वन्तु, अध्वन्त्, ध्वनेत्, ध्वन्यात्, अध्वानीत्, अध्वनीत्,

अभ्वनिष्यत् ॥ ८५०, ८५१ [ षम घृम ] अवैकल्ये = सुस्थिर, होना । समति, ससाम, सेमतुः, असमीत् ( १६२ ); स्तमति, तस्ताम, तस्तमतुः, अस्तमीत् ॥ ८५२ [ ज्वल ] दीप्तौ । ज्वलति, जज्वाल, अज्वालीत् ( १९६ ) ॥ ८५३ [ चल ] कम्पने = कापना । चलति, चचाल, चेलतुः, चलितासि, चलिष्यति, चालिषति, चालिषाति, चलतु, अचलत्, चलेत्, चल्यात्, अचालीत् ( १९६ ), अचलिष्यत् ॥ ८५४ [ जल ] घातने = मारना । जलति, जजाल, जेलतुः, अजालीत् ( १९६ ) ॥ ८५५, ८५६ [ टल दवल ] वैकल्ये = विरुद्ध चाल । टलति, टटाल, टैलतुः, ट्वलति, टट्वाल, टट्वलतुः, अटालीत्, अट्वालीत् अटलिष्यत् अट्वलिष्यत् ॥ ८५७ [ घृल ] स्थाने । स्थलति, तस्थाल, अस्थालीत् ॥ ८५८ [ हल ] विलखने = खोदना व जातना । हलति, जहाल, अहालीत् ॥ ८५९ [ णल ] गन्धे, बन्धन इत्येके । नलति, ननाल, नेलतुः, अनालीत् ॥ ८६० [ पल ] गतौ । पलति, पेलतुः, अपालीत् ॥ ८६१ [ बल ] प्राणनं धान्यावरोधे च = जीवन और धानो का रोकना । बलति, बबाल, बेलतुः, बेलुः, अबालीत् ॥ ८६२ [ पुल ] महस्त्वे = बढ़ा हाना । पोलति, पुपोल, पुपुलतुः, अपालीत् ॥ ८६३ [ कुल ] संस्त्याने बन्धुषु च = भाई बन्धुओं का समूह । कोलति, चुकोल, चुकुलतुः, कोलितासि, कोलिष्यति, कोलिषति, कोलिषाति, कालतु, अकालत्, कोलेत्, कुल्यात्, अकोलीत्, अकोलिष्यत् ॥ ८६४-८६६ [ शल, हुल, पत्लु ] गतौ । शलति, शशाल, शेलतुः, शेलुः, अशालीत् ( १९६ ); होलति, जुहोल, अहोलीत्; पतति, पपात्, पेततुः पतितासि, पतिष्यति, पातिषति, पातिषाति, पततु, अपतत्, पतेत्, पत्यात् । इस पत धातु का लृ इत् जाता है, इस से अङ् ( २१७ ) होकर—



२२८—पतः पुम् ॥ ७ । ४ । १६ ॥

अङ् परे हो तो पत धातु को पुम्, का आगम होवे । पुम् मित् होने से अन्त्य अच् पकार से परे हांता है । अट् + प + पुम् + त् + अङ् + तिप् = अपपत् । पुम् में से उम् भाग को इत्संज्ञा होती है । अपपताम्, अपपत्न्, अपपत्, अपपत्तम्, अपपत्त, अपपत्तम्, अपपत्ताव, अपपताम, अपपतिष्यत् ॥ ८६७ [ क्वथे ] निष्पाके—अच्छे प्रकार पकाना । कथति, चक्वाथ । एदित् होने से अक्वथीत् ( १६२ ) ॥ ८६८ [ पथे ] गतौ । पथति, पपाथ, पेथतुः, अपथीत्, अपथिष्यत्, ॥ ८६९ [ मथे ] विलोडने । मथति, ममाथ, मेथतुः, मथिता, मथिष्यति, माथिषति, माथिषाति, मथतु, अमथत्, मथेत्, मथ्यात्, अमथीत्, अमथिष्यत् ॥ ८७० [ टुवम् ] उद्गिरणे = उगिलना । टु इत् ( १५० ), वमति, ववाम, ववमतुः ( १२९ ) एत्वाभ्यास लोप का निषेध । वमिता, वमिष्यति, वामिषति, वामिषाति, वमतु, अवमत्, वमेत्, वम्यात्, अवमीत् ( १६२ ) अवमिष्यत् ॥ ८७१ [ भ्रमु ] चलने । यहा ( १८८ ) से विकल्प करके श्यन् होता है । भ्रम्यति<sup>१</sup>, भ्रमति ।

२२९—वा जृभ्रमुत्रसाम् ॥ ६ । ४ । १२४ ॥

कित् लिट् और सेट् थल् परे हो तो ज, भ्रमु और त्रस धातुओं के अभ्यास का लोप और इनको एकारादेश विकल्प करके होवे । इन धातुओं में एत्वाभ्यासलोप किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था, इस कारण यहा अप्राप्तविभाषा है । बभ्राम, भ्रेमतुः, भ्रेमु, बभ्रमतुः, बभ्रमुः, अभ्रमीत् ॥ ८७२ [ च्चर ] संचलने—अच्छे प्रकार चलना । च्चरति, च्चचार, च्चचरतुः, च्चरितासि च्चरिष्यति, च्चारिषति, च्चारिषाति,

१ शमासष्ठाना दीर्घं इयनि ( आ० ४११ ) से दिवादिगणस्थ शमा-  
षन्तर्गत भ्रम को दीर्घ होता है, इस को नहीं ।

चरतु, अचरत्, चरेत्, चयात्, अचारीत् ( १९६ ) अचरिष्यत् ॥  
इति स्यमादय उदात्ता उदात्ततः समाप्ताः ॥

अथ द्वावनुदात्तेनौ । अब दो धातु आत्मनेपदी कहते हैं । उन  
में सह धातु सेट और रमु अनिट् है ॥ ८७३ [ षह ] मर्षणे =  
सहना । सहते, सहेते, सहन्ते, सेहे, सेहाते, सहिता ।

२३०—सहिवहोरोदवर्णस्य ॥ ६ । ३ । ११२ ॥

सह और वह धातु के अवर्ण को ओंकार आदेश हांवे ढकार  
का लोप हुआ हो तो । यहा ( २१२ ) सूत्र से इट् के निषेध पक्ष में  
तास् प्रत्यय के परे सह के हकार को ढ ( २०३ ) [ तास् के तकार  
को ( १४१ ) में धकार, ष्टुत्व से ढकार ] और ढलोप ( २०६ )  
से होकर—सह+तास्+डा=सोढा, सोढारौ सोढारः, सोढासे,  
सोढासाथे, सोढाध्वे, सोढाहे, सोढाखहे, सोढास्महे, सहिष्यते,  
साहिषतै, साहिषातै, सहताम्; असहत, सहेत, सहिषीष्ट, असहिष्ट,  
असहिष्यत ॥ ८७४ [ रमु ] क्रीडायाम् = खेलना । यह धातु  
अनिट् है । रमते, रमेते, रमन्त, रंमे, रेमाते, रेमिरे, रेमिषे, रन्तासे,  
रंस्यत रांसतै, रांसातै, रमताम्, अमरत, रमेत, रसीष्ट, अरंस्त,  
अरंसाताम्, अरस्यत ॥

अथ [ षदादय ] कसन्ताः सप्त परस्मैपदिनः । [ अब  
षदादि कसन्त सात परस्मैपदी धातु कहते हैं । ] ८७५ [ षद्लृ ]  
विशरणगत्यवसादनेषु = मारना, गति और क्लेश होना ।

२३१—पाघ्राध्मास्थान्नादाणूहश्यतिसतिशद-  
सदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छधौशीय-  
सीदाः ॥ ७ । ३ । ७८ ॥

पा, घ्रा, ध्मा, स्था, न्ना, दाणू, हशि, ऋ, सृ, शद और सद  
धातुओं को पिब, जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, धौ,

शीय और सीद आदेश यथासंख्य करके होवे शित् प्रत्यय परे हो तो। यहां शप् के परे सद् को सीद होकर—सीदति, सीदतः, सीदन्ति, ससाद, सेदतुः, सेदुः। यह [ तथा अगली दो ] धातु अनिद् हैं। सेदिय ( १४९ ), ससत्य ( २१५ ), सेदथुः, सेद, ससाद, [ ससद, ] सेदिव, सेदिम; सत्ता, सत्तारौ, सत्तारः, सत्तासि, सत्स्यात, सात्स्यात, सात्स्याति, सत्सति, सत्साति, सीदति, सीदाति, सीदतु, असीदत्, सीदेत्, सद्यात् । लृदित् होने से अङ् ( २१७ ) असदत्, असदताम्, असदन्, असदः, असदतम्, असदन्, असदम्, असदाव, असदाम; असत्स्यत् ॥ ८७६ [ शद्लृ ] शातने = तीक्ष्णता होनी १ ।

२३२—शदेः शितः ॥ १ । ३ । ६० ॥

शित् प्रत्ययविषयक शद धातु से आत्मनेपद सन्नक प्रत्यय हो । जिन लकारों में शप् होता है वहाँ यह सूत्र परस्मैपद का अपवाद है। शीय ( २३१ ) आदेश—शीयते, शीयेते, शीयन्ते, शीयसे, शशाद, शेदतुः, शेदु, शेदिय, शशत्थ ( १४९, २१५ ), शत्तासि, शत्स्यति, शत्सति, शत्साति, शत्सति, शत्साति, शीयतै, शीयातै, शीयते, शीयाते, शीयताम्, अशीयत, शीयेत, शद्यात्, लृदित् होने से अङ् ( २१७ ) अशदन्, अशदताम्, अशदन्, अशत्स्यत् ॥ ८७७ [ कुश ] आह्वाने रादने च = बुलाना और रोना । क्रोशति, चुक्रोश, चुक्रुशतुः, चुक्रुशु, चुक्रोशिय ( १४८ ) सूत्र के नियम से इट् । क्रुश् + तास् + डा, यहा—

२३३—ब्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छृशां

षः ॥ ८ । २ । ३६ ॥

ब्रश्च, भ्रस्ज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज और छकारान्त

१ विशीर्णता इति मैत्रेयः, तनूकरणमिति क्षीरस्वामी ।

शकारान्त धातुओं के अन्य वर्णों को ष आदेश होवे मल्ल परे हो वा पदान्त में । इस सूत्र में राज और भ्राज धातु का ग्रहण पदान्त में षत्व होने के लिये है, क्योंकि इन दोनों के सेट् होने से मल्लादि आर्धधातुक में इट् के व्यवधान में प्राप्ति नहीं होती । यहाँ प्रकृत में शान्त क्रुश धातु के शकार को मूर्धन्य और “घुना घुः”<sup>१</sup> सूत्र से तास् के तकार को टकार होकर—क्रोशा, क्रोशारौ, क्रोशारः, क्रुश + स्य + ति = क्रोक्ष्यति ( २०५ ), इसी प्रकार लेट् में जानो + क्रुश् + स् + अट् + तिप् = क्रोक्षति, क्रोक्षाति, क्रोशति, क्रोशाति, क्रोशतु, अक्रोशत्, क्रोशत्, क्रुश्यात्, अट् + क्रुश् + क्स + तिप् = अक्रुक्षत् ( २०७ ), अक्रुक्षताम्, अक्रुक्षन्, अक्रुक्ष, अक्रोक्ष्यत् । ये षद् आदि तीन धातु अनिद् थे ॥ ८७८ [ कुच ] सम्पर्चनकौटिल्यप्रतिष्ठम्भविलेखनेषु = छना, टेढाई, रोक रखना और खोदना । कोचति, चुकोच, चुकुचतुः; कोचिता, कोचिष्यति, कोचिषति, कोचिषाति, कोचतु, अकोचेत्, कोचेत्, कुच्यात्, अकोचीत्, अकोचिष्यत् ॥ ८७९ [ बुध ] अवगमने = ज्ञान होना । बोधति, बुबोध, बुबुधतुः; बुबुधुः, बाधिता, बोधिष्यति, बोधिषति, बोधिषाति, बोधतु, अबोधत्, बाधेत्, बुध्यात्, अबोधीत्, अबोधिष्यत् ॥ ८८० [ रुह ] बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च = बीज की उत्पत्ति और प्रकट होना । रोहति, रुरोह, रुरुहतु । यह धातु भी अनिट् है । रुह् + तास् + डा = रोढा ( २०३ ) ( १४१ ) और “घुना घुः”<sup>२</sup> ( २०६ ) रोढारौ, रोढारः; रोढासि, रोह् + स्य + ति = रोक्ष्यति ( २०३ ) ( २०५ ), रोक्ष्यतः, रोक्ष्यन्ति, रोक्षति, रोक्षाति, रोहति, रोहाति, रोहतु, अरोहत्, रोहेत्, रुह्यात्, अट् + रुह् + क्स + तिप् = अरुक्षत् ( २०७ ), अरुक्षताम्, अरुक्षन्, अरो-

कित्त्वत्, हृषीद्वम्, अहार्षीत् ( १५८ ) वृद्धि, अहत ( २४१ )  
 सिच्लोप, अहृषाताम्, अहृषत, अहरिष्यत्, अहरिष्यत । धरति,  
 दधार । और ( १६१ ) सूत्र मे तुजांदि धातु सामान्य करके लिये  
 जाते हैं, जिन के वैदिक प्रयोगो मे अभ्यास को दीर्घादेश देख पड़े  
 वे सब तुजादिगणस्थ जानो । इस कारण 'दाधार' ऐसा भी प्रयोग  
 वेद मे होता है । दध्रुत्, दधर्थ, दध्रे, दधृषे, धर्तासि, धतासे,  
 धरिष्यति, धरिष्यते, धार्षतै, धार्षातै, धार्षते, धार्षाते, धरतु, धरताम्,  
 अधरत्, अधरत, धरेत्, धरेत, ध्रियात्, धृषीष्ट, धृषीद्वम्, अधा-  
 र्षीत्, अधृत, अधृषाताम्, अधृषत, अधृद्वम्, अधरिष्यत्, अधरि-  
 ष्यत ॥ ९२४ [ णिञ् ] प्रापणे = ले चलना । नयति, नयते,  
 निनाय, नी + नी + अतुस् = निन्यतुः ( १५६ ) यण्, निन्युः, निन-  
 यिथ ( १४९ ), निनेथ ( १५७ ), निन्यथुः, निन्य, निनाय, निनय,  
 निन्यिव, निन्यिम, निन्ये, निन्याते, निन्यिरे, नेतासि, नेतासे,  
 नेष्यति, नेष्यते, नैषति, नैषाति, नयति, नयाति, नैषतै, नैषातै, नेषतै,  
 नेषातै, नेषने, नेषाते, नयतै, नयातै, नयतु, नयताम्, अनयत्, अन-  
 यत, नयत्, नयेत, नीयात्, नीयास्ताम्, नेषीष्ट, अनैषीत्, अनेष्ट,  
 अनेषाताम्, अनेष्यत्, अनेष्यत ॥ भरत्यादयश्चत्वारोऽनुदात्ताः ॥

अथाजन्ताः परस्मैपदिनः [ षट्चत्वारिंशत् ] । अब अजन्त  
 परस्मैपदी ४६ ( छियालीस ) धातु कहते हैं ॥ ६२५ [ घेद् ]  
 पाने = पीना । 'ट्' की इत्संज्ञा और एकार को अय् आदेश  
 होकर—ध + अय् + तिप = धयति, धयतः, धयन्ति ।

२४२—आदेच उपदेशेऽशिति ॥ ६ । १ । ४५ ॥

अशित<sup>१</sup> अर्थात् आर्धधातुकविषय में उपदेश मे जो एजन्ता धातु उस को आकार हावे । आकारान्त धातु सब अनिट् हैं । धा+णल्, इस अवस्था में—

२४३—आत औ णलः ॥ ७ । १ । ३४ ॥

आकारान्त धातु से परे जो णल् उस को औकार आदेश हावे । धा+औ, द्वित्व होकर—दधौ । धा+अतुस्, यहा—

२४४—आतो लोप इटि च ॥ ६ । ४ । ६४ ॥

अजादि कित् डित् आर्धधातुक और इट् परे हो तो आकारान्त अङ्ग का लोप हावे । इस लोप के पहिले द्वित्व की प्राप्ति तो है फिर सब विधियो से लोपविधि के अति बलवान् होने से प्रथम लोप ही होता है, फिर एकाच् के न होने से द्वित्व (३४) प्राप्त नहीं है, इसलिये—

२४५—द्विर्वचनेऽचि ॥ १ । १ । ७३ ॥

द्विर्वचन का निमित्त अजादि प्रत्यय परे हो तो अच् के स्थान में जो आदेश है सो स्थानिरूप हो जावे । यहां रूपातिदेश मानने से आकार का पुनरागमन होकर द्विर्वचन हाता है । धा+धा+अतुस् = दधतुः । यहां द्विर्वचन होने के पश्चात् दूसरे धा का आकार हट जाता है । दधुः, दधा+इट्+थल् = ( २४४ ) दधिथ ( १४९ ) भारद्वाज के मत मे इट् का विधान, और—‘दधाथ’ ( १५७ ) इट् का निषेध । दधथुः, दध, दधौ, दधिव, दधिम; धाता, धातारौ,

१. यस्मिन् विभिस्तदादावल्लहणे ( पारि० ३३ ) नियम से शित् जिस के आदि में हो वहीं प्रतिषेध होता है । अत एव ‘एशु’ में भात्व का निषेध नहीं होता । यथा—मेड् प्रणिदाने ( भ्वा० ९८६ ) ममे, यहलं भात्व हो जाता है ।

धातारः, धातासि, धास्यति, धास्यत, धास्यन्ति, धासति, धासाति,  
धयति, धयाति, धयतु, अधयत्, धयेत् ।

२४६—दाधा दध्दाप् ॥ १ । १ । ३४ ॥

दा रूप और धा रूप जो धातु तथा इनकी जो प्रकृति हैं उन  
की घु संज्ञा होवे, दाप् और दैप् धातु को छोड़ के । इस का फल—

२४७—एर्लिङि ॥ ६ । ४ । ६७ ॥

घुसंज्ञक धातु, मा, स्था, गा, पा, आहाक्, सा इन धातुओं के  
आकार को एकार आदेश होवे, कित् ङित् लिङ् परे हो तो । घे को  
आकार ( २४२ ) हांता है उसी आकार को ए होकर—धेयात्,  
धेयास्ताम्, धेयासुः, धेया, धेयास्तम्, धेयास्त, धेयासम्, धेयास्व,  
धेयास्म ।

२४८—विभाषा धेट्श्वयोः ॥ ३ । १ । ४६ ॥

धेट् और श्वि धातु से परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान में चङ्  
आदेश विकल्प करके होवे । अट् + धा + धा + चङ् + तिप् = अदधत्  
( १८० ) द्वित्व और ( २४४ ) आ का लोप । अदधताम्, अदधन्,  
अदधः, अदधतम्, अदधत, अदधम्, अदधाव, अदधाम । अब  
जिस पक्ष में चङ् न हुआ वहां उत्सर्ग सिच् होकर—

२४९—विभाषा घ्राधेट्शाच्छ्वासः ॥ २ । ४ । ७८ ॥

घ्रा, धेट्, शा, छा और सा इन धातुओं से परे जो सिच् उस  
का विकल्प करके लुक् हो परस्मैपदविषय में । धेट् धातु की घुसंज्ञा  
होने से ( ९१ ) सूत्र से सिच् लुक् नित्य प्राप्त [ है ] और अन्य  
धातुओं से अप्राप्त है इन दोनों का विकल्प होने से प्राप्ताप्राप्तविभाषा  
इस सूत्र में समझनी चाहिये । सिच् का लुक् होकर—अट् + धा +  
तिप् = अधात्, अधाताम्, अधा + मि, यहाँ जुस् आदेश किसी  
से प्राप्त नहीं है इसलिये—

२५०-आतः ॥ ३ । ४ । ११० ॥

जिससे परे मिच् का लुक् हुआ हा ऐसे आकारान्त धातु से परे जो मि उसको जुस् आदेश होवे। सिच्लुक् होने के पश्चात् प्रत्ययलक्षण कार्य मान के जुस् (१३७) हा जाता है, फिर यह सूत्र नियमार्थ है कि सिज्लुगन्त से परे प्रत्ययलक्षण मान के आकारान्त धातुओं से परे ही जुस् हो अन्य से नहीं, 'अभूवन्' यहां भी सिच्लुक् (९१) हुआ है तो भी प्रत्ययलक्षण मान के जुस् नहीं होता। अट् + धा + जुस् = अधु (८५) पररूप एकादेश, अधाः, अधातम्, अधात, अधाम, अधाव, अधाम। सिच्लुक् (२४९) विकल्प से होता है जिस पक्ष में न हुआ वहां—

२५१-यमरमनमातां सक् च ॥ ७ । २ । ७३ ॥

यम, रम, नम और आकारान्त धातुओं से परे जो सिच उसको इट् का आगम और इन धातुओं को सक् का आगम होवे परस्मै-पदविषय में। अट् + धा + सक् + इट् + सिच् + ईट् + तिप् = अधा-सीत्। सिच् के सकार का लोप (१३५) हा जाता है। अधासि-ष्टम्, अधासिषुः, अधासीः, अधासिष्टम्, अधासिष्ट, अधासिषम्, अधासिष्व, अधासिष्म, अधास्यत्, अधास्यताम्, अधास्यन् ॥ ९२६, ९२७ [ ग्लै म्लै ] हर्षक्षये = आनन्द का नाश। ग्लै + शप् + तिप् = ग्लायति, ग्लायतः, ग्लायन्ति। लिट् आदि आर्धधातुक लकारों में घेट् के समान साधुत्व जाना। जग्लौ, जग्लतुः, मम्लौ, मम्लतुः, जग्लथ, जग्लथ, जग्लौ, जग्लिव, जग्लिम, ग्लातांस, ग्लास्यति, ग्लासति, ग्लासाति, ग्लायतु, अग्लायत्, ग्लायेत्। आशिषि लिङ् में एकारादेश (२४७) नित्य प्राप्त है [ उसका अपवाद ]—

२५२-वाऽन्यस्य संयोगोदः ॥ ६ । ४ । ६८ ॥



( २४७ ) सूत्र में कहे घु संबन्धक आदि से अन्य संयोगादि आकारान्त धातुओं के आकार को एकार विकल्प करके हां कित् कित् लिङ् परे हां तो । ग्लेयात्, ग्लयात्, म्लेयात्, म्लयात् । लुङ् मे ( २५१ ) सक् और इट् होकर—अग्लासीत्, अग्लासिष्टाम्, अम्लासीत्, अग्लास्यत्, अम्लास्यत्, ॥ ९२८ [ द्यै ] न्यक्करणे = नीचो का तिरस्कार करना । द्यायति, द्यौ, द्यिथ, दद्याथ, द्याता, द्यास्यति, द्यासति, द्यासात्, द्यायतु, अद्यायत्, द्यायेत्, द्येयात्, द्यायात्, अद्यासीत्, अद्यासिष्टाम्, अद्यासिषुः, अद्यास्यत् ॥ ९२९ [ द्रै ] स्वप्ने = सोना । द्रायति, द्रौ, द्राता, द्रेयात्, द्रायात्, अद्रासीत् ॥ ९३० [ ध्रै ] तृप्तौ । ध्रायति, दध्रौ, ध्रेयात्, ध्रायात्, अध्रासीत् ॥ ९३१ [ ध्यै ] चिन्तायाम् = विचारना । ध्यायति, दध्यौ, ध्याता, ध्यास्यति, ध्यासति, ध्यासात्, ध्यायतु, अध्यायत्, ध्यायेत्, ध्येयात्, ध्यायात्, अध्यासीत्, अध्यास्यत् ॥ ९३२ [ रै ] शब्दे । रायति, ररौ, रातासि, रायात्, अरासीत् ॥ ९३३, ९३४ [ स्त्यै, ष्ट्यै ] शब्दसङ्घातयोः = शब्द और समुदाय । इन दोनों में एक धातु षोपदेश है उस के भी सत्व होने के पश्चात् एक ही प्रकार के रूप होते हैं षोपदेश का फल णिजन्त और सन्नन्त प्रक्रियामे आवेगा<sup>१</sup> स्त्यायात्, तस्यौ, स्त्येयात्, स्त्यायात्, अस्त्यासीत् ॥ ९३५ [ खै ] खदने = खाना । खायति, चखौ, चखतुः, चखुः, चखिथ, चखाथ, खातासि, खास्यति, खासति, खासात्, खायतु, अखायत्, खायेत्, खायात्, अखासीत्, अखास्यत् ॥ ९३६—९३८ [ क्षै, जै, वै ] क्षये = नाश । क्षायति, क्षौ, क्षेयात्, क्षायात्, अक्षासीत्; जायति, जजौ, जायात्, अजासीत् । यहां भी वै धातु को आकार

१. णिजन्त में—अतिष्ठयत् । सन्नन्त में—तिष्ठयासति । यहां मूर्धन्य हो जाता है ।

होकर सा हो जाता है, पग्न्तु ( १ ७, २४९ ) सूत्रों में सा धातु के ग्रहण से दिवादिगण का 'घो' लिया जाता है<sup>१</sup> । सायति, ससौ सायात्, असासीत् ॥ १३९ -९४० [ कै, गै ] शब्दे । कायति, चकौ, कायात्, अकासीत्, पायति, जगौ, गायात्, अगासीत् ॥ ९४१, ९४२ [ शै, श्र ] पाके=पकाना । शायति, शशौ, शयात्, अशासीत्, श्रायति, शश्रौ, श्रातासि, श्रास्यति, श्रासति, श्रासाति, श्रायति, श्रायाति, श्रायतु, अश्रायत्, श्रायेत्, श्रेयात्, ( २५२ ) श्रायात्, अश्रासात्, अश्रास्यत् ॥ ९४३, ९४४ [ पै, ओवै ] शोपणे—सोखना । पायति, पपौ, पपतुः, पपुः, पपिथ, पपाथ, पपथु, पप, पपौ, पपिव, पपिम, पातासि, पास्यति, पामति, पासाति, पायाति, पायाति, पायतु, अपायत्, पायेत् । और पा धातु से भी उपदश में आकारान्त पा धातु का ग्रहण (२४७) सूत्र में हाता है<sup>२</sup>—'पायात्' इस कारण एत्व न हुआ । अपासीत् । अपामिष्टाम् । अपासिषु । अपास्यत् । ओवै धातु में ओंकार इत् जाता है प्रयाजन कृदन्त में आवेगा । वायति, ववौ, वायात्, अवासीत् । ९४५ [ छै ] वेष्टने = लपेटना । स्तायति, तस्तौ, स्तेयात्, स्तायात्, अस्तासीत् ॥ ९४६ [ ष्णै ] वेष्टने, शोभायां चेत्येक । किन्हीं के मत में ष्णौ धातु का शोभा अर्थ भी है । स्नायति, सस्नौ, स्यत्, स्नायात्, अस्नासीत्, अस्नास्यत् ॥ ९४७ [ दैप् ] शोघने = शाधना । इस में प् का इत्सङ्गा हांती है

१. भा० सूत्र २४७ में न्यासकार की व्याख्या और तन्त्रान्तर के अनुरोध से दिवादि का ग्रहण होता है । सूत्र २४९ में 'शा' और 'छा' इन दो दैवादिक धातुओं के साहचर्य से दैवादिक का ही ग्रहण होता है ।

२. गापोऽहण इण्पिबत्योर्ग्रहणम् ( धा० २ । ४ । ७७ ) इस नियम से 'पा पाने' का ही ग्रहण होता है, इसका नहीं ।

और घु संज्ञा का निषेध होने से एकार ( २४७ ) का निषेध और सिच्लुक् ( ९१ ) नहीं होता । दायति, ददौ, दायात्, अदा-  
सीत् ॥ ९४८ [ पा ] पाने = पीना । यहां पा के स्थान में  
पिब आदेश ( २३१ )—पिबति, पिबत, पिबन्ति, पमौ, पपतु, पपुः,  
पपिथ, पपाथ, पातासि, पास्यति, पासति, पासाति, पिबति, पिबाति,  
पिबतु, अपिबत्, पिबेत्, पेयात्, पेयास्ताम्, पेयासुः । अट् +  
पा + तिप् = अपात् ( ६१ ) सिच् का लुक् । अपाताम्, अपुः,  
अपास्यत् ॥ ९४९ [ घ्रा ] गन्धोपादाने = गन्ध का ग्रहण  
चा गन्ध के द्वारा किसी पदार्थ का ग्रहण करना । घ्रा के स्थान में  
( २३१ ) जिघ्र आदेश—जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जघ्रौ, जघ्रतुः,  
घ्राता, घ्रास्यति, घ्रासति, घ्रासाति, जिघ्रात, जिघ्राति, जिघ्रतु,  
अजिघ्रत्, जिघ्रत् । सयोगादि होने से एकार का विकल्प ( २५२ )  
घ्रेयात्, घ्रायात्, और सिच् लुक् का विकल्प ( २४९ )—अघ्रात्,  
आघ्राताम्, अघ्रः, अघ्रा, अघ्रातम्, अघ्रात, अघ्राम्, अघ्राव,  
अघ्राम, अघ्रासीत्, अघ्रासिष्टाम्, अघ्रासिषुः; अघ्रास्यत् ॥  
९५० [ घ्मा ] शब्दार्गनसंयोगयो = शब्द और अग्नि के साथ  
वायु का संयोग । घ्मा के स्थान में धम ( २३१ ) आदेश—धमति,  
धमत, धमन्ति, दध्मौ, दध्मतुः, दध्मुः, दध्मिथ, दध्माथ, दध्मथुः,  
दध्म, दध्मौ, दध्मिव, दध्मिम; ध्मातासि, ध्मास्यति, ध्मासति,  
ध्मासाति, धमति, धमाति, धमतु, अधमत, धमन्, ध्मेयात्,  
ध्मायात्, अध्मासीत्, अध्मास्यत् ॥ ९५१ [ घ्ठा ] गति-  
निवृत्तौ = ठहर जाना । ( २३१ ) से तिष्ठ होकर—तिष्ठति, तिष्ठतः,  
तिष्ठन्ति, तस्थौ, तस्थुः, स्थातासि, स्थास्यति, स्थासति, स्थासाति,  
तिष्ठति, तिष्ठाति, तिष्ठतु, आतिष्ठत्, तिष्ठेत्, स्थेयात् ( २४७ )  
एकारादेश होता है । अस्थात् ( ९१ ) सिच्लुक् । अस्थाताम्, अस्थुः;  
अस्थास्यत् ॥ ९५२ [ म्ना ] अभ्यासे = अभ्यास करना ।

मन आदेश ( २३१ )—मनति, मन्मौ, म्नाता, म्नास्यति, म्नासति, म्नासाति, मनति, मनाति, मनतु, अमनत्, मनेत्, म्नेयात्, म्नायात्, अम्नासीत्, अम्नास्यत् ॥ १५३ [ दाण् ] दाने—देना । दाण् को यच्छ ( २३१ )—यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, प्रयच्छति, ददौ, दातासि, दास्यति, दासति, दासाति, यच्छति, यच्छाति, यच्छतु, अयच्छत्, यच्छेत्, इस धातु मे णकार अनुबन्ध यच्छ आदेश विधायक सूत्र मे विशेष बोध क लिये है । निरनुबन्ध दारूप की घुसंज्ञा ( २४६ ) होकर एकार ( २४७ ) होता है—देयात्, देयास्ताम् । और घुसंज्ञा से ही सिच्लुक्—अदात्, अदाताम्, अदुः, अदाः, अदास्यत् ॥ १५४ [ ङ् ] कौटिल्ये = कुटिलता । ह्वरति, जह्वार ।

२५३—ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ॥ ७ । ४ । १० ॥

लिट् लकार परे हो तो ऋकारान्त संयोगादि धातु को गुण होवे । लिट् की कित् संज्ञा ( ४६ ) होने से गुण ( ३४ ) नहीं प्राप्त है इसलिये यह सूत्र है । और एल प्रत्यय मे जहां वृद्धि प्राप्त है वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, पूर्वविप्रतिषेध मानकर वृद्धि ही होजाती है । जह्वार, जह्वरतुः, जह्वरुः, थल् मे भारद्वाज के मत में इट् निषेध ( १४९ ) और अन्यो के मत मे इट् ( १५७ ) नहीं होता—जह्वर्थ, जह्वरथुः, जह्वर, जह्वार, जह्वर, जह्वरिव, जह्वरिम, ह्वर्तासि, लृट् मे इट् ( २३८ ) ह्वरिष्यति, ह्वरिषति, ह्वरिषति, ह्वरिषति, ह्वरति, ह्वरति, ह्वरतु, अह्वरत्, ह्वरेत् ।

२५४—गुणोर्त्तिसंयोगाद्योः ॥ ७ । ४ । २६ ॥

ऋ धातु और संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुण होवे यक् और कित् आर्धधातुक लिङ् परे हो तो । ह्वर्यात्, ह्वर्यास्ताम्, ह्वर्यासुः । लुङ् में वृद्धि ( १५८ ) होकर—अह्वर्यात्, अह्वर्याम्, ५

अहार्षुः, अहार्षीः, अहार्ष्टम्, अहार्ष्ट, अहार्ष्टम्, अहार्ष्ट्वे,  
अहार्ष्ट्मि, अहार्ष्टिष्यत् ॥ ९५५ [ स्तृ ] शब्दोपतापयोः = शब्द  
और पीड़ा देना । स्वरति, स्वरतः, स्वरन्ति । वलादि लिट् लकार  
मे विकल्प से इट् ( १४० ) सस्वार । सस्वरतुः ( २५३ ) गुण ।  
सस्वरुः, सस्वरिथ', सस्वर्य', [ सस्वरथु', ] सस्वर, सस्वार ।

२५५—अयुक्तः किति ॥ ७ । २ । ११ ॥

श्रिच् और एकाच् उगन्त धातु से परे जो कित् आर्धधातुक  
उसको इट् का आगम न होवे । ( १४० ) सूत्र यद्यपि इस सूत्र से  
परे<sup>२</sup> है तथापि उस विकल्प को बाध के प्रथम निषेध प्रकरण के  
आरम्भ सामर्थ्य से इट् का निषेध इस सूत्र से प्राप्त है, फिर  
( १४८ ) सूत्र के नियमानुसार वस् मस् मे नित्य इट् होता है—  
सस्वरिव, सस्वरिम, स्वरिता, स्वर्ता, स्वरिष्यति, यहां परत्व से  
नित्य इट् ( २३८ ) होता है । स्वार्षति, स्वाषोति, स्वरतु, अस्वरत्,  
स्वरेत्, स्वर्थात् ( २५४ ), अस्वारीत्, अस्वारिष्टाम्, अस्वार्षीत्,  
अस्वार्ष्टीम्, अस्वरिष्यत् ॥ ९५६ [ स्मृ ] चिन्तायाम् = स्मरण  
करना । स्मरति, सस्मार, सस्मरतुः, सस्मरुः, समस्य', स्मर्ता,  
स्मरिष्यति, स्मार्षति, स्मार्षीत्, स्मरतु, अस्मरत्, स्मरेत्, स्मर्यात्,  
अस्मार्षीत्, अस्मार्ष्टीम्, अस्मरिष्यत् ॥ ९५७ [ वृ ] संवरणे  
ढांकना । वरति, वरतः, वरन्ति, ववार, वव्रतुः, वव्रुः, ववर्थ,  
वर्तासि, वरिष्यति, वार्षति, वार्षीत्, वरतु, अवरत्, वरेत्,  
त्रियात् ( २३९ ) रिङ्, अवार्षीत्, अवरिष्यत् ॥ ९५८ [ सृ ]  
गतौ ( २३१ ) से सृ को धौ आदेश शीघ्र चलने मे होकर—  
धावति, धावतः, अन्यत्र—सरति, ससार, सस्रतुः, सस्रु, ससर्थ  
( १४८ ) सूत्र के नियम से इट् का निषेध । सस्रव, सस्रम, सर्ता,

१. देखो पृष्ठ ४८, टि० १ ।

२. अष्टाध्यायी में सूत्रक्रम से ।

सरिष्यति, सार्षति, साषति, धावति, धावाति, धावतु, सरतु, अधावत्, असरत्, धावेत्, सरत्, स्त्रियात्, स्त्रियास्ताम् ।

२५६—सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च ॥ ३ । १ । ५६ ॥

सृ, शासु और ऋ धातु से परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान में अङ् आदेश होवे परस्मैपदविषय में । इमसे अङ् होकर—'अट् + सृ + अङ् + तिप्' इस अवस्था में अङ् के डित् होने से गुण की प्राप्ति नहीं है, इसलिये—

२५७—ऋदृशोऽङि गुणः ॥ ७ । ४ । १६ ॥

ऋवर्णान्त और दृश धातु को गुण होवे अङ् परे हो तो । यहा ऋवर्णान्त सृ धातु को अर् गुण होकर—असरत्,<sup>१</sup> असर-ताम्, अमरन्, असरः, असरतम्, असरत, असरम्, असराव, असराम, असरिष्यत्, असरिष्यताम्, असरिष्यन् ॥ १५९ [ ऋ ] गतिप्रापणयो । यहां प्रापण अर्थ के पृथक् कहने से गमन और प्राप्ति दो ही अर्थ इस धातु के समझे जाते हैं अर्थात् ज्ञान अर्थ नहीं । (२३१) से ऋच्छ आदेश हाकर—ऋच्छति, ऋच्छतः, ऋच्छन्ति । 'ऋ + णल्' यहां परत्व से ऋ को 'आर्' वृद्धि होकर अकार को द्वित्व और सवर्ण दीर्घ होकर—आर ।

१. अन्य वैयाकरण २५६ वें सूत्र में 'शास्ति, के साहचर्य से अदादिगणवाली 'सृ' और 'ऋ' का ग्रहण मानते हैं, भ्वादिगणवाली का नहीं । उनके मत में इन 'सृ' और 'ऋ' के क्रमशः 'असार्षीत्' और 'आर्षीत्' प्रयोग बनते हैं । परन्तु धातुप्रदीपकार मैत्रेयरक्षित साहचर्य-परिभाषा ( पारि०१० ) को अनित्य मानकर इन भ्वादिगणस्थ धातुओं से भी अङ् विधान करता है, तदनुसार 'असरत्' और 'आरत्' रूप बनते हैं ।

२५८—ऋच्छन्वृताम् ॥ ७।४।११ ॥

तुदादिगण की ऋच्छ, ऋ और ऋकारान्त धातुओं को गुण हो लिट् परे हो ता। यहा भी कित् लिट् में गुण नहीं प्राप्त है इसलिये यह सूत्र है। अर् + अर् + अतुस् = आर्तुः, आरुः, (१४८) सूत्र के नियम से लिट् में सर्वत्र नित्य इट् प्राप्त है। भारद्वाज के मत मे थल् मे इट् का निषेध (१४९) प्राप्त, और अन्य लोगों के मत मे थल् मे इट् का निषेध (१५७) प्राप्त है इन सब का अपवाद—

२५९—इडत्यतिव्ययतीनाम् ॥ ७।२।६६ ॥

अद, ऋ और व्येव् इन धातुओं से परे थल् का नित्य इडागम होवे। आरिथ, आरथु, आर, आर, आरिव, आरिम। यहां व, म मे (१४८) सूत्र के नियम से ही नित्य इट् होता है। अर्ता, अर्तारौ, अर्तार., अर्तासि, अरिष्यति (२२८) इट्, आर्षति, आर्षति, अर्षति, अर्षाति, अर्षत्, अर्षात्, ऋच्छति, ऋच्छतु, आच्छेत्, ऋच्छेत्, अर्षात् (२५४) गुण। लुङ् मे च्लि के स्थान में अङ् (२५६) और अङ् के परे गुण (२५७) होकर—आरत्, आरताम्, आरन्, आरः, आरतम्, आरत, आरम्, आराव, आराम, आरिष्यत् ॥ १६०, १६१ [ गृ, घृ ] सेचने = सीचना। गरति, घरति, जगार जग्रतु, जगर्थ, जघथे जग्रिव, जग्रिम,

१. देखो, पृष्ठ १७०, टि० १। २. महाभाष्य ७।१।१५ में 'घरतिरस्मा भविशेषेणोपदिष्ट, स घृत, घृणा, घम इत्येतद्विषय एव' लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि इस धातु के तिङन्त प्रयोग नहीं होते। निरुक्त (२।२) के 'अथापि नैगमेभ्यो भाषिका उष्ण घृतमिति' वचन से ज्ञापित होता है कि यास्क के मत में 'घृ' धातु छान्दस है, इसके लोके मे प्रयोग नहीं होते। यहा पृष्ठ ५३, टि० २ भी देखो।

गर्तासि, गरिष्यति, गर्षति, गर्षाति, गरतु, अगर्त्, गर्त्, ग्रियात्, ( २३९ ) रिङ्, ग्रियात्, अगर्षात् ( १५८ ) वृद्धि हांकर—अगर्षाम्, अगर्षुः, अगर्षात्, अगर्षिष्यत् ॥ १६२ [ धृ ] ह्रस्वने । ध्वरति, ध्वरतः, ध्वरन्ति, दध्वार, दध्वरतुः ( २५३ ) गुण, दध्वरुः, ध्वता, ध्वरिष्यति, ध्वार्षति, ध्वार्षाति, ध्वरतु, अध्वरत्, ध्वरन्तु, ध्वर्यात् ( २५४ ) गुण, ध्वयास्ताम्, ध्वर्यासुः, अध्वार्षात्, अध्वार्षाम्, अध्वरिष्यत् ॥ १६३ [ सृ ] गतौ । स्रवति, स्रवतः, स्रवन्ति, सुस्राव, सुस्रवतुः ( १५६ ) उवङ्, सुस्रवुः, सुस्राथ, सुस्रवथुः, सुस्रव. सुस्राव, सुस्रव सुस्रव, ( १४८ ) सूत्र के नियम से इट् का निषेध, सुस्रुम, स्रोतासि, स्रोष्यति, स्रौषति, स्रौषाति, स्रोषति, स्रोषाति, स्रवति, स्रवाति, स्रवतु, अस्रवत्, स्रवत्, स्रयात् ( १६० ) दीर्घ । लुङ् में ( १७६ ) सूत्र से च्लि के स्थान में चङ् और द्विर्वचन ( १८० ) होकर—अट् + स्रु + स्रु + चङ् + तिप् = अस्रुवत्, अस्रोष्यत् ॥ १६४ [ षु ] प्रसवै-श्वर्ययोः = उत्पत्ति और सामर्थ्य का होना । सवति, सुषाव, सुषुवतुः, सुषुवुः, सुषाथ, सुषावथ सुषुविव, [ सुषुविम ] साता, साष्यति, सौषति, सौषाति, सवति, सवाति, सवतु, असवत्, सवेत्, सूयात् ( १६० ) दीर्घ, असौषात्, असौषाम्, असौषुः,

१. स्तुषुधूम्यः परस्मैपदेषु ( आ० ३३० ) इस इट् विधायक सूत्र में लुग्विकरण स्तु धातु के साहचर्य से आदादिक का ही ग्रहण होता है । आत्रेय, मैत्रेय, न्यासकारादि 'स्तु' और 'धूज्' दोनों पूर्वापर की जित् धातुओं के साहचर्य से स्वादिगणस्थ धुज् धातु का ही ग्रहण मानते हैं । वर्धमान साहचर्य ( पारि० ९० ) और निरनुबन्धक परिभाषा को अनित्य मानकर भ्वादि और स्वादि दोनों गणों की धातुओं से इट् का विधान करता है । अन्य वैयाकरण 'स्तु' और 'धूज्' दोनों के मध्ये में 'पु' का पाठ होने से लुग्विकरण 'स्तु' के साहचर्य से आदादिक और 'धूज्' जित् के साहचर्य से सौवादिक दोनों का ग्रहण मानते हैं । इस ग्रन्थ में इसी अन्तिम पक्ष को मानकर आदादिक और सौवादिक दोनों से इट् का विधान किया है ।



असोष्यत् ॥ ९६५ [ श्रु ] अचणे = सुनना । शप् विकरण प्राप्त है उसका बाधक ।

२६०--श्रुवः शृ च् ॥ ३ । १ । ७४ ॥

श्रु धातु से श्नु प्रत्यय और श्रु धातु को श् आदेश होवे । श्नु प्रत्यय में शकार की इत्सज्ञा होकर शित् होने से सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, फिर ऋकार से णत्व ( २०२ ) होकर । शृ+णु+तिप् ( २१ ) गुण = शृणोति, शृणुतः । कि प्रत्यय में उवङ् ( १५६ ) आदेश प्राप्त है इसलिये—

२६१--दुश्नुवोः सार्वधातुके ॥ ६ । ४ । ८७ ॥

संयाग जिसके पूर्व न हो ऐसे हु और श्नु प्रत्ययान्त अनेकाच् धातु के उवर्ण को यण आदेश होवे अजादि सार्वधातुक परे हो ता । शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृणु+वस् = शृणवः ( २०० ) उकार लाप का विकल्प, शृणुवः, शृणमः, शृणुमः, शुश्राव, शुश्रुवतु ( १५९ ) उवङ्, शुश्रुवुः, शुश्राथ [ ( १४८ ) इट् निषेध ] शुश्रुवथुः, शुश्रुव, शुश्राव, शुश्रव, शुश्रव, शुश्रुमः, श्रोता, श्रोतारौ, श्रोतासि, श्राध्यनि, श्रौषति, श्रौषति, शृणवति, शृणवाति, शृणोतु, शृणुतात्, शृणुताम्, शृण्वन्तु, शृणु ( २०१ ) हि लुक, शृणुतात्, शृणुतम्, शृणुत, शृणवानि, शृणवाव, शृणवाम, अशृणोत्, अशृणुताम्, अशृणवन्, अशृणो, अशृणुतम्, अशृणुत, अशृणवम्, अशृणव, अशृणुव, अशृणम, अशृणुम, शृणुयात्, शृणुयाताम्, शृणुयुः, शृणुया, शृणुयातम्, शृणुयात, शृणुयाम्, शृणुयाव, शृणुयाम; श्रूयात् ( १६० ) दीर्घ अश्रौषात् ( १५८ ) वृद्धि, अश्रौष्टाम्, अश्रौषुः; अश्रोष्यत् ॥ ९६६ [ ध्रु ] स्थैर्ये = स्थिर होना । ध्रवति, दुध्राव, दुध्रुवतुः; दुध्रोथ, दुध्रविथ, दुध्रविव, ध्रोता, ध्रोष्यति, ध्रौषति, ध्रौषाति, ध्रवति, ध्रवाति, ध्रवतु, अध्रवत्, ध्रवेत्,

ध्रयात्, अध्रौषीत्, अध्रोष्यत् ॥ ९६७, ९६८ [ दु, दु ]  
 गतौ । दवति, द्रवति, दुदाव, दुद्राव, दुदुवतुः, दुद्रुवतु, दुदोथ,  
 दुदविथ, दुद्रुविथ, दुद्रोथ, यहाँ ( १४८ ) नियम से इत्य इट् का  
 निषेध हो जाता है परन्तु भारद्वाज के मत में ऋकारान्त के निषेध  
 का नियम होने से थल् में इट् प्राप्त है उस का भी क्रयादि  
 नियामक ( १४८ ) सूत्र अपवाद जानो । द्रोता; द्रोतासि, द्रोष्यति,  
 द्रौषति, द्रौषाति, द्रवतु, अद्रवत्, द्रवेत्, द्रयात्, दूयात्, अदौषीत् ।  
 लुङ् में ( १७६ ) चङ् और ( १८० ) द्विर्वचन हांकर—अदुदुवत्,  
 अदुदुवताम्, अदुदुवन्, अद्रोष्यत् ॥ ९६९, ९७० [ जि,  
 जि ] अभिभवे = तिरस्कार । जयति, जयतः, जयन्ति, जित् में  
 कुत्व ( १९८ )—जिगाय, जिग्यतुः, जिग्यु, जिगेथ, जिगिथ;  
 जिज्याय, जिजियतुः, जिज्येथ, जिज्यिथ, जेतासि, जेतासि, जेष्यति,  
 जेष्यति, जेषति, जेषाति, जयतु, अजयत्, जयेत्, जीयात् ( १६० )  
 दीर्घ, अजैषीत्, अजेष्यत्, अजैषीत्, अजेष्यत् । इति घेटादयोऽ-  
 नुदात्ता उदात्ततः परस्मैपदिनः षट्त्वारिंशत् समाप्ताः ।  
 ये घेट् आदि ४६ धातु अनिट् परस्मैपदी समाप्त हुए ॥

अथ [ ष्मिडादयो ] डीडन्ता डितस्त्रयोविंशतिः [ आत्मने-  
 पदिनः ] । अब डीङ् पर्यन्त २३ धातु आत्मनेपदी कहते हैं ॥  
 ९७१ [ ष्मिङ् ] ईषद्धस्ने = थोडा हँसना <sup>१</sup> । स्मयते ( २१ )  
 गुण, स्मयते, स्मयन्ते, सिष्मिये, सिष्मियिद्वे, सिष्मियिध्वे,  
 स्मेतासे, स्मेष्यते, स्मैषतै, स्मैषातै, स्मयतै, स्मयातै, स्मयताम्,  
 अस्मयत, स्मयेत, स्मेषीष्ट, स्मेषीद्वम्, अस्मेश्, अस्मेद्वम्,  
 अस्मेष्यत् ॥ ९७२ [ गुङ् ] अव्यक्ते शब्दे । गवते, जुगुवै,  
 जुगुविद्वे, जुगुविध्वे, गोतासे, गोष्यते, गौषतै, गौषातै, गवतै,  
 गवातै, गवताम्, अगवत, गवेत, गोषीष्ट, गोषीद्वम्, अगोष्ट,

अगोढ्वम्, अगोष्यत् ॥ ९७३ [ गाड् ] गतौ । इस धातु के अनुबन्ध का लोप होने पश्चात् आकारान्त के रहने से शप् के अकार के साथ सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है । गा + शप् + त = गाते, गाते, गाते ' ( १२४ ) अत, गासे, गाथे, गाध्वे, गै, गावहै, गामहै, ' गा + एश् ' यहां आकारलोप ( २४४ ) और द्विवचन की व्यवस्था ( २४५ ) होकर—जगे, जगाते, जगिरे, जगिषे, जगाथे, जगिध्वे, जगे, जगिवहे, जगिमहे; गाता, गास्यते; गासतै, गासातै, गासते, गासाते, गातै, गाताम्, अगात, अगाताम्, अगात; गेत, गेयाताम्, गेरन्; गासीष्ट; अगास्त, अगासाताम्, अगासत, अगास्थाः, अगासाथाम्, अगाध्वम्, अगासि, अगास्वहि, अगास्महि; अगास्यत् ॥ ९७४—९७९ [ उड्, कुड्, खुड्, गुड्, घुड्, ङुड् ] शब्दे । अवते, ऊवे, ऊवाते, ऊविरे, ऊविद्वे, ऊविध्वे, आतासे, ओष्यते, औषतै, औषातै, अवतै, अवातै, अवताम्, अवेताम्, अवन्ताम्, आवत, अवेत, ओषीष्ट, ओषीद्वम्, औष्ट, औषाताम्, औषत, औद्वम्, औष्यत्, । कवते, चुकुवे, कोतासे, कोष्यते, कौषतै, कौषातै, कवताम्, अकवत, कवेत, काषीष्ट, अकोष्ट, अकोष्यत् । खवते, चुखुवे; गवते, जुगुवे, घवते, जुघुवे, डवते, ङुडुवे, डोता, डोष्यते, डोषतै, डोषातै, डवताम्, अडवत, डवेत, ङाषीष्ट, अङोष्ट, अङोष्यत् ॥ ९८०—९८३ [ च्युड, ज्युड्, प्रुड्, प्लुड्, ] गतौ, [ क्लुड्, ] इत्येके, ९८४ [ रुड् ] गतिरेषणयोः = गति और हिंसा । च्यवते; ज्यवते; प्रवते; प्लवते; क्लवते, रवते, ररुवे, ररुविद्वे, ररुविध्वे । और रु धातु सेट्-अनिट् व्यवस्था मे पढ़ा है वहा यु, रु आदि अदादि धातुओ के साहचर्य से अदादि का ही रु धातु भी लिया जाता है । रोतासे, रोष्यते, रोषतै, रोषातै, रवताम्, अरवत, रवेत, रोषीष्ट,

१. प्रथम पुरुष के तीनों वचनों मे एक जैसे प्रयोग होते हैं ।

रोषीढ्वम्, अरोष्ट, अरोढ्वम् अरोष्यत ॥ १८५ [ घृङ् ]  
 अवध्वंसन = नाश करना । धरते, दध्ने, धर्तासे, धरिष्यते,  
 ( २३८ ) इट्, धार्पतै, धाषातै, धरताम्, अधरत्, धरेत, धृषीष्ट  
 ( २४० ) इस से कित्त्वत् होकर ( ४५ ) गुण का निषेध होता  
 है । अधृत ( २४० २४१ ) अधृषाताम् अधृषत, अधरिष्यत ॥  
 १८६ [ भेङ् ] प्राणिदाने = किसी पदार्थ के बदले में दूसरी वस्तु  
 देना । मयते, मयेते, मयन्ते, ममे, ( २४२ २४४ २४५ ) ममाते ममिरे  
 मातासे, मास्यते, मासतै, मासातै, मयताम्, अमयत्, मयेत, मासीष्ट  
 अमास्त, अमासाताम्, अमासत, अमास्यत ॥ १८७ [ देङ् ]  
 रक्षणे । दयते ।

### २६२—दयतेर्दिगि लिटि ॥ ७ । ४ । ६ ॥

दयति धातु को दिगि आदेश होवे लिट् लकार परे हो तो । इस  
 सूत्र में “दय दानगतिरक्षणाहिसादानेषु” इस धातु का ग्रहण इस-  
 लिये नहीं होता कि दय धातु से लिट् में आम् प्रत्यय कह चुके हैं  
 और यह सूत्र द्विवचन का अपवाद है दिगि + एश् + दिग्ये ( १५६ )  
 यण्, दिग्याते, दिग्यरे, दातासे, दास्यते, दासतै, दासातै, दयताम्,  
 अदयत्, दयत, दासीष्ट, दा धातु की प्रकृति होने से इस की घु सज्ञा  
 ( २४६ ) होकर—

### २६३—स्थाघ्वोरिच्च ॥ १ । २ । १७ ॥

स्था धातु और घुसंज्ञक धातुओं को इकारादेश और इन से  
 परे जो सिच् प्रत्यय हो वह कित्त्वत् हो आत्मनेपद विषय में । स्थाधातु  
 प्रथम लिख चुके हैं परन्तु वहां आत्मनेपद के न होने से इस सूत्र  
 की प्रवृत्ति नहीं हुई, पदव्यवस्थाप्रक्रिया में काम आवेगा । यहाँ दा  
 धातु के आकार को इकार होकर—अट् + दि + सिच् + त = अदित  
 ( २४१ ) सूत्र से सिच् के सकार का लोप । अदिषाताम्, अदिषत

अदिधाः, अदिषाथाम्, अदिध्वम्, अदिषि, अदिष्वहि, अदिष्महि ॥  
 ९८८ [ श्यैङ् ] गतौ । श्यायते, शिश्ये, श्यातासे, श्यास्यते, श्या-  
 सतै, श्यासातै, श्यायताम्, अश्यायते, श्यायेत, श्यासीष्ट, अश्यास्त,  
 अश्यास्यत ॥ ९८९ [ प्यैङ् ] वृद्धौ = बढ़ना । प्यायते, प्या-  
 येते; पप्ये, प्यातासे, अप्यास्त, अप्यास्यत ॥ ९९० [ त्रैङ् ]  
 पालने = रक्षा । त्रायते, तत्रे, त्राता, त्रास्यते, त्रासतै, त्रासातै,  
 त्रायताम्, अत्रायत, त्रायेत, त्रासीष्ट, अत्रासत, अत्रास्यत ॥  
 ष्मिङ्प्रभृतयोऽनुदात्ता आत्मनेपदिनः । ष्मिङ् से यहां तक सब  
 धातु अजन्त अनिट् जानो ॥

[अथ त्रय उदात्ताः । अब तीन धातुएं उदात्त हैं] ६६१ [ पूङ् ]  
 पवने = शुद्धि । पवते, पुपुवे, पुपुविद्वे, पुपुविध्वे, पवितासे, पविष्यते,  
 पाविषतै, पाविषातै, पविषतै, पविषातै, पवतै, पवातै, पवताम्,  
 अपवत, पवेत, पविषीष्ट अपविष्ट, अपविष्यत् ॥ ६६२ [ मूङ् ]  
 बन्धने = बांधना । मवते ॥ ९९३ [ डीङ् ] विहायसा गतौ =  
 आकाश मे उड़ना । डयते, डिड्ये, डयिता, डयिष्यते, डायिषतै,  
 डायिषातै, डायिषते, डायिषाते, डयताम्, अडयत्, डयेत,  
 डयिषीष्ट, अडयिष्ट, अडयिष्यत् ॥ ये पूङ् आदि तीन धातु सेट् हैं ॥

९९४ [ तृ ] प्लवनसंतरणयोः = कूदना और तरना । उदात्तः  
 परस्मैपदी । यह धातु सेट् परस्मैपदी है । तरति, तरतः, तरन्ति,  
 ततार । यहां प्रथम वृद्धि होकर द्वित्व होता है । तृ + अतुस, यहां  
 अप्राप्त गुण ( २५८ ) ओर एत्वाभ्यास लोप ( १६४ ) होकर—  
 तेरतुः, तेरुः, तेरिथ, तेरथुः, तेर, ततार, ततर, तेरिब, तेरिम ।

२६४—वृत्तो वा ॥ ७ । २ । ३८ ॥

वृङ्, वृव् और ऋकारान्त धातुओ से परे जो इट् का आगम  
 उसको विकल्प करके दीघे होवे, परन्तु लिट् लकार परे न हो ।

तरीतासि, तरितासि, । इस सूत्र मे लिट् का निषेध इसलिये है कि 'तरिथ' यहां दीर्घे न हावे । तरीष्यति, तरिष्यति, तारीषति, तारीषाति, तारिषति, तारिषाते, तरीषति, तरीषाति, तरिषति, तरिषाति, तरति, तराति, तरतु, अतरत्, तरेत् ।

२६५—ऋन् इद्धातोः ॥ ७ । १ । १०० ॥

ऋकारान्त धातु ऋन् को इत् आदेश होवे । इस इत् आदेश के कहने में कुछ विशेष नहीं है, परन्तु जहां गुण वृद्धि की प्राप्ति है वहां तो पराविप्रतिषेध मान के गुण वृद्धि ही होत हैं और जहां गुण वृद्धि की प्राप्ति नहीं वहां इत्व होता है । तिर् + या + तिप् = तीयात् ( १९७ ) दीर्घे, तीर्यास्ताम्, तीर्यासुः ।

२६६—सिचि च परस्मैपदेषु ॥ ७ । २ । ४० ॥

परस्मैपदविषय में सिचि परे हो तो वृङ्, वृञ् और ऋकारान्त धातुओं से परे इट् को दीर्घे न होवे । ( २६३ ) सूत्र से सर्वत्र दीर्घे प्राप्त है उसका विशेष विषय में बाधक है । अतारीत्, अतारिष्ठात्, अतारिषुः, अतरीष्यत्, [ अतरिष्यत् ] ।

अथ [गुपादयो दहत्यन्ता] अष्टावनुदात्तेत<sup>१</sup> । अब [गुपादि] आठ ८ धातु सेट् आत्मनेपदी कहते हैं ॥ १६५ [ गुप ] गोपने । यहां गोपन धातु का स्वार्थ लिया जाता है । सन् के बिना इसका प्रयोग स्वतन्त्र कहीं नहीं आता, सन्नन्त का अर्थ निन्दा होता है वही इसका स्वार्थ है ॥ १९६ [ तिज ] निशाने । इस धातु का स्वार्थ सहन अर्थ है ।

२६७—गुप्तिज्किद्भ्यः सन् ॥ ३ । १ । ५ ॥

गुप्, तिज् और कित् इन तीन धातुओं से स्वार्थ मे सन् प्रत्यय

१ अर्थात् 'आत्मनेपदिन' ।

हो। गुप् धातु से निन्दा और तिज् से सहने अर्थ में सन् प्रत्यय जानो। गुप् + सन् +

२६८—सन्त्यङोः ॥ ६ । १ । ६ ॥

सन् और यङ् प्रत्यय परे हो ता अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच् अवयव का और अजादि के द्वितीय एकाच् अवयव को द्वित्व होवे। जुगुप्स ( १०९ ) अभ्यास को चवगांश होकर इसकी धातु सद्वा ( १६७ ) हाकर अनुदात्त अनुबन्ध के केवल गुप् आदि मे चरिताथे न होने से सन्नन्त धातुओ से भी आत्मनेपद होता है। जुगुप्स + शप् + त = जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते, जुगुप्साञ्चक्रे, ( १६९, १७० ) जुगुप्साम्बभूव, जुगुप्सामास, जुगुप्सितासे, जुगुप्सिष्यते, जुगुप्सिषतै, जुगुप्सिषातै, जुगुप्सताम्, अजुगुप्सत, जुगुप्सेत, जुगुप्सिषीष्ट, अजुगुप्सिष्ट, अजुगुप्सिष्यत। ' तिज् + तिज् + सन् ' यहा द्वितीय चवगे जकार का [ " चोः कुः " से गकार, उसको ] " खरि च " सूत्र से ' क् ' होकर सन् के सकार को ' ष ' ( ५७ ) होकर—तित्तिञ् + शप् + त = तित्तिञ्ते, तित्तिञ्चाञ्चक्रे, तित्तिञ्चामास, तित्तिञ्चाम्बभूव, तित्तिञ्चतासे, इत्यादि ॥ १९७ [ मान ] पूजायाम् = सत्कार । १९८ [ वध ] वन्धन = बाधना।

२६९—मानवधदानशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य ॥ ३ । १ । ६ ॥

मान, वध, दान और शान धातुओ से सन् प्रत्यय होवे, और सन् प्रत्यय के परे इनके अभ्यास का दीर्घ होवे। मान धातु से जानने की इच्छा मे और वध धातु से चित्तावकार अर्थ मे सन् जानो। मान धातु के अभ्यास को प्रथम ह्रस्व ( ४१ ) होकर अभ्यास

के अकार को इकार ( १८२ ) होता है, उसी इकार को " मानबध० " सूत्र से दीर्घ जानो । मीमांसते, मीमांसते, मीमांसन्ते, मीमांसञ्चक्रे, मीमांसाम्बभूव, मीमांसामास । बध् + बध् + सन् + शप् + त = बीभत्सते ( २०४ ), भषभाव अभ्यास को दीर्घ और चत्वं हांकर—बीभत्सेते, बीभत्साञ्चक्रे, बीभत्सितासे, बीभत्सिष्यते, बीभत्सिषतै, बीभत्सिषातै, बीभत्सताम्, अबीभत्सत, बीभत्सेत, बीभत्सिषीष्ट, अबीभत्सिष्ट, अबीभत्सिष्यत । गुण आदि धातुओं से परे सन् प्रत्यय को इट् का आगम ( ४७ ) और पूर्व को गुण प्राप्त है सो " धातोः " पद के ग्रहण न करने से सन् की आर्धधातुक संज्ञा नहीं होती<sup>१</sup>, जो धात्वधिकार में विहित हैं उन्हीं प्रत्ययों की आर्धधातुक संज्ञा ( ५० ) कही है, और आर्धधातुक संज्ञा न होने से इट् और गुण दोनो ही नहीं होते । गुपादयश्चत्वार उदाता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः । ये गुप् आदि ४ ( चार ) सेट् आत्मनेपदी धातु समाप्त हुए ॥

[ अथ चत्वारोऽनुदात्ताः । अब चार अनुदात्त धातुएं कहतै हैं । ] १९९ [ रभ ] राभस्ये = शीघ्र करना । रभते, रभेते, रेभे, रेभाते, रभ् + तास् + डा—रब्धा ( १४१ ) धत्व और भकार को जश् बकार होता है । रब्धारौ, रब्धासे, रप्स्यते—चर्<sup>२</sup> । राप्सतै, राप्सातै, रभताम्, अरभत, रभेत, रप्सीष्ट, अरब्ध ( १४२ ) सलोप, अरप्साताम्, [ अरप्सत, ] अरब्धाः, अरप्साथाम्, अरब्ध्वम्, अरप्सि, अरप्सहि, अरप्सहि, अरप्स्यत ॥ १००० [ डुलभष् ] प्राप्तौ । डु की इत्संज्ञा ( १५० ) और ष की इत् संज्ञा का प्रयोजन कृदन्त में आवेगा<sup>३</sup> । लभते, लभेते, लभन्ते,

१. देखो सूत्र ( भा० ५० ) का अर्थ धात्वधिकार में कहे... ।

२. खरि च (सन्धि० २३५) से । ३. षिद्भिदादिभ्योऽङ् (भा० १४६३) में



लभसे, लेभे, लेभाते, लेभिरे, लेभिषे, लब्धासे, लप्स्यते, लाप्सतै, लाप्सातै, लभताम्, अलभत, लभेत, लप्सीष्ट, अलब्ध, अलप्सा-  
ताम्, अलप्स्यत ॥ १००१ [ ष्वञ्ज ] परिव्वङ्गे = लपेटना ॥

२७०-दंशसञ्जस्वञ्जां शपि ॥ ६।४।२५ ॥

दश, सञ्ज और स्वञ्ज धातुओं के उपधा नकार का लोप होवे शप् प्रत्यय परे हो तो। स्वजत, स्वजेते, स्वजन्ते। यह धातु सयो-  
गान्त है इस कारण इस से परे लिट् की कित्संज्ञा ( ४६ ) नहीं प्राप्त है और कित्संज्ञा के न होने से उपधा नकार का लोप भी नहीं पाता, इसलिय—

२७१-वा०-अन्थिग्रन्थिदम्भिस्वञ्जीनामिति

वक्तव्यम् ॥ [ काशिका १।२।६ ]

अन्थ, ग्रन्थ, दम्भ, स्वञ्ज इन धातुओं से परे जो लिट् सो कितवत् हो। यहा स्वञ्ज वातु स परे कित्त्व होकर उपधा नकार का लाप ( १३९ ) होकर—सस्वजे। सस्वजाते, सस्वजिरे। इस धातु के अनिट् होने से—स्वञ्ज + तास + डा = स्वङ्क्ता, कुत्व चत्वे और परसवर्ण। स्वङ्क्तासे, स्वङ्क्ष्यते, स्वङ्क्षतै, स्वङ्क्षातै, स्वजताम्, अस्वजत, स्वजेत, स्वङ्क्षाष्ट, अस्वङ्क्त, अस्वङ्क्ष्यत ॥ १००२ [ हृद ] पुरीषोत्सर्गे = हगना। हृदते, जहृदे, जहृदात, जहृदिरे, हृत्ता, हृत्स्यते, हात्सतै, हात्सातै, हृदताम्, अहृदत, हृदेत, हृत्सीष्ट, अहृत्, अहृत्साताम्, अहृत्सत, अहृत्स्यत। रभाद्यश्च-  
त्वारोऽनुदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः। ये रभ आदि अनिट् आत्मनेपदी चार धातु समाप्त हुए ॥

अथ [ ष्विदादायः ] परस्मैपदिनः पञ्चदश। अब पन्द्रह ( १५ ) धातु परस्मैपदी कहते हैं ॥ १००३ [ जिष्विदा ] अन्यक्ते शब्दे। उदात्तः परस्मैपदी। खेदति, सिखेद, सिखि-

दत्तुः, सिख्दु, खेदिता, खेदिष्यति, खेदिषति, खेदिषाति, खेदुत्,  
अखेदत्, खेदेत्, खिद्यात्, अखेदान्, अखेदिष्यत् ॥ १००४  
[ स्कान्दर ] गतिशोषणयोः=गति और सोखना । स्कन्दति,  
चस्कन्द, चस्कन्दतुः, चस्कन्दिथ ।

२७२—भरो भरि सवर्णे ॥ ८ । ४ । ६४ ॥

हल् से परे जा भर् उसका लोप हो सवर्णी भर् परे हो तो ।  
स्कन्द + थल् = स्कन्थ । यहा नकार से परे दकार का लोप होता  
है । स्कन्तामि, स्कन्त्स्यति, स्कन्त्सति, स्कन्त्साति, स्कन्दतु,  
अस्कन्दत्, स्कन्देत, स्कद्यात्, ( १३९ ) नकार का लोप । लुङ्  
मे इरित् होने से अङ् ( १३८ ) विकल्प—अस्कदत् ( १३९ )  
नलोप, पञ्च मे—अस्कान्त्सीत्, अस्कान्ताम्, अस्कान्तसु\*  
( १३२ ) वृद्धि, अस्कान्त्सीः, अस्कान्तम्, अस्कान्त, अस्कान्तसम्,  
अस्कान्तस्व, अस्कान्तस्म ॥ १००५ [ यभ ] मैथुने = स्त्रीसंग  
करना । यभति, यभत., यभन्ति, ययाभ, येभतुः, येभुः, येभिथ,  
( २१५ ), ययब्ध, ययधामि, ययस्यति, याप्सति, याप्साति, यभति,  
यभाति, यभतु, अयभत्, यभेत, यभ्यात्, अयाप्सीत्, अयाब्धाम्,  
अयाप्सुः, अयाप्साः, अयाब्धम्, अयाब्ध, अयाप्सम्, अयाप्स्व,  
अयाप्स्म, अयप्यत् ॥ १००६ [ ण ५ ] प्रहृत्त्वे शब्दे =  
नम के बोलना । नमात्, ननाम, नमतुः, नेमुः, नेमिथ, ननन्थ,  
नेमथुः, नेम, ननाम, ननम, नेमिव, नेमिम, नन्तासि, नन्त्यति,  
नांसति, नासाति, नमति, नमाति, नमतु, अनमतु, नमेत्, नम्यात् ।  
यह धातु अनिट् तो है परन्तु लुङ् लकार मे इट् और सक् का  
आगम ( २५१ ) हो जाता है—अनंसीत्, अनंसिष्टाम्, अनंसिषुः,  
अनस्यत् ॥ १००७, १००८ [ गम्लृ, स्प्लृ ] गतौ ।

२७३—इषुगामियमां लुः ॥ ७ । ३ । ७७ ॥

इषु, गम, यम धातुओं को छकारादेश होवे शित् प्रत्यय परे हो तो । यहां अन्त्य अल् गम के मकार को छकार होकर—गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, जगाम, जग्मतुः, जग्मुः ( २१४ ) उपधालोप, जगमिथ, जगन्थ ( २१५ ), गन्ता, गन्तारौ, गन्तारः, गन्तासि ।

२७४—गमेरिट् परस्मैपदेषु ॥ ७ । २५ । ८ ॥

परस्मैपदविषय में गम धातु से परे सकागदि आर्धधातुक को इट् का आगम होवे । गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, [ गंसति, गंसाति, गंसति, गंसाति ] गच्छति, गच्छाति, गच्छत्, गच्छात्, गच्छतु, अगच्छत्, गच्छेत्, गम्यात् । लुङ् लकार में ( २१७ ) सूत्र से अङ् और अङ् के परे उपधालोप का निषेध ( २१४ ) होने से उपधालोप नहीं होता । अगमत्, अगमताम्, अगमन्, अगमः, अगमतम्, अगमत, अगमम्, अगमाव, अगमाम, अगमिष्यत् । सर्पति, सर्पतः, सर्पन्ति, ससर्पे, ससृपतुः, ससर्पिथ, ससर्पथु ।

२७५—अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम् ॥

अ० ६ । १ । ५६ ॥

कित्भिन्न मूलादि प्रत्यय परे हो तो ऋकार जिसकी उपधा में हो ऐसा जो उपदेश में अनुदात्त ( अनिट् ) धातु उसको अम् का आगम होवे विकल्प करके । भित् आगम अन्त्य अच् से परे होता है । सू + अम् + प् + तासि + डा = सूप्ता, सर्प्ता, सूप्तासि, सर्प्तासि । अम् के अकार का मान के यण होता और पञ्च में गुण ( ५२ ) होजाता है । स्र् स्यति, स्र्पति, स्र्प्सति, स्र्प्साति, स्र्प्सति, स्र्प्साति, सर्पति, सर्पाति, सपतु, अस्र्पत्, सर्पत्, स्र्प्यात्, अस्र्पत् ( २१७ ) अङ्, अस्र्पताम्, अस्र्पतन्, अस्र्पः, अस्र्पतम्, अस्र्पत, अस्र्पम्, अस्र्पाव, अस्र्पाम, अस्र्पस्यत्, अस्र्पथत् ॥ १००९ [ यम ] उपरमे = शान्त होना । ( २७३ ) छकारादेश होकर—

यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति । ययाम, येमतुः, येमिथ, ययन्थ, येमिच, यन्तासि, यंस्यति, यांसति, यांसाति, यच्छतु, अयच्छत्, यच्छेत्, यम्यात् । लुङ् मे ( २५१ ) इट् और सक्—अयंसीत्, अयंसिष्टाम्, अयंसिषुः, अयंस्यत् ॥ १०१० [तप] सन्तापे = दुःख भोगना । तपति, तताप, तपतु; तप्ता, तप्स्यति, ताप्सति, ताप्साति, तपति, तपाति, तपतु, अतपत्, तपेत्, तप्यात्, अताप्सीत्, अताप्ताम्, अताप्सुः, अताप्सा, अतप्स्यत् ॥ १०११ [ त्यज ] हानौ = छोडना । त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, तत्याज, तत्याजिथ, तत्यक्थ, तत्यजिव । वैदिक प्रयोगविषय मे त्यज आदि निम्नलिखित धातुओ के प्रयोग कुछ विशेष हाते हैं । यद्यपि प्रथम स्पर्ध धातु पर ही इस सूत्र को लिखना था तो भी सर्वत्र समझ लेना चाहिये ।

२७६-अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चिच्युषेतित्या-  
जश्रानाःश्रितमाशीराशीर्ताः ॥ ६ । १ । ३६ ॥

अपस्पृधेथाम्—इस प्रयोग मे लङ् लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन मे “स्पृधे सधर्षे” धातु का द्विवचन, रेफ को सम्प्रसारण और अनभ्यास के अकार का लोप निपातन से किया है । अट् + स्पर्ध स्पर्ध + आथाम् = अपस्पृधेथाम् । और दूसरा प्रकार यह भी है कि अप उपसर्गपूर्वके स्पर्ध धातु के रेफ को सम्प्रसारण और अकार का लोप ही निपातन है वेद मे माङ् का योग न हो तो भी अट् का निषेध है ।<sup>१</sup> आनृचु और आनृहुः यहां “अर्च पूजायाम् ” और “अर्ह पूजायाम् ” इन दोनो धातुओ से लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन “उस्” में रेफ को सम्प्रसारण, अकार का लोप, तत्पश्चात् द्वित्व निपातन से और ( १०६ ) सूत्र से अभ्यास के ऋकार को अकार होता है ।

चिच्युषे—यहां “च्युङ् गतौ” धातु से लिट् लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में अभ्यास को सम्प्रसारण और इट् का अभाव निपातन से किया है ॥ नित्याजं—यहां इसी त्यज धातु के अभ्यास को सम्प्रसारण निपातन से किया है। आताः—“श्रीञ् पाके” धातु को कृदन्त क्त प्रत्यय के परे श्रीभाव निपातन किया है। और “श्रितम्”—यहाँ भी उक्त धातु को क्त के परे श्रीभाव है। आशीः, आशीर्तः—यहां भी आङ्पूर्वक उक्त श्रीञ् धातु को क्विप् और क्त प्रत्यय के परे शीर् आदेश हुआ है।

त्यक्तासि, त्यक्ष्यति, त्यक्षति, त्यक्षति, त्यजतु, अत्यजत्, त्यजेत्, त्यज्यात्, अत्याक्षीत्, अत्याक्ताम्, अत्याक्षुः, अत्याक्षीः, अत्याक्तम्, अत्याक्त, अत्याक्षम्, अत्याक्ष्व, अत्याक्ष्म; अत्यक्ष्यत् ॥ १०१२ [ षञ्ज ] सङ्ग = मेल । ( २७० ) सूत्र से उपधा नकार का लोप होकर—सजति, सजतः, ससञ्ज, ससञ्जतुः, ससञ्जिथ, ससङ्क्ष्य, सङ्क्तासि, सङ्क्ष्यति, सङ्क्षति, सङ्क्षति, सजतु, असजत्, सजेत्, सज्यात्, असाङ्क्षीत्, असाङ्क्ताम्, असाङ्क्षुः ( १३५ ) वृद्धि, असङ्क्ष्यत् ॥ १०१३ [ टाशिर् ] प्रेक्षणे = अच्छे प्रकार देखना । पश्य आदेश ( २३१ ) सूत्र से होकर—पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ददर्श, ददृशतुः, ददृशुः ।

२७७—विभाषा सृजिदृशोः ॥ ७ । २ । ६५ ॥

सृज और दृश धातु से परे जो थल् उस को विकल्प करके इडागम होवे । इट् पक्ष में—ददर्शिथ । अनिट् पक्ष में—ददृश् + थल्, यहाँ—

२७८—सृजिदृशोर्भक्त्यमकिति ॥ ६ । १ । ५८ ॥

कित्भिन्न क्त्वादि प्रत्यय परे हो तो सृज और दृश धातुओं को अम् आगम होवे । यह सूत्र ( २७५ ) सूत्र का अपवाद है,

क्योंकि ( २७५ ) सूत्र में सामान्य ऋदुपध धातुओं को अम् आगम विकल्प से कहा है उस का यह विशेष है। दृ + अ + श् + थल् = दृष्टः। ऋकार को यण और ( २३३ ) सूत्र म शकार को षकार होता है। दृदशथुः, दृदश, दृदशे, दृदशिव, दृदशिम, दृष्टासि, दृक्ष्यति, दृक्षति, दृक्ष्ति, पश्यति, पश्याति, पश्यतु, अपश्यत्, पश्येत्, दृश्यात्। ( १३८ ) सूत्र से अङ् का विकल्प होकर अङ्पक्ष मे— अदशत् ( २५७ ) गुण, और जिस पक्ष मे अङ् नहीं होता वहां ( २०७ ) सूत्र से च्लि के स्थान में क्स प्राप्त है, इसलिये—

२७६-न दृशः ॥ ३ । १ । ४७ ॥ .

दृश धातु से परे च्लि के स्थान में क्स आदेश न होवे। फिर अम् ( २७८ ) और वृद्धि ( १३५ ) होकर—अद्राक्षीत्, अद्राष्टाम्, अद्राक्षुः, अद्राक्षी, अद्राष्टम्, अद्राष्ट. अद्राक्षम्, अद्राक्ष्व, अद्राक्ष्म, अद्रक्ष्यत् ॥ १०१४ [ दंश ] दशने = काट खाना। नकारलोप ( २७० ) दशति, दशत, दशन्ति, दृदश, दृदशतुः, दृदशथ, दृदष्ट ( २३३ ) श को ष, दृष्टासि, दृक्ष्यात्, दृक्ष्ति, दृक्ष्ति, दृशति, दृशाति, दृशतु, अदशत्, दृशेत्, दृश्यात् ( १२९ ), अदाङ्क्षीत्, अदाङ्क्षुः, अदङ्क्ष्यत् ॥ १०१५ [ कृष ] विलेखने = जोतना, खीचना वा ख.दना। कर्षति, चकर्षे, चकृषतुः, चकर्षिथ, क्रष्टासि, यहां विकल्प से अम् ( २७५ ) और पक्ष मे गुण होता है कर्षीसि, क्रक्ष्यति, क्रक्ष्यात्, क्रक्षति, क्रक्षात्, कर्षति, कर्षात्, कर्षेत्, कर्षति, कर्षतु, अकषत्, कर्षत्, कृष्यात्। लुङ् मे च्लि क स्थान मे नित्य क्स ( २०७ ) प्राप्त है, इसलिये—

२८०-वा-स्पृशमृशकृषत्पहृषां च्लेः सिज्

वा ॥ ३ । १ । ४४ ॥

स्पृश, मृश, कृष, तृप और टृप धातुओं से परे च्लि के स्थान में सिच् विकल्प करके हो, अर्थात् एक पक्ष में क्स और दूसरे पक्ष में सिच् भी रहे जिस पक्ष में सिच् हुआ वहां अम् और वृद्धि ( १३२ ) होकर—अक्राक्षीत्, अक्राष्टाम्, अक्राक्षीत्, अक्राष्टाम्, अक्राक्षुः । और जिस पक्ष में क्स होता है वहां—अकृक्षत्, अकृक्षताम्, अकृक्षन्, अकृक्षत् ॥ १०१६ [दह] भस्मीकरणे = भस्म कर देना । दहति, ददाह, देहतुः, देहथ, ददग्ध, दग्धासि, धक्ष्यति, धाक्षति, धाक्षति, दहति, दहाति, दहतु, अदहत्, दहेत्, दह्यात्, अधाक्षीत्, अदाग्धाम्, अधाक्षुः, अधाक्षीः, अदाग्धम्, अदाग्ध; अधाक्षम्, अधाक्ष्व, अधाक्ष्म; अधक्ष्यत् ॥ १०१७ [मिह] सेचने = सींचना । मेहति, मिमेह, मिमेहिथ, मेढा, मेक्ष्यति, मेक्षति, मेक्षति, मेहति, मेहाति, मेहतु, अमेहत्, मेहेत्, मिह्यात्, अमिहत् ( २०७ ) क्स, अमिहताम्, अमिहन्, अमेक्ष्यत् । स्कन्दादयोऽनुदान्ताः । [ इति शिवदादयः पञ्चदश ] उदात्तेतः परस्मैभाषाः । ये १५ (पन्द्रह) परस्मैपदी धातु समाप्त हुए ॥

१०१८ [कित] निवासे रोगापनयने च = निवास और रोगो को हटाना । ( २६७ ) सूत्र से सन् और द्वित्व ( २६८ ) होकर—चिकित्सति । इस धातु का सन्नन्त में केवल रोगापनयन ही अर्थ घटता है । और विपूर्वक सन्नन्त केवल संशय अर्थ में ही आता है । विचिकित्सति—सदेह करोतीत्यर्थः । और निवास अर्थ में चुगादिस्थ होने से णिक् होकर “केतयति” प्रयोग बनता है । चिकित्साञ्चकार,

१. सिच् के विकल्प में स्पृश मृश, कृश इन तीन में क्स होता है और तृप, टृप से पुपादि होने से भङ् होता है ।

२. यह धातु ‘जलाना’ अर्थ में सकर्मक है और ‘जलना’ अर्थ में अकर्मक है । यथा—मिथिलाया दह्यमानाया न मे दहति किञ्चन ।

संप्रसारणं होवे । इस सूत्र मे अभ्यास को सम्प्रसारण कहने से द्वित्व होने के पश्चात् सम्प्रसारण होता है । यह सूत्र अकित् विषय मे सम्प्रसारण होने के लिये है । यज् + यज् + णल् = इयाज । यहां अभ्यास के यकार को “इ” हुआ है, और कित् विषय मे—

२८३-वचस्वपियजादीनां किति ॥

६ । १ । १७ ॥

वच, स्वप् और यजादि धातुओं को संप्रसारण होवे । यज धातु से लेकर भ्वादिगण के अन्तर्पर्यन्त यजादि समझने चाहियें । यहां द्वित्व होने से प्रथम ही संप्रसारण होता है । इ + अज् + अतुस् ( २१९ ) पूर्वरूप एकादेश होकर द्वित्व की पुनः प्राप्ति होने से इज मात्र को द्वित्व होता है । इज् + इज् + अतुस् = ईजतु । सवर्णदीर्घ एकादेश होता है । ईजुः, इयजिथ, इयष्ट ( २३३ ) ष आदेश, ईजथुः, ईज, इयाज, इयज, ईजिव, ईजिम, ईजे, ईजाते, ईजिरे, यष्टासे, यष्टासि, यक्ष्यते, यक्ष्यति, याक्षतै, याक्षातै, यजतै, यजातै, याक्षति, याक्षाति, यजति, यजाति, यजताम्, यजतु, अयजत्, अयजत्, यजेत्, यक्षीष्ट, इज्यात् ( २८३ ) संप्रसारण; अयष्ट, अयक्षाताम्, अयक्षत्, अयष्टाः, अयाक्षीत्, अयाष्टाम्, अयाक्षुः, अयक्ष्यत्, अयक्ष्यत् ॥ १०२८ [ डुवप् ] वीजसन्ताने = बीज बोना

१ ‘यज् + अतुस्’ इस अवस्था मे द्वित्व और सम्प्रसारण दोनो प्राप्त होते हैं । सम्प्रसारण संप्रसारणाश्रयं च कार्यं बलवत् ( पारि० १०१ ) नियम से द्वित्व को बाधकर पहिले संप्रसारण होता है । तदन्तर “पुनः प्रसगविज्ञानात् सिद्धम्” ( पारि० ३९ ) नियम से पुन प्राप्ति होने पर द्विर्वचन होजाता है ।



खेत में वा स्त्री मे । छेदने च <sup>१</sup> यह धातु काटने अर्थ मे भी है ।  
 वपते, वपति । वृषत् लिट् मे संप्रसारण ( २८२ ) होकर—उवाप,  
 ऊपतुः ( २८३ ), ऊपुः, उवपिथ, उवप्यं, ऊपे, ऊपाते, ऊपिरे, वप्तासे,  
 वप्तासि, वप्स्याति, वप्स्यते, वाप्सतै, वाप्सातै, वाप्सति,  
 वाप्साति, वपति, वपाति, वपताम्, वपतु अवपत, अवपत् अपेत,  
 वपेत्, वप्सीष्ट, उप्यात् ( २८३ ) सम्प्रसारण, अवाप्सीत्, अवा-  
 प्ताम्, अवाप्सुः, अवप्, अवप्साताम्, अवप्सत, अवप्स्यत, अव-  
 प्स्यत् ॥ १०२९ [वह] प्रापणे = पहुँचाना । वहति, वहते, उवाह  
 ( २८२ ), ऊहतुः ( २८३ ), ऊहुः, उवहिथ, उवोढ ( २३० )  
 अवर्ण को ओकार, ऊहथुः, ऊह, उवाह, ऊवह, उहिव, ऊहिम,  
 ऊहे, ऊहाते ऊहिरे, वोढासि, वोढासे, वक्ष्यति, वक्ष्यते, वाक्षतै,  
 वाक्षातै, वक्षतै, वक्षातै, वाक्षते, वाक्षाते, वक्षते, वक्षाते, वहतै,  
 वहातै, वाक्षति, वाक्षाति, वक्षति, वक्षाति, वहति, वहाति, वहतु,  
 वहताम्, अवहत, अवहत्, वहेत, वहेत् वक्षीष्ट. उह्यात् ( २८३ )  
 सम्प्रसारण, अवाक्षत्, अवोढाम्, अवाक्षुः, अवाक्षाः, अवाढम्,  
 अवोढ, अवाक्षम्, अवाक्ष्व, अवाक्ष्म, अवोढ, अवक्षाताम्, अव-  
 क्षत, अवोढाः, अवक्षाथाम्, अवोढ्वम्, अवक्षि, अवक्ष्वहि,  
 अवक्ष्महि, अवक्ष्यत, अवक्ष्यत ॥ पचादयोऽनुदात्ताः स्वारितेत  
 उभयपदिनः सचतैवर्जम् । सच धातु को छोड़ के पच आदि  
 सेट् उभयपद धातु है ।

१. 'छेदने च' इतना अक्ष धातुपाठ में प्रक्षिप्त है । महाभाष्य में  
 लिखा है—'वपि प्रकिरणे दृष्ट, छेदने चापि वर्तते' ( १ । ३ । १ )  
 अर्थात् वप धातु धातुपाठ में प्रकिरण = बिखरना = बोना अर्थ मे देखी  
 गई है, परन्तु धातुओ के बह्वर्थ होने से यह छेदन = काटना अर्थ  
 में भी है ।

[ अर्थैकः परस्मैपदी । अब एक परस्मैपदी धातु कहते हैं । ]  
१०३० [ वस ] निवासे = वसना । वसति, वसतः, वसन्ति, उवास ।

२८४—शासिवसिघंसीनां च ॥ ८ । ३ । ६० ॥

इण् और कवगे से परे शास, वस और घस धातु के सकार को षकार आदेश होवे । घस धातु का “जक्षतुः” प्रयोग लिख चुके हैं । वहां आदेश का सकार न होने से ( ५७ ) सूत्र की प्राप्ति नहीं है, इसलिये इस का सम्बन्ध वहां भी समझना चाहिये । यहाँ “ऊषतुः” वस् के सकार को षकार होता है । ऊषुः, उवसिथ, उवस्थ, वस्तासि, वस्त्यति ( २१६ ) ‘स’ को ‘त’ होता है । वात्सति, वात्साति, वसति, वसाति, वसतु, अवसत्, वसेत्, उष्यात्, अवात्सीत्, अवात्ताम्, अवात्सुः, अवत्स्यत् ॥

[ अथ व्येजादयस्त्रय उभयपदिन ] अब व्येञ् आदि तीन उभयपदी धातु कहते हैं । ] १०३१ [ वेञ् ] तन्तुसन्ताने = वस्त्र विनना । वयते, वयति, एकार को अय् आदेश हो जाता है ।

२८५—वेञो वयिः ॥ २ । ४ । ४१ ॥

वेञ् धातु को वयि आदेश विकल्प करके हो, लिट् लकार परे हों तो । वयि आदेश में इकार उच्चारणार्थ है उस की इत्संज्ञा होकर—वय् + वय् + णल् = उवाय ( २८२ ) अभ्यास को सप्रसारण—

२८६—ग्रह्ज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चति-  
पृच्छतिभृज्जतीनां ङिति च ॥ ६ । १ । १६ ॥

ग्रह, ज्या, वयि, व्यध, वश, व्यच, व्रश्चू, प्रच्छ और भ्रस्ज धातुओं को संप्रसारण हो ङित् और चकार से कित्संज्ञक प्रत्यय परे हों तो । वेञ् धातु को वयि आदेश ( २८५ ) होता है, उस में

व और य दोनो संप्रसारण के स्थानी हैं। वय् + अतुस् । यहां परत्व स यकार का प्राप्त है इसलिये—

२८७—लिटि वयो यः ॥ ६ । १ । ३७ ॥

लिट् लकार परे हो तो वय वातु के यकार को संप्रसारण न होवे, किन्तु—

२८८—वश्चास्याऽन्यतरस्यां किति ॥

६ । १ । ३६ ॥

कित् लिट् परे हो तो इस वय धातु के यकार को वकार आदेश विकल्प करके होवे। जिस पक्ष में वकार हुआ वहां प्रथम अभ्यास के वकार को संप्रसारण होकर—उव् + उव् + अतुस् = ऊवतुः, ऊवुः। तास् प्रत्यय के परे वयि आदेश के न होने से ( १५७ ) और ( १४९ ) सूत्रो से थल् में इट् का विकल्प नहीं होता, किन्तु नित्य इट्—उवयिथ, ऊवथु'। और जिस पक्ष में यकार को वकार ( २८८ ) नहीं हुआ वहां—ऊयतु, ऊयुः, [ उवयिथ, ] ऊयथुः, ऊय, उवाय, उवय, ऊयिव, ऊयिम। वयि आदेश को स्थानिवत् होने से चित् होकर आत्मनेपद ( १०५ ) होते हैं। यकार को वकारपक्ष में—ऊवे, ऊवाते, ऊविरे। अब जिस पक्ष में वेच् को वयि आदेश ( २८५ ) नहीं होता वहा एकार को आकारादेश ( २४२ ) होकर अकित्विषय में ( २८२ ) और कित्विषय में ( २८३ ) से संप्रसारण प्राप्त है इसलिये—

२८९—वेजः ॥ ६ । १ । ४० ॥

लिट् लकार परे हो तो वेच् धातु को संप्रसारण न होवे। फिर धेट् आकारान्त के समान—ववौ, ववतुः, ववु', ववथि, ववाथ, ववथुः, वव, ववौ, वविव, वविम, ववे, ववाते, वविरे; वातासि, वातासे, वासति, वासाति, वयति, वयाति, वासतै, वासातै, वयतु,

वयताम्, अवयत्, अवयत, वयेत्, वयेत, ऊयात्, वासीष्ट, अवासात् ( २५१ ), अवासिष्टाम्, अवासिषु, अवास्त, अवासा-  
ताम्, अवासत, अवास्यत्, अवास्यत ॥ १०३२ [ व्येञ् ]  
संवरणे । व्ययति, व्ययते । 'आर्धधातुक विषय मे व्यञ् धातु  
को भी आकारादश ( २४२ ) प्राप्त है इसलिये—

२६०—न व्यो लिटि ॥ ६ । १ । ४६ ॥

व्यञ् धातु का आकार आदश न हावे लिट् लकार परे हो तो ।  
व्ये + व्ये + णल् = विव्याय । यहा अभ्यास के यकार को सप्र-  
सारण ( २८२ ) प्राप्त [ है ] और उसी का लोप परत्व से ( ४० )  
सूत्र से प्राप्त है । यद्यपि लोपविधि सब विधियों से ब्रह्मीय है<sup>१</sup>  
तथापि "उभयेपाम्" ( २८२ ) प्रहण का यही प्रयोजन होने से कि  
( ४० ) से प्राप्त लोप को भी बाध के सप्रसारण ही होवे । अभ्यास  
के यकार को सप्रसारण होता है—[विव्यौ] । कित् विषय मे प्रथम  
सप्रसारण होकर—वि + वि + अनुस् = विव्यत् ( १५६ ) यण्,  
विव्यु, विव्यथि ( १४९ ) नित्य इट्, विव्यथु, विव्य, विव्याये,  
विव्यय, विव्यव, विव्यम, विव्ये, विव्यात्, विव्यरे, व्यातासि  
( २४२ ) आकारादेश, व्यातासे, व्यास्यति, व्यास्यते, व्यासात्,  
व्यासात्, व्ययते, व्ययते, व्यासात्, व्यासात्, व्ययति, व्ययति,  
व्ययत्, व्ययताम्, अव्ययत्, अव्ययत, व्ययेत्, व्ययेत वीयात्,  
( २८३ ) सप्रसारण हांकर दीर्घ ( १६० ), व्यासीष्ट, अव्यासीत्,  
अव्यासिष्टाम्, अव्यास्त, अव्यास्यत्, अव्यास्यत ॥ १०३३  
[ द्वेञ् ] स्पर्धायां शब्दे च = ईषा और तुलाना । ह्यति, ह्यने ।

२६१—अभ्यस्तस्य च ॥ ६ । १ । ३३ ॥

अभ्यस्त होने वाले ह्य धातु को द्वित्व होने से प्रथम ही

संप्रसारण होवे । अकित् विषय मे अभ्यास ही को संप्रसारण प्राप्त है इसलिये यह सूत्र है । संप्रसारण होकर द्वित्व होता है । जुहाव, जुहुवतु., जुहुवुः ( १५९ ) [ सूत्र से ] संप्रसारण किये उकार को उवङ् होता है । जुहोथ, जुहविथ, जुहुवथुः, जुहुव, जुहाव, जुहव, जुहुविव, जुहुविम, जुहुवे, जुहुवान, हातासि, हातास, हास्यति, हास्यन्, हासतै, हासातै, ह्यतै, ह्यातै, हासति, हासाति, ह्यति, ह्याति, ह्यतु, ह्यताम्, अह्यत्, अह्यत, ह्यत्, ह्यत, ह्यात् ( २८३ ) संप्रसारण और दीर्घ ( १६० ), हासीष्ट ।

### २६२—लिपिसिचिहश्च ॥ ३ । १ । ५३ ॥

लिप, सिच और ह्वा धातु से परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान मे अङ् आदेश होवे । अह्वत ( २४४ ) आकारलोप, अह्वताम्, अह्वन् ।

### २६३—आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् ॥ ३ । १ । ५४ ॥

लिप, सिच और ह्वेञ् धातु से परे च्लि के स्थान मे अङ् विकल्प करके हो आत्मनेपद विषय मे । अह्वत, अह्वताम्, अह्वन्, अह्वथा.; अह्वास्त, अह्वासाताम्, अह्वास्यत्, अह्वास्यत ॥ वेञादयस्त्रयोऽनुदात्ता उभयपदिनः । ये वेञ् आदि तीन धातु अनिट् उभयपदी है ॥

अथ द्वौ परस्मैपदिनौ । अब दो धातु सेट् परस्मैपदी कहते हैं ॥ १०३४ [ वद ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना । वदाति, वदत, वदन्ति, उवाद ( २८२ ), उदतुः, उदुः, उवदिथ, वदितासि, वदिष्यति, वादिषति, वादिषाति, वदात्, वदाति, वदतु, अवदत्, वदेत्, उद्यात् ( २८३ ), अवादीत् ( १३२ ) वृद्धि. अवादिष्टाम्, अवादिषुः, अवादिष्यत् ॥ १०३५ [ दुओश्चि ] गतिवृद्धयोः = गति और बढ़ना । इस मे से टु और ओकार की इत्सङ्गा होती है । श्रयति, श्रयत., श्रयन्ति ।

## २६४—विभाषा श्वेः ॥ ६ । १ । ३० ॥

लिट् और यङ् परे हो तो श्वि धातु को विकल्प करके संप्रसारण होवे। यङ् के परे संप्रसारण किसी से प्राप्त नहीं है और कित् लिट् मे ( २८३ ) से और अकित् विषय में ( २८२ ) से संप्रसारण नित्य प्राप्त है उस का विकल्प करने से “प्राप्ताप्राप्त-विभाषा” इस सूत्र मे जानो। सो जिस पक्ष मे इस सूत्र से संप्रसारण होता है वहां [ द्विवचन से पूर्व ] वातु को ही होता है निषेध पक्ष मे अभ्यास का भी नहीं होता। शुशाव, शुशुवतुः ( १५९ ), शुशुतुः, शुशुविय, शुशुवथुः, शुशुव, शुशाव, शुशव, शुशुविव, शुशुविम। सम्प्रसारण के निषेधपक्ष मे—शिश्राब, शिश्रियतुः ( १५९ ) इयङ्, शिश्रियिथि, श्रियितासि। यहा गुण होकर अयादेश होता है। श्रियिष्यति, श्रियिषाति, श्रियिषाति, श्रियति, श्रियाति, श्रियतु, अश्रियत्, श्रियत्, श्रयात् ( २८३ ) सम्प्रसारण होकर दीर्घ ( १६० )। लुङ् मे अङ् का विकल्प ( १५४ ) हांकर अङ्पक्ष मे—

## २६५—श्वयतेरः ॥ ७ । ४ । १८ ॥

श्वि धातु के इकार को अकार आदेश होवे अङ् परे हो तो। अट्+श्वि+अङ्+तिप्=अश्वत्। यहा अङ् के अकार के साथ पररूप होता है। अश्वताम्, अश्वन्, अश्वः, अश्वतम्, अश्वत, अश्वम्, अश्राव, अश्राम। जिस पक्ष मे अङ् ( १५४ ) न हुआ वहां [ विकल्प से ] चङ् ( २४८ ) और द्वित्व ( १८० ) होकर—अशिश्रियत् ( १५९ ) इयङ्, अशिश्रियताम्, अशिश्रियन्। अब जिस पक्ष मे चङ् भी ( २४८ ) न हुआ वहां वृद्धि का निषेध ( १६२ ) होकर—अश्रयीत्, अश्रयिष्टाम्, अश्रयिषुः, अश्रयिष्यत्। वृत्। ये यजादि धातु समाप्त हुए, और भ्वादिगण को आकृतिगण

मानते हैं इसी से “ चुलुम्पति ” आदि प्रयोग समझने चाहियें ।  
इति शब्दविकरणा भ्वादयः समाप्ताः । ये शब्दविकरणवाले भू  
आदि धातु समाप्त हुए ॥

२६६—ऋतेरीयङ् ॥ ३ । १ । २६ ॥

ऋत धातु से ईयङ् प्रत्यय हो स्वार्थ मे । इस धातु का स्वार्थ  
निन्दा वा कृपा है और यह सौत्रधातु है अथोत् किसी गण का  
नहीं । ऋन् + ईय । इस की धातुसंज्ञा ( १६७ ) होकर शप् होता  
है । ऋतीयत्, ऋतीयेत्, ऋतीयन्ते । यहां ईयङ् प्रत्यय के डित् होने  
से गुण नहीं होता और ईयङ् प्रत्यय के डित् हाने से ही ऋतीय  
धातु से आत्मनेपद होता है । ऋतीयाञ्चक्रे, ऋतीयामास, ऋतीया-  
म्बभूव । आर्धधातुक की विवक्षा मे ईयङ् प्रत्यय ( १६८ ) विकल्प  
करके होता है । जिस पक्ष मे ईयङ् न हुआ वहां—ऋत् + ऋत् +  
णल् = आनर्त् ( १०८ ) अकार, ( ११२ ) अभ्यास को दीर्घ, ( १४७ )  
नुट्, यहां शेष होने से परस्मैपद । आनृतुः, आनृतुः, आन-  
र्त्तिथ, आनृतथुः, ऋतीयितासे, अतितासि, ऋतीयिष्यते, अर्त्तिष्यति,  
ऋतीयिषतै, ऋतीयिषातै, अर्त्तिषति, अतिषति, ऋतीयताम्,  
आर्तीयत्, ऋतीयेत्. ऋतीयिषीष्ट, ऋत्यात्, आर्तीयिष्ट, आर्तीन् ।  
आतिष्ठाम् ॥

॥ इति भ्वादिगणः समाप्तः ॥

## अथ अदादिगणारम्भः

१ [ अद् ] भक्षणे=खांना । [ अद्+शप्+तिप्, इस अवस्था में—]

२६७—अदिप्रभृतिभ्यः शपः ॥ २ । ४ । ७२ ॥

अद् आदि धातुओं से परे जा शप् उस का लुक् होवे । जहाँ-जहाँ लुक् कहते हैं वहाँ-वहाँ प्रत्ययमात्र का होता है । अद्+तिप्=अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्मि, अत्यः, अत्यः, अत्ति, अत्तः, अत्तः ।

२६८—बहुलं लुन्दसि ॥ २ । ४ । ७३ ॥

वद्विषय में अद् आदि धातुओं से परे शप् का लुक् बहुल करके होवे । बहुल के कहने से जिन से परे कहा है उन से परे नहीं भी होता—अदति, हनति इत्यादि । और जिन से नहीं कहा वहाँ भी हो जाता है—त्राध्व नो देवाः । यहाँ 'त्रैह्व' भ्वादिस्थ धातु से शप् का लुक् हुआ है 'त्रायध्वम्' लोक में होता है ।

२६९—लिट्थन्यतरस्याम् ॥ २ । ४ । ४० ॥

लिट् लकार परे हो तो अद् धातु को घस्तु आदेश विकल्प करके होवे । जघास । घस्+अतुस् ( २१४ ) उपधालोप होकर उस उपधालोप को चरविधि के प्रति स्थानिवत् का निषेध होने से घकार को चर्क् होता है उस ककार से परे षत्व ( २८४ ) होकर—जक्षतुः, जक्षुः, जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष, जघास, जघस, जक्षिव, जक्षिम, आद, आदतुः, आदु, थल् में नित्य इट् ( २५९ ) आदिथ, आदथु, आद, आद, आदिव, आदिम; अत्ता, अत्तासि, अत्स्यति, अत्सति, अत्साति, अदति, अदाति, अत्तु, अत्तात्, अत्ताम्, अदन्तु ।

३००—हुभ्रल्भ्यो हेर्धिः ॥ ६ । ४ । १०१ ॥



हु और ऋलन्त धातुओं से परे जो हि उस को धि आदेश होवे। यहां ऋलन्त अद् मे परे धि होकर—अद् + हि = अद्धि, अत्तात्, अत्तम्, अत्त, अदानि, अदाव, अदाम।

३०१—अदः सर्वेषाम् ॥ ७ । ३ । १०० ॥

अद धातु से परे जो अपृक्त हलादि सार्वधातुक उस को अट् का आगम हो, सब आचार्यों के मत मे। यह अपृक्त हलादि सार्वधातुक लङ् लकार के तिप् और सिप् दो ही मे मिलता है। आट् + अद् + अट् + तिप् = आदत्, आत्ताम्, आदन्, आदः, आत्तम्, आत्त, आदम्, आद्, आदम्, णद्यात्, अद्याताम्, अद्या + उस् = अद्यु (८५) पररूप एकादेश, अद्याः, अद्यातम्, अद्यात अद्याम्, अद्याव, अद्याम, अद्यात्, अद्यास्ताम्, अद्यासुः।

३०२—लुङ् सनोर्घस्त्व ॥ २ । ४ । ३७ ॥

लुङ् लकार और सन् प्रत्यय परे हां तो अद् धातु को घस्त्व आदेश होवे। लुङ् लकार घस्त्व आदेश के पढ़ने से च्लि के स्थान में अङ् (२१७) अघसत्, अघसताम्, अघसन्, आस्यत् ॥ २ [ हन ] हिंसागत्योः = मारना और गति। शप् का लुक् (२९७) इन्ति।

३०३—अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो भ्रूलि क्ङिति ॥ ६ । ४ । ३७ ॥

उपदेश मे जो अनुदात्त = आनट् धातु, वन और तनु से लेकर जा धातु है उन सब के अनुनासिक का लोप होवे, ऋलादि कित् ङित् प्रत्यय परे हो तो। अनुदात्तोपदेश अनुनासिकान्त यम, रम, नम, गम, हन और दिवादिगण का मन ये छः धातु हैं और तनोत्यादि अनुनासिकान्त तनु, षणु, क्षणु, क्षिणु, ऋणु, वणु, घृणु, वनु

और मनु ये नौ धातु हैं और वनति धातु भ्वादिगण का लिया है इन सब के अन्त्य अनुनासिक का लोप जहां-जहां भ्लादि कित् ङिन् हों वहां-वहां होता है। यहा हन धातु से परे तस् की ङिन् मन्ना ( ९९ ) होने से—हन् + तस् = हतः; यहा अनुनासिकलोप हुआ है। हन् + भि—

३०४—हो हन्तेर्जणिन्नेषु ॥ ७ । ३ । ५४ ॥

हन् धातु के हकार को कवर्ग आदेश होवे, चित् णित् और नकार परे हो तां। यहा भि के ऋकार को अन्त आदेश होने के पश्चात् उपधा अकार का लोप ( २१४ ) होकर केवल नकार के परे 'ह' को 'घ'—घ्नन्ति, हसि, हथ हथ. हन्मि, हन्वः, हन्म., हन् + हन् + णल् = जघान ( ३०४ ) णिन् के परे ह को कुत्व, जघन्तु ( २१४ ) उपधालोप और न के परे ह को कुत्व ( ३०४ ), जघ्नुः ।

३०५—अभ्यासाच्च ॥ ७ । ३ । ५५ ॥

अभ्यास से परे हन धातु के हकार को कुत्व होवे । जघनिथ, जघन्थ, यहां कुत्व ( ३०४ ) नहीं प्राप्त है । जघन्थुः, जघ्न, जघान, जघन, जघिनव, जघिनम, हन्ता, हन्तारौ, हन्तारः हन्तासि, हनिष्यति, हनिष्यत. ( २३८ ) अप्राप्त इट्, हासति. हांसाति, हसति, हसाति, हनति, हनाति; हन्तु, हतात्, हताम्, घ्नन्तु ।

३०६—हन्तेर्जः ॥ ६ । ४ । ३६ ॥

हन् धातु को 'ज' आदेश होवे 'हि' परे हो तो । अब हन् धातु के स्थान मे 'ज' आदेश होने के पश्चात् 'हि' का लुक् ( ७२ ) प्राप्त है उस 'ज' आदेश को असिद्ध ( ४४ ) मानकर नहीं होता । जहि, हतात्, हतम्, हत, हनानि, हनाव, हनाम, अहन् । यहा हल

नकार से परे अपृक्त तिप् के तकार का लोप होता है। अहताम्, अघ्नन्, अहन्, अहतम्, अहत, अहनम्, अहन्व, अहन्म; हन्यात्, हन्याताम्, हन्युः, हन्याः।

३०७—आर्धधातुके ॥ २।४।३५ ॥

यह अधिकारसूत्र है।

३०८—हनो वध लिङि ॥ २।४।४२ ॥

हन धातु को वध आदेश होवे आर्धधातुकविषय मे लिङ परे हो तो । वध अकारान्त होता है। वध्यात् ( १७२ ) अकारलोप, वध्यास्ताम्, वध्यासुः, वध्याः, वध्यास्ताम्।

३०९—लुङि च ॥ २।४।४३ ॥

आर्धधातुक विषयक लुङ् परे हो तो भी हन धातु को वधादेश होवे। इस सूत्र का पृथक् निर्देश इस से अगले सूत्र मे अनुवृत्ति के लिये है। अवधीत्। वध आदेश के अदन्त होने से सिच् के परे अकारलोप ( १७२ ) होकर उसके स्थानिवत् होने से वृद्धि ( १३२ ) नहीं होती। अवधिष्टाम्, अवधिषुः, अवधीः, अहनिष्यत् ( २३८ ), अहनिष्यताम्, अहनिष्यन्। अदिहनी अनुदात्ताबुदात्तेनौ परस्मैपदिनौ। अद और हन दोनो धातु अनिट् परस्मैपदी है ॥

अथ [ द्विषादयश् ] चत्वार स्वरितेत.। अब [द्विष आदि] चार धातु उभयपदी कहते है। ३ [ द्विष ] अप्रीतौ = वैर करना। द्वेष्टि, द्विष्टः, द्विषन्ति, द्वेक्षि, द्विष्टः, द्विष्ट, द्वेष्मि, द्विष्वः, द्विष्मः, द्विष्टे, द्विषाते, द्विषते, द्विचे, [ द्विषाथे, ] द्विडढवे, द्विषे, द्विष्वहे, द्विष्महे; दिद्वेष, दिद्विषतुः, दिद्विषे, द्वेष्टासि, द्वेष्टासे, द्वेक्ष्यति, द्वेक्ष्यते, द्वेक्षतै, द्वेक्षतै, द्वेषतै, द्वेषातै, द्वेक्षति, द्वेक्षति, द्वेषति, द्वेषाति, द्वेष्टु, द्विष्टात्, द्विष्टाम्, द्विषन्तु, द्विड्ढि, द्विष्टात्. द्विष्टम्, द्विष्ट, द्वेषाणि,

द्वेषाव, द्वेषाम्, द्विष्टाम्, द्विषाताम्, द्विषताम्, द्विष्व, द्विषा-  
थाम्, द्विड्ढवम्, द्वेषै, द्वेषावद्द्वै, द्वेषामहै, अद्वेट्, तिप् के तकार  
का लोप "हल्ङ्घ्या०" <sup>१</sup> होता है। अद्विष्टाम्।

### ३१०—द्विषश्च ॥ ३ । ४ । ११२ ॥

शाकटायन आचार्य ही के मत में द्विष धातु से परे लङ्  
लकार के फि को जुस् आदेश होने। अद्विष्टुः, अन्य लोगों के मत  
में—अद्विषन्, अद्वेट्, अद्विष्टम्, अद्विष्ट, अद्विषम्, अद्विष्व,  
अद्विष्म, अद्विष्ट अद्विषाताम्, अद्विषत, द्विष्यात्, द्विष्याताम्,  
द्विष्यु, द्विषात, द्विषीयाताम्, द्विषीरन्, द्विषीथा, द्विष्यात्, द्विष्या-  
स्ताम्, [ द्विष्यासुः ]; द्विषीष्ट, द्विष्यास्ताम्, द्विषीरन् ( १६३ )  
किन्त्व; अद्विचत् ( २०७ ) क्त्, अद्विचताम्, अद्विचन्, अद्विचत,  
अद्विचताम् ( २०८ ) क्सलोप, अद्वेक्ष्यत्, अद्वेक्ष्यत ॥ ४ [ दुह ]  
प्रपूरणे = वृत्त करना <sup>२</sup> ।

### ३११—दादेर्धातोर्घः ॥ ८ । २ । ३२ ॥

दकारादि धातुओं के हकार की घकार आदेश हो मल्ल परे हो  
वा पदान्त में। दुह् + तिप् = दोग्धि ( १४१ ) त को ध और घ को  
जस्त्व। दुग्धः, दुहन्ति, धोन्ति ( २०४ ), दुग्धः, दुग्ध, दोह्नि, दुह्ः,  
दुह्मः, दुग्धे, दुहात, दुहते, धुक्ते, दुहाथे, धुग्वे, दुहे, दुहहे, दुह्महे,  
दुदाह, दुदुहत्तुः, दुदाहित्; दुदुहे; दोग्वा; धोक्ष्यति; धोक्ष्यते; धोक्षतै,  
धोक्षतै, दोहतै, दोहातै, धोक्षति, धोक्षति, दोहति, दोहाति, दोग्धु,

१. नामिक ४८ ।

२. क्षीरस्वामी के मत में 'खाली करना' अर्थ है। वह लिखता है—  
प्रपूरणं पूरणाभाव । उपसर्गोऽत्र धात्वर्थं बाधते प्रस्थानवत् । क्षीर-  
तरङ्गिणी पृष्ठ १०३ ।

दुग्धात्, दुग्धाम्, दुहन्तु, दुग्धि, दुग्धान्, दुग्धम्, दुग्ध, दोहानि, दोहाव, दोहाम्, दुग्धाम्, दुहाताम्, दुहताम्, धुक्व, दुहाथाम्, धुग्ध्वम्, दोहै, दोहावहै, दोहामहै; अधोक्, यहां पदान्त मे सयोगान्त हल् तकार का लोप होकर कृत्व हो जाता है। अदुग्धाम्, अदुहन्, अधाक्, अदोहम्; अदुग्ध, अदुहाताम्, अधुग्ध्वम्; दुह्यान्, दुह्याताम्, दुह्यु; दुहीत, दुहीयाताम्, दुहारन्; दुह्यात्, दुह्यास्ताम्; धुक्तीष्ट ( १६३ ), धुक्तीयास्ताम्, धुक्तीरन्, अधुक्त् ( २०७ ) क्स, अधुक्ताम्, अधुक्त्, अधुक्; अधुक्त्, अधुक्ताताम् ( २०८ ), अधुक्त्न्त; विकल्प से क्स लुक् ( २२७ ) अदुग्ध, अदुग्धा; अधुक्त्था, अधुग्ध्वम्, अधुक्त्ध्वम्, [ अदुह्हि; अधुक्त्वावहि ]; अधाक्ष्यत्, अयाक्ष्यत् ॥ ५ [दिह] उपचये = बढना । सब काये और प्रयाग दुह के तुल्य जानो । दे ग्ध, अधिक्त्, अदिग्ध, अधिक्त् ॥ ६ [लिह] आस्वादाने = स्वाद लना<sup>१</sup> । लिह+तिप=लीढ ( २०३, १४१ २०६ ), लीढः ( २३६ ), लिहन्ति, लेक्षि ( २०५ ), लीढः, लाढ, लेह्नि, लिहः, लिहः; लीढे, लिहाते, लिहते, लिक्षे, लिहाथे, लीढ्वे, लिहं, लिहह, लिहहै; लिलेह, लीलहत्, लिनाहथ, लिलिहे, लिलिहात, लिलिहिरै, लीढामि, लीढास; लेक्ष्यात्, लेक्ष्यत, लेक्षतै, लेक्षतै, लेक्षात्, लेक्षानि, लेहु, लाढात्, लीढाम्, लिहन्तु, लाढि, लाढात्, लीढम्, लीढ, लेहानि, लेहाव, लेहाम्, अलेट्, अलीढाम्, लिहात्, लिक्तीष्ट, आलक्त्, आलक्त् ( २०७ ) अलाढ, आलक्ताताम्, अलिक्त्न्त, अलिक्त्था, अलाढा, अलेक्ष्यत्, अलेक्ष्यत । द्विषादयोऽनुदात्ता स्वरितेन उभयपदिनः । ये द्विष आदि अनिटे उभयपदी धातु हैं ।

१. यहा 'चाटना' अर्थ है ।

[ अथैक आत्मनेपदी । अब एक आत्मनेपदी धातु कहते हैं । ]  
 ७ [ चक्षिङ् ] व्यक्तायां क्चि, अयं दर्शनेऽपि = स्पष्ट बोलना और देखना । इस धातु में जो अनुदात्त इकार है उस की इत् सजा हो जाती है, फिर अनुदात्तेत् के होने से आत्मनेपद हो ही जाता, फिर ड्कार पढ़ने से अनुदात्तेत् धातुओं से आत्मनेपदविधान के अनित्यत्व का ज्ञापक होता है । और इस का इकार अन्त में इत् नहीं गया इस कारण नुम् नहीं होता । चक्ष्+ते = चष्टे ( २१० ) सयोगादि ककार का लोप । चक्षाते, चक्षते, चक्षे, चक्षाथे, चक्ष्वहे, चक्षे, चक्ष्वहे, चक्ष्महे ।

३१२—चक्षिङः ख्याञ् ॥ २ । ४ । ५४ ॥

सामान्य आर्धधातुकविषय में चक्षिङ् [को] ख्याञ् आदेश होवे ।

३१३—वा लिटि ॥ २ । ४ । ५५ ॥

लिट् लकार में चक्षिङ् धातु को ख्याञ् विकल्प करके होवे । पूर्व सूत्र से सर्वत्र नित्य प्राप्त है उस का विकल्प करने से प्राप्त विभाषा है । ख्याञ् होकर आकारान्त के समान प्रयोग और बित् होने से उभयपद ( १०५ ), चख्यौ ( २४३ ), चख्यतु ( २४४, २४५ ), चख्युः, चख्यिथ, चख्याथ, चख्ये, चख्याते ।

३१४—वा ख्शादिर्वा ॥ २ । ४ । ५४ ॥

यह ख्याञ् आदेश जो कहा है सो ख्शाञ् आदेश कहना चाहिये । फिर ख्याञ् धातु के प्रयोग किस प्रकार बनने चाहियें—

३१५—वा०—असिद्धे शस्य यवचनं विभाषा ॥

२ । ४ । ५४ ॥

असिद्ध अर्थात् अष्टमाऽध्याय के अन्तके तीन पादों<sup>१</sup> में ख्शाञ् के शकार को विकल्प करके यकार होवे। सो जब यकार होगा तब ख्याञ् के प्रयोग और ख्शाञ् रहेगा वहा ख् को चर्त्वं क् होकर— चक्षौ, चक्षतुः, चक्षे, चक्षते। ख्शाञ् आदेश विधान करके असिद्धप्रकरण में शकार को यकार कहने से जो-जो कार्य सपादसप्तमाध्यायी में ख्या धातु को कहे हैं वे इस को नहीं होते, क्योंकि सपादसप्तमाऽध्यायी में वह ख्याञ् नहीं किन्तु ख्शाञ् है। इस प्रकार के कई प्रयोजन महाभाष्यकार ने ( ३१२ ) सूत्र पर गिनाये है। अब जिस पक्ष में ख्शाञ् आदेश ( ३१३ ) नहीं हुआ वहां— चक्षे, चक्षते, चक्षिरे, ख्यातासि, ख्यातासे, क्शातासि, क्शातासे, ख्यास्यति, ख्यास्यते, क्शास्यति, क्शास्यते, ख्यासति, ख्यासाति, क्शासति, क्शासाति, ख्यासतै, ख्यासातै, क्शासतै, क्शासातै, चक्षतै, चक्षतै, चक्षते, चक्षते, चष्टाम्, चक्षताम्, [ चक्षताम्, ] चक्ष्व, चक्षथाम्, चक्ष्वम्, चक्षै, चक्षवहै, चक्षामहै; अचष्ट, अचक्षताम्, अचक्षत, अचक्षाः, अचक्षथाम्, अचक्ष्वम्, अचक्ष्वहि, अचक्ष्वहि, अचक्ष्वहि, चक्षीत, चक्षीयाताम्, चक्षीरन्, ख्यायात्, ख्येयात्, क्शायात्, क्शेयात् ( २५२ ) एत्वविकल्प। ख्यासीष्ट, क्शासीष्ट।

### ३१६-अस्यतिवक्तिर्यातिभ्योऽङ् ॥३१।५२॥

असु दिवादिगण का, वच और ख्या अदादिगण के धातुओं से परे च्लि के स्थान में अङ् होवे। सो जिस पक्ष में यकार

१ कई वैयाकरण यत्वविधान को णत्व प्रकरण ( अष्टा० ८ । ४ । ३९ ) के अनन्तर मानते हैं, अन्य 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' ( अष्टा० ८ । ४ । ४५ ) के बाद मानते हैं।

होता है<sup>१</sup> वहा अङ् जानो । अख्यत्, अख्यनाम्, अख्यन्, अख्यत, अख्यताम्, अख्यन्त, ख्शाञ् पक्ष मे अक्शामीत्<sup>२</sup> ( २५१ ), अक्शाम्, अख्यास्यत्, अख्यास्यत, [अक्शास्यत्,] अक्शास्यत ।

३१७-वा०—वर्जने प्रतिषधः ॥ २।४।५४ ॥

वर्जन अर्थ मे चञ्चिङ् धातु को ख्शाञ् आदेश न होवे । संचञ्चितामे, संचञ्चिष्यते, संचञ्चिषीष्ट, समचञ्चिष्ट । सम् उपसर्ग-पूर्वक इम धातु का वजन अर्थ हाता है ।

अथ [ ईरादयः ] पृच्यन्ता अनुदात्तेतस्त्रयोदश । अत्र पृचा वातु पयन्त १३ वातु आत्मनेपदी कहते है । ८ [ ईर ] गतौ कम्पन च = गति और कापना । ईर्त्त, प्रेर्त्त, ईराते [ ईरत, ] ईर्षे, ईराथे, ईर्षे, ईर्षे, ईर्षेहे, ईर्महे, ईराञ्चक्रे ईरितासे, ईरिष्यते, ईरिषतै, ईरिषातै, ईरतै, ईरातै, ईर्ताम्, ईराताम्, ईरताम्, ऐर्त्त, ईरीत, ईरीयाताम्, ईरीरन्, ईरिषीष्ट, ऐरिष्ट, ऐरिष्यत ॥ ९ [ ईड ] स्तुतौ = स्तुति करना ॥ १० [ ईश ] ऐश्वर्ये = मालिक का होना । ईष्टे-चर्त्, ईडाते, ईडते । ईष्टे ( २३३ ) षत्व, ईशाते, ईशते ।

३१८—ईशः से ॥ ७।२।७७ ॥

१ भट्टोजिदीक्षित और नागोजीभट्ट आदि का मत है कि स्वतन्त्र 'ख्या प्रकथने' धातु के आर्धधातुक में प्रयोग नहीं होते । देखो सि० कौ० ख्या धातु, महाभाष्यप्रदीपोद्योत २।४।५४ ॥ अतः उनके मत में इस अङ् विधायक सूत्र मे यत्व आश्रयसामर्थ्य से असिद्ध नहीं होता । अष्टाध्यायी भाष्य २।४।५४ ॥ ३।१।५२ मे यत्व को असिद्ध मान कर इस आदेश वाली ख्या धातु का ग्रहण नहीं माना, स्वतन्त्र ख्या धातु का ग्रहण किया है ।

२. वस्तुतः ख्शाञ् पक्ष में भी अङ् होता है । अम्बग्निरूपसामग्र-मन्शत् ( मै० स० १।८।९ ) में अङ् देखा जाता है ।



ईश धातु से परे जो सावेधातुक उस का इट् का आगम होवे । ईशिसे ।

३१६-ईङ्जनोर्ध्वे च ॥ ७ । २ । ७८ ॥

ईश, ईङ और जन धातुओं से परे जो से और ध्वे वलादि सावेधातुक उनको इट् आगम हा । पूवे सूत्र की यहा सब अनुवृत्ति आती है, इन दोनो सूत्रो से बराबर काये होता है फिर एक सूत्र पढ़ते, पृथक्-पृथक् पढ़ने से आचाये की विचित्र क्रिया दीख पडती है । ईडिपे, ईडाथे, ईडिध्वे, ईडे, [ ईडवहे, ईडमहे; ईडाषे, ईपाथे, ईशिध्वे, ] ईशे, [ ईश्वहे, ईशमहे, ] ईडाञ्चक्रे, ईशाञ्चक्रे, इडामास, ईडाम्बभूव, ईशामास, ईशाम्बभूव, ईडितासे, ईशितासे, ईडाम्, ईडाताम्, ईडताम्, ईडिष्व । ( ३१९ ), ईशिष्व, ईडिध्वम्, इशिध्वम् । यहा एकार को 'व' और 'अम' आदेश होता है । अत. एकदेश को विकृत मान कर इट् हो जाता है, और से ध्वे, ( ३१८, ३१९ ) एकारान्त पढ़ने से ही लड लकार मे इट् नहीं होता । ऐट्, ऐडाताम्, ऐडत, [ ऐट्ठा, ऐडाथाम्, ] ऐट्ध्वम्, ईडीत, ईशीन् ॥ ११ [ आस ] उपवशने = वैठना । आस्ते, आसाते, आसते, आसाञ्चक्रे । ( ११० ) आम्, आसाम्बभूव, आसामाम, आसितासे, आसिष्यते, आसिषतै, आसिषातै, आस्ताम्, आस्व, आध्वम्, आस्त, आसीत, आसिषीष्ट, आसिष्ट, आसिष्यत ॥ १२ [ आङ्. शासु ] इच्छायाम् । बहुधा आङ्पूर्वक ही इस धातु के प्रयोग आते हैं इसलिये आङ् इसके साथ लगा दिया है । आशास्त, आशासाते, आशासते, आशशासे, अशशा-

१ एकदेशविकृतमनन्यवद् भवति ( पारि० ३७ ) नियम से ।

२. ' न च विकृति. प्रकृति गृह्णाति ' नियम से ।

साते, आशासितासे, आशास्ताम्, आशास्व, आशाध्वम्<sup>१</sup> आशामै, आशासावहै, आशामामहै, आशास्त, आशासीत, आशासिषीष्ट, आशासिष्ट ॥ १३ [ वस् ] आच्छादने = ढांकना । वस्ते, वसाते, वसते, ववसे, ववसात—(१२९) एवाभ्यासलाप निषेध । वसितासे, वसिष्यते, वासिषतै, वासिषातै, वसतै, वसातै, वस्ताम्, वसाताम्, वस्व, वव्वम्, अवस्त, वसीत, वसिषीष्ट, अवसिष्ट, अवसिष्यत ॥ १४ [ कस् ] गतिशासनयोः = गति और शिक्षा । कस्ते, कंसाते, कसते, कन्व्हे, चकंसे, कंस्ताम्, कस्व, कन्ध्वम्, अकंस्त, कंसीत ॥ [ कस् ] इत्यन्ये । कस्ते, कसाते, चकसे, चकसाते, कस्ताम्, कस्व, कध्वम्, अकस्त, कसीत, अकसिष्ट ॥ [ कश् ] इत्यके । कष्टे ( २३३ ) षत्व, कशाते, चकशे, चकशाते, कशितासे, कशिष्यते, काशिषतै, काशिषातै, कष्टाम्, कशाताम्, कशताम्, कक्त्व, कड्ढ्वम्, अकष्ट, कशीत, कशिषीष्ट, अकशिष्ट, अकशिष्यत ॥ १५ [ णिसि ] चुम्बने = चूबना । निस्ते, निसाते, निनिसे, निसितासे, निसिष्यते, निसिषतै, निसिषातै, निस्ताम्, निस्व, निन्ध्वम्, अनिस्त, निसीत, निसिषीष्ट, अनिस्त, अनिसिस्यत ॥ [ णिजि ] शुद्धौ । निङ्क्ते, निञ्जाते, निङ्क्ते, निनिञ्जे, निञ्जितासे ॥ १७ [ शिजि ] अव्यक्ते शब्दे । शिङ्क्ते, शिशिञ्जे ॥ १८ [ पिजि ] वर्णे = श्वेत आदि । पिङ्क्ते । सम्पर्चन इत्येके । यह धातु किसी के मत मे स्पर्श<sup>२</sup>

१ जब 'धि च' ( आ० ११३ ) से सकारमात्र का लोप होता है, तब 'आशाध्वम्' प्रयोग बनता है । जब सिच् के सकार का ही लोप माना जाता है तब यहां सकार का लोप नहीं होता । उस को ' झला जशू क्षशि ' ( सन्धि० २३४ ) से जश्त्व होकर ' आशाध्वम् ' प्रयोग होता है । देखो महाभाष्य ८ । २ । २५ ॥

२. औचित्यात् मिलाना ।

करने अर्थ मे है । उभयत्रेत्यन्ये । कोई कहते हैं कि वर्ण और सम्पर्चन दोनो अर्थ है । अवयव इत्यपरे, अव्यक्ते शब्द इतीतरे । किन्ही के मत मे अवयव और कोई के मत मे अव्यक्त शब्द अर्थ मे पिजि धातु है । [ पृजि ] इत्येके । पूर्वोक्त सब अर्थों मे पिजि के स्थान मे कोई लोग पृजि धातु कहते है । पृङ्क्ते ॥ १९ [ वृज्जी ] वर्जने = निषेध करना । वृक्ते, वृजाते, वृजते, वृक्षे, वृग्ध्वे, वृक्षे, वर्जिता, वर्जिष्यते, वर्जिषतै, वर्जिषातै, वृजतै, वृजातै, वृत्ताम्, वृक्ष्व, वृग्ध्वम्, अवृक्त, वृजीत, वर्जिषीष्ट, अवर्जिष्ट, अवर्जिष्यत ॥ २० [ पृची ] सम्पर्चने = सम्बन्ध । पृक्ते, पृचाते । ईरादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः । ये ईर आदि धातु समाप्त हुए ॥

२१ [ षूङ् ] प्राणिगर्भविमोचने = गर्भस्थ प्राणियों का जन्म । सूते, सुवाते ( १५९ ) उवङ्, सुवते, सुषुवे, ( १४० ) सूत्र मे सूति करके इसी सू धातु का ग्रहण है, इस कारण इट् का विकल्प होता है—सुषुावषे, सुसूषे, सुषुविद्वे, सुषुविध्वे, सुषूद्वे, सवितासे, सातासे, सविष्यते, सोष्यते, साविषतै, साविषातै, सविषतै, सविषातै, साविषते, साविषाते, सविषते, [ सविषाते ] सौषतै, सौषातै, साषतै, साषातै, सौषते, सौषाते, साषते, साषाते, सुवतै, सुवातै, सुवते, सुवाते, सूताम्, सुवाताम्, सुवताम्, सुवै ( ९३ ) गुणानिषेध, सुवावहै, सुवामहै, असूत, सुवीत, सविषीष्ट । साषीष्ट, सविषीद्वम्, सविषीध्वम्, साषीद्वम्, असविष्ट, असोष्ट, असविद्वम्, असविध्वम्, असोद्वम्, असविष्यत असोष्यत ॥ २२ [ शीङ् ] स्वप्ने = सोना । ङिद्वत् ( ९७ ) होने से गुण नहीं प्राप्त है इसलिये—

३२०—शीङः सार्वधातुके गुणः ॥ ७ । ४ । २१ ॥

शीङ् धातु को गुण होवे सामान्य सार्वधातुक परे हो तो ।

यह सूत्र ( ३४ ) के निषेध का अपवाद है । शोते, शी + आताम् = शयाते, गुण हांकर अयादेश होता है ।

### ३२१—शीडो रुट् ॥ ७ । १ । ६ ॥

शीड् धातु से परे झकार के स्थान में जो अत् आदेश उस को रुट् का आगम होवे । टित् आगम [होने से] उस की आदि में हांकर—शोरते, शेषे, शयाथे, शेध्वे, शये शेवहे, शेमहे, शिश्ये—(१५६) यण्, शिशियद्वे, शिशियध्वे, शयितासे, शयिष्यते, शायिषतै, शायिषातै, शेताम्, शयाताम्, शेगताम्, शेध्व, शयाथाम्, शेध्वम्, शयै, शयावहै, शयामहै, अशेत, अशयाताम्, अशोरते, शयीत, शयियाताम्, शयीरन्, शयिषीष्ट, शयिषीद्वम्, शयिषीध्वम्, अशयिष्ट, अशयिद्वम्, अशयिध्वम्, अशयिष्यत । आत्मनेभाषाबुदात्तौ । पूड् और शीड् दोनो धातु सेट् आत्मनेपदी हैं ॥

अथ स्नौत्यन्ताः परस्मैपदिन. षट् । अब स्तु धातु पर्यन्त ६ ( छः ) धातु परस्मैपदी कहते हैं ॥ २३ [ यु ] मिश्रणे अमिश्रणे च = मिलना वा पृथक् करना ।

### ३२२—उतो वृद्धिर्लुकि हलि ॥ ७ । ३ । ८६ ॥

हलादि पित् सार्वधातुक परे हां तो लुक् विषय [ में ] उकारान्त अङ्ग को वृद्धि होवे, परन्तु अभ्यस्तसंज्ञक उकारान्त को पूर्वोक्त लक्षणों में भी वृद्धि न होवे । यु + तिप् = यौति, युतः, युवन्ति, ( १५९ ), यौषि, युथः; युथ, यौमि, युव, युम; युयाव, युयुवतुः, युयविथ, यवतासि, यविष्यति, याविषति, याविषाति, यविषति, यविषाति, यवति, यवाति, यौतु, युतात्, युहि, यवानि, यवाव, यवाम; अयौत्, अयुताम्, अयुवन्, अयौः, अयुतम्, अयुत, अयवम्; युयात् । यहां विशेष विधायक जो यासुट् का डित्त्व

(८०) है वह पित् का बाधक होने से वृद्धि (३२२) नहीं होती ।  
युयाताम्, युयुः, यूयात् (१६०) दीर्घ, अयावीत् अयाविष्टाम्, अया-  
विषुः, (१५८), अयविष्यन् ॥ २४ [ णु ] स्तुतौ । नौति, नौषि,  
नौमि, नवितासि, नाविषति, नाविषाति, नौतु, अनौत्, नुयात्,  
नूयात्, अनावीत्, अनविष्यन् ॥ २५ [ रु ] शब्दे ।

३२३—तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुक ॥७।३।६५॥

तु, रु, स्तु, शम और अम वातुओ से परे जो हलादि सार्व-  
धातुक उसका विकल्प करके ईट् का आगम होवे । “अम गत्यादिषु”  
यह धातु, भ्वादिगण मे लिख चुके है<sup>१</sup> । उससे परे वेद मे शप् का  
लुक् ( २९८ ) होने [के] पश्चात् हलादि सार्वधातुक मिलता हैं ।  
अभ्यमीति, अभ्यमति, प्रयोग होंगे । और शम धातु दिवादिगण का  
है । रु + ईट् + तिप् = रवीति, रौति, र्वीतः—उवङ् (१५९), रुतः,  
रुवन्ति । यहा हलादि के न होने से ईट् न हुआ । और इस सूत्र में  
सार्वधातुक की अनुवृत्ति पूर्व से चली आती थी, फिर सार्वधातुक  
ग्रहण का यही प्रयोजन है कि अपित् सार्वधातुक मे भी हो जावे ।  
रवीषि, रौषि, र्वीथः, रुथः, र्वीथ, रुथ, रवीमि, रौमि, [रुवीवः,  
रुवः,] र्वीमः, रुमः; रवीतु, रौतु, अरवीत्, अरौत् ॥ २६ [डुक्षु]  
शब्दे । चौति, क्षुतः, चुक्ताव, [ चुक्षुवतु, ] चौतु, चूयात् । शेष यु के  
समान ॥ २७ [क्षु] तेजने = तीक्ष्ण करना । क्षणौति, क्षणुतः,  
चुक्षणाव, क्षणूयात्, अक्षणावीत् ॥ २८ [णु] प्रस्त्रवणे = भरना,  
स्नौति, सुस्नाव, स्नविता<sup>२</sup>, स्नौतु, स्नूयात् ॥ उदात्ताः परस्मै-  
पदिनः । यु आदि धातु सेट् परस्मैपदी हैं ।

१. देखो पृष्ठ ९७, प० १७ ।

२. स्तुक्रमोरनात्मनेपदनमित्ते (अष्टा० ७ । २ । ३६) से इडागम  
होता है ।

[ अथैक उभयतोभाष । अब एक उभयपदी कहते हैं ]  
२९ [ ऊणुञ् ] आच्छादने = ढांकना ।

३२१—ऊर्णोतेर्विभाषा ॥ ७ । ३ । ६० ॥

हलादि पित् सावेधातुक परे हो तो ऊर्णु धातु को विकल्प करके वृद्धि हावे । ( ३२२ ) सूत्र से नित्य वृद्धि प्राप्त है इसलिये यह प्राप्त-विभाषा जाना । ऊर्णोति, ऊर्णोति, ऊणुत., ऊर्णुवन्ति, यहां हलादि के न हाने से वृद्धि नहीं हाती । ऊर्णोषि, ऊर्णोषि, ऊणुत, ऊर्णुवाते ऊणुवत । ऊर्णु धातु के इजादि गुरुमान् हाने से लिट् में आम् प्रत्यय ( १०० ) प्राप्त है, इसलिये—

३२५—का०—

वाच्य ऊर्णोणुवद्भावो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम् ।  
आमश्च प्रतिषेधार्थमेकाचश्चेडुपग्रहात् ॥३१।३६॥

ऊणुञ् धातु को णुवद्भाव कहना चाहिये । अथात् जैसे एकाच् हलादि “णु स्तुतौ” धातु को काये होते हैं वैसे इसको भी हावे । प्रयोजन यह है कि एक तो यङ् प्रत्यय एकाच् हलादि से होता है वह इससे भी हावे और इजादि गुरुमान् के न हाने से आम् प्रत्यय ( १०२ ) न हावे । और “अद्युक्. किति” सूत्र मे उगन्त एकाच् धातुओ से परे कित् आर्धधातुक को इट् का निषेध कहा है सो इसको भी एकाच् मानकर निषेध हो जावे, ऊणुतः, ऊणुतवान्, इत्यादि मे । अब यहां आम् का निषेध होकर—ऊणु + णल् । यहां णु का वृद्धि होकर [ स्थानिरूप होकर ] अजादि धातु के द्वितीय एकाच् अवयव ‘णु’ मात्र को द्वित्व ( ३७, ३८ ) प्राप्त है इसलिये—



## ३२६--ऊर्णोतेविभाषा ॥ ७ । २ । ६ ॥

परस्मैपदविषय में इडादि सिच् परे हो तो ऊर्णु धातु को विकल्प करके वृद्धि हाव । पक्ष में गुण हो जाता है । और्णावीत्, और्णाविष्टाम्, और्णावेषुः, और्णवीत्, और्णविष्ट, और्णविष्ट, और्णविष्यत्, और्णविस्यत्, और्णविस्यत्, और्णविस्यत् ॥

[ अथ त्रयः परस्मैपदिन । अब तीन धातु परस्मैपदी कहते हैं । ] ३० [ वृ ] आभगमने = सन्मुख चलना । ( ३२२ ) वृद्धि—द्यौति, द्युत, द्युद्याव, द्युद्युवतु, द्युद्यावथ, द्यौतासि, द्यौष्यति, द्यौपति, द्यौषाति, द्यौषति, द्यौषात, द्यवति, द्यवाति, द्यौतु द्युहि, द्यवानि, अद्यौत्, द्युयात्, द्ययात्, अद्यौषीत् ( १५८ ) वृद्धि, अद्यौष्यत् ॥ ३१ [ पु ] प्रसवैश्वर्ययोः = उत्पत्ति और सपत्ति का होना । मौति, साता, सोतु ।

## ३३०--स्तुसुधूळभ्यः परस्मैपदेषु\* ॥ ७ । २ । ७२ ॥

स्तु, सु और धूळ् धातु से परे जो सिच् उसको इट् का आगम होवे परस्मैपद विषय में । असावीत्, असाविष्टाम्, असावेषुः, असावी. ( १५८ ) वृद्धि ॥ ३२ [ कु ] शब्दे । कौति, चुकाव, कौता, कौष्याति, कौषति, कौषाति, कौतु, अकौत्, कुयात्, कूयात्, अकौषत्, अकौष्यत् ॥ [ तु ] गतिवृद्धिहिसासु [ यह सौत्र धातु है । इसके गति, वृद्धि और हिंसा अर्थ है । ] तौति, तवीति

\* इन सूत्र को भट्टाजिदीक्षित ने भ्वादिगणाय सु धातु पर लिखा है सो स्तु धातु के साहचर्य से लुगविकरण अदादि के सु धातु का ग्रहण होना चाहिये, इमलिये वहा लिखना ठीक नहीं है । [ धूळ् के साहचर्य से स्वादि का भी ग्रहण होता है । ]

१. आख्यातिक सूत्र ३२३ में यह धातु पढी है, धातुपाठ में नहीं है । लुगविकरण और अनिट् होने से इसकी यहां व्याख्याकी है ।



(३२३), तुवीतः, तुतः, तुवन्ति, तुताव, तुतुविथ, तुतोथ, तोतासि, तोष्यति, तोषति, तोषति, तवीतु, तौतु, तुवीतात्, तुतात्, तुवीताम्, तुताम्, अतवीन्, अतौत्, अतवी, अतौः, तुयात्, तुवीयात्, तुवीयाताम्, तुवीयुः, तूयात्, तूयास्ताम्, अतौषीत्, अतौष्टाम्, अताष्यत् ॥ ये द्यु आदि तान् धाट् अनिट् परस्मैपदो हैं ॥

[ अथ द्वाबुभयपदिन. । अब दो उभयपदी कहते हैं । ]  
 ३३ [ ष्टुञ् ] स्तुतौ । स्तवीति ( ३२३ ), स्तौति, स्तुवीत, स्तुत, स्तुवीत, स्तुवाते, स्तुवते, स्तुवीषे, स्तुषे, स्तुवीध्वे, स्तुध्वे, स्तुवे, स्तुवीवहे, स्तुवहे, स्तुवीमहे, स्तुमहे, तुष्ट्राव, तुष्ट्रुवतु, तुष्ट्रुवुः, तुष्ट्रोथ ( १४८ ) इट् निषेध, स्तोतासि, स्तोतासे, स्तोष्यति, स्तोष्यते, स्तौपति, स्तौषति, स्तोषति, स्तोषति, स्तौषतै, स्तौषतै, स्तोषते, स्तोषत, स्तौतु, स्तवीतु, स्तुवीताम्, स्तुताम्, अस्तवीत्, अस्तौत्, अस्तुवीत, अस्तुत, स्तुवीयात्, स्तुयात्, स्तुवीत, स्तुवीयाताम्, स्तुयात्, स्तूयास्ताम्, स्तोषीष्ट, स्तोषीढवम्, अस्तावीत् ( ३३० ) इट्, अस्ताविष्टाम्, अस्ताविपुः, अस्तावीः । ( ३३० ) सूत्र मे परस्मैपद के कहने से आत्मनेपद मे इट् नहीं होता—अस्तोष्ट, अस्तोषाताम्, अस्तोषत, अस्तोष्यत्, अस्तोष्यत ॥ ३४ [ ब्रूञ् ] व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बालना ।

३३१—ब्रुवः पञ्चानामादिन आहो ब्रुवः ॥३।४।८४॥

ब्रूञ् धातु मे परे लट् लकार के परस्मैपद संज्ञक आदि के तिप् आदि पांच वचनो को णल् आदि पांच आदेश यथासंख्य करके होवें और उन्ही आदेशो के सम्बन्ध मे 'ब्रूञ्' धातु को 'आह' आदेश होवे । इस सूत्र मे दूसरी वार ब्रू धातु इसलिये पढ़ा है कि आह आदेश किसी प्रत्यय के स्थान मे न हो जावे । ब्रू + तिप् = आह, आहृतुः, आहुः, प्राहुः, आह + थल्—

१. सौत्र धातु को गिन कर चार होती हैं ।

## ३३२—आहस्थः ॥ ८ । २ । ३५ ॥

आह धातु के हकार को थकार आदेश होवे मूल परे हो तो ।  
‘आथ्+थ’ पुनः थकार को चत्व तकार हो जाता है । [ आस्थ, ]  
आहथुः (३३१) सूत्र मे आदि के पाच वचनों के कहने से—“ब्रूथ”  
यहां प्रत्यय और धातु को आदेश नहीं होते ।

## ३३३—ब्रुव ईट् ॥ ७ । ३ । ६३ ॥

ब्रू धातु से परे जो हलादि पित् सार्वधातुक उसको ईट् का  
आगम होवे । ब्रवीति । “आस्थ” यहां ब्रू को स्थानिवत् मानने से  
ईट् प्राप्त है, परन्तु (३३२) सूत्र से [मूलपर] हकार को थकार विधान  
सामर्थ्य से नहीं होता । ब्रूत., ब्रुवन्ति, ब्रवीषि, ब्रूथः, ब्रूथ, ब्रवीमि,  
ब्रूवः, ब्रूमः, ब्रूते, ब्रूवाते, ब्रुवते ।

## ३३४—ब्रुवो वचिः ॥ २ । ४ । ५३ ॥

आर्धधातुक विषय मे ब्रू धातु को वचि आदेश होवे । इकार  
व्यञ्जन की सहायता के लिये है । वच्+वच्+णल्=उवाच  
( २८२ ) सम्प्रसारण, ऊचतु., ऊचु ( २८३ ), उवचिथ, उवक्थ,  
ऊचे, ऊचाते, ऊचिरे, वक्तासि, वक्तासे, वक्ष्यति, वक्ष्यते, वाक्षात,  
वाक्षाति, वक्षति, वक्षाति, ब्रवति. ब्रवाति, वाक्षतै, वाक्षातै, वक्षतै,  
वक्षातै, वक्षते, वक्षाते, ब्रवतै, ब्रवातै, ब्रुवते, ब्रुवाते, ब्रवीतु, ब्रूतात्,  
ब्रूताम्, ब्रुवन्तु, ब्रूहि, ब्रूतात्, ब्रूतम्, ब्रूत, ब्रवाणि, ब्रवाव, ब्रवाम्,  
ब्रूताम्, ब्रुवाताम्, ब्रुवताम्, ब्रवै, ब्रवावहै, ब्रवामहै; अब्रवीत्,  
अब्रूताम्, अब्रुवन्, अब्रूत, ब्रूयात्, ब्रूयाताम्, ब्रूयुः, ब्रुवत,  
ब्रुवायाताम्, ब्रुवीरन्, उच्यात् ( ३३४ ) वच्यादेश, ( २८३ )  
सम्प्रसारण, उच्यास्ताम्, वक्षीष्ट । लुङ् मे अङ् ( ३१६ ) होकर—

## ३३५—वच उम् ॥ ७ । ४ । २० ॥

— अङ् परे हो तो वच् धातु को उम् का आगम होवे मित्

आगम अन्त्य अच् से परे<sup>१</sup> होकर—अट्+व+उम्+च्+  
अङ्+तिप्=अवोचत्, अवोचताम्, अवोचन्, अवोचत, अवो-  
चेताम्, अवोचन्त, अवक्ष्यत्, अवक्ष्यत।

आशिषि लिङ् मे वच आदि कई धातुओं के प्रयोग वैदिक  
विषय में कुछ विशेष होते हैं—

३३६—लिङ्याशिष्यङ् ॥ ३ । १ । ८६ ॥

आशीर्वाद अर्थ में लिङ् परे हो तो वेदविषय में सामान्य  
धातुओं से अङ् प्रत्यय होवे।

३३७—छन्दस्युभयथा ॥ ३ । ४ । ११७ ॥

वेदविषय में जिन प्रत्ययों की सावेधातुक संज्ञा कही है उन की  
आर्धधातुक और जिन की आर्धधातुक संज्ञा कही है उन की सार्व-  
धातुक संज्ञा भी होवे। प्रकृत में आशीर्वाद अर्थ में लिङ् की  
आर्धधातुक संज्ञा ( ८६ ) कह चुके हैं उसकी सार्वधातुक संज्ञा भी  
होवे। भा०—स्थागागमिवाचिदिदिशकिरुहयः प्रयोजनम्।  
स्था, गा, गम, वच, विद, शक और रुह, इन धातुओं से बहुधा  
आशिषि लिङ् में अङ् हाता है। यह नियम नहीं है कि इन्हीं  
धातुओं से होवे अन्य से नहीं। स्था—उपस्था+अङ्+यासुट्+  
मिप्=उपस्थेयम्, ( २४४ ) आकारलोप और सावेधातुक संज्ञा  
मान के इय् आदेश ( ८३ )। गा—गै धातु भ्वादिगण में लिख  
चुके हैं<sup>२</sup> उमी को यहाँ जानो। उपगा+अङ्+यासुट्+मिप्=  
उपगोयम्, पूवेवत्। गम—गम्+अङ्+यासुट्+मस्=गमेम।  
यहाँ लिङ् की सावेधातुक संज्ञा हान से इय् और अङ् की आर्ध-  
धातुक संज्ञा मान के गम् का छकारादेश ( २७३ ) नहीं होता।  
वच—व उम् च्+अङ्+यासुट्+मस्=वोचेम। विद—विद्+

अङ् + यासुट् + मिप् = विदेयमेर्ना मनसि प्रविष्टाम्<sup>१</sup> । शकि—  
शक् + अङ् + इय् + मिप् = शक्यम् । रुह—रुह् + अङ् + इय् +  
मिप् = रुह्यम् ।

३३८—वा०—दृशेरग्वक्तव्यः ॥ महा० ३।१।८६ ॥

दृश धातु से अक् प्रत्यय कहना चाहिये । दृश् + अक् +  
यासुट् + मिप् = दृशेयम् । जो यहां ( ३३६ ) सूत्र से अङ् होता  
तो अकित् होने से अम् ( २७८ ) हो जाता, इसलिये अक्  
पदा है ।

अथ शास्त्यन्ताः परस्मैपदिनः, इङ्त्वात्मनेपदी । अब  
शासु धातुपयेन्त परस्मैपदी कहत हैं, परन्तु एक इङ् धातु आत्मने-  
पदी है ॥ ३५ [ इण् ] गतौ । एति, इतः ।

३३९—इणो यण् ॥ ६ । ४ ८१ ॥

इण् धातु को यण् आदेश होवे अच् परे हो तो । यन्ति । यह  
सूत्र इयङ् ( १५९ ) का अपवाद है । इ + यणल् = इयाय । यहां  
इकार को ऐकार वृद्धि और ऐ को द्वित्व [ और ह्रस्व ( ४१ ) ]  
होकर इयङ् ( १५३ ) होता है ।

३४०—दीर्घ इणः किति ॥ ७ । ४ । ६६ ॥

इण् धातु के अभ्यास को दीर्घ आदेश होवे कित् लिट् परे  
हो तो । इ-अतुस् । इस अवस्था मे यण् होकर, यण् को  
स्थानिरूप ( २४५ ) मानकर द्वित्व होता है । ईयतु, ईयुः, इययिथ,  
इयेथ, ईयथुः, ईय, ईयाय, इयय, ईयिव, ईयिम, एतासि, एष्यति,  
एषति, एषाति, एषति, अयति, अयाति; एतु, इतात्,  
इताम्, यन्तु ( ३३९ ) यण्, ईहि, इतात्, इतम्, इत, अयानि,  
अयाव, अयाम्; ऐत्, ऐताम्, आयन्, ऐः, ऐतम्, ऐत, आयम्,

येव, ऐम; इयात्, इयाताम्, इयुः; ईयात् (१६०) दीर्घ, ईयास्ताम् ।

३४१—एनेर्लिङि ॥ ७।४।२४ ॥

उपसर्ग से परे इण् धातु के अण् को ह्रस्व होवे यकारादि कित् लिङ् परे हो तो । उदियात्, समियान्, अन्वियात् । सम+आ+इ+यासुट्+तिप्=समेयात्, यहां एकार अण् नहीं है इसलिये ह्रस्व नहीं हाता ।

३४२--इणो गा लुङि ॥ २।४।४५ ॥

इण् धातु को गा आदेश होवे लुङ् लकार के विषय में । गा होकर मिच् का लुक्, (९१) सूत्र मे गाति करके यही गा आदेश लिया जाता है<sup>१</sup> । अगात्, अगाताम्, अगुः ३६ [इङ्] अध्ययन् = पढ़ना । इस धातु के प्रयोग नित्य अधि उपसर्गपूर्वक ही आते है । अधि+इ+त = अधीते । सवर्णदीर्घ एकादेश होता है । अधीयाते, अधीयत इयङ् (१५९), अधीषे, अधीयाथे, अधीध्वे, अधीये, अधीवहे, अधीमहे ।

३४३—गाङ् लिटि ॥ २।४।४६ ॥

इङ् धातु को गाङ् आदेश होवे लिट् लकार की विवक्षा मे । अधि+गा+एङ् = अधिजगे । यहा प्रथम आकारलोप (२४४) हाकर स्थानिरूप (२४५) मान के द्वित्व होता है । अधिजगाने, अधिजगिरे, अधिजगिषे, अध्येतासे, यहां अधि के इकार को यण् होजाता है<sup>२</sup> । अध्येष्यते, अध्येषतै, अध्येषातै, अध्येषतै,

१. ' गोपोर्ग्रहणे इण्पिबत्योर्ग्रहणम् ' ( वा० २।४।७७ ) इस नियम से ।

२. धातु का पहले साधन ( प्रत्यय ) के साथ सबन्ध होता है या उपसर्ग के साथ, इसमें दो मत हैं । जब 'पूर्व' धातु साधनेन

अध्येषातै, अध्येषते, अध्येषाते, अध्येषते, अध्येषाते, अधीताम्, अधीयाताम्, अधीयताम्, अध्यये, अध्ययावहै, अध्ययामहै; अध्येत, अध्येयाताम्, यहाँ परन्तु से प्रथम इयङ् ( १५९ ) और पीछे आट् हांकर उसके साथ वृद्धि होता है। अध्यैयत, अध्यैथाः, अध्यैयाथाम्, अष्टध्वम्, अध्यैयि, अध्यैवहि, अध्यैमहि; अधी-यीत, अधीयीयाताम्, अधीयीरन्, अधीयीध्वम्, अधीयीय; अध्येषीष्ट, अध्येषीयास्ताम्, अध्येषीढ्वम्।

३४४—विभाषा लुङ्लुङोः ॥ २ । ४ । ५० ॥

इङ् धातु को गाङ् आदेश विकल्प करके हावे लुङ् और लुङ् लकार का विवक्षा हो तो। गाङ् आदेश पक्ष म—

३४५—गाङ्कुटादिभ्योऽङिण्डित् ॥

१ । २ । १ ॥

गाङ् और कुटादि धातुओं में परे जो जित् णित् भिन्न प्रत्यय वे डिट्त्वत् हों। यहा लुङ् में सिच् और लुङ् में स्य डिट्त्वत् होकर—

३४६—धुमास्थागापाजहातिसां हलि ॥

६ । ४ । ६६ ॥

युज्यते पदचातुपसर्गेण' मत स्त्रीकार ऋिया जाता है तब पहले प्रत्यय को को मानकर धातु को गुण होता है पीछे उपसर्ग के इकार को यणादेश होता है। जब 'पूर्व धातुरूपसर्गेण युज्यते पदचात् साधनेन' मत माना जाता है तब 'अधि+इ' इस अवस्था में पहले सवर्णदीर्घत्व की प्राप्ति होती है। प्रथम सवर्ण दीर्घ करने पर 'अध्यता' आदि प्रयोग उपपन्न नहीं होते। इसलिये 'णेरध्ययने वृत्तम्' ( भा० १२०५ ) सूत्र में 'अध्ययन' पद प्रयोग के ज्ञापन से सवर्णदीर्घ को बाधकर गुण होकर यणादेश होता है। उपर्युक्त दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष ही प्रामाणिक है।

धुसंज्ञक ( २४६ ) मा, स्या, गा, पा, ओहाक् और षो धातु के आकार का ईकारादेश हावे हलादि कित् डित् आर्धधातुक परे हो ता। अध्यगीष्ट अध्यगाघाताम्, अध्यगीषत, अध्यगीष्ठाः, अध्यगीढ्वम्. जिस पक्ष मे गाड् ( ३४४ ) न हुआ वहां—अध्यैष्ट, अध्यैषाताम्, अध्यैढ्वम्, अध्यगीष्यत. अध्यगीष्येताम्, अध्यगीष्यन्त, अध्यैष्यत ॥ ३७ [ इक् ] स्मरणे = स्मरण करना। यह भी धातु अधि उपसर्गपूर्वक ही है इस मे कारकविषयक 'अधीगर्थ-देशां कर्माण' सूत्र का प्रमाण है। अध्यति, अधीत, अधीयन्ति, अध्याष, अधीयाय, अधीयतुः, अधीयुः, अध्येतासि, अध्येष्यति, अध्येषति, अध्यैषाति अध्येषति, अध्येषाति, अध्येतु, अधीतान्, अधीताम्, अधीयन्तु, अधीहि, अध्ययानि, अध्ययाव, अध्यवाम, अध्यैत्, [ अध्यैताम्, ] अध्यायन्, अध्यैः, अध्यायम्, अधीयात्, अधीयाताम्, अधीयुः, अधीयात्, अधीयास्ताम्।

३४७-वा०-इण्वदिक इति वक्तव्यम् \* ॥  
२।४।४५ ॥

\* इस वातिक को भट्टोजिदीक्षित ने लट् लकार मे लगा के और "अधियन्ति" प्रयोग इक् धातु को यण ( ३३२ ) करके बनाया और पीछे यह भी लिखा है कि कोई लग इस को आधधातुक विषय मे कहते ह, उनके मत मे "अधायन्ति" होगा। सो यह महाभाष्य से विरुद्ध होने के कारण माननीय नहीं। भाष्यकार ने इस वातिक को ( ३४२ ) सूत्र पर लिखकर लुङ लकार के उदाहरण दिये हे और ( ३४२ ) सूत्र भी आर्धधातुक अधिकार मे होने से लट् लकार में इक् धातु को इण्वत् कार्य कदापि नहीं हो सकता। फिर "अधियन्ति" प्रयोग सर्वथा अशुद्ध हे ॥

आर्धधातुक अधिकार मे इक् धातु को इण् के तुल्य कार्य होवें अर्थात् लृङ् लकार मे जो इण् धातु को गा आदेश ( ३४२ ) कहा है सो इक् को भी होवे । अध्यगात्, अध्यगाताम्, अध्यगुः, अभ्यष्यत ॥ ३८ [ ची ] गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखाद-  
नेषु = गति, व्याप्ति, गर्भ होना, इच्छा, फेंकना और खाना । वेति, वीतः, वियन्ति ( १५९ ) इयङ्, वेषि, विवाय, विव्युः, १ विव्युः, विवयिथ, विवेथ, वेता, वेष्यति, वैपति, वैषाति, वेषति, वेषाति, वयति, वयाति, वेतु, वीतात्, वीहि, वयानि, अवेत्, अवीताम्, अवियन्, २ अवे, वीयात्, वीयाताम्, वीयुः; [ वीयात् ] वीयास्ताम्,

१ 'वि + अतुस्' इस अवस्था मे द्विवचन और इयङादेश दोनों प्राप्त होते है । परत्व से इयङादेश होना चाहिये, परन्तु 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' ( सन्धि० ११४ ) में पर शब्द को इष्ट वाची मानकर प्रथम द्विवचन होता है तदनन्तर इयङ् को बाधकर परत्व से 'एरनेकाचो' ( आ० १५६ ) से यणादेश होता है ।

धातुवृत्तिकार सायण ने पहले इयङादेश करके 'द्विवचनेऽचि' ( आ० २४५ ) से स्थानिवत् मानकर द्विवचन किया है, तदनन्तर पुनः इयङ् की प्राप्ति होने पर परत्व से यणादेश होना लिखा है । इस लेख में दो भूले हैं । प्रथम—'द्विवचनेऽचि' सूत्र से जो स्थानिरूप होता है वह केवल द्विवचन कार्य करने के लिये होता है न कि वस्तुतः वैसा रूप बन जाता है । अतः पुनः इयङ् की प्राप्ति ही नहीं होती तो यणादेश परत्व से किस को बाधेगा । दूसरा—महाभाष्यकारने 'द्विवचनेऽचि' सूत्र के जितने प्रयोजनों की गणना की है उनमे इयङ् को स्थानिरूप करना प्रयोजन नहीं लिखा, अतः द्विवचन से पूर्व इयङ् करना ठीक नहीं है

२. 'वि + अन्ति' इस अवस्था में अट् और इयङ् दोनों की प्राप्ति होती है । परत्व से प्रथम इयङ् होता है पुनः अडागम । यदि किसी



अवैषीत्, अवैष्टाम्, अवैषुः, अवैष्यत् ॥ इस वी धातु में मिला उन्ही अर्थों में “ई” धातु भी मानते हैं । एति, ईत्, इयन्ति, इयाय, ईयतुः, एता, एष्यति, ऐषति, ऐषाति ॥ ३९ [ या ] प्रापणे = प्राप्त होना । याति, यातः, यान्ति, ययौ, ययतु, ययुः, ययिथ, ययाथ, यातासि, यास्यति, यासति, यासाति, यातु, अयात्, अयाताम् ।

३४८--लङ्: शाकटायनस्यैव ॥ ३।४।१११ ॥

आकारान्त धातु से परे जो लङ् लकार का कि उसको जुस् आदेश हावे शाकटायन आचार्य ही के मत में । अयुः ( ८५ ) पररूप एकादेश, अया, अयातम्, अयात, अयाम्, अयाव, अयाम; यायात्, यायाताम्, यायास्ताम्, अयासीत्, अयासिष्टाम्, अयासिषुः, अयास्यत् ॥ ४० [ वा ] गतिगन्धनयोः = गति और सूधना<sup>१</sup> । वाति, वात, वान्ति, वासि, ववौ, वातासि, वास्यति, वासति, वासाति, वातु, वाहि, अवात्, अवासीत्, अवास्यत् ॥ ४१ [ भा ] दीप्तौ = प्रकाश । भाति, बभौ ॥ ४२ [ ष्णा ] शौचे । स्नाति, सन्तौ, स्नेयात् ( २५२ ) स्नायात्, अस्नासीत् ॥ ४३ [ आ ] पाके । श्रेयात्, श्रायात् ॥ ४४ [ द्रा ] कुत्साया गतौ = निन्दित गति<sup>२</sup> । द्रेयात्, [ द्रायात् ] ॥

प्रकार भडागम की प्राप्ति पहले भी मानलें तब भी भडागम को असिद्ध मानकर इयडादेश ही होगा न कि यणादेश ।

१ गन्धन का अर्थ वृत्तिकार ने ‘अपकारप्रयुक्त हिसात्मकं सूचनम्’ माना है ( काशिका १ । ३ । ३२ ) । महर्षि दयानन्द ने वेदभाष्य में गन्धन शब्द का अर्थ ‘हिसा’ और ‘सूचना’ किया है । यथा-वायो दुष्टाना हिसक ! ( ऋ० भा० १ । १३५ । ४ ), वायो वाति जानाति सूचयति सदसत्पदार्थानिति वायुः, तत्सबुद्धौ ( यजु० भा० ६ । १६ ) ।

२. द्रातीति गतिकुत्सना । निरुक्त २ । ३ ॥

४५ [प्सा] भनखे = खाना । प्साति, प्प्तौ, प्प्सेयात्, प्प्सायात् ॥  
 ४६ [ पा ] रत्नणे । [पायात्,] पायास्ताम् (२५२) सूत्र मे पा धातु  
 से पिबति<sup>१</sup> का ग्रहण होने से इस धातु को एकारादेश (२५२)  
 नहीं होता । अपासीन् (९१) सूत्र मे भी पिबति का ही  
 ग्रहण होने से सिच्लुक् नहीं होता ॥ ४७ [ रा ] दाने ।  
 राति ॥ ४८ [ ला ] आदाने । लाति, लायात् ॥  
 ४९ [ दाप् ] लवन = काटना । दाति, दायास्ताम् । चुसद्वा के  
 (२४६) न होने से एकार आदेश और 'अदासीन्' सिच्लुक्  
 (९१) नहीं होता ॥ ५० [ ख्या ] प्रकथने = अच्छे प्रकार  
 कहना । इस धातु के प्रयोग सार्वधातुकविषय मे ही समझने चाहिये,  
 क्योंकि आर्धधातुक विषय मे चान्द्व धातु का ख्याच् आदेश  
 (३१२) कह चुके हैं उसी के प्रयोग आने है<sup>२</sup> । ख्याति, ख्येयात्,  
 ख्यायात् ॥ ५१ [ प्रा ] पूरणे = तृप्त करना । प्राति, प्रेयात्,  
 प्रायात्, अप्रासीत् ॥ ५२ [ मा ] माने = समा जाना<sup>३</sup> । माति,  
 ममौ, ममिथ, ममाथ, मातासि, मास्यति, मासति, मासाति, मातु,  
 माहि, अमात्, मेयात् (२४७), मेयास्ताम्, अमासीत्, अमा-  
 स्यत् ॥ ५३ [ वच ] परिभाषण = व्याख्यान करना । वक्ति,  
 वक्तः, वचन्ति, वक्ति, वक्त्यः, वच्मि, उवाच (२८२) सप्रसारण ।

१. गापोर्ग्रहण इण्पिबत्योर्ग्रहणम् (वा० २ । ४ । ७७) नियम से ।

२. इस विषय में पृष्ठ २०६ की टिप्पणी १, २ देखो ।

३. इस अर्थ में 'माति घृत पात्रे' वाक्य में प्रयोग होता है ।

४. इस धातु का 'अन्ति' परे रहते प्रयोग नहीं होता, ऐसा किन्हीं  
 वैयाकरणों का मत है । कई एक 'क्षि' परे सर्वत्र प्रयोगाभाव मानते हैं ।  
 कुछ एक तीनों पुरुषों के बहुवचनों में इसका प्रयोग स्वीकार नहीं करते ।  
 आत्रेय केवल एकवचन के प्रयोग लिखकर द्विवचन और बहुवचन में

ऊचतुः (२८३), ऊचु, उवाचिथ उवक्थ, वक्तासि, वक्ष्यति, वाचति, वाचाति, वक्तु, वाग्धि, वचानि अवक्, अवक्ताम्, अवचन्, अवक्, वच्यात्, उच्यात् (२८३), उच्यास्ताम्, अवाचत्, अङ् और (३३५) उम् आगम । ये इण् आदि अनिट् परस्मैपदी धातु समाप्त दृष्ट ॥ ५४ [ विद् ] ज्ञाने ।

३४६—विदो लटो वा ॥ ३ । ४ । ८३ ॥

विद् धातु मे परे लट् लकार सबन्धी परस्मैपदसङ्गक प्रत्ययो के स्थान मे णल् आदि ९ आदेश यथासंख्यक और विकल्प करके होवें । वेद, विदतुः, विदुः, वेत्थः विदथुः, विद, वेद, विद्व, विद्य । पञ् मे—वेत्त, वित्तः, विदन्ति । आम्प्रत्ययविधायक (२१३) सूत्र में विद् धातु का अकारान्त निपातन भाष्यकार ने माना हैं, आम् प्रत्यय के परे विद् धातु के अकार का लोप (१७२) होकर स्थानिवत् होने से आम् प्रत्यय को मानकर गुण नहीं होता । विदाञ्चकार, विदाञ्चक्रुः, विदाञ्चक्रु । पञ् मे—विवेद, विविदतुः, विविदुः, विवेदिथ । वेदतासि, वेदष्यति, वेदिषति, वेदिषाति, वेदति, वेदाति, वेत्तु, वित्तात् वित्ताम् ।

३५०—विदाङ्कुर्वन्तिवत्यन्यतरस्याम्\* ॥

३ । १ । ४१ ॥

अन्यों के मत से अप्रयोग मानता है । वस्तुतः ये सब मत अयुक्त हैं, महाभाष्य आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं मिलता । महा-भारतादि में 'ऊचतुः, ऊचुः' प्रयोग बहुधा मिलते हैं । स्कन्द स्वामी ने ऋग्वेदभाष्य में 'प्रवचन्ति' का प्रयोग किया है ।

\* इस सूत्र मे जो शक्ति शब्द पढा है उस से शब्द के स्वरूप का बोध होता है, और शक्ति शब्द का यही प्रयोजन सर्वत्र आता है । काशिकाकार और भट्टोजिदीक्षित

लोट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन मे “विदाङ्कुर्वन्तु” विकल्प से निपातन किया है। विद् धातु से आम् प्रत्यय कृञ् का अनुप्रयोग और उ प्रत्यय विकरण आदि निपातन से होते हैं। और पक्ष में—‘विदन्तु’ भी होता है। विद्धि, वित्तात्, वित्तम्, वित्त, वेदानि, वेदाव, वेदाम्; अवेन्, अवित्ताम्, अविट्टुः (१३७) फिको जुस्।

३५१—दश्च ॥ ८ । २ । ७५ ॥

धातु के पदान्त दकार को रु आदेश विकल्प करके होवे सिप् परे हो तो। अवेः, रु को विसर्जनीय। पक्ष में—अवेत्, अवित्तम्, अवित्त, अवेदम्, अविद्ध, अविद्धम्; विद्यात्, [ विद्याताम्, ] विद्युः, [ विद्यात्, ] विद्यास्ताम्, अवेदीत्, अवेदिष्टाम्, अवेदिषुः, अवेदिष्यत् ॥ ५५ [ अस ] भुवि। यह धातु भू धातु के अर्थ में है। अस्ति।

३५२—श्नसोरल्लोपः । ६ । ४ । १११ ॥

श्न प्रत्यय और अस् धातु के अकार का लोप होवे कित् क्ति सार्वधातुक परे हो तो। अस्+तस्=स्तः, सन्ति, आसि, ( ५५ ), स्थः, स्थ, आस्मि, स्वः, स्मः।

३५३—अस्तेभूः ॥ २ । ४ । ५२ ॥

आदि ने लिखा है कि इति शब्द पढ़ने से पुरुष और वचन की विवक्षा नहीं कि लोट् के प्रथम पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग निपातन किया होवे, किन्तु लोट् लकार के सब प्रयोगों में निपातन किया है ‘विदाङ्करोतु’ आदि भी प्रयोग होते हैं, सो यह व्याख्यान माननीय नहीं है, क्योंकि मूल और महाभाष्य से विरुद्ध हैं। इससे अगले “अभ्युत्सादया०” सूत्र में ऐसे ही आम्प्रत्ययान्त निपातन किये हैं वहाँ भी इति शब्द पढ़ा है उसका व्याख्यान इन लोगों ने भी स्वरूपबोधक ही रखा है। इस से इनका व्याख्यान पूर्वापर विरुद्ध भी है।

अस धातु को भू आदेश होवे सामान्य आर्धधातुक विषय में अर्थान् आर्धधातुक लकारों में भू धातु के ही प्रयोग होते हैं अस के नहीं। बभूव, बभूवतु., बभूविथ, भवितारि, भविष्यति, भाविषति, भाविषति, असति, असाति, असत्, असात्, अस्तु, स्तात्, स्ताम्, सन्तु ( ३५२ ), अस्+हि—यहा—

### ३५४—ध्वासोरेद्धावभ्यासलोपश्च ॥६।४।११६॥

घुसंज्ञक और अस धातु को एकारादेश और घुसंज्ञक के अभ्यास का लोप होवे हि परे हो तो। अस धातु के अन्त्य अल् सकार के स्थान में एकारादेश होता है। पीछे एकारादेश को असिद्ध ( ४४ ) मानकर हि को धि ( ३०० ) और अकार का लोप ( ३५२ ) होता है। एधि, स्तात्, स्तम्, स्त, असानि, असाव, असाम, लङ् में डट ( १३४ ) आसीत्। यहा भी तस् आदि में लोपके के बलाय होने से अकार लोप ( ३५२ ) होकर अजादि के न होने से आट् ( १२० ) नहीं प्राप्त है सो अकार लोप को असिद्ध ( ४४ ) मानकर आट् हो जाता है। आस्ताम्, आसन्, आसीः, आस्तम्, आस्त, आमम्, आस्व, आस्म, स्यात्, स्याताम्, स्युः, स्या; भूयात्, भूयास्ताम्, अभूत्, अभूताम्, अभूवन्, अभविष्यत् ॥ ५६ [ मृजूष् ] शुद्धौ = पवित्रता। यह धातु ऊदित्<sup>२</sup> है।

१. कई वैयाकरण 'मृजा' शब्द का पाठ भिदादिगण में नहीं मानते। उनके मत में अङ् करने के लिये षित् करण है। अन्य वैयाकरण षकार नहीं पढ़ते।

२. ऊदित् पढ़ने से इट् का विकल्प होता है। कई अनिट् कारिका ( ५ ) में 'मृजिमृजि' पढ़ते हैं, वह अशुद्ध है। यह भूमिकान्तर्गत अनिट् कारिका की टिप्पणी में लिख चुके हैं।

३५५—मृजेवृद्धिः ॥ ७ । २ । ११४ ॥

मृज धातु के इक् को वृद्धि होवे सामान्य प्रत्ययों के परे ।  
ऋकार का आर् वृद्धि । मार्षि ( २३३ ) षत्व, मृष्ट. ।

३५६—वा०—इहान्ये वैयाकरणा मृजेरजादौ  
संक्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते ॥ १ । १ । १८ ॥

यह वार्तिक " इको गुणवृद्धी " सूत्र पर है । इस व्याकरण शास्त्र मे बहुतेरे वैयाकरण लोग मृज धातु को अजादि कित् डित् प्रत्ययों के परे विकल्प करके वृद्धि कहते है । मार्जन्ति, मृजन्ति, मार्क्षि, मृष्ट, मृष्ट, मार्ज्मि, मृज्व, मृज्म; ममार्ज, ममार्जन्तु, ममृजन्तु; ममार्जु, ममृजु. । ऊदित् होने से इट् का विकल्प ( १४० )—ममार्जिथ, ममार्ष्ट, ममार्जथु, ममृजथु, ममार्ज, ममृज, ममार्ज, ममर्ज, ममार्जिव, ममृजिव, ममृज्व, ममार्जिम, ममृजिम, ममृज्म; मार्जितासि, मार्ष्टासि; मार्जिष्यति, मार्क्ष्यति, मार्जिषति, मार्जिषति, मार्क्षति, मार्क्षति, मार्जति, मार्जाति, मार्ष्टु, मृष्टात्, मृष्टाम्, मार्जन्तु, मृजन्तु, मृड्ढि, यहा षत्व ( २३३ ) होने के पश्चात् जश्त्व ष्टुत्व होते हैं । मार्जानि, मार्जाव, मार्जाम्; अमार्ष्ट, अमृष्टाम्, अमार्जन्, अमृजन्, अमार्जम्; मृज्यात्, मृज्याताम्, [ मृज्यात्, ] मृज्यास्ताम्, अमार्जिन्, अमार्जिष्टाम्, अमार्क्षि, अमार्ष्टाम्, अमार्क्षुः, अमार्जिष्यन्, अमार्क्ष्यन् ॥ ५७ [ रुदिर् ] अश्रुविमोचने = रोना ।

३५७—रुदादिभ्यः सार्वधातुके ॥ ७ । २ । ७६ ॥

रुद्, स्वप्, श्वस्, अन और जन्, इन पांच धातुओं से परे वलादि सार्वधातुक को इट् का आगम होवे । रोदिति, रुदित्; रुदन्ति, रोदिषि, रुदिथ; रुदिथ, रोदिमि, रुदिव; रुदिमः; रुरोद, रुरुदतु; रुरुद्, रुरोदिथ; रोदितासि, रोदिष्यति, रोदिषति,

रोदिषाति, रोदति, रोदाति, रोदितु, रुदिहि, रोदानि, रोदाव,  
रोदाम ।

३५८—रुदश्च पञ्चभ्यः ॥ ७ । ३ । ६८ ॥

रुद आदि उक्त पांच धातुओं से परे हलादि पित् अपृक्त सार्व-  
धातुक को ईट् का आगम होवे । अरोदीत्, अरोदीः ।

३५९—अड् गार्ग्यगालवयोः ॥ ७ । ३ । ६९ ॥

गार्ग्य और गालव आचार्यों के मत में रुद आदि पांच धातुओं  
से परे उक्त सार्वधातुक को अट् का आगम होवे । यह ईट् और  
अट्, इट् के आगम का निषेधक हैं । अरोदत्, अरुदिताम्,  
अरुदन्, अरोदः, अरुदितम्, अरुदित, अरोदम्, अरुदिव,  
अरुदिम । प्रकृति और प्रत्यय की विशेष अपेक्षा रखने वाले अट्  
और ईट् आगमों में अन्तरङ्ग होने के कारण यासुट् प्रथम हो  
जाता है, फिर ईट् और अट् की प्राप्ति नहीं है । रुद्यात्, रुद्याताम्,  
[ रुद्यात्, ] रुद्यास्ताम् । इरित् होने से अड् विकल्प ( १३८ )  
अरुदत्, अरुदताम्, अरुदन्, अरोदीत्, अरोदिष्टाम्, अरो-  
दिषु ॥ ५८ [ जिष्वप् ] शये = सोना । स्वपिति ( ३५७ )  
इट्, स्वपितः, स्वपन्ति, सुष्वाप ( २८२ ) सप्रसारण, सुषुपतुः  
( २८३ ), सुषुपु, सुष्वपिथ, सुष्वथ, स्वप्तासि, स्वप्स्यति,  
स्वाप्सति, स्वाप्साति, स्वप्सति, स्वप्साति, स्वपति, स्वपाति, स्वपितु,  
स्वपितात्, स्वपिहि, अस्वपीत् ( ३५८ ), अस्वपत् ( ३५९ ),  
अस्वपिताम्, अस्वपन्, अस्वपीः, अस्वपः, अस्वपम्, स्वप्यात्,  
स्वप्याताम्, सुप्यात्, ( २८३ ) सुप्यास्ताम्, अस्वाप्सीत्, अस्वा-  
प्ताम्, अस्वाप्सुः, अस्वाप्सीः, अस्वाप्तम्, अस्वाप्त, अस्वाप्तम्,  
अस्वाप्स, अस्वाप्सम्, अस्वप्स्यत् ॥ ५९ [ श्वस ] प्राणने =  
ऊपर का श्वास । श्वसिति, श्वसितः, श्वसन्ति, शश्वास, शश्वासतुः,

शश्वसुः, शश्वसिथ, शश्वसितासि, शश्वसिष्यति, शश्वसिषति, शश्वसिषाति,  
शश्वसितु, शश्वसिहि, अश्वसीत्, अश्वसत्, अश्वसीः, अश्वसः, शश्वसात्,  
अश्वसीत् (१६२) वृद्धि का का निषेध, अश्वसिष्यत् ॥  
६० [ अन ] च । यह धातु भी प्राणन अर्थ मे है । अनिति, आन,  
आनतु, अनितु, आनीत्, आनत्, आनीः, आनः, अन्यात्,  
आनीत्, आनिष्टाम्, आनिष्यत् ॥ ६१ [ जक्ष ] भक्षह-  
सनयो. = खाना और हसना । जक्षिति, जक्षितः ।

३६०--जक्षित्यादयः षट् ॥ ६ । १ । ६ ॥

जक्ष धातु से लेकर वेवीड पर्यन्त सात धातुओं की अभ्यस्त  
संज्ञा होवे । इस सूत्र मे अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि है । अर्थात्  
जक्ष धातु जिन के आदि मे हो ऐसे अन्य छः धातु और जक्ष  
सातवां हुआ । अभ्यस्त का फल—

३६१--अदभ्यस्तात् ॥ ७ । १ । ४ ॥

अभ्यस्तसंज्ञक धातुओं से परे जो प्रत्यय का आदि ऋकार उस  
को अत् आदेश होवे । यह अन्त आदेश का बाधक है । जक्षति,  
जक्षिषि, जक्षत्, जक्षिथ, जक्षितासि, जक्षिष्यति, जक्षिषति,  
जक्षिषाति, जक्षति, जक्षति, जक्षितु, जक्षतु, जक्षिहि, अजक्षीत्,  
अजक्षत्, अजक्षिताम्, अजक्षुः ( १३७ ) अभ्यस्त हाने से जुस्,  
अजक्षीः, अजक्षः, जक्ष्यात्, जक्ष्याताम्, [ जक्ष्यात्, ] जक्ष्या-  
स्ताम्, अजक्षीत्, अजक्षिष्यत् । ये रुदादि पाच धातु समाप्त  
हुए ।

६२ [ जागृ ] निद्राक्षये = जागना । इस धातु के अन्त्य ऋकार  
का लोप नहीं होता, क्योंकि वह उपदेश मे अनुनासिक नहीं पढ़ा  
है । जागर्त्ति, जागृत् जाग्रति, अभ्यस्त संज्ञा ( ३६० ) होने से  
प्रत्ययादि ऋकार को अत् । जागर्षि, जागृथः, जागृथ, जागर्मि,



जागृवः, जागृमः । लिट् मे विकल्प से आम् ( २१३ )—जागरा-  
ञ्चकार, जागराम्बभूव, जागरामास । पक्ष मे यह धातु दो स्वर-  
वाला है इसलिये प्रथम एकाच् अवयव 'जा' मात्र का द्वित्व होता  
है—जजागार ।

३६२—जाग्रोऽविचिरणलुङित्सु ॥ ७ । ३ । ८६ ॥

जागृ धातु को गुण होंवे वृद्धि विषय और निषेध विषय मे,  
परन्तु वि, चिण्, णल् और ङित् प्रत्ययो के परे न होंवे । वि करके  
उणादि का विन् प्रत्यय लिया है । इस सूत्र से तीन प्रकार का  
नियम निकलता है । १—एक तो कित् ङित् प्रत्ययो मे गुण नहीं  
प्राप्त है वहां कित् मे होना ङित् मे नहीं, २—विन् प्रत्यय मे गुण  
प्राप्त है वहां न होना—जागृविः, ३—चिण् और णल् को छोड़ के  
अन्यत्र वृद्धि विषय मे गुण होना, वृद्धि नहीं । फिर चिण् और णल्  
मे वृद्धि हां होती है । जजागरतुः, जजागरुः, जजागरिथ, जागरि-  
ताम, जागरिष्यति, जागरिषति, जागरिषाति, जागर्तु, जागृतात्,  
जागृताम्, जाग्रतु, जागृहि, जागराणि, जागराव, जागराम;  
अजागः, अजागृताम् । अभ्यस्त होने से जुस् ( १३४ )—

३६३—जुसि च ॥ ७ । ३ । ८३ ॥

अजादि<sup>१</sup> जुस् परे हो तो इगन्त अङ्ग को गुण होंवे । अजा-  
गरुः । यहां ङित् होने से गुण नहीं प्राप्त है इसलिये यह सूत्र है ।  
अजाग, अजागरम्, जागृयात्, जागृयाताम्, जागृयु । अजादि<sup>२</sup>  
के कहन स यहां जुस् मे गुण नहीं होता—जागयोत्, जागर्या-

१. जज्ञस्तजागृभ्यः क्तिन् । उणादि० ४ । ५४ ॥

२. काशिकाकार भादि अजादि की अनुवृत्ति नहीं मानते । महा-  
भाष्यकार ने मानी है—अथवा अचीति वर्तते ( ७ । ३ । ७२ ), तेन जुसं  
विशेषयिष्याम, अजादौ जुसीति । महा० ७ । ३ । ८३ ॥

स्ताम्, जागर्यासुः। लुङ् में—‘अट् + जागृ + इस् + इट् + तिप्’  
 इस अवस्था में जागृ धातु क ऋकार का १ यणादेश प्राप्त है उसका  
 बाधक २ गुण ( २१ ) प्राप्त और गुण का अपवाद ३ वृद्धि (१५८)  
 प्राप्त है उसका भी अपवाद ४ गुण ( ३६२ ) हाता है फिर अर्  
 गुण होकर हलन्त होने से ५ वृद्धि ( १३२ ) प्राप्त है उसका  
 ६ निषेध ( १३३ ) होकर ७ विकल्प से वृद्धि ( १४४ ) प्राप्त है  
 उसका बाधक ८ नित्य वृद्धि ( १९६ ) प्राप्त है उसका भी ९ निषेध  
 (१६२) हो जाता है’। अजागरीत्, अजागरिष्टाम्, अजागरिष्यत् ॥  
 ६३ [ दरिद्रा ] दुर्गता=बुग हाल । दरिद्राति ।

३६४—इदरिद्रस्य ॥ ६ । ४ । ११४ ॥

हलादि कित् ङिन् सार्वधातुक परे हां तो दरिद्रा धातु को  
 इकागदेश हां । अन्य अल् आकार का होता है । दरिद्रित ।

३६५—इनाभ्यस्नयोरातः ॥ ६ । ४ । ११२ ॥

आ प्रत्यय और अभ्यन्तसङ्गक धातुओं के आकार का लोप हां  
 कित् ङिन् सार्वधातुक परे हां तो । दरिद्रति, दरिद्रासि, दरिद्रिथः,  
 दरिद्रिथ, दरिद्रामि, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः । ( १६९, १७० ) सूत्रों से  
 दरिद्रा धातु का अनेकाच् होने से आम् प्रत्यय होता है—दरिद्रा-

१. ‘अजागरीत्’ में ऋकार को उपर्युक्त ९ कार्य क्रमशः प्राप्त होते  
 हैं। कैयट लिखता है— “गुणो वृद्धिगुणो वृद्धि प्रतिषेधो विकल्पनम् ।  
 पुनर्वृद्धिनिषेधोऽतो यणपूर्वा प्राप्तयो नच ॥” महाभाष्यप्रदीप  
 ७ । २ । ५ ॥

२. संख्या १७० वार्तिक है । वार्तिक के लिये भी सूत्र शब्द का  
 व्यवहार होता है । यथा—नद्याचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति ।  
 महाभाष्य अ० १ पा० १ आ० १ ।

श्वकार, दरिद्राम्बभूव, दरिद्रामास । वेद में आम् प्रत्यय नहीं होता<sup>१</sup> चहां—

३६६—वा०—दरिद्रान्तेरार्धधातुके लोपो  
वक्तव्यः ॥ ६ । ४ । ११४ ॥

आर्धधातुक प्रत्ययो की विवक्षा मे दरिद्रा धातु के आकार का लोप होवे । प्रयोजन यह है कि इट् और अजादि कित् ङित् आर्धधातुक मे आकारलोप ( २४४ ) [ से ] होता है इस वार्तिक से हलादि [ तथा ] कित् ङित् [ रहित अजादि ] आर्धधातुक मे भी हाजाता है । ददरिद्रौ, ददरिद्रतुः, ददरिद्रुः, ददरिद्रिथ, दरिद्रितासि, दरिद्रिभ्यति, दरिद्रिषाति, दरिद्रातु, दरिद्रितात्, दरिद्रिताम्, दरिद्रतुः, दरिद्रिहि, दरिद्राणि; अदरिद्रात्, अदरिद्रिताम्, अदरिद्रुः,

१ कैपट आदि वैयाकरण 'वस्त्रेकाजाद्घसाम्' ( आ० १२४० ) के महाभाष्य से दरिद्रा धातु से आम् के अनित्यत्व का ज्ञापन करते हैं अर्थात् भाषा में भा आम् रहित के प्रयोग मानते हैं । ज्ञापक इस प्रकार है—'आन औ णल.' ( आ० २४३ ) में ओकार का विधान करने से 'ययौ' आदि में वृद्धि होकर औत्व ही जायगा पुन ओकार विधान करना अनर्थक होकर ज्ञापन करता है कि दरिद्रा से आम् नहीं होता । जब आम् नहीं हुआ तब उस पक्षमें ( ३६६ ) सूत्र से आर्धधातुक विषय में आकार का लोप होकर 'ददरिद्रौ' प्रयोग की सिद्धि के लिये सूत्रकार ने औत्व विधान किया है ।

हमारी मति में कैपट आदि का ऐसा लिखना अशुद्ध है, क्योंकि महाभाष्य से भाषा में आम् का अभाव सूचित नहीं होता । वेद मे आम् नहीं होता अत वेद मे आम् का अभाव होने पर औत्व विधान सार्थक है । सार्थक होने पर ज्ञापक नहीं हो सकता । इसलिये आख्यातिक का लेख ठीक है ।

दरिद्रियात्, दरिद्रियाताम्, दरिद्रियुः; दरिद्र्यात्, दरिद्र्यास्ताम्  
यहां हलादि कित् आर्धधातुक मे लोप ( ३६६ ) होता है ।

३६७-वा०-अद्यतन्यां वेति चकतव्यम् ॥६।४।११४॥

लुङ् लकार मे दरिद्रा धातु के आकार का लोप विकल्प करके  
होवे । पूर्व आचार्यों के मत मे अद्यतनी संज्ञा लुङ् लकार की है ।  
अदरिद्रात्, अदरिद्राष्टाम्, अदरिद्रासीत् ( २५१ ), अदरिद्रिष्यत् ।

३६८-का०-न दरिद्रायके लोपो दरिद्राणं च नेष्यते ।

दिदरिद्रासतीत्येकेदिदरिद्रिषतीति वा ॥६।४।११४॥

आर्धधातुक में सामान्य करके जा लोप ( ३६६ ) कहा है सो  
'दरिद्रायकः' यहा कृदन्त एतुल प्रत्यय मे तथा 'दरिद्राणम्' यहां  
ल्युट् प्रत्यय मे आकारलोप न होवे, और सन् प्रत्यय के परे विकल्प  
करके होवे—दिदरिद्रासति, दिदरिद्रिषति ॥ ६४ [ चकास् ]  
दीप्तौ = प्रकाश । चकास्ति, चकास्त', चकासति, चकासाञ्चकार,  
( १७० ) आम्, चकासाम्बभूव, चकासामास, चकासितासि,  
चकासिष्यति, चकासिषाति, चकासिषाति, चकास्तु, चकासतु,  
"चकास् + हि"—यहां प्रथम हि को धि आदेश ( २०० ) होकर  
घकार के परे सलोप ( ११३ ) हां जाता है—चकाधि', चकासानि ।  
अचकास् + त् -यहा " हलङ्-व्याभ्यो दीर्घात् " स तकार का  
लोप हाकर—

१. महाभाष्यकार के मत मे 'धि च' ( भा० ११३ ) से सकार  
मात्र का लोप होकर 'चकाधि' प्रयोग बनता है । जो लोग सिच् के  
सकार का ही लोप मानते हैं उनके मत में 'चकाधि' प्रयोग होता है ।

२. ना० ४८ ।

३६६—तिप्यनस्तेः ॥ ८ । २ । ७३ ॥

अस धातु को छोड़ के अन्य धातु के पदान्त सकार को दकार आदेश होवे तिप् परे हो तो । अचकात्, अचकाद्, अचकास्ताम्, अचकासुः ।

३७०—सिपि धातो र्वा ॥ ८ । २ । ७४ ॥

सिप् परे हो तो धातु के पदान्त सकार को विकल्प करके रू हो, पक्ष में दकार हो । अचकाः, अचकात्, चकास्यात्, चकास्यास्ताम्, अचकासीत्, अचकासिष्टाम्, अचकासिष्यत् ॥ ६५ [शासु] अनुशिष्टौ = शिक्षा देना । शास्ति ।

३३१—शास इदङ्हलोः ॥ ६ । ४ । ३५ ॥

शास धातु को उपधा को इकार आदेश होवे अङ् और ह्लादि कित् ङित्, आर्धधातुक परे हो तो । शिष्टः ( २८४ ) षत्व, शासति, शास्सि, शिष्टः, शिष्ट, शास्मि, शिष्वः, शिष्मः; शशास, शशासतुः, शशासुः, शासितासि, शासिष्यति, शासिषति, शासिषति, शास्तु, शिष्टात्, शिष्टाम्, शासतु ।

३७२—शा हौ ॥ ६ । ४ । ३४ ॥

शास धातु को शा आदेश होवे हि परे हो तो । शा आदेश अनेकाल् होने से सम्पूर्ण के स्थान में होता है । शा आदेश को असिद्ध ( ४४ ) मानकर हि को धि आदेश ( ३०० ) हो जाता है । शाधि, शिष्टात्, शिष्टम्, शिष्ट, शासानि, अशात्, ( ३६९ ) अशिष्टाम्, अशासुः, अशा, ( ३७० ), अशात्, शिष्यात्, शिष्याताम्, [ शिष्यात्, ] शिष्यास्ताम् । लुङ् में ( २५६ ) सूत्र से अङ् होकर इकार ( ३७१ )—अशिषत्, अशिषताम्, अशिषन्, अशासिष्यत् । इति विदादय उदात्ताः परस्मैपदिनः, [ स्वपिस्त्वनुदात्तः ] । ये विद् आदि सेट् परस्मैपदी धातु हैं परन्तु स्वप धातु अनिट् है ।

अब आगे पांच धातु वेद विषयक कहते हैं, उनके प्रयोग लोक में नहीं आते। ६६ [ दीधीङ् ] दीमिद्वनयोः = प्रकाश और क्रीड़ा आदि। ६७ [ वेवीङ् ] वेतिना तुल्ये। 'वी गति-व्याप्ति०' इस लिखित धातु के अर्थों में वेवीङ् धातु भी है। दीधीते, दीध्याते (१५६) यण, दीध्यते, दीधीषे, दीध्याथे, दीधीध्वे, दीध्ये, दीधीवहे, दीधीमहे, वेवीते, वेव्याते, दिदीध्ये, । वेद में निषेध होने के कारण आम् प्रत्यय ( १६९ ) लिट् में नहीं होता। दिदीध्याते, दिदीध्यिरे।

३७३—यीवर्णयोर्दीधीवेऽयोः ॥ ७ । ४ । ५३ ॥

दीधी और वेवी धातु के अन्य वर्ण का लोप होवे यकारादि और इवर्ण परे हो तां। दिदीधिषे, विवीध्ये, षिवीधिषे, दिदीधिवहे, विवीधिवहे, दीधितासे, ( ५३ ) गुणनिषेध, वांवितासे, दीधिष्यते, दीधिषतै, दीधिषातै, दीध्यतै, दीध्यातै, दावाताम्, दीध्यै, अदीधीत, दीधीत, दीधिषीष्ट, अदीधिष्ट, अदीधिष्यत। उदात्तावात्मनेपदिनौ। ये दोनो धातु सेट् आत्मनेपदी हैं।

अथ त्रयः परस्मैपदिनः। [ अब तीन परस्मैपदी कहते हैं। ] ६८, ६९ [ षस्, षस्ति ] स्वप्ने = सोना। सस्ति, सस्त, ससन्ति, सस्सि, ससास, सेसतुः, ससितासि, ससिष्यति, सासिषति, सासिषाति, सस्तु, असत् ( ३६९ ), असस्ताम्, अससन्, असः, ( ३७० ), असत्, अससम्, सस्यात्, सस्याताम्, सस्युः, [ सस्यात्, ] सस्यास्ताम्, असासीत्, अससीत्, अससिष्यत्। सस्ति धातु में इदित् होने से नुम्, 'संस्तु + ति' इस अवस्था में संयोगादि सकार का लोप ( २१० ) होकर हल् से परे तकारलोप

( २७२ ) होता है । सन्ति<sup>१</sup>, सन्तः, संस्तन्ति, सन्त्सि, सन्थः, सन्थ, सन्त्सि, सन्त्व, सन्त्स; ससस्त, ससंस्तिथ, सस्तितासि, संस्तिष्यति, सास्तिषति, संस्तिषाति, सन्तु, सस्तात्, संस्ताम्, संस्तन्तु असन्, असन्ताम्, असंस्तन्, असन्, सस्त्यात्, मंस्त्याताम्, [ संस्त्यात्, ] संस्त्यास्ताम्, असस्तीत्, असंस्तिष्टाम्, असस्तिष्यत् ॥ ७० [ वश ] कान्तौ = इच्छा वा शोभा । वष्टि ( २३३ ) षत्व, ऊष्ट' ( २८६ ) सम्प्रसारण, उशन्ति, वक्षि, उष्ट' उष्ट, वश्मि, उश्व', उश्मः उवाश ( २८२ ), ऊशतुः, ( २८३ ), ऊशुः । उवशिथ, वशिता, वशिष्यति, वाशिषति, वाशिषाति, वशु, उष्ट्रात्, उष्ट्राम्, उशन्तु, उड्डि, वशानि, अवट्, औष्ट्राम्, औशन्, अवशम्, उश्यात्, उश्याताम्, [ उश्यात्, ] उश्यास्ताम्, अवाशीत्, अवशीत्, अवशिष्यत् । ये षस आदि तान् धातु परस्मैपदी समाप्त हुए ॥

चर्करीतञ्च इस गणसूत्र से यङ्लुगन्त धातुओं से परस्मैपद<sup>१</sup> और शप् का लुक् होता है । सो यङ्लुगन्त, प्रक्रिया का विषय है ॥

१. जहां अनेक हलो का समूह हो वहां दो हलो की संयोग सज्ञा नहीं होती, संयोग सज्ञा न होने से सकार का लोप ( २१० ) नहीं होता, अतः उस पक्ष में 'सस्ति, सस्तः, सस्तु, संस्तात्' आदि प्रयोग बनते ।

२. महाभाष्य ७ । १ । ६५ से ज्ञापन होता है कि इस गण सूत्र से केवल अदादित्व धर्म का विधान किया जाता है । अत एव भाष्यकार ने ७ । १ । ६५ में 'तेतिक्ते' पद से नियम किया है कि यङ्लुगन्त से आत्मनेपद हो तो 'तेतिक्ते' में ही हो । यदि इस गणसूत्र से परस्मैपद का भी विधान मानें तो 'तेतिते' पद नियमार्थ नहीं होगा, आत्मनेपद की विधि के लिखे होगा ।

७१ [ हनुङ् ] अपनयने = दूर करना । हुते हुवाते, हृषे, जुहुवे,  
 जुहुविषे, जुहुविद्धे, जुहुविध्वे, ह्योतासे ह्योष्यते, ह्यौषते, ह्यौषाते,  
 हुताम्, ह्वै, अहुत, हुवीत, ह्यौषीष्ट, अह्योष्ट, अह्योष्यत ।  
 अनुदात्त आत्मनेपदी । यह धातु अनिट् आत्मनेपदी है ।

॥ इति लुग्विकरणा अदादयः समाप्ताः ॥

॥ यह लुग् विकरणवाला अदादिगण समाप्त हुआ ॥



## अथ जुहोत्यादिगणः

[ हु ] दानादनयोः, आदाने चेत्येके = देना, खाना और ग्रहण करना । यहां दान अर्थ से अग्नि में हवन करना भी लिया जाता है और इस धातु को भाष्यकार ने वृत्ति अर्थ में माना है<sup>१</sup> ॥

३७४—जुहोत्यादिभ्यः श्लुः ॥ २ । ४ । ७५ ॥

हु आदि धातुओं से शप् के स्थान में श्लु होवे । श्लु संज्ञा भी प्रत्यय के अदर्शन का ही होती है, इस कारण शप् का लोप हो जाता है । हु + तिप्, यहां—

३७५—श्लौ ॥ ६ । १ । १० ॥

अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच् अवयव और आजादि धातु के द्वितीय एकाच् अवयव को द्वित्व हो श्लु परे हो तो । जुहोति, जुहुतः, । अभ्यस्त होने से प्रत्ययादि ऋ को अन् ( ३६१ ) और यण ( २६१ ) हाकर + जुह्वति, जुहोषि, जुहुथः, जुहुथ, जुहोमि, जुहुवः, जुहुम ।

३७६—बहुलं छन्दसि ॥ २ । ४ । ७६ ॥

वेद विषय में शप् के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके होवे । प्रयोजन यह है कि [ जब श्लु न हो तब ] 'हवति, भरति' आदि भी प्रयोग हो जावें ।

३७७—भीहीभृहुवां श्लुवच्च ॥ ३ । १ । ३६ ॥

भी, ही, भृ और हु धातुओं से आम् प्रत्यय विकल्प करके होवे लोक विषय में, लिट् लकार परे हो तो और आम् के परे श्लुवत् कार्य द्विर्वचन भी होवे । जुहवाञ्चकार, जुहवाञ्चकतुः, जुहवाम्ब-

१. जुहोतिश्चास्त्वैव प्रक्षेपणे वर्तते, अस्ति प्रीणात्यर्थं वर्तते । तद्यथा यवाग्वाऽग्निहोत्र जुहोति, अग्निं प्रीणाति । महाभाष्य २ । ३ । ३ ॥

भूव, जुहवामास, होतासि, होष्यति, हौषति, हौषाति, जुहवति, जुहवाति, हवति, हवाति, जुहोत्, जुहुतात्, जुह्वतु, जुह्वधि (३००) हि को धि, जुहवानि, अजुहोत्, अजुहुताम्, अजुहवतुः (१३७) जुस् होकर गुण ( ३६३ ), जुहुयात्, जुहुयाताम्, जुहुयु, हूयात्, ( १६० ) दीर्घ, अहौषीत् ( १५८ ) वृद्धि, अहौषाम्, अहौषुः, अहोष्यत् ॥ २ [ जिभी ] भये = डरना । वि की इत् सञ्जा ( १५० )—विभेति ।

३७८-भियोऽन्यतरस्याम् ॥ ६ । ४ । ११५ ॥

भी धातु को इकार आदेश विकल्प करके होवे हलादि कित् ङित् सार्वधातुक परे हो तो । दीर्घ ईकार को एक पक्ष में ह्रस्व हो जाता है । विभितः विभीतः, विभ्यति ( ३६१ ), विभेषि, विभिथः, विभीथः, विभयाञ्चकार, विभयामास, विभयाम्बभूव; पक्ष में—विभाय, विभ्यतुः, विभ्युः, विभेथ, विभयिथ, भेतासि, भेष्यति, भैषति, भैषाति, विभयति, विभयाति, भयति, भयाति, विभेतु, विभितात्, विभीतात्, विभिताम्, विभीताम्, विभ्यतु, अविभेत्, अविभिताम्, अविभीताम्, अविभ्यु, विभियात्, विभियाताम्, विभीयाताम्, भीयात्, अभैषीत्, अभेष्यत् ॥ ३ [ ही ] लज्जायाम् = लज्जा । जिहेति, जिहीतः, जिहियति, जिहयाञ्चकार, जिहयाम्बभूव, जिहयामास, जिहाय, जिहियतुः, जिहेथ, जिहयिथ, हेतासि, हेष्यति, हैषति, हैषाति, जिहेतु, जिहीतात्, [ जिहीताम्, ] जिहियतु, जिहीहि; अजिहेत्, जिहीयात्, हीयात्, अहेषीत्, अहेष्यत् ॥ जुहोत्यादयोऽनुदात्ताः परस्मैपदिन । हु आदि धातु अनिट् परस्मैपदी हैं ।

४ [ पृ ] पालनपूरणयोः = पालन और समाप्ति, उदात्त-परस्मैभाषः । यह धातु सेट् परस्मैपदी है । श्लु के परे द्वित्व ( ३७५ ) होकर—

३७६—अर्तिपिपत्योश्च ॥ ७ । ४ । ७७ ॥

ऋ और प धातु के अभ्यास को इकार आदेश हांवे श्लु परे हो तो । पिपति । यहा अभ्यास के ऋकार को उकार आदेश ( ३८० ) प्राप्त है उसका बाधक गुण ( २१ ) होता है ।

३८०—उदोष्ट्यपूर्वस्य ॥ ७ । १ । १०२ ॥

ओष्ठस्थानी वरण जिस के पूर्व हो ऐसा जो ऋकार तदन्त अङ्ग को उकार आदेश होवे । ऋ के स्थान में रपर उकार होकर—पिपूर्तः ( १९७ ) दीर्घ, पिपुरति, पिपर्षि, पिपृथ, पिपृथ, पिपरिर्म, पिपूर्वः, पिर्म; पपार । कित् लिट् अतुस् आदि मे गुण ( २५८ ) प्राप्त है उसका बाधक—

३८१—शृदृप्रां ह्रस्वो वा ॥ ७ । ४ । १२ ॥

शृ, दृ और प धातुओं को विकल्प करके ह्रस्व होवे कित् लिट् परे हां तो । पक्ष मे गुण ( २५८ ) होता है, ह्रस्व पक्ष मे गुण नहीं । पप्रतुः, यण, पप्र, यण, पपरतुः, पपरुः, पपरिथ, पप्रथुः, [पपरथु] पप्र, पपर, पपार, पपर, पप्रिव, पपरिव, पप्रिम, पपरिम, परीतामि, परितासि ( २६४ ) इट् को दीर्घ विकल्प । परीष्यति, परिष्यति, पारीषति, पारीषाति, पारिषति, पारिषाति, परीषति, परीषाति, षरिषति; परिषाति, पिपरति, पिपराति; पिपर्तु, पिपूर्तात्, पिपृताम्, पिपुरतु, पिपूर्व, पिपराणि, पिपराव, पिपराम; अपिप; अपिपूर्ताम्, अपिपरुः; यहा अभ्यस्त सज्ञा होने से जुस् ( १३७ ) होकर गुण ( ३६३ ) हाता है । अपिपः, अपिपूर्तम्, अपिपूर्त अपिपरम्, अपिपूर्व, अपिर्म, पिपृयात्, पिपृयाताम्, पूर्यात्, पूर्यास्ताम्, यहा भी ( ३८० ) उत्त्व होकर दीर्घ ( १९७ ) होता है । अपारीत्, अपारिष्टाम्, अपरीष्यन्, अपरिष्यत् । ह्रस्वान्तोऽयमित्येके । किन्हीं लोगो के मत मे यह पृ धातु ह्रस्व ऋकारान्त है । पिपति,

पिपृत, यहां दीर्घ ऋकार के न होने से उल्व नहीं होता। पिप्रति, पपार, पप्रतुः, पप्रुः, [ पपरतुः, ] पपरुः, पर्त्ता। ह्रस्वान्त पञ्च मे अनिट् है। परिष्यति ( २३८ ) इट्, पिपृयात्, प्रियात् ( २३९ ), प्रियास्ताम्, अपार्षीत्, अपार्षीम्, अपरिष्यत् ॥ ५ [ डुभृञ् ] धारणपोषणयोः । डु की इत् संज्ञा ( १५० )—

३८२—भृजामित् ॥ ७ । ४ । ७६ ॥

भृञ्, माङ् और ओहाङ् इन तीनों धातुओं के अभ्यास को इकार आदेश होवे श्लु परे हो तो। विभर्ति, विभृत, विभ्रति, विभृते, विभ्राते, विभ्रते, विभृभ्वे, विभराञ्चकार ( ३७७ ) आम् प्रत्यय और आम् के परे श्लुवत् होने से द्वित्व होता है। पञ्च मे— वभार, वभ्रतुः, वभर्थ ( १४८ ) इट् का निषेध, वभृव, वभृम, [ विभराञ्चके, विभराम्बभूव, विभरामास, वभ्रे, वभ्राते, वभ्रिरे, ] भर्तासि, भरिष्यति, [ भरिष्यते, ] भार्षति, भार्षति, विभरति, विभरति, [ भाषेतै, भार्षतै, विभ्रतै, विभ्रातै, ] विभर्तु, विभृहि, विभराणि, [ विभृताम्, ] अविभः, अविभृताम्, अविभरुः, [ अविभृत, अविभ्राताम्, ] विभृयान्, विभृयाताम्, [ विभ्रीत, विभ्रीयाताम् ] भ्रियान्, भ्रियास्ताम्, भृषीष्ट ( २४० ), अभार्षीत्, अभृत, अभरिष्यत्, अभरिष्यत।

६ [ माङ् ] माने शब्दे च = तोल और शब्द ।

३८३—ई हल्यघोः ॥ ६ । ४ । ११३ ॥

घुसंज्ञक धातुओं को छोड़ कर श्ना और अभ्यस्त संज्ञक धातुओं के आकार को ईकारादेश होवे हलादि कित् डित् सार्वधातुक परे हो तो। मिमीते, मिमाते, मिमते। यहां अजादि सार्वधातुक मे आकारलोप हो जाता है और अभ्यास को इकारादेश ( ३८२ ) होता है। मिमीषे, मिमाथे, ममे, ममाते, ममिरे, मातासे, मास्यते,

मासतै, मासातै, मिमीताम्, मिमाताम्, मिमताम्, मिमै, अमि-  
मीत, मिमीत, मिमीयाताम्, मासीष्ट, अमास्त, अमास्यत ॥  
७ [ ओहाड् ] गतौ । माड् के समग्रन इसके भी प्रयोग होते हैं ।  
जिहीते, जिहाते, जिहते, जहे, जहाते, जहिरे, हातासे, हास्यते,  
हासतै, हासातै, जिहीताम्, अजिहीत, जिहीत, हासीष्ट, अहास्त,  
अहास्यत ॥ अनुदात्तावात्मनेपदिनौ । ये दोनो धातु अनिट् आ-  
त्मनेपदी हैं ॥ ८ [ ओहाक् ] त्यागे । यह परस्मैपदी है । (३८२)  
सूत्र यहा नहीं लगता क्योंकि यहां से पूर्व ही भृञ् आदि तीन धातु  
पूरे हो गये । जहाति ।

### ३८४—जहातेश्च ॥ ६ । ४ । ११६ ॥

ह्लादि कित् ङित् सार्वधातुक परे हो तो जहाति धातु के आकार  
को इकार आदेश विकल्प करके होवे । और पक्ष मे ईकार ( ३८३ )  
होता है । यह सूत्र ( ३८३ ) सूत्र का अपवाद है । जहितः, जहीतः,  
जहति, जहासि, जहित्, जहीथः, जहित्, जहीथ, जहामि, जहिवः,  
जहीव, जहिमः, जहीमः, जहौ, जहतुः, जहित्, जहाथ; हातासि,  
हास्यति, हासति, हासाति, जहाति, जहातु, जहितात्, जहीतात्,  
जहिताम्, जहीताम्, जहतु ।

### ३८५—आ च हौ ॥ ६ । ४ । ११७ ॥

जहाति धातु को आकारादेश हो हि परे हो तो और चकार<sup>१</sup>

१ चकार से 'इत्' और 'अन्यतरस्याम्' इन दो पदों का अनुकर्षण  
होता है । पक्ष में ( ३८३ ) सूत्र से ईकार होता है, यह भाव उपर्युक्त  
वाक्य का है । बालमनोरमाकार ने चकार से 'ईत्' और 'इत्' का  
अनुकर्षण माना है, वह अयुक्त है क्योंकि 'ईत्' विधायक सूत्र मे तीन सूत्रों  
का व्यवधान है । अनुकर्षण मानने पर मध्य के सूत्रों मे भी 'ईत्' का  
संबंध मानना होगा जो कि अनिष्ट है ।

से इत् और इत् भी होवे । जहाहि, जहिहि, जहीहि, जहानि, अज-  
हात्, अजहिताम्, अजहीताम्, अजहु. ।

३८६—लोपो यि ! ६ । ४ । ११८ ॥

यकारादि कित् ङित् सार्वधातुक परे हो तो जहाति धातु के  
आकार का लोप होवे । जह्यात्, जह्याताम्, जह्य्, हेयात् ( २४७ ),  
हेयास्ताम्, अहासीत् ( २५१ ), अहासिष्टाम्, अहास्यत् ॥  
९ [ डुदाञ् ] दाने = देना । ददाति, दत्तः, यहां ( ३८३ ) सूत्र मे  
घुसञ्जक धातुओं को ईकारादेश का निषेध होने से आकारलोप  
( ३६५ ) होता है । ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः,  
दद्वमः; दत्ते, ददांत, ददते, दद्वध्वे, ददे, ददौ, ददतु, ददे, ददाति,  
दातासि, दातासे, दास्यति, दास्यते, दासति, दासाति, दासतै,  
दासातै ।

३८७—घोर्लोपो लेटि वा ॥ ७ । ३ । ७० ॥

घुसञ्जक धातुओं के आकार का लोप विकल्प करके होवे लेट्  
लकार परे हो तो । ददति, ददाति, ददत्, ददात्, यहा आट् के  
आगम पक्ष मे लोप होने पर भी “ददाति” होता है जो लोप न कहते  
तो अट् आट् दोनों पक्ष मे “ददाति” प्रयोग बनता और विकल्प  
कहने से यह प्रयोजन हैं कि किसी को ऐसी शंका न हो कि ददाति  
प्रयोग नित्य प्राप्त है उस का लोप कहने से वाक्य होगा । ददातु,  
दत्तात्, दत्ताम्, ददतु, देहि ( ३५४ ) एत्वाभ्यासलोप, ददानि,  
[ अददात् ] अदत्ताम्, अददुः, दद्यात्, दद्याताम्, दद्युः, देयात्  
घुसञ्जा ( २४६ ) होने से एत्व ( २४७ ), देयास्ताम्, अदात् ( ८९ )  
सिञ्चुक, अदाताम्, अदुः, दत्ताम् ददाताम्, ददताम्, दत्स्व,  
ददै, अदत्त, ददीत, दासीष्ट, अदित ( २६३ ) इत् और कित्त्व,  
अदिषाताम्, अदिषत्, अदास्यत्, अदास्यत ॥ १० [ डुधाञ्

धारणपोषणयोः<sup>१</sup> । इस के प्रयोग डुदाब् के तुल्य जानो । दधाति ।

३८८—दधस्तथोश्च ॥ ८ । २ । ३८ ॥

द्वित्व क्रिये ऋपन्त वा धातु के बश को भश् आदेश होवे त, थ, र् और ध्व परे हो तो । यहां अनभ्यास के आकार का लोप ( ३६५ ) क्रिये पश्चात् अभ्यास के दकार को धकार हो जाता है । दत्त, दधति, दधासि, दत्थः, दत्थ्य, दधामि, दध्वः, दध्मः; धत्ते, दधाते, दधत, धत्से, धद्वे, धधौ, दधतुः, धातासि, धातासे, धास्यति, धास्यते, धामतै, धासातै, वासति, धासाति, दधति ( ३८७ ) दधाति, दधत्, दधान्, दधातु, धत्तात्, धत्ताम्, दधतु, धेहि ( ३५४ ) दधानि, धत्ताम्, दधाताम्, धत्स्व, धद्वम्, अदधात्, अधत्ताम्, अधधुः, अधत्त, अदधाताम्, अदधत, अधत्था, अधद्वम्, दध्यात्, दधीत, धेयात् ( २४७ ), अधात्, अधाताम्, अधु. ( ८९ ), अधित ( २६३ ), अधिषाताम्, अधिषत, अधाम्यत्, अधास्यत् । अनुदात्ताबुभयतोभाषौ । ये दोनो धातु अनिट् उभयपदी है ।

अथ त्रय. स्वरितेत. । अब तीन धातु स्वरितेत् ( उभयपदी ) कहन हैं ॥ ११ [ णिजिर् ] शौचपोषणयोः = शुद्धि और पुष्टि ।

३८९—निजां त्रयाणां गुणः श्लौ ॥ ७ । ४ । ७५ ॥

निज आदि ( निज्, विज्, विष् ) तीन धातुओ के अभ्यास को गुण होवे श्लु परे हो तो । नेनेक्ति । यहां तिप् के आश्रय से अनभ्यास को भी गुण होता है । नेनक्तिः, नेनिजति, नेनेत्ति,

१. प्राचीन आचार्य 'हुधाञ् दानधारणयो.' पढते हैं । दशपादी उणादिवृत्ति में सर्वत्र 'दानधारणयोः' पाठ है, निरुक्तकार यास्कमुनि-  
'रत्नघातमम्' का अर्थ 'रमणीयाना दातृतमम्' ( निरुक्त ७ । १५ ) किया है ।

नेनिक्थः, नेनिक्थ, नेनेञ्मि, नेनिज्वः, नेनिञ्म, नेनिक्ते, नेनिजाते,  
नेनिजत; निनेज, निनिजतुः, निनिजे, निनिजाते, नेक्तासि, नेक्तासे,  
नेक्ष्यति, नेक्ष्यते, नेक्षति, नेक्षति, नेक्षतै, नेक्षतै ।

३६०—नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ॥७३॥८७॥

अभ्यस्तसङ्गक लघूपध धातु को गुण न होवे अजादि पित् सार्वधातुक परे हो तो । यह सूत्र (५२) सूत्र का अपवाद है अथान् लघूपध गुण का निषेधक है । नेनिजति, नेनिजाति, नेनिजत्, नेनिजात्, नेनिजतै, नेनिजातै, नेनेक्तु, नेनिगिध, नेनिजानि, नेनिक्ताम्, नेनिजानाम्, नेनिजै, नेनिजावहै, अनेनेक्, अनेनिक्ताम्, अनेनिजु, अनेनेक् अनेनिजम् (३९०), अनेनिक्त, अनेनिजाताम्, अनेनिजत, नेनिज्यात्, नेनिजात, निज्यात्, निज्यास्ताम्, निक्षीष्ट (१६३), अनिजत् (१३८), अनैक्षीत्, अनैक्ताम्, अनिक्त, अनिक्षाताम्, अनेक्ष्यत्, अनेक्ष्यत ॥ १२ [ विजिर् ] पृथग्भावे = अलग होना । णिजिर् धातु के समान सिद्धि । वेवेक्ति, वेवेक्त, वेवेक्ते, वेवेजाते, विवेज, विविजतुः, विवेजिथ, विविजे, वेक्तासि, वेक्तासे, वेविजति, वेविजाति, वेविजतै, वेविजातै, वेवेक्तु, वेविगिध, वेविजानि, वेविक्ताम्, वेविजै, अवेवेक्, अवेविक्ताम्, अवेविजु, अवेविजम्, वेविज्यात्, वेविजीत, विज्यात्, विक्षीष्ट (१६३); अविजत्, अवैक्षीत्, अविक्त, अवेक्ष्यत्, अवेक्ष्यत ॥ १३ [ विष्टु ] व्याप्तौ = व्यापक होना । पूर्ववत् । वेवेष्टि, वेविष्टः, वेविषति, वेवेक्षि, वेविष्टे, वेविषाते, वेविषते, विवेष, विविषे, वेष्टासि, वेष्टासे, वेक्ष्यति, वेक्ष्यते, वेक्षति, वेक्षति, वेक्षतै, वेक्षतै, वेविषति, वेविषाति (३९०) गुणनिषेध, वेवेष्टु, वेविष्टात्, वेविष्टाम्, वेविषतु, वेविद्धि, वेविषाणि, वेविष्टाम्, वेविषाताम्, वेविषताम्, वेविड्ढ्वम्, अवेवेट्, अवेविष्टाम्, अवेविषुः, अवेवि-



षम्, अवेविष्ट, अवेविषाताम्, अवेविषत, वेविष्यात्, वेविषीत, विष्यान्, विष्यास्ताम्, विक्षीष्ट ( १६३ ), विक्षीयास्ताम्, अविषत् ( २१७ ), अविक्षत ( २०७ ), अविक्षाताम् ( २०८ ), अविक्षन्त, अवेक्ष्यन्, अवेक्ष्यत । ये णिञ् आदि अनिच् उभयपदी तीन धातु समाप्त हुए ॥

अथाऽऽगणान्तात् परस्मैपदिनश्छान्दसाश्चैकादश । अब इस गण के अन्त तक परस्मैपदी वेदविषयक ११ ( ग्यारह ) धातु कहते हैं ॥ १४ [ घृ ] क्षरणदीप्यो. = अच्छे प्रकार चलना और प्रकाश ।

३६१—बहुलं छन्दसि ॥ ७ । ४ । ७८ ॥

वेदविषय मे श्लु परे हो तो अभ्यास को इकारादेश बहुल करके होवे । जिघर्त्ति<sup>१</sup>, जघर्त्ति, जिघृतः, जघृत, जिघ्रति, जिघर्मि, जघार, जघ्रतु, घर्त्तासि, घरिष्यति ( २३८ ) । यह नियम नहीं है कि केवल वैदिक प्रयोगो मे लोक वेद के सामान्य सूत्र न लगे किन्तु केवल एक विषय के सामान्य विषय मे नहीं लगते । घाषेति, घार्षाति, जिघ्रति, जिघ्राति, जघ्रति, जघ्राति, जिघर्तु, जघर्तु, अजिघ, अजघः, अजिघरु, जिघृयात्, घ्रियात् ( २३९ ), अघार्षान्, अघरिष्यत् ॥ १५ [ हृ ] प्रसह्यकरणे = हठ करना ।

३६२—वा०—हृग्रहोश्छन्दसि हस्य भत्वम् ॥

८ । २ । ३२ ॥

हृ और ग्रह धातु के हकार को भकारादेश होवे वेद विषय में । जिभर्त्ति<sup>२</sup>, जभर्त्ति, जभार, जहार, भतो, भरिष्यति, भार्षति, भार्षाति, जिभर्तु, जभर्तु, जभ्रतु, जभृहि, अजभ, अजभृताम्, अजभरु,

१. जिघर्म्यग्नि हविषा घृतेन । ऋ० २ । १० । ४ ॥

२ जब भकार नहीं होता तब ' जिहर्त्ति ' आदि प्रयोग भी होते हैं । यथा—अयं सुवोऽभिजिहर्त्ति । आपस्तम्ब श्रौत ४ । ७ । २ ॥

जभ्यात्, भ्रियात्, अभार्षात्, अभरिष्यत् । सर्वत्र वैदिक प्रयोगो मे यह् वात समम् लेनी चाहिये कि वेद मे जिस प्रकार का प्रयोग जिस धातु का आजाता है उसके अनुकूल सूत्र वार्तिकों से सिद्धि समम् ली जाती है सूत्रो वा वार्तिका के अनुकूल सब वैदिक प्रयोग नहीं लिखने चाहिये, इसलिये यहां इन धातुओ के प्रयोग सूक्ष्म ही लिखते हैं ॥ १६, १७ [ ऋ, स् ] गतौ । ऋ धातु का द्वित्व होने पश्चात् अभ्यास के ऋकार को अकार ( १०८ ) होकर ( ३९१ ) सूत्र से अभ्यास को इकार हो जाता फिर ( ३७९ ) सूत्र मे अर्त्ति ग्रहण सामर्थ्य से यह् धातु लोक मे भी समम् जाता है । सो इकारदेश भी नित्य होता है । फिर इ+ ऋ+तिप्= इयर्त्ति ( १५३ ), अभ्यास को इयड् और अनभ्यास को गुण हो जाता है । इयत्, इयति, आर, आरतु, आरिथ ( २५९ ), अर्त्तासि, अरिष्यात्, अर्षात्, अर्षाति, इयरति, इयराति, इयर्त्तु, इयतान्, इयताम्, इय्तु, इयृदि, इयराणि, इयराव, इयराम्; ऐयः, ऐयताम्, ऐयरु, ऐयः, ऐयतम्, ऐयत्, ऐयरम्, ऐयव, ऐयम्; इय्यात्, अर्यात् ( २५४ ), आरत्, आरताम् ( २५६, २५७ ), आरिष्यत्; ससत्ति, सिसत्ति, इत्यादि । घ्रादयश्चत्वारो ऽनुदात्ता । ये घृ आदि चार धातु अनिट् है ॥ १८ [ भस ] भर्त्सनदीप्त्यो <sup>१</sup> = धमकाना और प्रकाश । विभस्ति, वभस्ति <sup>२</sup> ।

१. यहा 'भर्त्सन' अर्थ अशुद्ध है । 'भर्त्सन' के स्थान में 'भक्षण' पाठ होना चाहिये । ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदभाष्य १ । २८ । ७ मे लिखा है—“भसधातो. भर्त्सन इत्यर्थो नवीनः, भक्षण इति तु प्राचीनो ऽर्थः ।” सायण ( ऋग्वेदभाष्य १ । २८ । ७ ) तथा दशपादी उणादिवृत्तिकार ( ८ । ८४ ) दोनों “भस भक्षणदीप्त्यो ” पढते हैं । निरुक्तकार ने भी “भस्सता” का अर्थ “शुजाने” किया है । देखो निरुक्त ९ । ३६ ॥

२. कपिर्बभस्ति तेजनम् । अथर्व ६ । ४९ । १ ॥

३६३—घसिभसोर्हालि च ॥ ६ । ४ । १०० ॥

घस और भस धातु के उपधा 'अकार का लोप होवे हतादि और अजादि कित् डित् प्रत्यय परे हो तो वेद विषय मे । ब + भ्म् + नस् = वव्ध<sup>३</sup> ( १४२ ), बप्सति, बभास, बभस्तु, वव्धाम्, बभसानि, अबभः, अबव्धाम्, अबभसुः, बप्स्यात्, बप्स्याताम्, भस्यात्, भस्यास्ताम्, अभासीत्, अभसीत्, अभसिष्यन् ॥ १९ [ कि ] ज्ञाने । चिकेति, चिकितः; चिक्रयति, चिक्रयाति, चिक्रेत्, चिक्रिहि, चिक्रयानि, अचिक्रेत्, अचिक्रयुः, चिक्रियात्, कीयात्, अकैर्षीत् । यह धातु अनिद् है ॥ २० [ तुर ] त्वरणे = शीघ्रता । तुतोर्ति, तुतूर्तः, तुतुरति, तुतुराति, ( ३९० ), तुतार्तु, तुतुराणि, अतुतो, अतुतुरुः, तुतूयात्, तूयात्, अतोगीत् ॥ २१ [ धिप ] शब्दे । दिधेष्टि, दिधिष्टः, दिधिषति, अदिधेष्ट ॥ २२ [ धन ] धान्ये । दिधन्ति, दधन्ति, दधनति, दधान, दधनतुः, धनितासि, धनिष्यति, दधनति, दधनाति, धानिषति, धानिषाति, दिधन्तु, दिधनानि, अदिधन, अदिधनुः, दधन्यात्, धन्यात्, अधानीत्, अधनीत्, अधनिष्यत् ॥ २३ [ जन ] जनने । जजन्ति ।

३६४—जनसनखनां सञ्भ्रलोः ॥

६ । ४ । ४२ ॥

जन, सन और खन धातुओं के अन्त को आकारादेश होवे मलादि सन् और मलादि कित् डित् परे हो तो । जजातः, जज्ञति ( २१४ ), पश्चात् न् को ञ् श्चुत्व होता है । जजंसि,

१. ऋषस्तथोर्धोऽधः ( आ० १४१ ) से ध होता है । जिस पक्ष में "श्लोको श्ललि" ( आ० १४२ ) से सिच् के सकार का ही लोप होता है उस पक्ष में "बन्ध" इत्यादि में सकार लोप छान्दस समझना चाहिये ।

जजाथः, जजन्मि, जजान, जज्ञतुः ( २१४ ), जानिषति, जानिषति, जजनति, जजनाति, जजन्तु, जजातात्, जजाहि ।

३६५-वा छुन्दसि ॥ ३ । ४ । ८८ ॥

वेद विषय मे सिप् के स्थान मे हि आदेश विकल्प करके पित् होवे । जिस पक्ष मे पित् होता है वहा “ जजन्हि ” आकार नही होता । जजनानि, अजजत्, अजजाताम्, अजज्नुः, अजजनम्, जजायात्, जजन्यात् ( १८५ ), अजानीत्, अजनीत् ॥ ये तुर आदि धातु सेद् परस्मैपदी है ॥ २४ [ गा ] स्तुतौ = प्रशसा । जिगति<sup>१</sup>, जिगीत्, जिगति ( ३६५ ) जगौ, गातासि, गास्यति, गासति, गासाति, जिगातु, जिगीहि, जिगाहि, अजिगात्, अजिगीताम्, अजिगुः, जिगीयान्, गायात्, अगासीत्, अगास्यत् । यह धातु अनिद् परस्मैपदी है ॥

॥ इति श्लुविकरणो जुहोत्यादिगण. समाप्त ॥

## अथ दिवादिगणाः

[ अथ दिवादयः षड्विंशतिः परस्मैपदिनः । अब दिवादि ] भूप् धातु पर्यन्त २६ ( छब्बीस ) सेट् परस्मैपदी धातु कहन हैं ॥ १ [ दिवु ] क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तु-  
तिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु = खेलना, जीतने की इच्छा, लेना, देना, प्रकाश, प्रशंसा, आनन्द, अहंकार, निद्रा, शोभा और गति अथात् ज्ञान गमन प्राप्ति ।

३६६ दिवादिभ्यः श्यन् ॥ ३ । १ । ६६ ॥

दिव आदि धातुओ से शप् ( १९ ) का बाधक श्यन् प्रत्यय होवे कर्ता मे सार्वधातुक परे हो तो । दीव्यति ( १९७ ) दीधे, दीव्यन्ति, दीदेव, दिदिवतुः, दिदेविथ, देवितासि, देविष्यति, देविषति, देविषाति, दीव्यति, दीव्याति, दीव्यतु, अदी-  
व्यत्, दीव्येत्, दीव्यात्, अदेवीत्, अदेविष्यत् ॥ २ [ षिवु ]  
तन्तुसन्ताने = सीना । सीव्यति, सिसेव, असेवीत् ॥ ३ [ स्त्रिवु ]  
गतिशोपणयोः = गति और सूखना । सीव्यति ॥ ४ [ ष्टिवु ]  
निरसने = थूकना । ष्टीव्यति ( १५२ ), सत्व निषेध,  
तिष्टेव, तिष्टेव, तिष्टिवतु ॥ ५ [ ण्यसु ] अदने, आदान  
इत्यके, अदर्शने इत्यपरे । स्तुष्यति, सुष्णोस ॥ ६ [ णसु ]  
निरसने । स्तस्यति, सस्नास, सस्नासतुः ॥ ७ [ क्तसु ]  
हरणदीप्यो = कुटिलता और प्रकाश । क्तस्यति, चक्नास ॥  
८ [ व्युष ] दाह = जलना । व्युष्यति, वुव्योष ॥ ९ [ ष्लुष ]  
च । ष्लुष्यति, पुष्पोष ॥ १० [ नृती ] गात्रविक्षेपे = नाचना ।  
नृत्यति, ननते, ननृततुः, ननृतु, ननतिथ, नर्तितसि ।

१ देखो ' ष्टिवु निरसने ' धातु, भ्वादि० ५७३, पृष्ठ १०७ ।

३१७—सेऽसिचि कृतचृतछृदतृदन्तः ॥७।२।५७॥

कृत, चृत, छृद, तृद और नृत धातुओं से परे जो सिच् भिन्न सकारादि आधेधातुक उसको विकल्प करके इट् का आगम होवे । नर्तिष्यति, नत्स्यति, नर्तिषति, नर्तिषाति, नत्सेति, नत्सोति नृत्यति, नृत्याति, नृत्यतु, नृत्य, नृत्यानि, अनृत्यत्, नृत्येत्, नृत्यात्, अनर्तीत्, अनर्तिष्यत्, अनत्स्यत् ॥ ११ [ त्रसी ] उद्वेगे = भय होना । ( १८८ ) सूत्र से श्यन् विकल्प, पक्ष मे शप् । त्रस्यति, त्रसति, तत्रास, विकल्प मे एत्वाभ्यास लोप ( २२९ ) होकर— त्रेसतुः, तत्रसतु, त्रेसुः, तत्रसुः, त्रसितासि, त्रसिष्यति, त्रसिषति, त्रसिषाति, त्रस्यति, त्रस्याति, त्रसति, त्रसाति, त्रस्यतु, त्रसतु, अत्रस्यत्, अत्रसत्, त्रस्येत्, त्रसेत्, त्रस्यात्, अत्रासीत्, अत्रसीत्, अत्रसिष्यत् ॥ १२ [ कुथ ] पूतीभावे = दुग्न्ध । कुथ्यति, चुकोथ ॥ १३ [ पुथ ] हिंसायाम् । पुथ्यति, पुपोथ ॥ १४ [ गुध ] परिवेष्टने = लपट्टेना । गुथ्यति, जुगोव, जुगुधतु, गोधितासि, गोधिष्यति, गोधिषति, गोधिषाति, गुध्यतु, अगुध्यत्, गुध्येत्, गुध्यात्, अगोधीत्, अगोधिष्यत् ॥ १५ [ क्षिप ] प्रेरणे = फेंकना । यह धातु अनिद् है । क्षिप्यति, चिच्चेप, चिच्चेपिथ, चिच्चेपथ, चेषासि, चेषस्यति, चेषसति, चेषसाति, क्षिप्यतु, अक्षिप्यत्, क्षिप्येत्, क्षिप्यात्, अक्षैप्सीत्, अक्षैप्ताम्, अक्षैप्सु, अक्षेष्यत् ॥ १६ [ पुष्प ] विकसने = विभाग होना । पुष्यति, पुपुष्प ॥ १७—२० [ तिम, तीम, छिम, छीम ] आद्राभावे = गीला होना । तिम्यति, तीम्यति, स्तिम्यति, स्तीम्यति, तितेम, तितिमतुः, तितीम, तिस्तेम, तिस्तीम ॥ २१ [ ब्रीड ] चोदने लज्जायां च = प्रेरणा और लज्जा । ब्रीड्यति, विब्रीड ॥ २२ [ इष ] गतौ । इष्यति, इयेष ( १५३ ) इयड्, ईषतु, ईषुः, इयेषिथ, एषितासि, एषिष्यति, एषिषति, एषिषाति, इष्यति,

इष्याति, इष्यतु, ऐष्यत्, इष्येत्, इष्यात्, ऐषीत्, ऐषिष्यत् ॥  
 २३ २४ [ पह पुह ] चक्रयर्थे = वृत्त होना वा मारना । सख्याति, मुख्याति, ममाह, मेहतु, मेहुः, सेहिय, सुसोह, सहिता, सोढा ( २१२, २३० ), सहिष्यति, साहिषति, साहिषाति, सखति, सख्याति, मख्यतु, अमख्यत्, सखेत्, सख्यात्, असहीत् ( १६२ ) वृद्धि का निषेध, अमहिष्यत् ॥ २५, २६ [ जृष् झृष् ] वयोहानौ = अवस्था की हानि । इन दोनो धातुओं के अन्त्य षकार की इत्संज्ञा हाती है । जीयेति ( २६५, १९७ ) जजार, ज् + अतुस् = जेरतुः ( २२९ ) एत्वाभ्यासलाप का विकल्प, और जजरतुः ( २५८ ) अप्राप्त गुण, जेरुः, जजरुः, जेरिय, जजरिय, जेरथुः, जजरथुः, जगतामि, जरिनामि ( २६४ ), जरीष्यति, जरिष्यति, जारीषति, जारीषाति, जारिपति, जारिषाति, जरीषति, जरीषाति, जरिषति, जारिषाति, जायेत, जायेति, जायेतु, अर्जायत्, जीयेत्, जीयात् । लुङ् म विकल्प से अङ् ( १५४ ) और ऋवर्णान्त को अङ् के परे गुण ( ५७ ) हाकर—अजरत्, अजरताम्, अजरन् । अङ् के निषेधपक्ष मे—अजारीत्, अजारिष्टाम् ( २६६ ), अजरीष्यत्, अजरिष्यत्, स्फीर्यति, जम्भार, जम्भरतु, अम्भारीत्, अम्भारिष्टाम् ॥ दिवाद्य उदात्ता उदात्तेनः द्विपिवर्ज परस्मैपदिन । ये दिव आदि वातु क्षिप का छोड़ के सेट् परस्मैपदी हैं ।

२७ [ पूङ् ] प्राणिप्रसवे = प्राणियो की उत्पत्ति । सूयते, सूयेते, सूयन्ते, सुपुवे । वलादि लिट् मे विकल्प से इट् ( १४० ) प्राप्त है उसका बाधक = निषेधक “अयुक्तः किति” है उसका भी अपवाद नियामक ( १४८ ) हाने से नित्य इट् होता है । सुषुविषे, सुषुविषहे, सुषुविमहे, सोतासे, सवितासे, ( १४० ), सविष्यते, सोष्यते, सावि-

षतै, साविषातै, सौषतै. सौषातै, सूयतै, सूयातै, सूयताम्, असूयत, सूयेत, सविषीष्ट, सोषीष्ट, असविष्ट, असोष्ट, असविष्यत, असोष्यत ॥ २८ [ दूङ् ] परितापे = दुःख होना । दूयते, दुदुवे, दवितासे । आत्मनेभाषाबुदात्तौ । ये दानो धातु सेट् आत्मनेपदी हैं ॥ २९ [ दीङ् ] क्षये = नाश होना वा वसना । दीयते ।

३६८-दीङो युङचि क्ङिात ॥ ६ । ४ । ६३ ॥

दीङ् धातु से परे जो अजादि कित् ङित् आर्धधातुक उस को युट् का आगम होवे । दिदीये, ( ४५ ) वार्तिक से युट् के आगम को सिद्ध मान कर यण् ( १५६ ) नहीं होता । दिदीयिषे, दिदीयि-द्वे, दिदीयिष्वे, दिदीयिवहे ।

३६९-मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च ॥६।१।५०॥

एच् का निमित्त अशित् वा ल्यप् का विषय हो तो मीनाति, मिनोति और दीङ् धातुओं को आकारादेश होवे । दातासे, दास्यते, दासतै, दासातै, दीयताम्, अदीयत, दीयेत, दासीष्ट, अदास्त, अदास्था, इस दीङ् धातु की घुसझा ( २४६ ) नहीं होती, क्योंकि यह न दा धा और न उनका प्रकृति है । अदास्यत ॥ ३० [ डीङ् ] विहायसा गतौ = आकाश मे उडना । डीयते, डीयेते, डिङ्ये ( १५६ ) यण्, डयितासे, डयिष्यते, डायिषतै, डायिषातै, डीयताम्, अडीयत, डीयेत, डयिषीष्ट, अडयिष्ट, अडयिष्यत ॥ ३१ [ धीङ् ] आधारे । धीयते, दिध्ये ॥ ३२ [ मीङ् ] हिंसायाम् । मीयते ॥ ३३ [ रीङ् ] श्रवणे = सुनना । रीयते, रिर्ये, रैतासे, रेष्यते, रैषतै, रैषातै, रीयतै, रीयातै, रीयताम्, अरीयत, रीयेत, रेषीष्ट, अरेष्ट, अरेष्यत ॥ ३४ [ लीङ् ] श्लेषणे = मिलना । लीयते ।

१. विषय सप्तमी मानने से प्रत्ययोत्पत्ति से ष्व ही भाव हो जाता है ।



४००—विभाषा लीयतेः ॥ ६ । १ । ५१ ॥

एच निमित्तक शित्भिन्न<sup>१</sup> प्रत्यय और ल्यप् के विषय मे लीयति धातु को आकारादेश विकल्प करके होवे । लातासे, लेतासे, लास्यते, लेष्यते । एच विषय के कहने से—“लिल्ये, लिल्याते” आदि मे आकारादेश नहीं होता । लासतै, लासातै, लैषतै, लैषातै, लीयताम्, अलीयत, लीयत, लासीष्ट, लेषीष्ट, अलास्त, अलेष्ट, अलास्यत, अलेष्यत ॥ ३५ [ व्रीड् ] वृणोत्यर्ये = स्त्रीकार । व्रीयते, वित्रिये, यहा सयोगपूर्वक के हाने से यण ( १५६ ) से नहीं होता । वृत् । स्वादय ओदितः । पूङ् धातु से लेकर यहा तक ओदित् धातु हैं, ओदित् हाने का फल कृदन्त मे आवेगा<sup>२</sup> ॥ ३६ [ पीड् ] पाने = पीना । पीयते, पिप्ये, पेतासे, पेष्यते, पैषतै, पैषातै, पीयताम्, अपीयत, पीयत, पेपीष्ट, अपेष्ट, अपेष्यत ॥ ३७ [ माड् ] माने = तालना । मायते, ममे ॥ ३८ [ ईड् ] गतौ । ईयते, अयाञ्चक्रे, अयाम्बभूव, अयामास, एतासे, एष्यते, ऐषतै, ऐषातै, ईयताम्, ऐसत, ईयेत, एपीष्ट, ऐष्ट, ऐष्यत ॥ ३९ [ प्रीड् ] प्रीणने = वृत्ति । प्रीयते, पिप्रिये । दीडादय आत्मनेपदिनो डीङ्-वर्जमनुदात्ताः । दीङ् आदि धातु आत्मनेपदी डीङ् को छोड़कर अनिट् है ॥

अथ परस्मैपदिनश्चत्वारः । अब चार परस्मैपदी कहते हैं । ४० [ शो ] तनूकरणे = महीन करना ।

४०१—आतः श्यनि ॥ ७ । ३ । ७१ ॥

श्यन् प्रत्यय परे हो तो धातु के अन्त्य ओकार का लोप होवे । श्यति, श्यतः, श्यन्ति, शशौ, शशतुः, शशिय, शशाथ, शातासि,

१ द्रष्टव्य पृष्ठ १६२, टि० १ । २. ओदितश्च ( आ० ११५६ ) से निष्ठा के तकार को नकार होता है । यथा—दीन., दीनवान् ।

शास्यति, श्यतु, श्य, अश्यत्, श्येत्, शयात् । लुङ्विषय मे विकल्प से निच्लुक् ( २४९ )—अशात्, अशाताम्, अशु; पक्ष मे—अशामीत् ( २५१ ), अशास्यत् ॥ ४१ [ छो ] छेदने = छेदना । आकारलोप ( ४०१ )—छ्यति, चच्छौ, छातासि, अन्य पूर्ववत् ॥ ४२ [ षो ] अन्तकर्मणि = कर्म की समाप्ति । स्यति, ससौ, सातासि, सास्यति, सासति, सासाति, स्यतु, अस्यत्, स्येत्, सेयात् ( २४७ ), असात् ( २४९ ), असासीत् ( २५१ ), असास्यत् ॥ ४३ [ दौ ] अवखण्डने = काटना । द्यति, ( ४०१ ), ददौ, दातासि, दास्यति, दासति, दासाति, द्यतु, अद्यत्, द्येत्, देयात्, घुसज्ञा के होने से ( २४७ ) से एकार । अदात्, ( ९१ ) सिच्लुक्, अदाताम्, अदु, अदास्यत् । श्यतिप्रभृतयोऽनुदात्ताः । शो आदि चार धातु अनिट् हैं ॥

अथ [ जन्यादय ] आत्मनेपदिनः पञ्चदश । अब पन्द्रह धातु आत्मनेपदी कहते हैं । ४४ [ जनी ] प्रादुर्भावे = उत्पत्ति वा अवस्थान्तर से प्रकट होना ।

४०२—ज्ञाजनोर्जा ॥ ७ । ३ । ७६ ॥

शित् प्रत्यय परे हो तो ज्ञा और जन धातु को जा आदेश होवे । होवे । अनेकाल होने से सब के स्थान मे होता है । जायते, जन् + एश् = जज्ञे ( २१४ ) उपधा अकार का लोप होकर जन् के संयोग में तवर्ग नकार को चवर्ग वकार हो जाता है । जज्ञाते, जज्ञिरे, जनितासे, जनिष्यते, जानिषतै, जानिषातै, जायतै, जायातै, जायते, जायाते, जायताम्, अजायत, जायेत, जनिषीष्ट । लुङ् मे च्लि के स्थान मे चिण ( १६४ ) और चिण से परे प्रत्यय का लुक् ( १९५ ) होकर—“जन्-चिण”—यहां वृद्धि प्राप्त है इसलिये—

४०३—जानिवध्योश्च ॥ ७ । ३ । ३५ ॥

जन और वध धातु की उपधा का वृद्धि न होवे चित् शिण्त् कृत् औरचिण् परे हो तो। अजनि। और जिस पक्ष में चिण् (१९४) से न हुआ वहां—अजनिष्, अजनिषाताम्, अजनिषत् ॥ ४५ [ दीपी ] दीप्तौ। दीप्यते, दिदीपे, दिदीपाते, दीपितासे, दीपिष्यते, दीपिष्यतै, दीपिषातै, दीप्यताम्, अदीप्यत, दीप्येत, दीपिषीष्ट, अदीपि (१९४, १९५) अदीपिष्ट, अदीपिष्यत् ॥ ४६ [ पूरी ] आप्यायने = बढना। पूर्यते, पुपूरे, अपूरि (१९४, १९५) अपूरिष्ट ॥ ४७ [ तूरी ] गतित्वरणहिसनयोः = शीघ्र चलना और मारना। तूर्यते, तुतूरे, अतूरिष्ट ॥ ४८, ४९ [ धूरी, गूरी ] हिंसागत्योः। धूर्यते, दुधूरे, गूर्यते, जुगूरे ॥ ५०, ५१ [ घूरी, जूरी ] हिंसावयोहान्योः = हिंसा और अवस्था की की हानि। घूर्यते, जुघूरे, जूर्यते, जुजूरे ॥ ५२ [ शूरी ] हिंसास्तम्भनयोः = मारना और रोकना। शूर्यते, शुशूरे ॥ ५३ [ चूरी ] दाहे। चूर्यते, चुचूरे, चूरितासे, चूरिष्यते, चूरिष्यतै, चूरिषातै, चूर्यताम्, अचूर्यत, चूर्यत, चूरिषीष्ट, अचूरिष्ट, अचूरिष्यत् ॥ ५४ [ तप ] ऐश्वर्ये = सम्पत् का होना। यह धातु अनिट है। तप्यते, तेपे, तेपाते, तेपिरे, तेपिषे, तप्तासे, तप्स्यते, ताप्सतै, ताप्सातै, तप्यताम्, अतप्यत, तप्येत, तप्सीष्ट, अतप्त, अतप्साताम्, अतप्सत, अतप्स्यत् ॥ ५५ [ वावृतु<sup>१</sup> ] वरणे = स्वीकार। यह धातु अनेकाच् है। वावृत्यते, अनेकाच् होने से लिट् में आम् (१७०) वावर्ताञ्चक्रे, वावर्ताम्बभूब, वावर्तामास, वेद

१ कई वैयाकरण धात्वादि 'वा' को पूर्व धातु के साथ लगाकर 'तप ऐश्वर्ये वा' ऐसा पढ़ते हैं, अर्थात् तप धातु से ऐश्वर्ये अर्थ में विकल्प से इयन् होता है, पक्ष में शप। उनके मत में यह धातु 'वृतु वरणे' इतनी ही है। वृत्यते, ववृते—अनेकाच् न होने से आम् नहीं हुआ।



अनाद्ध, अनात्सम्, अनात्स्व, अनात्मम्; अनद्ध, अनत्साताम्, अन-  
त्सत, अनद्धा, अनत्स्यत्, अनत्स्यत ॥ ६२ [रञ्ज] रागे = रगना  
वा अतिप्राति । उपवा अनुनासिक का लोप (१३९) होकर—रज्यति,  
रज्यते, ररञ्ज, ररञ्जे, रड्क्तासि, रड्क्तासे, रड्क्ष्यति, रड्क्ष्यते,  
[ रज्यान् ] रड्क्ताष्ट, अरड्क्त्, अरड्क्ताताम्, अरड्क्त्त, अराड्-  
क्त्तान्, अराड्क्ताम्, अराड्क्त्तुः ॥ ६३ [शप] आक्रोशे =  
क्रोसना । शप्यति, शप्यते, शशाप, शपतु, शेषिथ, शशपथ, शेष, शेषाते,  
शप्तासि, शप्स्यति, [शप्स्यते,] शाप्सति, शाप्साति, शाप्सतै, शाप्सातै,  
शप्यतु, शप्यताम्, अशप्यत्, अशप्यत, शप्येत्, शप्येत, शप्यात्,  
शप्साष्ट, अशाप्सात्, अशाप्ताम्, अशाप्सुः, अशप्त, अशाप्साताम्,  
अशप्स्यत्, अशप्स्यत ॥ णहादयस्त्रयोऽनुदात्ता. स्वारिते उभय-  
पदिन । णह आदि तीन वानु अनिट् उभयपदी है ।

अथ [ पदादप ] एकादशानुदात्तेत. । अब ११ ( ग्यारह )  
धातु आत्मनेपदी कहते हैं ॥ ६४ [पद] गतौ ॥ पद्यते,  
प्रतिपद्यते, प्रपद्यते, पेदे, पेदाते, पेदिरे, पत्तामे, पत्स्यते, पात्सातै,  
पात्सातै, पद्यताम्, अपद्यत, पद्येत, पत्सीष्ट ।

४०५-चिण् ते पदः ॥ ३ । १ । ६० ॥

पद धातु से परे जो चिण् उसके स्थान में चिण् होवे त शब्द  
परे हो तो । अपादि ( १९५ ), अपत्साताम्, अपत्सत, अप-  
त्स्यत ॥ ६५ [खिद] दैन्ये = दीनता । खिद्यते, चिखिदे,  
खेत्तासे, खित्सीष्ट ( १६३ ), अखित्त ॥ ६६ [विद] सत्ता-  
याम् = होना । विद्यते, विविदे, वेत्तासे, वेत्स्यते, वेत्सतै, वेत्सातै,  
विद्यताम्, अविद्यत, विद्येत, वित्सीष्ट ( १६३ ), अवित्त, अवित्सा-  
ताम्, अवेत्स्यत ॥ ६७ [बुध] अद्यगमने = ज्ञान होना ।  
बुध्यत, बुबुधे, बाद्धासे, भोत्स्यते ( २०४ ), भोत्सतै, भोत्सातै, बुध्य-

नाम, अनुबध्यत, बुध्येत, मुत्सीष्ट ( १६३ ), अबोधि ( १९४ ), अनुद्ध, अभोत्स्यत ॥ ६८ [ युभ ] सम्प्रहारं = युद्ध करना । युध्यते, युयुधे, योद्धासे, योत्स्यते, युध्येत, युत्सीष्ट, अयुद्ध, अयुत्साताम् ॥ ६९ [ अनो रुध ] कामे = कामना । इस धातु के प्रयोग बहुधा अनुपूर्वक आते हैं इसलिये इसके पूर्व अनु उपसर्ग पढ़ा है । अनु-रुध्यत, अनुरुधे, अनुरोद्धासे, अन्वरुध्यत, अनुरुत्सीष्ट, अन्वरुद्ध, अन्वरुत्साताम् ॥ ७० [ अण ] प्राणने = श्वास का चलना । यह धातु सेट् है । अण्यते, आणे, आणाते, आणिरे, अणितासे, अणिष्यते, आणिषतै, आणिषातै, अण्यताम्, आण्यत, अण्येत, अणिषीष्ट, आणिष्ट, आणिष्यत ॥ ७१ [ मन ] ज्ञाने । मन्यते मेन, मन्तासे, मसीष्ट, अमस्त ॥ ७२ [ युज ] समाधौ = चित्त की वृत्तियों को रोकना । युज्यते, युयुजे, योक्तासे, योक्ष्यते, योक्षतै, योक्षतै, युज्यताम्, अयुज्यत, युज्येत, युक्षीष्ट, अयुक्त, अयुक्ताताम्, अयोक्ष्यत ॥ ७३ [ सृज ] विसर्गे = रचना वा त्यागना । सृज्यते, ससृजे, स्रष्टासे ( २३३ ) ज का षत्व और अम् आगम ( २७८ ), स्रक्ष्यते, स्राक्षतै, स्राक्षतै, सृज्यताम्, असृज्यत, सृज्येत, सृक्षीष्ट, असृक्त, असृक्ताताम्, असृक्षत, अस्रक्ष्यत ॥ ७४ [ लिश ] अल्पीभावे = थोड़ा हाना । लिश्यते, लिलिशे, लेष्टासे ( २३३ ) षत्व, लेक्ष्यते, लेक्षतै, लेक्षतै, लिश्यताम्, अलिश्यत, लिश्येत, लिक्षीष्ट, ( १६३ ) अलिष्ट, अनेक्ष्यत ॥ पदादयोऽनुदात्ते आत्मनेभाषा अण्यनिवर्जमनुदात्ताः । पद आदि सब धातु आत्मनेपदी और अण् का छोड़ कर अनिट् हैं ॥

अथ [ राधादय ] आगणान्तात् परस्मैदिन सप्तषष्टिः । अब इस दिवादिगण के अन्तपर्यन्त ६७ ( सडसठ ) धातु परस्मैपदी कहते हैं ॥ ७५ [ राधोऽकर्मकाद् वृद्धावेव ] अकर्मक राध धातु से वृद्धि अर्थ में ही श्यन् प्रत्यय [ होता है ] । राध्यति, रराध,

रराधत्, यहां हिंसा अथे के न होने से ( ४२३ ) सूत्र नहीं लगता ।  
 रराधित्, राद्वासि, रात्स्यति, रात्सति, रात्साति, राभ्यत्, अराभ्यत्,  
 राभ्येत्, राभ्यात्, अरात्सीत्, अराद्धाम्, अरात्सुः, अरात्स्यत् ॥  
 ७६ [ व्यध ] ताडने = पीडा देना । विध्यति ( २८६ ) सम्प्रसारण,  
 विव्यत्, विध्यन्ति, विव्याध, ( २८२ ), विविधत्, विविधु,  
 विव्यधित्, विव्यद्ध, व्यद्वासि, व्यत्स्यति, व्यत्सति, व्यत्साति,  
 विध्यत्, अविध्यत्, विध्येत्, विध्यात्, अव्यात्सीत्, अव्या-  
 द्दाम्, अव्यात्सुः, अव्यात्स्यत् ॥ ७७ [ पुष ] पुष्टौ = पुष्ट  
 करना । पुष्यति, पुपोष, पुपोषित्, पोष्टासि, पोक्ष्यति, पोक्षति,  
 पोक्षाति, पुष्यत्, अपुष्यत्, पुष्येत्, पुष्यात्, अपुषत् ( २१७ )  
 अङ्, इस सूत्र में पुषादि करके इसी पुष से इस गण के अन्त-  
 पर्यन्त धातुओं का ग्रहण होता है । अपुषताम्, अपुषन्, अपो-  
 क्ष्यत् ॥ ७८ [ शुष ] शोषणे = सोखना । शुष्यति, अशु-  
 षत् ॥ ७९ [ तुष ] प्रीनौ = प्रसन्नता । तुष्यति, तुष्यत्, अतु-  
 षत् ॥ ८० [ दुष ] बैकृत्यै = विकार को प्राप्त होना ।  
 दुष्यति, अदुषत् ॥ ८१ [ श्लिष ] आलिङ्गने = मिलना ।  
 श्लिष्यति, श्लिषेत्, श्लिष्यात्, श्लिष्यन्ति, श्लिष्यन्तु, अश्लिष्यत्,  
 अश्लिष्यन्, अश्लिष्येत्, अश्लिष्यात् ।

४०६—श्लिष आलिङ्गने ॥ ३ । १ । ४६ ॥

श्लिष धातु से परे जो अनिट् च्लि उसके स्थान में क्स  
 आदेश होवे आलिङ्गन ही अर्थ में अन्यत्र नहीं । यह सूत्र  
 ( २१७ ) सूत्र का अपवाद है । और आलिङ्गन अर्थ से यहां स्त्री  
 पुरुष का संयोग समझना चाहिये, किन्हीं जड़ पदार्थों वा अन्य  
 सम्बन्धियों का मिलना नहीं । अश्लिषत् । और जहां आलिङ्गन  
 अर्थ नहीं है वहां 'अश्लिषत्' प्रयोग होगा । अश्लिषताम्,  
 अश्लिषन्, अश्लिष्यत् ॥ ८२ [ शक ] विभाषितो मर्षणे ।

सहन अर्थ मे शक धातु मे विकल्प करके श्यन् प्रत्यय होवे, पक्ष मे शप् होता है। शक्यति, शकति, शशाक. शोकतुः, शैकिथ, शशकथ, शक्तामि, शक्यति शान्ति, शान्ति, शक्यतु, अशक्यत्, शक्येत्, शक्यात्, अशकत् ( २१७ ), अशक्यन् ॥ ८३ [ जिष्विदा ] गात्रप्रक्षरणे = पसीना छूटना । खिद्यति, मिष्वेद, सिष्वेदिय, स्वेत्तासि, स्वेत्स्यति, स्वेत्सति, स्वेत्साति, स्विद्यतु. अखिद्यन्, खिद्येत्, खिद्यात्, अखिद्यन्, अखेन्म्यन् ॥ ८४ [ क्रुध ] क्रोधे । क्रुध्यति, चुक्रोध. क्रोद्वासि, अक्रुवन् ॥ ८५ [ क्षुध ] बुभुक्षायाम् = भोजन की इच्छा । क्षुध्यति, चुक्षाव, अक्षुधन् ॥ ८६ [ शुध ] शौचे = शुद्धि । शुध्यति शुशोध, शोद्धा, अशुवत् ॥ ८७ [ पिथु ] सराधौ = सिद्धि होना । सिध्यति, सिषेव, सिषिधतु., सिषेधिय, सेद्धासि, मेत्स्यति, मेत्सति, सेत्साति, सिध्यति, सिध्याति, सिध्यतु, असिध्यत्, सिव्येत्, सिध्यात्, असिधत्, असेत्स्यत् । राधादयोऽनुदात्ता उदात्तेन परस्मैपदिन. । राध आदि वातु अनिट् परस्मैपदी है ।

८८ [ रध ] हिंसासंराध्यो = हिंसा और सिद्धि । रध्यति, ररन्ध ( १६५ ) तुम्, ररन्धतु, ररन्धिय ।

४०७—रधादिभ्यश्च ॥ ७ । २ । ४५ ॥

रध आदि ( रव, नश, वृष, वृष, वृह, मुह, णुह, णिणह ) धातुओ से परे वलादि आर्धधातुक को विकल्प करके इट् का आगम होवे । ररद्ध, ररन्धिव, रेध्व, ररन्धिम, रेध्म ।

४०८—नेट्यलिटि रधेः ॥ ७ । १ । ६२ ॥

लिट् लकार से भिन्न इडादि प्रत्यय परे हो तो रध धातु को तुम् का आगम न होवे । इस सूत्र के नियम से इडादि लिट् में तो तुम् होता है । जो कदाचित् ऐसा नियम करते कि इडादि लिट्



मे ही नुम् होवे तो इससे विपरीत नियम का सम्भव था कि लिट् मे जो नुम् हां तो इडादि मे ही होवे इस नियम से “रन्धतुः” आदि मे भी निषेध हां जाता । रधितासि, रद्धासि, रधिष्यति, त्स्यति, राधिपति, राधिपाति, रधिषति रधिषाति, रात्सति, रात्साति, र्धयति र्ध्याति र्धयतु, अरधयन्, र्धयेत्, र्ध्यान्, अरधत्, यहा अङ् के परे प्रथम नुम् ( १६५ ) होकर नलोप ( १३९ ) हांता है । अरधताम्, अरधिगयन्, अरत्स्यत् ॥ ८९ [ णश ] अदर्शने = नेत्र से न दीखना । नश्यति, ननाश, नेशतुः, नेशुः । थल् के परे ( १४९, २१५ ) नियम से सेट् पक्ष मे—नेशिय । अनिट् पक्ष मे—

### ४०६—मस्जिनशोर्भलि ॥ ७ । १ । ६० ॥

क्लादि प्रत्यय परे हां तो मस्ज और नश धातु को नुम् का आगम हावे । ननष्ट ( २३३ ) पन्व, नेशथुः, नेश, ननाश, ननश, नेशिव, नन्श्व, नेशिम नन्श्म, नशितासि, नष्टामि ( ४०७ ), नशिष्यति, नङ्क्षति, नङ्क्षाति, नश्यतु, अनश्यत्, नश्येन्, नश्यात्, अनशान्, अनशिष्यत्, अनङ्क्षयन् ॥ ९० [ तृप ] प्रीणने = वृप्ति । यह धातु अनिट् है । वृप्यति, ततर्प, ततृपतुः, थल् मे इट् पक्ष मे ( ४०७ ) तनपिथ, तत्रपथ ( २७५ ) ततर्थ, इसी प्रकार सबत्र बलादि आधेधातुक मे जानो । तर्पिता, त्रप्ता, तर्प्ता, तर्पिष्यति, त्रप्स्यति, तर्प्स्यात्, तर्पिषति, तर्प्षाति, त्रप्सति, त्रप्साति, तर्प्सेति, तर्प्नानि वृप्याति, वृप्याति, वृप्यतु, अतृप्यत्, वृप्येत्, वृप्यात् । लुङ् मे प्रथम सिच् पक्ष ( २८० ) मे इट् का विकल्प ( ४०७ ) होने से—अतर्पीत्, अत्राप्सीत् ( २७५ ), अताप्सीत् । और जिस पक्ष मे क्लि के स्थान मे सिच् ( २८० ) न हुआ वहा—अङ् ( २१७ ) अतृपत् । इस प्रकार चार रूप होते है । अतर्पिष्यत्, अत्रप्यत्, अतर्प्यन् ॥ ९१ [ वृप ] हर्षमोहनयोः =

आनन्द और गर्व । इसके प्रयोग तृप के समान जानो । हृष्यति, अदर्पीत्, अद्राप्सीत्, अदाप्सीत्, अदृपत् । तृप और हृप दोनो धातु अनिट् है परन्तु रधादि.मे होने से यहां विकल्प से इट् होता है ॥ ९२ [ दुह ] जिघांसायाम् = मारने की इच्छा । द्रुह्यति, दुद्रोह, दुद्रोहिथ ( ४०७ ), अनिट् पक्ष मे—

४१०—वा द्रुहसुहष्णुहष्णिहाम् ॥ ८ । २ । ३३ ॥

द्रुह, सुह, णुह और ष्णिह धातुओ के हकार को घकारादेश विकल्प करके होवे भल् परे हो वा पदान्त मे । पक्ष मे ढकार हो जाता है । यह सूत्र भी ( २०३ ) सूत्र का अपवाद है । दुद्रोग्ध घ को जश्त्व, ढकार पक्ष में—दुद्रोढ, द्रोहिता, द्रोग्धा, द्रोढा, द्रोहिष्यति, द्रोक्ष्यति । यहां घ और ढ दोनो आदेश का एक ही प्रकार का प्रयोग होता है । घकार पक्ष मे उसको चर ककार और ढकार में भी ( २०५ ) ढ को क हो जाता है । द्रोहिषति, द्रोहिषाति, ध्रोक्षति, ध्रोक्षाति, द्रुह्यतु, अद्रुह्यत्, द्रुह्येत्, द्रुह्यात्, अद्रुह्यत्, अद्रोहिष्यत्, अद्रोक्ष्यत् ॥ ९३ [ सुह ] वैचित्ये = विचार-शून्य । सुह्यात्, सुमोह, सुमोहिथ, सुमोग्ध, सुमोढ, मोहिता, मोग्धा, मोढा, मोहिष्यति, मोक्ष्यति, अमुहत् ॥ ९४ [ णुह ] उद्गिरणे = उगलना । स्नुह्यति, सुष्णोह, सुष्णोहिथ, सुष्णोग्ध, सुष्णोढ, सुष्णुहिव, सुष्णुह, स्नोहिता, स्नोग्धा, स्नोढा, स्नोहिष्यति, स्नोक्ष्यति, अस्नुहत् ॥ ९५ [ ष्णिह ] प्रीतौ = प्रीति करना । स्निह्यति, सिष्णोह, अस्निहत् । वृत् रधादयः समाप्ता । ये रध आदि ( ४०७ ) सूत्र में कहे धातु समाप्त हुए । पुषादि तौ इस गण की समाप्ति पर्यन्त हैं ॥ ९६ [ शम ] उपशमे = शान्ति ।

४११—शमामष्टानां दीर्घः श्यनि ॥ ७ । ३ । ७४ ॥

शम आदि आठ धातुओं के अच् को दीर्घ होवे श्यन् परे हो तो । शाम्यति, शाम्यतः, शाम्यन्ति, शशाम, शेमतुः, शेमिथ, शमिता, शमिष्यति, शामिषति, शामिषाति, शाम्यतु, अशाम्यत्, शाम्यत्, शम्यात्, अशमत् (२१७), अशमिष्यत् ॥ ९७ [तमु] काङ्क्षायाम् = अभिलाषा । ताम्यति ( ४११ ), तताम, तेमतु, तमितासि, अतमत् ॥ ९८ [ दमु ] उपशमे । दाम्यति, अदमत् ॥ ९९ [ भ्रमु ] तपसि खेदे च = तप करना और क्लेश भोगना । भ्राम्यति, अश्रमत् ॥ १०० [ भ्रमु ] अनवस्थाने = स्थिति न होना । ( १८८ ) भ्राम्यति, भ्रमति, बभ्राम, भ्रेमतुः, भ्रेमुः,—( २२९ ) एत्वाभ्यास लोप । विकल्प पत्र मे— बभ्रमतुः । लुङ् में अङ् ( २१७ )—अभ्रमत् । अन्य सब प्रयोग भ्वादि<sup>१</sup> के समान जानो ॥ १०१ [ क्षमूष् ] सहने । यह धातु ऊदित् और षित् है । क्षाम्यति, चक्षाम, चक्षमतुः, चक्षमिथ ( १४० ) चक्षन्थ, चक्षमिव, चक्षण्व, चक्षमिम, चक्षण्म, क्षमिता, क्षन्ता, क्षमिष्यति, क्षंस्यति, क्षासति, क्षांसाति, क्षाम्यतु, अक्षाम्यत्, अक्षमत् ॥ १०२ [ क्लमु ] ग्लानौ = आनन्द का नाश । क्लाम्यति ( १८८ ), क्लामति ( १८६ ) सूत्र से ही शप् और श्यन् दोनों में दीर्घ हो जाता फिर इसका शमादिको में यहा पाठ कृदन्त में धिनुण्<sup>२</sup> प्रत्यय होने के लिये है । क्लाम, क्लमतुः, क्लमिता, क्लमिष्यति, क्लाम्यतु, क्लामतु, अक्लमत् ॥ १०३ [ मदी ] हर्षे = आनन्द । माद्यति. ममाद, मेदतुः, मेदिथ, मदिता, मदिष्यति, मादिषति, मादिषाति, माद्यतु, अमाद्यत्, माद्येत्, मद्यात्, अमदत्, अमदिष्यत् ॥ इत्यष्टौ शमादय । ये ( ४११ ) सूत्र मे कहे शम

१. द्रष्टव्य पृष्ठ १४९, पङ्क्ति १६ ।

२. क्षमित्यष्टाभ्यो चिनुण् ( आ० १२७२ ) सूत्र से ।

आदि आठ वातु समाप्त हुए ॥ १०४ [ असु ] क्षेपणे = फेकना । अस्यति, आस, असितासि, अस्यतु ।

### ४१२—अस्यतेस्थुक् ॥ ७ । ४ । १७ ॥

अङ् परे हां तो अस्यति धातु को थुक् का आगम हांवे । आस्थत् आस्थानाम्, इस धातु से लुङ् मे ( २१७ ) सूत्र से अङ् सिद्ध ही है फिर ( ३१६ ) मृत्र मे असु धातु का ग्रहण आत्मनेपद विषय के लिये है ॥ १०५ [ यस्म ] प्रयत्ने = पुरुपाथे ।

### ४१३—यसोऽनुवसर्गात् ॥ ३ । १ । ७१ ॥

उपसर्गरहित यस्म वातु [ म ] परे श्यन् प्रत्यय विकल्प करके हांवे कर्तावर्चा सार्वधातुक परे हां तो, पक्ष मे शप् होना है । यस्यति, यसति ।

### ४१४—संयसश्च ॥ ३ । १ । ७२ ॥

सपूर्वक यस्म वातु मे भी श्यन् प्रत्यय विकल्प करके हांवे । मयस्यति, मयसति, मयास, येसतुः यसिता, यसिष्यति, यासिपति, याभिपाति, यस्यतु, अयस्यत्, यस्येत्, यस्यात्, अयसत्, अयसिष्यत् ॥ १०६ [ जसु ] मोक्षणे = छटना । जस्यति, अजसन् ॥ १०७ [ तसु ] उपक्षये = नाश । तस्यति, अतसत् ॥ १०८ [ दसु ] च—पूर्व धातु के अर्थ मे । दस्यति, अदसत् ॥ १०९ [ वसु ] स्तम्भे = रोकना । वस्यति, ववास, ववसतुः ( १२९ ), अवसन् ॥ वादिरित्येके । किन्ही के मत मे यह धातु।पवर्गादि है वहां ( १२९ ) सूत्र न लगने से 'बेसतु', बेसुः' प्रयोग बनते हैं ॥ ११० [ व्युष ] विभागे । व्युष्यति, अव्युषन् । ओष्ठ्यादिदन्त्यान्तोऽयमित्येके । किन्ही के मत मे यह वातु व्युस है । व्युस्यति, अव्युसत् । अयकारो वुस इत्यपरे । कोई के मत में यकाररहित वुस है । वुस्यति, वुवास, अवुसत् ॥

१११ [प्लुष] दाहे । लुष्यति, अप्लुषत् ॥ ११२ [विस] प्रेरणे =  
 प्रेरणा । विष्यति, विवेस, अविमत् ॥ ११३ [कुस] सश्ले-  
 षणे । कुम्यति, अकुमत् ॥ ११४ [वुस] उत्सर्गे = त्याग ।  
 वुम्यति, अवुसन् ॥ ११५ [मुस] खण्डने = काटना ।  
 मुम्यति मुमांस, मुमुसतु, मोसिता, मोसिष्यति, मोसिषति, मोसि-  
 पाति, मुम्यतु, अमुस्यत्, मुस्येत्, मुस्यात्, अमुसत्, अमासि-  
 प्यत्, ॥ ११६ [मसी] परिणामे = विकार । मस्यति, ममास,  
 मेमतु, अमसत् । [समी] इत्येके । कोई के मत मे मसी नहीं  
 सर्मा है । सम्यति, असमत् ॥ ११७ [लुठ] विलोडने =  
 विलोना । लुठ्यति, अलुठत् ॥ ११८ [उच] समवाये =  
 नित्य मयन्व । उच्यति, उवाच, ऊचतु, ऊचुः, आचिता, आचिष्यति,  
 आचिपति, आचिपाति. उच्यतु, आच्यत्, उच्येत्, उच्यात्,  
 आचन्, मा भवानुचत्, आचिष्यत् ॥ ११९, १२० [भृशु,  
 भ्रशु] अधःपतनं = नीचे गिरना । भृश्यति, बभर्श, अभ्रशत्,  
 भ्रश्यति, बभ्रंश, अभ्रशत् ( १३९ ) ॥ १२१ [वृश] [ वृश ]  
 वरणे = स्वीकार । वृश्यति, अवृशत् ॥ १२२ [कृश] तनू-  
 करण = सूक्ष्म करना । कृश्यति, अकृशत् ॥ १२३ [जितृष्]  
 पिपाम्नायाम् = पीने की इच्छा । तृष्यति, अतृषत् ॥ १२४  
 [हृष] तुष्टौ = सन्तोष । हृष्यति, अहृषत् ॥ १२५, १२६  
 [रुप. रिप] हिंसायाम् = मारना । रुष्यति, रिष्यति, रुरोष,  
 रिरिष, रापिता ( २१२ ) रोष्टा, रेषिता, रेष्टा, अरुषत्, अरिषत् ॥  
 १२७ [डिप] क्षेपे = फेकना । डिप्यति, अडिपत् ॥ १२८ [कुप]  
 क्रोधे = कुप्यति, अकुपत् ॥ १२९ [गुप] व्याकु-  
 लत्वे = व्याकुलता । गुप्यति, अगुपत् ॥ १३०—१३२ [युप,  
 रुप. लुप] विमोहने—मोहित करना । युप्यति, रुंयति, लुप्यति,  
 अयुपत्, अरुपत् । यहा लुप धातु सेट् ही है और अनिट् धातुओ

में जो लुप गिनाया है वह [ लिप धातु के ] साहचर्य से तुदादिगण का समझा जाता है। अलुपत् ॥ १३३ [ लुभ ] गाध्यै = आकाङ्क्षा । लुभ्यति, लुलोभ, लुलुभतुः, लोभिता ( २१२ ) लोब्धा, अलुभत् ॥ १३४ [ लुभ ] सञ्चलने = चलायमान होना । क्षुभ्यति, अक्षुभत् ॥ १३५, १३६ [ णभ, तुभ ] हिंसायाम् = नभ्यति, ननाभ, नेभतुः, अनभत्, तुभ्यति, अतुभत् ॥ १३७ [ क्लिदू ] आर्दीभावे = गीलापन । क्लिद्यति, चिक्लेद, चिक्लेदित्, ऊदित् होने से इट् विकल्प ( १४० ) चिक्लेत्थ, चिक्लिदिव, चिक्लिद्व, क्लेदिता, क्लेत्ता, अक्लिदत् ॥ १३८ [ जिमिदा ] स्नेहने = प्रीति वा चिकनाई ।

### ४१५-मिदेर्गुणः ॥ ७ । ३ । ८२ ॥

मिद् धातु के इक् भाग को गुण होवे शित् प्रत्यय परे हो तो । मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति । यहां श्यन् के क्ति होने से गुण प्राप्त नहीं था । मिमेद, मिमिदतुः, अमिदत् ॥ १३९ [ जिद्विदा ] स्नेहनमोचनयोः । द्विद्यति, अद्विदत् ॥ १४० [ ऋधु ] वृद्धौ । ऋभ्यति, आनर्ध, आनृधतुः ( १४७, ११२ ), अर्धिता, अर्धिष्यति, अर्धिषति, अर्धिषाति, ऋध्यतु, आर्ध्यत्, ऋध्येत्, ऋध्यात्, आर्धत्, आर्धिष्यत् ॥ १४१ [ गृधु ] अभिकाङ्क्षायाम् = मिलने की इच्छा । गृभ्यति, जगर्ध, जगृधतुः, अगृधत् ।

१. 'क्' में श्रूयमाण 'र्' स्वतन्त्र रवर्ण के ग्रहण से गृहीत होता है इस पक्ष में 'ऋध' को द्विहल् मानकर सूत्र ( १४७ ) से नुडागम होता है । जिस पक्ष में 'र्' का पृथग्रहण नहीं होता तब द्विहल् ग्रहण को हटाकर तथा 'अन्नोति' ग्रहण को नियमार्थ मानकर नुडागम होता है । अथवा ऋकार का उपसंख्यान मानकर नुडागम होता है । ये तीनों पक्ष 'ए ओ ङ्, ऐ औ ष्' (अष्टा० १ । १ । ४, ५) सूत्र के भाष्य में लिखे हैं ।

जो मिद वा णभ आदि धातु भ्वादिगण मे पढ़ चुके हैं उनका पाठ श्यन् वा अह आदि विशेष कार्यों के लिये किया है, इसी प्रकार अन्य सब गणों मे जानो । वृत् पुषादयः । ( २१७ ) सूत्र में कहे पुषादि धातु पूरे हुए । दिवादिगण भी भ्वादिगण के समान आकृतिगण है । जिससे—'क्षीयते, मृष्यति' आदि प्रयोग बनते हैं ॥

इति श्यन् विकरणो दिवादिगणः समाप्तः ।

यह श्यन् विकरणवाला दिवादिगण समाप्त हुआ ।



## अथ स्वादिगणः

१ [ पुञ् ] अभिषवे = यन्त्र से रस खीचना वा राज्याधिकार देना ।

४१६-स्वादिभ्यः श्नुः ॥ ३ । १ । ७३ ॥

सु आदि धातुओं से शप् का बाधक श्नु प्रत्यय होवे कर्तावाची सार्वधातुक परे हाँ तो । विकरणस्थ उकार को गुण होकर—सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति ( २६१ ), सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ, सुनोमि, सुन्वः ( २०० ), सुनुवः, सुन्मः, सुनुम, सुनुत, सुन्वाते, सुन्वते, सुषाव, सुषुवे, सोता, सोष्यति. सोष्यते, सौषति. सौषाति, सौषतै, सौषातै, सुनोतु, सुनुतात्, सुनु ( २०१ ), सुनवानि, सुनवाव, सुनवाम, सुनुताम, असुनोत्, [ असुनुत, ] सुनुयात्, सुन्वात्, सूयान्, सोषाष्ट, असावात्, ( ३३० ) असोष्ट, असोष्यत्, असोष्यत ॥ २ [ पिञ् ] बन्धने = बांधना । सिनोति, सिषाय, सिष्ये, सेता, सेष्यति ॥ ३ [ शिञ् ] निशानं = तीक्ष्ण करना । शिनोति, शिनुते ॥ ४ [ डुमिञ् ] प्रक्षेपणे = फेंकना । मिनोति, मिनुते, ममौ ( ३९९ ), आकारादेश होकर आकारान्तो के तुल्य रूप जानो । एचविषय मे आकारादेश के कहने से 'मिम्युः, मिम्यु.' आदि मे नहीं हाता, ममिथ, ममाय, मिम्ये, मिम्याते, मिम्यिरे, माता, मिनोतु, मीयान् ( १६० ) दीर्घ, मासीष्ट, अमासीत्, अमासिष्ठाम्, अमास्त, [ अमास्यत् ] अमास्यत ॥ ५ [ चिञ् ] चयने = जोडना । चिनोति, चिनुतः, चिनुते ।

४१७-विभाषा चेः ॥ ७ । ३ । ५८ ॥

सन् और लिट् परे हाँ तो अभ्यास से परे चिञ् धातु को



विकल्प करके कुत्व होवे । चिकाय, चिक्यतु., चिकयिथ, चिचाय, चिच्यतु, चिक्ये. चिच्ये, चेता, चेध्मति, चेध्यते, चैषति, चैषाति, चैपतै, चैपातै, चिनोतु, चिनुताम्, अचिनोत्, अचिनुत, चिनुयात्, चिन्वीत. चीयात्, चेपीष्ट, अचैपीत्, अचेष्ट, अचेध्यत्, अचेध्यत ॥ ६ [ स्तृञ् ] आच्छादने । स्तृणोति, स्तृणुते, तस्तार, तस्तरु. ( २५३ ), तस्तरु, तस्तरिथ, तस्तरथ, तस्तरे, तस्तराते, स्तर्ता. स्तयात् ( २५४ ). स्तर्यास्ताम् ।

४१८-ऋतश्च संयोगादेः ॥ ७ । २ । ४३ ॥

सयागादि ऋकारान्त धातु से परे आत्मनेपद विषय मे जो लिङ् सिच् उसको विकल्प करके इट् का आगम होवे । स्तरिपीष्ट, स्तृपीष्ट ( २४० ), अस्तरिष्ट, अस्तृत, अस्तार्पीत्, अस्तार्ष्टाम् ॥ ७ [ कृञ् ] हिंसायाम् । कृणोति, कृणुते, चकार, चकथे ( १४८ ), चक्रे, कर्ता, करिष्यति. करिष्यते, कार्षति, कार्षाति, कार्षतै, कार्षातै, कृणोतु, कृणुताम्. अकृणोत्, अकृणुत, कृणुयात्, कृणवीत, क्रियात्, ( २३९ ), कृपीष्ट ( २४० ), अकार्षीत्, अकृत, अकरिष्यत्. अकरिष्यत ॥ ८ [ वृञ् ] वरणे = स्वीकार । वृणोति, वृणुते, ववार, वव्रतु ।

४१९-बभूयाततन्थजगृम्भववर्थेतिनिगमे ॥

७ । २ । ६४ ॥

बभूथ, आततन्थ, जगृम्भ, ववर्थ इन शब्दो मे थल् के परे वेद विषय मे इट् का अभाव निपातन किया है । 'भू' धातु का वेद मे 'बभूथ', लोक मे 'बभूविथ' । आङ् पूर्वक 'तनु' धातु का वेद मे 'आततन्थ', लोक मे 'आतेनिथ' । 'ह्र प्रसह्यकरणे' जुहोत्यादि धातु का लिट् लकार उत्तमपुरुष के बहुवचन मे 'जगृम्भ' वेद मे, 'जगृहिम' लोक मे, तथा इसी 'वृञ्' धातु का 'ववर्थ' वेद मे, और

इसी प्रमाण से लोक मे इट् होता है 'ववरिथ' । ववृव ( १४८ ) ववृम, वव्रे, ववृषे, ववृवहे, ववृमहे, वरिता, वरीता, ( २६४ ), वरिष्यति, वरीष्यति, बरिष्यते, वरीष्यते, वारीषति, वारीषाति, वारिषति, वारिषाति, वृणोतु, वृणुताम्, अवृणोत्, अवृणुत, वृणु-यात्, वृण्वीत्, त्रियात्, त्रियास्ताम् ।

४२०—लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ॥ ७ । २ । ४२ ॥

वृङ्, वृञ् और ऋकारान्त धातुओ से परे जो आत्मनेपदविषयक लिङ् सिच् उसको विकल्प करके इट् का आगम होवे । वृङ्, वृञ् [ और ] ऋकारान्त सब धातु सेट् हैं इसलिये प्राप्तविभाषा है । अब इट् को दीर्घ ( २६४ ) प्राप्त है उसका निषेध ।

४२१—न लिङि ॥ ७ । २ । ३६ ॥

कृङ्, वृञ् और ऋकारान्तो से परे लिङ् के इट् को दीर्घ न होवे । वरिषीष्ट, वरिषीयास्ताम्, अनिट् पक्ष में—वृषीष्ट, अवारीत्, अवारिष्टाम्, अवारिषुः ( २६६ ), अवरिष्ट, अवरीष्ट, अवरीष्यत्, अवरिष्यत् ॥ १ [ धुञ् ] कम्पने = कांपना । धुनोति, धुनुते, दुधाव, दुधविथ, दुधुवे, धाता, अधौषीत्, अधोष्ट, अधोष्यत् । दीर्घान्तोऽपीत्येके \* । यह धुञ् धातु किन्ही आचार्यों के मत में दीर्घ ऊकारान्त भी है । धूनोति, धूनुते, दुधाव, दुधुवे, दुधविथ, दुधोथ ( १४० ) इट् विकल्प । कित् लिट् में क्रयादि नियम ( १४८ ) से नित्य इट् होता है । दुधुविव, दुधुविम, धविता, धाता, धविष्यति, धोष्यति, धाविषति, धाविषाति, धौषति, धौषाति, धाविषतै, धावि-

\* लोक वेद में सर्वत्र दीर्घान्त धूञ् धातु के प्रयोग बहुधा आते हैं और पाणिनीय “स्तुसुधूञ्” (आ० ३३०) आदि सूत्रों में दीर्घान्त ही आता है फिर यह ठीक नहीं बनता कि किन्हीं के मत में दीर्घान्त हो किन्तु दीर्घान्त सार्वत्रिक और अल्पप्रयुक्त किन्ही के मत में ह्रस्वान्त होना चाहिये ॥

षातै, धौषतै, धौषातै, धूनोतु, धूनुताम्, अधूनोत्, अधूनुत, धूनु-  
यात्, धून्वीत, धूयात्, धविषीष्ट, धोषीष्ट, अधविष्ट, अधोष्ट,  
अधावीत् (३३०) नित्य इट्, अधाविष्टाम्, अधविष्यत्, अधोष्यत्  
स्वादय उभयतोभाषा वृञ् वर्जमनुदात्ताः । सु आदि वातु उभय-  
पदी वृञ् को छोड़ कर सब अनिट् है ।

अथ परस्मैपदिनो नव । अब परस्मैपदी नव ( ६ ) कहते  
हैं । १० [ टुटु ] उपताप = क्लेश भोगना । टु की इत्संज्ञा  
( १५० ) । टुनोति, टुदाव, टुदविथ, दातासि, दोष्यति, दौषति,  
दौषाति, टुनोतु, अटुनोत्, टुनुयात्, दूयात्, अदौषीत्, अदो-  
ष्यत् ॥ . ११ [ हि ] गतौ वृद्धौ च । हिनोति ।

### ४२२— हेरचाडि ॥ ७ । ३ । ५६ ॥

अभ्याम से परे हि धातु के हकार को कुत्व होवे परन्तु चङ्  
पर न हो ता । हकार का अन्तरतम घकार होकर—जिघाय,  
जिघ्यतु, जिघयिथ, जिघेथ, हिनोतु, अहैषीत् ॥ १२ [ पृ ]  
प्रीनौ । पृणाति, पर्ना, परिष्यति, प्रियात्, अपार्षीत् ॥  
१=[स्पृ] प्रीतिसेवनया, प्रीतिचलनयोरित्यन्ये । स्पृणाति, पस्पार,  
पस्पग्तु ( २५३ ), पस्परिथ, पस्पर्थ, स्पर्यात् । ( २५४ ), अस्पा-  
र्षीत् ॥ [ स्मृ ]<sup>१</sup> इत्येके । स्मृणाति, सस्मार, सस्मरिथ, सस्मर्थ,  
स्मर्यात् ( २५४ ) ॥ १४ [ आप्लृ ] व्याप्तौ = व्यापक होना  
आप्नोति, आप्नुत, आप्नुवन्ति । यहां संयोगपूर्व के होने से श्नु  
प्रत्यय के उकार का यण ( २६१ ), तथा 'आप्नुत' [ संयोग पूर्व  
होने से ] ( २०० ) लोप नहीं होता । आप्ना, आप्प्यति, आप्पसति,  
आप्प्साति, आप्पानोतु, आप्पुहि ( २०१ ), संयोग पूर्व के होने से हि

१. पृ, स्पृ, स्मृ ये धातुएँ किन्हीं वैयाकरणों के मत में छान्दस है ।

का लुक् नहीं होता । आप्नोत्, आप्नुयात्, आप्यात्, आपत् ( २१७ ) अङ्, आप्स्यत् ॥ [ शकृत् ] शक्तौ । शक्नोति, शशाक, शोकतु, शोकित्थ, शशकथ, शक्ता, शक्ष्यति, शाक्षति शाक्षाति शक्नोतु, अशक्नोन्, शक्नुयात्, शक्यात्, अशकत् ( २१७ ), अशक्ष्यत् ॥ १६, १७ [ राध, साध ] संसिद्धौ । राध्नोति साध्नोति ।

४२३—राधो हिंसायाम् ॥ ६ । ४ । १२३ ॥

कित् ङित् लिट् और सेट् थल् परे हो तो हिंसा अर्थ मे वर्तमान राध धातु को एकार आदेश और अभ्यास का लोप होवे । रराध, रेधतु, अपरेधतु, अपरेधु, रेधित्थ, अपपूर्वेक राध धातु का हिंसा अर्थ होता है । [ अन्यत्र-रराध, रराधतु ] राद्धा, साद्धा, रात्स्यति, सात्स्यति, रात्सति, रात्माति, असात्सीत्, असाद्धाम्, असात्स्यत् ॥ दुनोतिप्रभृतयोऽनुदाताः परस्मैभाषाः । दु आति धातु अनिट् परस्मैपदी है ।

अथ द्वावनुदात्तेतौ । अब दो धातु आत्मनेपदी कहत है ।

१८ [ अशूङ् ] व्याप्तौ सङ्घाते च = व्याप्ति और इकट्ठा करना । अश्नुत, अश्नुवात् ।

४२४—अश्नात्तेश्च ॥ ७ । ४ । ७२ ॥

दीर्घ क्रिये अभ्यास के अवर्ण से परे अश् धातु को नुट् का आगम होवे । आनशो, आनशाते । ऊदित् होने से इट् विकल्प ( १४० ) आनशिषे, आनक्षे, आनशिवहे, आनश्वहे, अशितासे, अष्टासे ( २३३ ) षत्व, अशिष्यते, अक्ष्यते, आशिषतै, आशिषातै, आक्षतै, अश्नुताम्, अश्नवै, आश्नुत, अश्नुवीत, अशिषीष्ट, अक्षीष्ट, आशिष्ट, आष्ट, आक्षाताम्, आशिष्यत, आक्ष्यत ॥ १९ [ षिघ्र ] आस्कन्दने = सूखना । स्तिध्नुते, तिष्ठित्थे, स्तेधितासे, अस्तेषिष्ट ।

अथागणान्तात् परस्मैपदिनः । अब इस गण के अन्त पर्यन्त परस्मैपदी धातु कहते हैं । २०, २१ [ तिक, तिग ] गतौ च, चादास्कन्दने । यहां चकार से आस्कन्दन अर्थ की अनुवृत्ति आती है । तिक्नोति, तिग्नोति, तितेक, [ तितेग, तेकितासि, ] तेगितासि, तेगिष्यति, तेगिषति, तेगिषाति, तिग्नोतु, अतिग्नोत्, तिग्नूयात्, तिग्यात्, अतेगीत्, अतेगिष्यत् ॥ २२ [ षघ ] हिसायाम् । सघ्नोति ॥ २३ [ ङिघृषा ] प्रागल्भ्ये = अतिदृढ होना । घृष्णोति, दघर्ष, घर्षिता ॥ २४ [ दम्भु ] दम्भने = अहङ्कार । ( १३९ ) दम्भोति, ददम्भ, ( २७१ ) क्त्वि होकर दम्भ धातु के अनुनासिक का लोप ( १३९ ) होकर न लोप को ( ४४ ) असिद्ध मानने से ( १२६ ) एत्वाभ्यास लोप नहीं पाता इसलिये—

४२५-वा०-दम्भ एत्वं वक्तव्यम् ॥महा०६।४।१२०।

दम्भ धातु को एत्व और अभ्यास का लोप हो किन् लिट् परे हो तो। देभतुः, देभुः, ददम्भिथ, दम्भिता, दभ्यात् ( १३९ ) ॥ २५ [ ऋधु ] वृद्धौ । ऋध्नोति, आनर्ध, अर्धिता, अर्धिष्यति, अर्धिषति अर्धिषाति, ऋध्नोतु, आर्ध्नोत्, ऋध्नूयात्, ऋध्यात्, आर्धीत्, आर्धिष्यत् ॥

१ अन्धिप्रन्धिदम्भि० ( आ० २७१ ) इत्यादि व्याकरणान्तर का सूत्र अपिद् विषय में ही क्त्वि का विधान करता है इस से पिद्बचनो मे 'ददम्भ, ददम्भिथ' इत्यादि प्रयोग बनते हैं । कई वैयाकरण इस सूत्र को पित् और अपित् दोनों विषयों मे क्त्वि का विधायक मानते हैं । उन के मत में पिद् विषय मे 'देभ, देभिथ' आदि प्रयोग होते हैं अन्य वैयाकरण इस सूत्र से क्त्वि का विकल्प मानते हैं । इस लिये 'देभ, ददम्भ, देभतु, ददम्भतुः, इत्यादि दो दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । महाभाष्यकार ने सं० ४२५ के वार्तिक पर 'देभतु, देभुः,' अपिद् विषय के उदाहरण दिये हैं । इस से प्रतीत हतो है कि भाष्यकार को अपिद् विषय में ही क्त्वि विधान अभिप्रेत है ।

छन्दसि ।<sup>१</sup> इस गणसूत्र का अधिकार है, यहां से आगे इस गण के अन्तर्पर्यन्त सब धातु वेदविषयक हैं । २६ [ तृप ] प्रीणन इत्येके<sup>२</sup> । किसी के मत में प्रीणनार्थं तृप धातु वैदिक है । तृप्नोति । क्षुभ्नादि<sup>३</sup> गण में पाठ होने से एत्व [ नहीं ] होता है । अतर्पीत् ॥ २७ [ अह ] व्याप्तौ । अह्नोति । मा भवानहीत् ( १६२ ) ॥ २८ [ दघ ] घातने पालने च = मारना और रक्षा । दध्नोति, ददाघ, देघतु, देघिथ, दघिता, दघिष्यति, दाघिषति, दाघिषाति, दघ्नोतु, दघ्नवानि, अदघ्नोत्, दघ्नुयात्, दध्यात्, अदाघीत्, अदघीत्, अदघिष्यत् ॥ २९ [ चमु ] भक्षणे । चम्नोति ॥ ३०-३५ [ रि, च्चि, चिरि, जिरि, दाशृ, दृ ] हिसायाम् । रिणोति, च्चिणाति । अयं भाषयामपीत्येके । कोई के मत में च्चि धातु लौकिक भी है । ऋक्षीत्येक एवाजादिरित्यन्ये । किन्ही के मत में रि और च्चि दो नहीं किन्तु ऋक्षि अजाद् अजन्त एक ही दो अक्षर का धातु है । ऋक्षिणोति, चिरिणोति, जिरिणोति, दाशनाति, दृणोति, चिचिराय, चिचिरियतु इत्यादि वैदिक प्रयोगों में जैसा प्रयोग आ जावे उसके अनुकूल सूत्रों में सिद्धि समझनी चाहिये । तिकादथ उदात्ता उदात्तेतः परस्मैपदिनः । ये तिक आदि धातु सेट् परस्मैपदी हैं । वृत् ।

इति श्नुचिकरण स्वादिगणः समाप्तः ।

यह श्नु चिकरणवाला स्वादिगण समाप्त हुआ ॥

१. छन्दसि' गणसूत्र को अन्य व्याख्याता 'तृप्नोति' के अनन्तर पढ़ते हैं ।

२. यद्यपि किन्हीं के मत में इस का स्वादि में पाठ नहीं है तथापि क्षुभ्नादि गण ( अ० ८ । ४ । ३१ ) में 'तृप्नोति' शब्द का पाठ होने से पाणिनि को स्वादिगण में पाठ अभिप्रेत है अतएव इस पर धात्वङ्क रूपाया है ३. अ० ८ । ३ । ३९ ॥

## अथ तुदादिगणाः ।

१ [ तुद ] व्यथने = पीडा । .

४२६-तुदादिभ्यः शः ॥ ३ । १ । ७७ ॥

तुदादि धातुओं से परे शप् का बाधक श प्रत्यय हांवे कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो । अपित् श के ङित् होने से गुणनिषेध सर्वत्र । तुदति, तुदते, तुतोद, तुतोदिथ, तुतुदे, तोत्ता, तोत्स्यति तोत्स्यते, तुदतु, तुदताम्, अतुदत्, अतुदत, तुदेत्, तुदेत, तुद्यात्, तुत्सीष्ट (१६३), अतौत्सीत् ( १३२, ) अतौत्ताम्, अतुत्त, अतुत्साताम्, अतोत्स्यत्, [ अतोत्स्यत ] ॥ २ [ णुद ] प्रेरणे = आज्ञा करना १ तुदति, तुदते, तुनोद, तुनुद ॥ ३ [ दिश ] अतिसर्जने = देना । दि-शति, दिशते, देष्टा, देक्ष्यति, देक्ष्यते, देक्षति, देक्षति, देक्षतै, देक्षतै, दिक्षीष्ट, अदिक्षत्, अदिक्षत ( २०७ ) ॥ ४ [ भ्रस्ज ] पाके = पकाना । भृज्जति, भृज्जते ॥ (२८६) सप्रसारण, सकार को श्चु-त्व शकार और शकार को जश्त्व हो जाता है ।

४२७-भ्रस्जोरोपधयो रमन्यतरस्याम् ॥

६ । ४ । ४७ ॥

भ्रस्ज धातु के रेफ और उपधा के स्थान में रम् का आगम विकल्प करके हांवे आर्यधातुकविषय मे । रम् मित् होने से अन्त्य अच् से परे होता है । और स्थानपष्ठी का निर्देश होने से रेफ और उपधा की निवृत्ति हां जाती है । बभर्ज, बभर्जतुः, बभर्जिथ, बभर्ष्ट ( २३३ ) षत्व और जिस पक्ष मे रम् का आगम न हुआ वहां बभ्र-ज्ज, बभ्रज्जतुः, बभ्रज्जिथ, बभ्रष्ट ( २१० ) संयोगादि सलोप और षत्व ( २३३ ), बभर्ज, बभर्जाते, बभर्जिषे, बभ्रज्जे, भष्टा, भ्रष्टा, भर्क्ष्यति, भ्रक्ष्यति, भर्क्षति, भर्क्षति, भर्क्षतै, भर्क्षतै, भ्रक्षति, भ्रक्षति, भ्रक्षतै, भ्रक्षतै, भृज्जतु, भृज्जताम्, अभृज्जत्, अभृज्जत, भृज्जेत्, भृज्जेत,

भृञ्ज्यात्, कित् डित् विषय मे रमागम ( ४२७ ) का बाध कर और पूर्वविप्रतिषेध मानकर सम्प्रसारण ( २८६ ) होता है । भृञ्ज्यास्ताम्, भर्त्सीष्ट, भ्रत्सीष्ट, अभर्त्सीत्, अभ्रत्सीत्, अभष्ट, अभक्षाताम्, अभष्ट, अभक्षाताम्, अभक्ष्यत्, अभ्रक्ष्यत्, अभक्ष्यत्, अभ्रक्ष्यत् ॥ ५ [ क्षिप ] प्रेरणे । क्षिपति, क्षिपते, क्षेप्ता, क्षिप्सीष्ट, अक्षिप्सीत्, अक्षिप्त ॥ ६ [ कृष ] विलेखने = लिखना वा जोतना । कृषति, कृषते, कृष्टा, कृष्टा ( २७५ ), कृष्यति । कृष्यति, कृष्यात्, कृत्सीष्ट, सिच् ( २८० ) पक्ष मे अम् ( २७५ ), अक्रात्सीत्, अक्रात्सीत्, पक्ष मे क्स ( २०७ )—अकृत्सीत्, अकृत्सीताम्, आत्मनेपद मे [ सिच् ] कित् ( १६३ ) हान् से अम् ( २७५ ) नहीं हाता । सिच् पक्ष ( २८० ) मे—अकृष्ट, अकृत्सीताम्, अकृत्सीत् । क्स ( २०७ ) पक्ष मे—अकृत्सीत्, अकृत्सीताम्, अकृत्सीत्, अकृष्यन्, अकृष्यत्, अकृष्यत्, अकृष्यत् । षट् तुदादयोऽनुदात्ताः स्वरिते उभयतोभाषाः । ये तुद आदि छः धातु अनिट् उभयपदी है ॥

७ [ ऋषी ] गतौ । यह धातु सट् परस्मैपदी है । ऋषति, आर्ष, आर्षत्, आर्षित् ॥

[ अथ जुषादयश्चत्वार आत्मनेपदिनः । अब जुषादि चार आत्मनेपदी धातुएं कहत हैं ] ॥ ८ [ जुषी ] प्रीतिसेवनयो । जुषते, जुजुषे, जोषितास, जोषिष्यत, जोषिष्यते, जोषिष्यते, जुषताम्, अजुषत, जुषते, जोषिषीष्ट, अजोषिष्ट, अजोषिष्यत् ॥ ९ । ओविजी । भयचलनयो । बहुधा इस धातु क प्रयोग उद् उपसग्रेपदके ही आत हैं । उद्विजत, उद्विजे, उद्विजित ।

४२८—विज इट् ॥ १ । २ । २ ॥

विज धातु से परे जो इडादि प्रत्यय सो डित्तवत् हो । उद्विजिता, उद्विजिष्यते, डित् होने से लघूपध गुण नहीं होता । उद्विजिषीष्ट,



उदविजिष्ठ ॥ १०, ११ [ओलजी, ओलस्जी] व्रीडायाम् = डेरणा और लज्जा । लजते, लेजे, लजितासे, लजिष्यते, लाजिषतै, लाजिषातै, लजताम्, अलजत, लजेत, लजिषीष्ट, अलजिष्ठ, अल-जिष्यत । लजते, ललजे, भ्रस्ज धातु के समान श्चुत्व और जश्त्व । जुपादय उदात्ताश्चत्वारोऽनुदात्तेत आत्मनेपदिनः । ये जुष आदि चार धातु सेट् आत्मनेपदी हैं ॥

अथ परस्मैपदिनो द्व्युत्तरशतम् । अब एकसौ दो ( १०२ ) धातु परस्मैपदी कहत हैं १२ [ ओवश्चू ] छेदने = काटना-वृश्चति ( २८६ ) सम्प्रसारण, वत्रश्च यहाँ अभ्यास के रेफ को ऋ सम्प्रसारण ( २८२ ) होकर ऋ को अकार ( १०८ ) होता है उस ऋकार को स्थानवत् मानने से सम्प्रसारण क परे पूवे वकार को सम्प्रसारण नहीं होता । वत्रश्चतु<sup>१</sup>, वत्रश्चु, वत्रश्चिथ, वत्रश्च, ऊदित् होने से इट् विकल्प ( १४० )—व्रश्चिता, व्रटा, व्रश्चिष्यति, व्रक्ष्यति, व्रश्चिषाति, व्रश्चिषाति, व्रक्षति, व्रक्षाति, वृश्चतु, अवृश्चतु, वृश्चेत्, वृश्च्यात्, अव्रश्चीत्, अव्राक्षीत् ॥ १३ [ व्यच ] व्याजीकरणे = छल करना । विचति ( २८३ ), विव्याच ( २८२ ), विविचतुः ( २८६ ), व्यचितासि, व्यचिष्यति, व्याचिषति, व्याचिषाति, विचतु, अविचत्, विचेत्, विच्यात्, अव्याचात्, अव्यचीत् ॥ १४ [ उच्छि ] उच्छे<sup>२</sup> = उच्छना । उच्छति, उच्छाञ्चकार, उच्छाम्बभूव, उच्छामास, उच्छिता ॥ १५ [ उच्छी ] विवास = परदेशवास । उच्छति ॥ १६ [ ऋच्छ ] गतीन्द्रियप्रलयमूर्त्तिभावेणु = गति, इन्द्रियो का प्रलय और शरीर का वनना । ऋच्छति, आनर्छ, ( २५८ ) गुण, आनर्छतुः

१. संयोगान्त होने से लिट कित् नहीं होता, अत एव सम्प्रसारण भी नहीं होता । २. उच्छ शब्द का अर्थ एक एक दाना उठाना है ।

आनर्च्छुः, आनर्च्छिथ, ऋच्छिता ॥ १७ [ मिच्छ ] उत्कलेशे =  
 पीडा । मिच्छति, मिमिच्छ, अमिच्छीत् ॥ १८—२० [ जर्ज,  
 चर्च, ऋर्क ] परिभाषणभर्त्सनयो. = बहुत बोलना व धमकाना ।  
 जर्जति, चर्चति, ऋर्कति ॥ २१ [ त्वच ] संवरणे = ढांरुना  
 त्वचति, तत्वाच ॥ २२ [ ऋच ] स्तुतौ = गुणकथन ।  
 ऋचति, आनर्च, आनृचतु ॥ २३ [ उञ्ज ] आर्जवे =  
 कोमलता । उञ्जति, उञ्जाञ्चकार ॥ २४ [ उज्झ ] उत्सग =  
 त्याग । उञ्जति, उञ्जाञ्चकार ॥ २५ [ लुभ ] विमोहने =  
 व्याकुलता । लुभति, लुलोभ, लोभिता ( २१२ ), लोब्धा, लोभि-  
 ष्यति, लोभिषति, लोभिषाति, लुभतु, अलुभत्, लुभेत्,  
 लुभ्यात्, अलोभीत्, अलोभिष्यत् ॥ २६ [ रिफ ] कथन-  
 युद्धनिन्दाहिसादानेषु = अपनी प्रशंसा, युद्ध, निन्दा, हिसा और  
 प्रहण करना वा देना । रिफति, रिरेफ, रेफिता, रेफिष्यति,  
 रेफिषति, रेफिषाति, रिफतु, अरिफत्, रिफेत्, रिफ्यात्,  
 अरेफीत्, अरेफिष्यत् ॥ [ रिह ] इत्येके । रिहति, रिरेह ॥  
 २७, २८ [ तृप, तृप् ] तृप्तौ । तृपति, ततर्प, तपिता ।

४२६-वा०—शे तृम्पादीनामुपसंख्यानम् ॥

७।१।५६ ॥

तृम्प आदि धातुओं को नुम् हो श प्रत्यय परे हो ता । यह  
 वातिक ( ७।१।५९ ) सूत्र पर है । तृम्प आदि धातुओं  
 में जो अनुनासिकसहित हैं उनके भी अनुनासिक का  
 लोप श के परे ( १३९ ) होजाता है । और नुमविवान-  
 सामर्थ्य से फिर लोप नहीं होता है । तृम्पति, तृप्यात्,  
 तृप्यात् ( १३९ ) उपधाऽनुनासिकलोप, अतर्पीत् । यहां ( २८० )  
 वार्त्तिक में अञ्ज का अपवाद होने से दिवादि के अन्तर्गत पुषादि

के तुप का ग्रहण होता है, इसलिये नित्य सिच् होता है । [ तृफ्, तृम्फ ] इत्येके । तृम्फति, ततृम्फ, तृम्फिता, तृम्फ्यात् ( १३९ ) ॥  
 २६-३२ [ तुप, तुम्प, तुफ, तुम्फ ] हिंसायाम् । तुम्पति, तुम्फति, तुम्प्यात्, तुम्फ्यात् ॥ ३३, ३४ [ दृप, दृम्फ ] उत्क्लेश=पीडा । दृम्पति, दृम्फति, दृम्प्यात्, दृम्फ्यात् ॥  
 ३५, ३६ [ ऋफ, ऋम्फ ] हिंसायाम् । ऋफति ऋम्फति, आनफे, ऋम्फाञ्चकार, ऋम्फ्यात् ॥ ३७, ३८ [ गुफ, गुम्फ ] ग्रन्थे=बन्धन । गुफति, गुम्फति, जुगुम्फ ॥ ३९, ४० [ उभ, उम्भ ] पूरणे=पूति । उभति, उम्भति, उवोभ, उम्भाञ्चकार, उभ्यात् ॥ ४१, ४२ [ शुभ, शुम्भ ] शोभार्थे । [ शुभति, ] शुम्भति, शुशोभ, शुशुम्भ, शुभ्यात् । ( ४२९ ) वार्त्तिक मे कहे तृम्पादि धातु पूरे हुए ॥ ४३ [ दृभी ] ग्रन्थे । दृभति, ददभे, अदर्भान्, अदर्भिष्यत् ॥ ४४ [ चृती ] हिंसाग्रन्थनयोः । चतति, चचर्ते, चचततु. चचतिथ, चतिता, चर्तिष्यति ( ३९७ ), चर्त्स्यति, चर्तिषति, चर्तिषाति, चत्सति, चत्साति, चृततु, अचर्तत्, चर्तेत्, चृत्यात्, अचर्तीत्, अचर्तिष्यत् ॥ ४५ [ विध ] विधाने । विधति, विवेध, विविधतु, वेधिता, वेधिष्यति, वेधिषति, वेधिषाति ॥ ४६ [ जुड ] गतौ । जुडति, अजोडीत् ॥ [ जुन ] इत्येके । जुनति ॥ ४७ [ मृड ] सुखने । मृडति, अमर्डीत् ॥ ४८ [ पृड ] च । पृडति ॥ ४९ [ पृण ] प्रीणने=वृषि । पृणति, पपणं ॥ ५० [ वृण ] च । वृणति, अवर्णीत्, अवर्णिष्यत् ॥ ५१ [ मृण ] हिंसायाम् । मृणति, मर्णिता ॥ ५२ [ तुण ] कौटिल्ये । तुणति, तार्णिष्यात् ॥ ५३ [ पुण ] कर्मणि शुभे=शुभ कर्म । पुणति, पोणिषति, पोणिषाति ॥ ५४ [ मुण ] प्रतिज्ञाने=प्रतिज्ञा । मुणति, मुणति, मुणतु ॥ ५५ [ कुण ] शब्दोपकरणयोः=शब्द और उप-

कार । कुणति, अकुणत् ॥ ५६ [ शुन ] गतौ । शुनति, शुनेत् ॥ ५७ [ ङुण ] हिंसागतिकौटिल्येषु = हिंसा, गति और कुटिलता । ङुणति, ङुण्यात् ॥ ५८, ५९ [ घुण, घूर्ण ] भ्रमणे = डोलना । घुणति, घूर्णति, जुघोण, जुघूर्ण ॥ ६० [ घुर ] ऐश्वर्यदीप्तयोः = धन और प्रकाश । सुरति, सुषोर, सोरिता, सोरिष्यति, सोरिषति, सोरिषाति, सुरतु, असुरत्, सुरेत्, सूयोत् ( १९७ ) दीघे ॥ ६१ [ कुर ] शब्दे । कुरति ।

४३०-न भकुर्छुराम् ॥ ८ । २ । ७६ ॥

रेफान्त और वकारान्त भसङ्गक तथा कुर् और छुर इन की उपधा इक् का दीघ न होवे । ( १९७ ) सूत्र से दीघ प्राप्त है उसका अपवाद यह सूत्र है । कुर्यात् \* ॥ ६२ [ खुर ] छदने = दो भाग करना । खुरति, खुखोर, खूयात् ॥ ६३ [ मुर ] संचेष्टने । मुरति, मूयात् ॥ ६४ [ क्षुर ] विलेखने = चौर कर्म । क्षुरति, क्षूयात् ॥ ६५ [ घुर ] भीमार्थशब्दयोः = भयकर पदार्थ और शब्द । घुरति, घूयात् ॥ ६६ [ पुर ] अग्रगमने = आगे चलना । पुरति, पूयात् ॥ ६७ [ वृह् ] उद्यमने = उद्यम करना । वृहति, ववहं, ववृहतु, उदित् हानं से

\* यहा भट्टोजिदीक्षित ने लिखा है कि ( ४३० ) सूत्र यहा नहीं लगता क्योंकि वहा कुर् कहने से कृन् धातु का ग्रहण होता है इससे 'कुर्यात्' प्रयोग होता है सो सदिग्ध है, क्योंकि जो "लक्षणप्रतिपदोक्तयोः" ( पारि० ६१ ) इस परिभाषा का आश्रय करें तब तो कृन् का ग्रहण ही न हो क्योंकि कृन् का कुर् लाक्षणिक और कुर् धातु प्रतिपदोक्त है इसलिये इस परिभाषा का आश्रय न करें तो भी लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त दोनों का ग्रहण होवे फिर ऐसी परिभाषा कौन है कि जिससे लाक्षणिक कृन् का ग्रहण होजावे और प्रतिपदोक्त कुर् का न हो ॥

इट् विकल्प ववर्हिथ, ववर्ढ, ववृर्हिंव, ववृह्व, वर्हिता, वर्ढा, वर्हि-  
 ष्यति, वक्ष्यति, वर्हिषति, वर्हिषाति, वर्द्धति, वर्द्धाति, वृहतु, अवृहत्,  
 वृहेत्, वृह्यात्, अवर्हीत्, अवृक्षत् । ( २०७ ) क्स्, अवर्हिष्यत् ।  
 अवक्ष्येत् ॥ [ वृह् ] इत्येके । इस मे इतना विशेष है कि—  
 भक्ष्यति ( २०४ ) भक्षति, भक्षति, अभृक्षत्, अभक्ष्यत् ॥  
 ६२—७० [ वृह्, ष्टृह्, वृह् ] हिंसार्थाः । वृहति, स्तृहति, वृंहति,  
 वतहे, तस्तर्ह, तवृंह, तर्हिता, तर्ढा, स्तर्हिता, स्तर्ढा, वृहिता,  
 वृह्णा, वृह्यात्, [ अवर्हीत्, ] अवृक्षत्, [ अस्तर्हीत्, ] अस्तृक्षत्  
 [ अवृहीत्, अताङ्क्षति, अताङ्क्षाम् ] ॥ ७१ [ इष ] इच्छा-  
 याम् । इच्छति, इषेय, इषिता, [ इष्टा, ] इषिषति, इषिषाति,  
 इच्छतु, इच्छत्, इच्छेत्, इष्यात्, ऐषीत्, इषिष्यत् ॥ ७२  
 [ मिष ] स्पर्धायाम् = ईर्ष्या । मिषति, मिषेय ॥ ७३ [ किल ]  
 इवैत्यक्राडिनयो = श्रेताई और क्रीडा । किलति, केलिता ॥  
 ७४ [ तिल ] स्नेहने = चिकनाई । तिलति, तेलिष्यति ॥  
 ७५ [ चिल ] वसन = वस्त्र । चिलति, चेलिषति, चेलिषाति, चिलतु ॥  
 ७६ [ चल ] विलसने = शोभा । चलति, अचलत् ॥  
 ७७ [ इल ] स्वप्नक्षेपणयोः—सोना और फेंकना । इलति, इयेल,  
 ईलतु, ऐलत्, इलेत् ॥ ७८ [ विल ] संवरणे = आच्छादन ।  
 विलति, विल्यात् ॥ ७९ [ बिल ] भेदने = खांदना । बिलति,  
 अबेनीत् ॥ ८० [ णिल ] गहने = गाढ़ । निलति, अनेलि-  
 ष्यत् ॥ ८१ [ हिल ] भावकरणे = प्रीति करना । हिलति ॥  
 ८२, ८३ [ शिल, षिल ] उच्छे । शिलति, सिलति ॥  
 ८४ [ मिल ] सश्लेषणे = मिलना । मिलति ॥ ८५ [ लिख ]  
 अक्षरविन्यासे = अक्षर बनाना । लिखति, लिलेख, लेखिता,  
 लेखिष्यति, लेखिषति, लेखिषाति, लिखतु, अलिखत्, लिखेत्,  
 लिख्यात्, अलेखीत्, अलेखिष्यत् ॥ ८६ [ कुट ] कौटिल्ये =

कुटिलाई । कुटति, चुकोट, चुकुटतुः, ( ३४५ ) डित्त्व होकर —  
 चुकुटतिथ, कुटिता, कुटिष्यति, कुटिषति, कुटिषति, कुटिषति, कुटि-  
 षति, यहा णित्पत्त में डित्त्व ( ३४५ ) न होने से गुण होता है ।  
 और डित् होने से सब कुटादिकों में गुण का निषेध जानो । कुटतु,  
 अकुटत्, कुटैत्, कुट्यात्, अकुटीत्, अकुटिष्यत् । ( ३४५ ) सूत्र  
 में कहे कुटादि धातु इसी कुट् से कूड् धातुपर्यन्त जानो ॥  
 ८७ [ पुट ] संश्लेषण । पुटति, पुपोट, पुटिता ॥ ८८ [ कुच ]  
 संकोचने = इकट्ठा होना । कुचति, चुकुविथ ॥ ८९ [ गुज ]  
 शब्दे । गुजति, गुजिष्यति ॥ ९० [ गुड ] रक्षायाम् ।  
 गुडति गोडिषति, गोडिषति, गुडिषति गुडिषति ॥  
 ९१ [ डिप ] क्षेपे = फेंकना । डिपति, डिपतु ॥ ९२ [ छुर ]  
 छेदने । छुरति, अछुरत्, छुर्यात् ( ४३० ) ॥ ९३ [ स्फुट ]  
 विकसने = खिलना । स्फुटति, पुस्फुटिथ ॥ ९४ [ मुट ]  
 आक्षेपमर्दनयो = खराडन और मलना । मुटति, मुटिता ॥  
 ९५ [ व्रुट ] छेदने । ( १८८ ) विकल्प से श्यन्—व्रुट्यति, व्रुटति,  
 व्रुटिष्यति, व्रुट्यतु, व्रुटतु, अव्रुट्यत्, अव्रुटत्, व्रुट्येत्, व्रुटेत् ॥  
 ९६ [ तुट ] कलहकर्मणि = विरोध करना । तुटति, तोटिषति,  
 तोटिषति, तुटिषति, तुटिषति ॥ ९७, ९८ [ चुट, छुट ]  
 छेदने । चुटति, छुटति ॥ ९९ [ जुड ] बन्धने = जोडना ।  
 जुडति, जुडतु ॥ १०० [ कड ] मदे = अहङ्कार । कडति ॥  
 १०१ [ लुट ] संश्लेषणे = मिलना । लुटति, अलुटत् ॥ लुट इत्येके ।  
 लुठति, लुठेत् ॥ १०२ [ कड ] घनत्वे = सघन । कडति,  
 अकडिन्त् ॥ १०३ [ कुड ] बाल्ये = बालकपन । कुडति ॥  
 १०४ [ पुड ] उत्सर्गे = त्याग । पुडति ॥ १०५ [ घुट ]  
 प्रतिघाने = घाटना । घुटति, जुघुटिथ, घुटिता ॥ १०६ [ तुड ]  
 तोडने = तोडना । तुडति, तुडिष्यति ॥ १०७, १०८ [ थुड ]

स्थुड ] संवरणे । थुडति, स्थुडति, तुस्थुडिथ ॥ [ स्फुड ]  
इत्यके । स्फुडति ॥ [ खुड, छुड ] इत्यन्ये । खुडति, छुडति ॥  
[ कुड ] सघातं इत्यके । कुडति ॥ १०९ [ स्फुर ]  
स्फुरणे = चेतनता स्फुरति, पुस्फार ॥ [ स्फर ] इत्येके ।  
स्फरति ॥ ११० [ स्फुल ] संचलने = चञ्चलता । स्फुलाति ॥  
१११—११३ [ स्फुड, चुड, व्रुड ] संवरणे । स्फुडति, चुडति,  
व्रुडति ॥ [ क्रुड, भ्रुड ] निमज्जन इत्येके । क्रुडति भ्रुडति,  
भ्रुडिता । व्रश्चादय उदात्ता उदात्तेत परस्मैभाषा द्व्युत्तरश-  
नम् । व्रश्च आदि एकसौ दो ( १०२ ) धातु सेट् परस्मैपदा हैं ॥

११४ [ गुरी ] उद्यमने । उदात्तोऽनुदात्तेदात्मनेपदी । यह  
धातु सेट् आत्मनेपदी है । गुरते, जुगुरे, गुरिता, गुरिष्यते, गोरिषतै,  
गोरिषातै, गुरिषतै, गुरिषातै, गुरताम्, अगुरत, गुरेत, गुरिषाष्ट,  
अगुरिष्ट, अगुरिष्यत ।

इतश्चत्वार परस्मैपदिनः । यहाँ से आगे चार धातु  
परस्मैपदा हैं । ११५ [ णू ] स्तवने = स्तुति । नुवति,  
नुनाव, अनुवीत् ॥ ११६ [ धू ] विधूनने = कंपाना । ध्रुवति,  
दुधाव, दुधुवतु, ध्रुविता, अधुवीत् । ये दोनों सेट् है ॥

११७ [ गु ] पुरीपोत्सर्गे = मल त्यागना । गुवति, जुगाव,  
जुगुविथ, जुगुथ, गुता, गुष्यति, गौषति, गौषाति, गुषति, गुषाति,  
गुवतु, अगुवत्, गुवेत्, गूयात् ( १६० ) अगुषीत्, अगुताम् ( २४१ )  
मिच्लोप, अगुपुः । ११८ [ ध्रु ] गतिस्थैर्ययोः = चलना  
और स्थिति । [ ध्रुव ] इत्येके । ध्रुवति, इत्यादि गु के समान रूप  
जानो । और ध्रुव धातु तो सेट् है । दुध्रुविथ, ध्रुविता, ध्रुव्यात्  
( १९७ ) दीषे, अध्रुवीत् ॥

११९ [ कुड् ] शब्दे, [ कुड् ] शब्द इत्येके ।  
यह धातु दीर्घान्त पक्ष में सेट् और ह्रस्वान्त पक्ष  
में अनिट् है । कुवति, चुकुविथ, कुविता, अकुविष्ट, पक्षमें—चुकु-

विथ, चुकुथ, कुता, अकुत । वृत् । इति कुटादयः समाप्ताः । ये  
( ३४५ ) सूत्र मे कहे कुटादि धातु समाप्त हुए ॥

१२० [ पृङ् ] व्यायामे = कसरत । यह धातु बहुधा वि और  
आड उपसर्गपूर्वक ही प्रयुक्त आता है । व्याप्रियते ( २३९, १५९ )  
व्याप्रियेते, व्याप्रियन्ते, व्यापप्रे, व्यापप्राते, व्यापप्रिषे, पर्तासे,  
परिष्यते, पार्षतै, पार्षातै, प्रियताम्, अप्रियत, प्रियेत, पृषीष्ट (२४०),  
अपृत ( २४१ ), अपृषाताम्, अपृषत ॥ १२१ [ मृङ् ]  
प्राणत्यागे = शरीर छूटना ।

४३१—म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च ॥ १ । ३ । ६१ ॥

मृङ् धातु से परे लुङ् लिङ् और शित् विषय मे आत्मनेपद-  
संज्ञक प्रत्यय हो, अन्यत्र नहीं । मृङ् धातु के डित् होने से सर्वत्र  
आत्मनेपद सिद्ध ही है फिर विशेष विषय मे कहने से यह नियम  
हुआ कि लुङ् लिङ् और शित् से भिन्न लकारों मे परस्मैपद ही हो ।  
म्रियते, ममार, मम्रतु, मम्रुः, ममर्थ, मम्रिव, मम्रिम, मर्तासि,  
मरिष्यति, मार्षति, माषाति, म्रियताम्, अम्रियत, म्रियेत, मृषीष्ट,  
अमृत, अमृषाताम्, अमरिष्यत् ।

अथ परस्मैपदिनः सप्त । अब सात ( ७ ) धातु परस्मैपदी  
कहते हैं ॥ १२२, १२३ [ रि, पि ] गतौ । रियति, पियति,  
रिराय, पिपाय, रिरियतुः, पिपेथ, पेता, पेष्यति, पैषति,  
पैषाति, पियतु, अपियत्, पियेत्, पीयात्, अपैषीत्, अपैष्टाम,  
अपेष्यत् ॥ १२४ [ धि ] धारणे । धियति, दिधयिथ, दिधेथ,  
धेता ॥ १२५ [ क्षि ] निवासगत्यो । क्षियति, क्षीयात्,  
अक्षैषीत् । र्थादयोऽनुदात्ता । ये रि आदि अनिट् हैं ॥  
१२६ [ बु ] प्रेरणे = आज्ञा । सुवति, सुषाव, सुषविथ; सविता,  
सविष्यति, साविषति, साविषाति, सुवतु, असुवत्, सुवेत्, सूयात्,



असावीत्, असाविष्टाम्, असविष्यत् ॥ १२७ [ कृ ]  
 विक्षेप = फैलाना । किरति (२६५), किरतः, चकार, चकरतुः, चकषः  
 ( २५८ ) गुण, करीता ( २६४ ) करिता, करीष्यति, करिष्यति,  
 कारीषति, कारीषाति, कारिषति, कारिषाति, किरतु, अकिरत्,  
 किरेत्, कीर्यात् ( २६५, १९७ ), अकारीत्, ( २६६ ), अकारिष्टाम्,  
 अकरीष्यत्, अकरिष्यत् ॥ १२८ [ गृ ] निगरणे = खाना  
 वा उपदेश करना ।

### ४३२-अचि विभाषा ॥ ८ । २ । २१ ॥

अजादि प्रत्यय परे हो तो ग धातु के रेफ को विकल्प करके ल-  
 कारादेश होवे । गिरति, गिलति, जगाल, जगार, जगलतुः, जगरतुः,  
 गलीता, गलिता, गरीता, गरिता, गीर्यात्, अगालीत्, अगारीत्,  
 अगालिष्टाम्, अगारिष्टाम् । उदात्ताः परस्मैपदिनः । सू आदि  
 धातु सेट् परस्मैपदी हैं ॥

१२९ [ दृङ् ] आदरे = सत्कार । यह धातु  
 आङ्पूर्वक बहुधा आता है । आद्रियते ( २३९ ) रिङ्,  
 आद्रियते, आद्रे, आदद्रिषे, आदर्तासे, आदरिष्यते, आदार्षतै, आ-  
 दार्षतै, आद्रियताम्, आद्रियत, आद्रियेत, आदृषीष्ट ( २४० ),  
 आदृत, आदृषाताम्, आदरिष्यत । १३० [ धृङ् ] अवस्थाने  
 = स्थिति । ध्रियते, दध्रे, दध्रिषे ॥ अनुदात्तावात्मनेपदिनौ । ये  
 दोनो धातु अनिट् आत्मनेपदी हैं ॥

अथ परस्मैपदिनः षोडश । अब सोलह धातु परस्मैपदी कहते  
 हैं ॥ १३१ [ प्रच्छ ] ज्ञीप्सायाम् = जानने की इच्छा । पृच्छति,  
 पृच्छतः ( २८६ ) संप्रसारण, पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, प्रप्राच्छथ, अनिट्  
 पक्ष में—पप्रष्ट ( २३३ ) षत्व, प्रष्टा, प्रक्ष्यति, प्राक्षति, प्राक्षाति,  
 पृच्छतु, अपृच्छत्, पृच्छेत्, पृच्छ्यात्, अप्राक्षीत्, अप्राष्टाम्,

अप्राक्षु, अप्रक्ष्यत् ॥ वृत्<sup>१</sup> । किरादयः समाप्ताः । ये किरति  
 आदि पाच धातु पूरे हुए, इनसे सन्नन्त प्रक्रिया में विशेष कार्य होते  
 हैं ॥ १३२ [सृज] विसर्गो = रचना वा त्यागना । सृजति, ससर्ज,  
 ससृजतुः, ससर्जिथ ( २७७ ), सस्रष्ट ( २३३, २७८ ), स्रष्टा,  
 स्रक्ष्यात्, स्राक्षति, स्राक्षात्, सृजतु, असृजत्, सृजेत्, सृज्यात्,  
 असाक्षात्, असाक्षाष्टाम्, अस्रक्ष्यत् ॥ १३३ [टुमस्जो] शुद्धौ । टु  
 और आकार की इत्संज्ञा, 'स्तो श्चुना श्चुः' सूत्र से स को श  
 और श को ज होकर—मज्जति, ममज्ज, ममज्जिथ, अनिट् पञ्च मे  
 ( ४०९ ) नुम् प्राप्त है सो मित् होने से अन्य अच् से पर होवे तो  
 सकार के मध्यपाती होने से सयागादि लोप ( २१० ) नहीं हो  
 सकता । इसलिये

४३३-वा०-मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्बक्तव्यः

॥ महा० १ । १ । ६१ ॥

मरज धातु के अन्य वर्ण जकार से पूर्व नुम् कहना चाहिये ।  
 फिर सकार के सयागादि होने से लोप ( २१० ) होकर + मस न् ज्  
 + थल् = ममङ्क्थ, मङ्क्ता, मङ्क्ष्यति, मङ्क्षति, मङ्क्षाति, मज्जतु,  
 अमज्जत्, मज्जेत्, मज्यात्, अमाङ्क्षात्, अमाङ्क्षाम्, अमाङ्क्षुः,  
 अमङ्क्ष्यत् ॥ १३४ [ रुजो ] भङ्ग = टूटना । रुजति, रोका,

१ कई वैयाकरण 'किरश्च पञ्चभ्यः' ( आ० ५०८ ) में पञ्च ग्रहण  
 सामर्थ्य से यहाँ 'वृत्' करण को अनार्ष मानते हैं क्योंकि किरादि की  
 समाप्ति के द्योतन के लिये वृत् करने पर सूत्र में पञ्च ग्रहण करना व्यर्थ  
 होजाता है । वस्तुतः यह मत ठीक नहीं है । सूत्र में पञ्च ग्रहण 'रुदा-  
 दिभ्यः सार्वधातुके' ( अ० ३५७ ) इस उत्तरसूत्र के लिये है । अतः  
 धातुपाठ में किरादि की समाप्ति के लिये वृत् करण अनार्ष नहीं है ।

२. सन्धि० २१३ ।

रोक्ष्यति, अरौक्षीत्, अरौक्षाम् ॥ १३५ [ भुजो ] कौटिल्ये = कुटिलता । भुजति, बुभोज, बुभोजिथ, बुभोक्थ, भोक्ता, अभौक्षीत्, अभौक्षाम् ॥ १३६ [ छुप ] स्पर्शे । छुपति, छोप्ता, अच्छौप्सीत् ॥ १३७, १३८ [ रुश, रिश ] हिसायाम् । रुशति, रिशति, रोष्टा, रेष्टा, अरुक्षत्, अरिक्षत् (२०७) ॥ १३९ [ लिश ] गतौ । लिशति, लेक्ष्यति, लिशतु, अलिक्षत् ॥ १४० [ स्पृश ] संस्पर्शे = छुना । स्पृशति, पस्पर्श, पस्पर्शिथ, स्पृष्टा (२७५), स्पृष्टा, स्पृक्ष्यति, स्पृक्ष्यति, स्पृक्षति, स्पृक्षाति, स्पृक्षति, स्पृक्षाति, स्पृशतु, अस्पृशत्, स्पृशेत्, स्पृश्यात्, अस्प्राक्षीत्, अस्प्राक्षीत्, अस्प्राक्षाम्, (२८०) अस्पृक्षत्, अस्पृक्ष्यत्, अस्पृक्ष्यत् ॥ १४१ [ विच्छ ] गतौ । (१६६) आय प्रत्यय (१६७) धातुसंज्ञा । विच्छायति, विच्छायत, आम् प्रत्यय (१६९) - विच्छायाञ्चकार, विच्छायाञ्चभूव, विच्छायामास, (१६८) विविच्छ, विविच्छतुः, विच्छायितासि, विच्छितासि, विच्छायिष्यति, विच्छिष्यति, विच्छायिषति, विच्छायिषाति, विच्छिषति, विच्छिषाति, विच्छायतु, अविच्छायत्, विच्छायेत्, विच्छाय्यात्, विच्छ्यात्, अविच्छायीत्, अविच्छीत्, अविच्छायिष्यत्, अविच्छिष्यत् ॥ १४२ [ विश ] प्रवेशने । विशति, वेष्टा, अवैक्षीत्, अवैष्टाम् ॥ १४३ [ मृश ] आमर्शने = विचारना । मृशति, मृष्टा (२७५), मर्ष्टा, अम्राक्षीत्, (२८०) अम्राक्षीत्, अमृक्षत् ॥ १४४ [ णुद ] प्ररणे । इस धातु को प्रथम इसी गण मे लिख चुके है दूसरी वार यहां कर्त्रभिप्राय क्रियाफल मे भी परस्मैपद होने के लिये पढ़ा है ॥ १४५ [ षट् ] विशरणगत्य वसादनेषु । इस धातु को इसी प्रकार का भ्वादि (पृष्ठ १५८) मे लिख चुके हैं वही के तुल्य रूप भी जानो कुछ विशेष नहीं, फिर यहां लिखने का यह प्रयोजन है कि कृदन्त शतृ प्रत्यय मे

शप् विकरण वाले को नित्य नुम्<sup>१</sup> और श विकरण वाले को विकल्प होता है और शप् और श विकरण का स्वर भी पृथक् पृथक् होता है<sup>२</sup> ॥ १४६ [ शद्ल ] शातने । इसको भी भ्वादि (पृष्ठ १५१) में लिख चुके हैं फिर इसका पाठ केवल स्वर के पृथक् हान के लिये है<sup>३</sup> । प्रच्छादयो विच्छिवर्जमनुदात्ता । ये प्रच्छ आदि धातु विच्छ को छोड़ के अनिट् और सब परस्मैपदी हैं ॥

अथ षट् स्वरितेन । अब छः (६) धातु स्वरितन् ( उभयपदी ) कहते हैं । १४७ [ मिल ] सङ्गमे = समागम । ' मिल सश्लेषणे ' धातु प्रथम लिख चुक हैं, उमको फिर दूमरीवार कत्रेभिप्राय अर्थ में आत्मनेपद हाने के लिये पढ़ा है । मिलति, मिलते, मिलेत्, मिलिते, मिलिता, मिलिष्यत्, मिलिष्यतै, मिलिताम्, मिलितु, अमिलत्, मिलेत्, मिल्यात्, अमिलीत्, अमिलिष्यत् । यह धातु संद है ॥

१४८ [ मुच्ल ] मोक्षणे = छटना ।

४३४-शे मुचादीनाम् ॥ ७ । १ । ५६ ॥

श प्रत्यय के परे मुचादि धातुओं को नुम् का आगम होवे । मुञ्चति, मुञ्चते, मुमोच, मुमुचे, मोक्ता, मोक्ष्यते, मोक्ष्यति, मोक्ष्यतै, मोक्ष्यतै, मोक्षति, मोक्षति, मुञ्चतु, मुञ्चताम् अमुञ्चत्, अमुञ्चत, मुञ्चेत् मुञ्चेत्, मुच्यात्, मुक्षीष्ट, अमुचत् ( २१७ ) अङ्, अमुक्त, अमुक्षाताम्, अमोक्ष्यन्, अमोक्ष्यत ॥ १४९ [ लुप्ल ] लुदने । लुम्पति, लुम्पते, लुप्यान्, अलुपत्, अलुप ॥ १५० [ विद्लृ ]

१ शपश्यनोनित्यम् (अष्टा० ७।१।८१) सूत्र से । २. आच्छी-  
नद्योर्नुम् (अष्टा० ७।१।८०) सूत्र से । ३. शप् पक्ष में शप् के  
अनुदात्त होने से धातुस्वर होकर "सदति" आद्युदात्त होगा । श पक्ष में  
'सदति' मध्योदात्त होता है । ४. यहा भी पूर्ववत् शप् पक्ष में  
'शीयते' आद्युदात्त और श पक्ष में 'शीयते' मध्योदात्त होगा ।

लाभे = प्राप्ति । विन्दान, विन्दन, विवद, विविदे, वेत्ता<sup>१</sup>, वेद्यस्ति, परि-  
वेत्ता ॥ १५१ [लिप उपदेहे = लीपना वा वृद्धि । लिम्पात्, लिम्पते,  
लेप्ता, आलिपत् (२९२ अङ्, अलिपन्, अलिप्त, (२२३) ॥ १५२  
[षिच] क्षरण = मीचना । सिञ्चात्, सिञ्चते, सिञ्धात्, असिचत्  
(२९२), आसिचत् (२९५), आसिक्त । मुचादयोऽनुदात्ताः स्वरि-  
तेत उभयपदिन । य मुच आदि धातु अनिट् उभयपदी हैं ॥

अथ परस्मैपदिन । १५३ [कृती] छेदने । कृन्तति, चकर्त्त,  
कर्तिता, कर्तिष्यति (३९७), कर्त्स्यति, कर्तिषति, कर्त्सोत्, कर्त्सति,  
कृन्तत्, अकृन्तत्, कृत्यात्, अकर्तीत्, अकर्तिष्यत्, अकर्त्स्यत् ॥  
१५४ [खिद] परिघाते = पीडा । यह धातु दानता अथे मे दिवादि  
(पृष्ठ २५९) और रुवादिकां (पृष्ठ २९४) में पढ़ा है । खिन्दति, चिखेद,  
खेत्ता, खेत्स्यति, खिद धातु अनिट् है । १५५ [पिश] अवयवे ।  
पिशति, पिपेश, पेशिता, पेशिष्यति, पेशिषति, पेशिषति, पिशतु,  
अपिशत्, पिशेत्, पिश्यात्, अपेशीत्, अपेशिष्यत् ॥ वृत्  
मुचादयः । ये (४३४) सूत्र में कहे मुच आदि धातु पूर हुए ॥

॥ इति शचिकरणस्तुदादिगण. समाप्तः ॥

[ यह शचिकरण वाला तुदादिगण समाप्त हुआ ]

१. महाभाष्यकार के मत में यह धातु अनिट् है । अनिट्कारिकाकार  
के मत में सेट् है अतः पक्ष में 'वेदिता' रूप भी होता है ।

## अथ रुधादिगणः

अथ नव स्वरितेत इरितश्च । अब नौ धातु उभयपदी कहते हैं । १ [ रुधिर ] आवरणे = आच्छादन । इर् भाग की इत्संज्ञा होकर—

४३५—रुधादिभ्यः शनम् ॥ ३ । १ । ७८ ॥

रुध आदि धातुओं से शप् का अपवाद भ्रम् प्रत्यय हो कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो । भ्रम् मित् प्रत्यय होने से अनन्त्य अच् रु से परे धकार से पूर्व होता है । रु+भ्रम्+ध्+तिप् = रुणद्धि । शकार मकार की इत्संज्ञा और णत्व होता है । रुन्धः ( ३५२ ) अकारलोप णत्व को असिद्ध मानकर नकार को अनुस्वार और अनुस्वार को परसवर्ण करने में अकारलोप को स्थानिवद्भाव प्राप्त है<sup>१</sup> उसका अनुस्वार और परसवर्णविधि में निषेध हो जाता है<sup>२</sup> । रुन्धन्ति, रुणत्सि, रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते, रुरोध, रुधुतुः, रुरोधिथ, रुधे, रोद्धा, रोत्स्यति, रोत्स्यते, रोत्सति, रोत्साति, रोत्सतै, रोत्सातै, रुणधति, रुणधाति, रुणधतै, रुणधातै, रुणद्धु, रुन्धात्, रुन्धाम्, रुन्धन्तु, रुन्धि, रुणधानि, रुणधाव, रुन्धाम, रुन्धाताम्, रुणधै, अरुणत्, अरुन्धाम्, अरुन्धन्, अरुणत्, अरुणः, यहां पदान्त धकार को प्रथम जश्त्व होकर ( ३५१ ) सूत्र की दृष्टि में जश्त्व सिद्ध होने से दकार को रु विकल्प से ( ३५१ ) होता है । [ अरुन्धम्, अरुन्ध ] अरुणधम्, रुन्ध्यात्, रुन्ध्याताम्, रुन्ध्यात्, इरित् होने से अङ् विकल्प ( १३८ ) अरुधत्, अरुधताम्, अरौत्सीत्, अरुद्ध, अरुत्साताम्, अरोत्स्यत्,

१. अचः परस्मिन् पूर्वविधौ ( सन्धि० ९१ ) सूत्र से ।

२. न पदान्तद्विवचन० ( सन्धि० ९२ ) सूत्र से ।

[अरोत्स्यत्] ॥ २ [ भिदिर् ] विदारणे = भेद । भिनति, भिन्ते, विभेद, विभिदे, भेत्ता, भेत्स्यति, भेत्सति, भेत्साति, भिनत्, अभिनत् अभिनः, अभिनदम्, अभिन्त, भिन्धात्, भिघात्, अभिद, अभैत्सीत्, अभैत्ताम्, अभिन्त ॥ ३ [ छिदिर् ] द्वैधीकरणे = दो भाग करना । छिनति, अच्छिनत्, अच्छिनः, अच्छिदत्, अच्छैत्सीत्, आच्छत् ॥ ४ [ रिचिर् ] विरेचने = खाली करना । रिणक्ति, रिङ्क्ते, रिरिच, रिरिचे, रेक्ता, रेक्ष्यते, रेक्षतै, रेक्षतै, रिणक्तु, रिङ्क्ताम्, अरिणक्, अरिचत्, अरिक्त ॥ ५ [ विचिर् ] पृथग्भावे = अलग होना । विनक्ति, विङ्क्ते, अविनक्, अविचत्, अवैक्षीत् अविक्त ॥ ६ [ क्षुदिर् ] संपेषण = पीसना । क्षुणक्ति, क्षुन्ते, क्षोत्ता, अक्षुणत्, अक्षुणः, अक्षुदत्, अक्षौत्सीत्, अक्षुत् ॥ ७ [ युजिर् ] याग = समाधि । युनक्ति, युङ्क्ते, अयुनक्, अयुजत्, अयौक्षीत्, [अयुक्त], अयोक्ष्यत् ॥ रुधादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत । इध आदि धातु अनिट् उभयपदी हैं ॥

८ [ उच्छ्रदिर् ] दीप्तिदेवनयो = प्रकाश और क्रीड़ा आदि । छृणक्ति, छृन्ते, चच्छ्रदे, चच्छ्रदु, छृदिता, छृदिष्यति, छृत्स्यति (३९७) छृदिषति, छृदिषति, छृत्सेति, छृत्साति, छृणत्, अच्छ्रणत्, अच्छ्रणः, छृन्धात्, छृद्यात्, छृत्सीष्ट, अच्छ्रदत्, अच्छ्रदीत्, अच्छ्रदिष्ट, अच्छ्रदिष्यत्, अच्छ्रत्स्यत् ॥ ९ [ उत्तृदिर् ] हिंसा-नादरयो = हिंसा और अनादर । तृणक्ति, इत्यादि, छृदि के समान जानो । ये दानो धातु उभयपदी सेट् हैं ॥

१० [ कृती ] वेष्टने = लपेटना । कृणक्ति । यह धातु तुदादिगण (पृष्ठ २९१) में आचुका है आर्धधातुक में वैसे ही प्रयोग जानो ॥ ११ [ जिइन्धी ] दीप्तौ । उदात्तोऽनुदात्तेदात्मनेपदी । यह धातु सेट् आत्मनेपदी है जि और इकार की इत्संज्ञा होकर—

## ४३६—श्रान्नलोपः ॥ ६ । ४ । २३ ॥

शनम् प्रत्यय से परे नकार कौ लोप हा अथोत् [शनम् का विधान] इकार से परे होने के कारण धकार से पूर्व जो न उसका लोप होता है । इन्धे (३५२) अकारलोप, इन्धाते, इन्धते, इन्त्से, इन्धा-च्चक्रे, इन्धाम्बभुव, इन्धामास, (१६९) सूत्र से वेद मे आम प्रत्यय का निषेध होने से (३३) सूत्र मे लिट् को कित्वा हाकर ईधे (१३९) नलोप, ईधाते, ईधिरे, इन्विता, इन्विष्यत, इन्विष्यतै, इन्विष्यतै, इन्धाम्, इन्धाताम्, इन्धै, ऐन्ध, ऐन्धा, इन्वीत, इन्विष्यत, ऐन्धिष्य, ऐन्धिष्यन् ॥ १२ [खिद] द्वैत्ये = दीनता । खिन्ते, खेत्ता, खिन्ताम्, अखिन्त, खिन्दीत, खिन्तीष्ट, अखित्त ॥ १३ [विद] विचारणे = विचारना । विन्त, विवादे, वेत्ता, वेत्स्यते, वेत्सतै, वेत्सातै, विन्ताम्, अविन्त, विन्दीत, विन्तीष्ट, अविन्ता, अवैत्स्यत । खिदिविद्दी अनुदात्तात्मात्मनोपदिनौ । खिद और विद दोनो धातु अनिट् आत्मनेपदी हैं ॥

अथ परस्मैपदिना द्वादश । अब बारह ( १२ ) धातु परस्मैपदी कहत हे । १४ [शिष्लु] विगणण = विशेषण । शिनष्टि, शिष्ट, शिपन्ति, शिशेप, शिशेषथ, शेष्या, शेष्यति, शेष्यति, शेष्याति, शिनष्टि, 'शि-न्-प्-हि' यहा प्रथम हि को धि और षकार का जश्त्व ड [ तथा वि का घृत्व ] होकर (२७२) सूत्र से विकल्प करके डकार लोप होता है— शिण्ड, शिण्डाड, शिनषाणि, अशिनट्, शिष्यात्, शिष्यात्, लुदित् होने से अड् (२१७)-अशिष्यत्, अशेष्यत् ॥ १५ [पिष्लु] सञ्चूर्णने = पीसना । पिनष्टि, पिषेप, पेष्टा, पेक्ष्यति, पेक्षति, पेक्ष्याति, पिनष्ट, पिण्ड, अपिनट्, अवैत्स्यत्, अपिष्यत् ॥ १६ [ भञ्जो ] आमर्दने = बल से मलना । भर्नात्, बभञ्ज, बभञ्जिथ, बभञ्जथ, भञ्क्ता, भञ्-



क्षयति, अभाङ्क्षीत्, अभाङ्क्षाम् ॥ १७ [ भुज ] पालना-  
भ्यवहारयो. = रक्षा और भोजन । मुनक्ति, भोक्ता, भोक्षयति,  
अभुनक्, अभौक्षीत्, अभोक्षयत् । अनुदात्ता उदात्तेत्तश्चत्वार  
ये शिष आदि चार धातु अनिट् परस्मैपदी है ॥ १८, १९ [ वृह,  
हिसि ] हिंसायाम् ।

४३७—तृणह इम् ॥ ७ । ३ । ६२ ॥

रनम् प्रत्ययान्त वृह धातु को इम् का आगम होवे हलादि  
पिन् सावधेधातुक परे हो तो । तृणोढि, तृणहः, ततर्ह, तर्हिता,  
तर्हिष्यति, तर्हिषति, तर्हिषाति, तृणोढु, अतृणोढ्, तृण्यात्, तृण्यात्,  
अतर्हीत्, हिनस्ति, हिस्त., हिंसन्ति, जिहिस, हिसिता ॥ २०  
[ उन्दी ] क्लेदने = गीलापन । उनत्ति, उन्तः, उन्दन्ति, उन्दा-  
ञ्चकार, उन्दाम्बभूव, उन्दामास, उन्दिता, उनत्तु, उन्धि, औनत्,  
औन्ताम्, औन्द्वन्, औन ( ३५१ ) औनत्, औनदम्, उन्द्यात्,  
उद्यात्, ( १२९ ), औन्दीत् ॥ २१ [ अञ्जू ] व्यक्तिप्रक्षण-  
कान्तिगतिषु = मनुष्यादि की स्थूलव्यक्ति, भोजन, शाभा और  
गति । अनक्ति, अङ्क्त, अञ्जन्ति, आनञ्ज, आनञ्जिथ, आन-  
ङ्क्थ, ऊदित् हाने से इट् विकल्प ( १४० ), अञ्जिता, अङ्क्ता,  
अञ्जिपति, अञ्जिपाति, अङ्क्षति, अङ्क्षाति, अनक्तु, अङ्ग्धि,  
अनजानि, आनक्, आङ्क्ताम्, आञ्जन्, अञ्ज्यात्, अज्यात् ।

४३८—अञ्जेः सिचि ॥ ७ । २ । ७१ ॥

अञ्ज धातु से परे जो सिच् उसको नित्य इट् का आगम  
होवे । ऊदित् होने से इट् का विकल्प ( १४० ) प्राप्त है, उसका  
यह अपवाद है । आञ्जीत्, आञ्जिष्टाम् ॥ २२  
[ तञ्चू ] संकोचने = दही जमाना । तनक्ति, ततञ्चिथ, ततङ्क्थ,  
तञ्जिता, तङ्क्त्, तनक्तु, अतनक्, अतञ्चीत्, अताङ्चीत्,

अताड्क्ताम् ॥ २३ [ओविजी] भयचलनयोः । विनक्ति  
 विङ्क्तः, विवेज, विविजिथ, ( ४२८ ), विजिता, विजिष्यति,  
 वेजिषति, वेजिषाति, विनक्तु, अविनक्, अविजीत् ॥  
 २४ [ वृजी ] वर्जने । वृणक्ति, वर्जिता ॥ २५ [पृची] संपर्के =  
 स्पर्श करणा । पृणक्ति, पपर्च, पपर्चिथ, पर्चिष्यति, पर्चिषति,  
 पर्चिषाति, पृणक्तु, अपृणक्, पृञ्च्यात्, पृच्यात्, अपर्चीन्,  
 अपर्चिष्यत् ॥ वृत ॥

॥ इति श्वास्विकरणो रुधादिगणः समाप्तः ॥

[ यह् श्नम् विकरणवाला रुधादिगणः समाप्तः हुआ । ]



## अथ तनादिगणाः

अथ सप्त स्वरितेतः । अब सात धातु उभयपदी कहते हैं ।  
१ [ तनु ] विस्तारे ।

४३६-तनादिकृञ्भ्य उः ॥ ३ । १ । ७६ ॥

तनादि और कृञ् धातु से उ प्रत्यय हो कतोवाची सार्वधातुक परे हो तो । यह भी सूत्र शप् का अपवाद है । कृञ् धातु भी तनादिगण मे ही पढ़ा है इस कारण कृञ् से भी उ प्रत्यय हो ही जाता फिर कृञ् का पृथक् ग्रहण इसलिये है कि तनादिगण के अन्य कार्य कृञ् को न हो । जैसे तनादिको से परे सिच् का लुक् ( ४४० ) विकल्प से होता है सो कृञ् से न होवे । तनोति, तनुव, तन्वः

१ वस्तुतः यह ठीक नहीं है । कृञ् से लुक् के अभावपक्ष मे भी 'द्वस्वाद्ग्रात्' ( भा० २४१ ) से सिच् का लोप हो जायगा, अतः महाभाष्यकार के मत मे कृञ् ग्रहण व्यर्थ है । हमारा विचार है 'कृञ्' का तनादि में पाठ अपाणिनीय है । इस का वास्तविक पाठ भ्वादि मे था । क्षीरस्वामी, हेमचन्द्र, दैव-ग्रन्थकार, दशपादी-उणादिवृत्तिकार आदि अनेक प्राचीन वैयाकरण इसे भ्वादि मे पढते हैं । भ्वादि से कृञ् का बहिष्कार सायण ने किया है । वह ऋग्भाष्य १ । ८२ । १ मे लिखता है—अनेन प्रकारेणास्माभिर्धातुवृत्तावय धातुनिराकृतः । दीक्षित ने भी सायण का अनुसरण किया, अतः धातुपाठ के नये हस्तलेखो मे इसका भ्वादि में पाठ नहीं मिलता । वस्तुतः कृञ् के 'करति, करत', 'करन्ति' और 'करोति, कुरुत', 'कुर्वन्ति' दो प्रकार के रूप बनाने के लिये पाणिनि ने भ्वादिगण और इस ( ४३९ ) सूत्र मे कृञ् का पाठ किया था । भ्वादि पाठ सामर्थ्य से शप् और ४३९ सूत्र मे पाठ होने से उ प्रत्यय होता है । स्वामी दयानन्द का भी यही मत है वे लिखते है—“डुकृञ् करणे इत्य-

( २०० ), तनुत, ततान, तेन, तनिता, [ तनिष्यति ] तनिष्यत, तानिषति, तानिषाति, [ तानिषतै, तानिषातै ] तनोतु, तनु ( २०१ ), तनवानि, तनुताम्, अतनोत्, अतनुत, तनुयात्, तन्वीत, तन्यात्, तनिषीष्ट, अतानीत्, अतनीत् ।

४४०—तनादिभ्यस्तथासोः ॥ २।४।७६ ॥

तनादि धातुओं से परे जो सिच् उसका [ विकल्प मे ] लुक होव त और थास् परे हो तो । थास् आत्मनेपद प्रत्यय ऋ साहचर्य से त भी आत्मनेपद का एकवचन लिया जाता है, इसमे 'यूयम-तनिष्ट' यहा परस्मैपद के मध्यम पुरुष बहुवचन म सिच् लुक नहीं होता । अतत ( ३०३ ) अनुनासिकलोप, अतनिष्ट, अतनिषाताम्, अतनिषत, अतथाः, अतनिष्ठा, अतनिषि, अतनिष्यत्, अतनिष्यत ॥ २ [ षणु ] दाने । सनोति, सनुते, सायात् ( १८५ ) सन्यात्, [ सनिषीष्ट, असानीत्, असनीत् ] असात ( ३९४ ) असनिष्ट, असाथाः, असनिष्ठा ॥ ३ [ क्षणु ] हसायाम् ।

स्व भ्वादिगणान्तर्गतपठितत्वाच्छब्विकरणोऽत्र गृह्यते, तनादिभिः सहपाठाद् उचिःकरणोऽपि । यजुर्वेदभाष्य ३ । ५८ ।” यहा 'तनादिभिः सह पाठात्' का अभिप्राय सूत्र ( ४३९ ) पाठ मे 'तनादिकृञ्भ्य' पाठ से है । डी. ए. वी। कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय मे धातुपाठ का एक हस्त-लेख है जिसकी संख्या १७६९ है यह हस्तलेख स्वामी विरजानन्द सरस्वती के शिष्य हरिवश के हाथ का लिखा हुआ है । इस हस्तलेख में कृञ् धातु का तनादि में पाठ नहीं है । इस से प्रतीत होता है कि कृञ् के तनादिगण मे पाठ मानने से पाणिनि के ऊपर जो दोष आता है उसके निराकरण का श्रेय स्वामी विरजानन्द सरस्वती को है ।

२ धातुपारायण में पूं चन्द्र ने 'क्षणु, क्षिणु, ऋणु, तृणु' धातुओं में ण को नैमित्तिक अर्थात् ष और ऋ के योग में बना हुआ माना है ।

क्षणीति, क्षणुते, अक्षणीत् ( १६२ ) वृद्धि का निषेध । अक्षत, अक्ष-  
 णिष्ट, अक्षथा, अक्षणिष्ठाः ॥ ४ [ क्षिणु ] च । क्षेणीति<sup>१</sup>  
 यहां उ प्रत्यय के आर्धधातुक होने से लघूपधगुण ( ५२ ) होता  
 है । क्षेणुतं, चिक्षेण, चिक्षिणे, क्षेणितासि, क्षेणितासे, क्षेणिषति,  
 क्षेणिषाति, अक्षेणीत्, अक्षित, अक्षेणिष्ट, अक्षिथाः, अक्षेणिष्ठा ॥  
 ५ [ ऋणु ] । गतौ अर्णोति, अर्णुतः, अर्णुवन्ति, आनरणे,  
 आनृणतुः, आनृणे, अर्णितासि, आर्णीत्, आत्ते, आर्णिष्ट, आर्थाः,  
 आर्णिष्ठाः ॥ ६ [ तृणु ] अदने । तर्णोति, तर्णुते, अतृत,  
 अतर्णिष्ट ॥ ७ [ घृणु ] दीप्तौ । घर्णोति, घर्णुते, जघर्ण,  
 जघृणे । तनादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः । ये तन  
 आदि वातु सेट् उभयपदी है ॥

८ [ वनु ] याचने = मांगना । वनुते । ववने ( १२९ ),

अत उसके मत में यङ्लुक् में 'क्षणु' का 'चङ्क्षन्ति', 'क्षिणु' का  
 'चेक्षन्ति' और 'तृणु' का 'तरीतृन्ति' प्रयोग बनता है । इसी प्रकार  
 'ऋणु' का सन् में 'अर्णनिषति' प्रयोग होता है । अर्थात् णकार के योग  
 में यङ्लुक् के प्रयोगो मे तकार को टकार नहीं होता और सन् के प्रयोग  
 में अभ्यास से उत्तर नकार रहता है ।

१ कई वैयाकरण 'सज्ञापूर्वको विधिरनित्य.' इस नियम से गुण  
 का अभाव मानते हैं इसलिये उन के मत में 'क्षिणीति, ऋणीति' आदि  
 प्रयोग बनते है । आपिशलि आचार्य ने "शब्दिककरणे गुणः, करोतेश्च,  
 मिदेश्च" ये तीन सूत्र रचे है । उनके मत मे 'करोतेश्च' सूत्र के नियमार्थक  
 होने से उविकरण मे केवल कृञ् को ही गुण होता है अन्य को नहीं ।  
 अत क्षिणीति आदि प्रयोग ही साधु है । अर्वाचीन वैयाकरण अष्टाध्यायी  
 में गुणनिषेधक सूत्र के विद्यमान न होने से गुण मान कर 'क्षेणीति'  
 प्रयोग मानते हैं, परन्तु ऐसे प्रयोग न मिलने से वे चिन्त्य हैं ।

वनितासे, वनिष्यति, वानिषतै, वानिषातै, वनुताम्, वनवै, अवनुत,  
वन्वीत, वनिषीष्ट, अवत, अन्ननिष्ट, अवथाः, अवनिष्ठाः, अवनिष्यत ॥  
९ [मनु] अवबोधने = निश्चित ज्ञान । मनुते, मेने, अमत, अमनिष्ट ।  
उदात्तावनुदात्तावात्मनेपदिनौ । ये दोनो धातु सेट् आत्मनेपदी हैं ॥

१० [ डुकृञ् ] करणे = करना । अनुदात्तः उभयतोभाषः ।  
यह धातु अनिट् उभयपदी है । करोति । तस् के परे भी उ  
प्रत्ययनिमित्त कृञ् को अर् गुण होकर—

४४१—अत उत्सार्वधातुके ॥ ६ । ४ । ११० ॥

कृञ् धातु के अकार को उकारादेश होवे किन् डिन् सार्वधातुक  
परे हो तो । कुरुतः कुर्वन्ति । यहां भी यणादेश के अनन्तर (१९७)  
सूत्र से दीर्घ प्राप्त है उसका निषेध ( ४३० ) हो जाता है । करोषि-  
कुरुथ, कुरुथ, करोमि ।

४४२—नित्यं करोतेः ॥ ६ । ४ । १०८ ॥

करोति धातु से परे जो प्रत्यय का उकार उसका नित्य ही लोप  
होवे व, म परे हो तो । यह सूत्र ( २०० ) का अपवाद है । कुर्वं,  
कुर्मं, कुरुते, कुर्वाते, चकार, चक्रतुः, चकर्थ ( १४८ ), चकृव,  
चक्रे, चकृषे, कर्ता, करिष्यति, करिष्यते ( २३८ ), कापंति, कार्षाति,  
कार्षतै, कार्षाते, करोतु, कुरुतात्, कुरु ( २०१ ), करवाणि, कर-  
वाव, कुरुताम्, अकरोत्, अकुरुत ।

४४३—ये च ॥ ६ । ४ । १०६ ॥

कृञ् धातु से परे प्रत्यय के उकार का लोप हो यकारादि प्रत्यय  
परे हो तो । कुर्यात्, क्रियात् ( २३९ ), कृषीष्ट ( २४० ), अका-  
र्षात्, अकार्षाम्, अकृत, अकृथाः । यहा सिच्लुक ( २४१ )  
नित्य होता है । अकरिष्यत्, अकरिष्यत ।

४४४—मन्त्रे घसहरणशवृदहाद्वृचकृगमि-  
जनिभ्यो लेः ॥ २ । ४ । ८० ॥

वेदविषय मन्त्रभाग मे घस, हर, णश, वृ, दह, आकारान्त, वृज्, कृ, गमि और जन धातुओं से परे जो लि उसका लुक् होवे । लि करके यहा लुङ् का च्लि प्रत्यय समझा जाता है । 'घस्लृ, अदने—अन्नन्मीमदन्त पितर, अन्नन् । अघसन्—लोक मे होता है । हर से 'हृ कौटिल्ये' समझना चाहिये । मा ह्राः, अह्राः । लोक मे—अह्वार्धात् । 'णश अदर्शने'—प्रणङ् मर्त्यस्य, प्रणक् । यहा अट् का अभाव है । लोक में—अनशत् । वृ करके 'वृङ्' और 'वृञ्' दोनों का प्रहण होता है । सुरुचो वेन आवः, आवः । आवारीत्—आङ्पूर्वक लोक मे । 'दह भस्मीकरणे'—अधक् । लोक मे—अवाक्षात् । [ आकारान्त—] 'प्रा पूरणे'—आप्रा द्यावापृथिवी, अप्रा । अप्रासीत्—लोक मे । [ वृज् से 'वृजी वर्जने'—मा नो अस्मिन् धने परा ] वर्क । लोक मे—अवर्जात् । 'कृ' धातु का—'अकृन्' बहुवचन में और 'अकः' एकवचन मे । 'गम्' का—अगमन् । लोक मे—अगमन् । 'जन' का—अज्ञत वा अस्य दन्ताः । लोक मे—अजनि, अजनिष्ट ।

४४५—अभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयांरमया-  
मकः पावयांक्रियाद्विदामक्रान्ति छुन्दसि ॥  
३ । १ । ४२ ॥

अभ्युत्सादयाम आदि वेदविषय मे विकल्प से निपातन किये हैं । सद, जन और रम इन गयन्त धातुओं से लुङ् लकार मे आम प्रत्यय निपातन किया है । और चिक् धातु से भी लुङ् मे आम प्रत्यय द्विवचन और कुत्व निपातन किया है । 'अकः' यह कृब्

धातु का पूर्वसूत्र ( ४४४ ) से सिद्ध प्रयोग का सद आदि चारों धातुओं के अन्त में अनुप्रयोग किया है । जैसे—अभ्युत्सादयामकः । और लोक में—अभ्युदसीषदत् । प्रजनयामकः । लोकमें प्राजीजनत् । चिकयामकः । लो०—अचैपीत् । रमयामक । लोकमें अरीरमत् । पावयाक्रियात् । यहाँ एयन्त पूङ् धातु से लिङ् में आम् प्रत्यय और कृञ् धातु का अनुप्रयोग निपातन किया है । लोक में—पाव्यात् । विदामक्रन् । यहाँ लुङ् लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में विड धातु से आम् प्रत्यय कृञ् का अनुप्रयोग आर चित्त का लुक् ( ४४४ ) निपातन किया है । लोक में—अवेदिपुः । हांता है । वृत् ॥

॥ इति [ उविकरण' ] तनादिगण' समाप्त ॥

[ यह उ विकरणवाला तनादिगण समाप्त हुआ ]





## अथ क्रयाद्विगणाः

[ अथ क्रयादयं षोडशोभयपदिनं । अब १६ सोलह<sup>१</sup> उभयपदी धातु कहते हैं । ] १ [ डुक्रीञ् ] द्रव्यविनिमये = द्रव्य का लेना देना ।

४४६—क्रयादिभ्यः शना ॥ ३ । १ । ८१ ॥

कतावाची सावेधातुक परे हो तो क्री आदि धातुआ से शना प्रत्यय हो । क्रीणाति, क्रीणीत ( ३८३ ), पर नित्य और अन्तरङ्ग होने से ईकारादेश । ( ३८३ ) का बाधक भि को अन्ति और ऋ का अन्त आदेश होकर—क्रीणन्ति ( ३६५ ), क्रीणासि; क्रीणीते, क्रीणाने, क्रीणत, चिक्राय, चिक्रियतुं, चिक्रयिथ, चिक्रेथ, चिक्रियिव, क्रेना, क्रेष्यति, क्रेष्यते, क्रैषति, क्रैषाति, क्रैषतै, क्रैषातै, क्रीणातु, क्रीणीहि, क्रीणानि, क्रीणीताम्, [ अक्रीणात्, ] अक्रीणीत, क्रीणीयात्, क्रीणीत, क्रीयात्, क्रेषीष्ट, अक्रेषीत्, अक्रेष्ट, अक्रेष्यन्, अक्रेष्यत ॥ २ [ प्रीञ् ] तर्पणे कान्तौ च = वृत्ति और शोभा । प्रीणाति, प्रीणीते ॥ ३ [ श्रीञ् ] पाके = पकाना । श्रीणाति, श्रीणीते ॥ ४ [ मीञ् ] हिंसायाम् । मीनाति, मीनीतः, मीनीते । एच् विषय मे आकारादेश ( ३९९ )—ममौ, मिम्यतु, ममिथ, ममाथ, मिम्ये, माता, मास्यति, मास्यते, मासति, मासाति, मीयात्, मासीष्ट, अमासीत्, अमासिष्टाम्, अमास्त, अमासाताम् ॥ ५ [ पिञ् ] बंधने । सिनाति, सिनीते, सिषाय, सिष्ये, सेता ॥ ६ [ स्कुञ् ] आप्रवणे = कूदना ।

४४७—स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुम्भ्यः  
शुश्च ॥ ३ । १ । ८२ ॥

स्तम्भु आदि पांच धातुओं से शु और चकार से श्ना प्रत्यय हो कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो । स्कुनोति, स्कुनुते, स्कुनाति, स्कुनीते, चुस्काव, चुस्कविथ, चुस्कोथ, स्कोता, अस्कौषीत्, अस्कोष्ट । स्तम्भ आदि चार धातु सौत्र हैं, इनका पाठ किसी गण में नहीं है, और सब रोकने अर्थ में परस्मैपदी हैं । स्तम्भोति, स्तम्भनाति ( १३९ ) नलोप. तन्तम्भ, अस्तम्भ ( १५४ ) अङ्कितरूप, अस्तम्भीत्, स्तुम्भोति, स्तुम्भनाति, स्कम्भोति, स्कम्भनाति, स्कुम्भोति, स्कुम्भनाति, चस्कम्भ, स्कम्भिता, स्कम्भिष्यति ।

४४८—हलः शनः शानज्भौ ॥ ३ । १ । ८३ ॥

हलन्त धातु से परे जो श्ना प्रत्यय उसको शानच् आदेश होवे हि परे हो तो । स्तभान, स्तुभान, स्कभान, स्कुभान । श्नुपत्त मे—स्तम्भुहि इत्यादि । अस्कम्भोत्, अस्कम्भोत्, स्कम्भनीयात्, स्कम्भुयात्, स्कम्भ्यात्, अस्कम्भीत्, अस्कम्भिष्यत् ।

४४९—छन्दसि शायजपि ॥ ३ । १ । ८४ ॥

वेद विषय मे हि परे हो तो श्ना प्रत्यय के स्थान मे शानच् और शायच् दोनो आदेश हों । गृभाय, स्तभाय, स्कभाय, स्तभान, बधान देव सवितः ॥ ७ [ युञ् ] वन्धने । युनाति, युनीते, युयाव, युयुवे । क्र्यादयोऽनुदात्ता उभयपदिन. सप्त । क्री आदि सात धातु अनिट् उभयपदी हैं ॥

८ [ क्नुञ् ] शब्दे । क्नुनाति, क्नुनीते, क्नुविता, क्नुविष्यति, अक्नावीत्, अक्नविष्ट ॥ ९ [ दूञ् ] हिंसायाम् । दूणाति, दूणीते, दुद्राव, दुद्रुवे ॥ १० [ पूञ् ] पवने = पवित्रता ।

४५०-प्वादीनां ह्रस्वः ॥ ७ । ३ । ८० ॥

शित् प्रत्यय परे हां तो पू आदि धातुआ के अच् को ह्रस्व होवे ।  
 पुनाति, पुनीते, पुपाव, पुपुवे, पविता, पविष्यति ॥ ११ [मूञ्]  
 बन्धने । मुनाति, मुनीते, माविषति, माविषाति ॥ १२ [लूञ्]  
 छेदन = काटना । लुनाति, लुनीते, लुनातु, लुनीताम् ॥ १३  
 [स्तृञ्] आच्छादन । स्तृणाति, स्तृणाते, तस्तार, तस्तरतुः, स्त-  
 रीता, स्तरिता, अस्तृणात्, [अस्तृणीत,] स्तृणीयात्, स्तृणीत,  
 स्तीयात्, स्तरिषीष्ट, ( ४२०, ४२१ ), स्तृषीष्ट, अस्तारीत्, अस्ता-  
 रिष्टाम् । अस्तरिष्ट, अस्तरिष्ट, ( ४२० ) अस्तीष्टे ॥ १४  
 [कृञ्] हिंसायाम् । कृणाति, कृणीते, चकार, चकरतुः, चकरे  
 ( २५८ ) ॥ १५ [वृञ्] चरणे = स्त्रीकार । वृणाति, वृणीते,  
 ववार, ववरे, वारता, वरीता, वूयात् ( ३८०, १९७ ), वरिषीष्ट  
 ( ४२० ) वूर्षीष्ट, अवारीत्, अवारिष्टाम्, अवरिष्ट, अवरीष्ट,  
 अवूर्ष्ट ॥ १६ [धृञ्] कम्पने । धुनाति, धुनीते, दुधाव,  
 दुधुवतुः, दुधविथ, दुधाथ ( १४० ) इट् विकल्प, धविता, धाता,  
 धविष्यति, धाष्यति, अधावीत् ( ३३० ) नित्य इट्, अधविष्ट,  
 अधोष्ट । उदात्ता उभयतोभाषा नव । क्नुञ् आदि नव ( ९ )  
 धातु सेट् उभयपदी हैं ॥

अथ [श्रादयो] वध्नात्यन्ता. [द्वाविंशतिः] परस्मैपदिनः ।  
 अत्र [श आदि] बध धातुपर्यन्त [२२] परस्मैपदी कहते हैं । १७ [शृ]  
 हिंसायाम् । शृणाति, शशार, शश्रतुः, शश्रुः ( ३८१ ), दीर्घ पञ्च  
 मे शशरतुः ( २५८ ) गुण, शशरिथ, शश्रिव, शशरिव, शरीता,  
 शरिता, शरिष्यति, शरीष्यति, शारीषति, शारीषाति, शारिषति, शारि-  
 षाति, शृणातु, शृणीहि, अशृणात्, शृणीयात्, शीर्यात्, अशारीत्,  
 अशारिष्टाम्, अशरीष्यत्, अशरिष्यत् ॥ १८ [पृ] पालनपूरणयोः ।

पृणाति, पप्रतुः, पपरतुः, पूर्यात् ( ३८० ) । १९ [ वृ ] वरणे ।  
 भरण इत्येके । वृणाति, वूर्णात् ॥ २० [ भृ ] भस्सेने । भरण  
 इत्यन्ये ॥ २१ [ मृ ] हिंसायाम् । मृणाति, ममार, ॥  
 २२ [ दृ ] त्रिदारणे । दृणाति । दद्रतुः, ददरतुः, ॥ २३ [ जृ ]  
 वयोहोनौ । [ भृ ] इत्येके । जृणाति, जीयात् ॥ [ धृ ] इत्यन्ये ।  
 धृणाति ॥ २४ [ नृ ] नये = ले चलना । नृणाति, ननरतुः,  
 ननरतु ॥ २५ [ कृ ] हिंसायाम् । कृणाति, ॥ २६ [ ऋ ]  
 गतौ । ऋणाति, अगश्चकार, अराम्बभूव, अरामास, आरता,  
 अरीता, आर्यात्, आर्याताम् । इयान्, आरीन्, आरिष्टाम् ॥  
 २७ [ गृ ] शब्दे । गृणाति, जप्रतु, जगरतु गरीता, गरिता,  
 गरिष्यति, गरीष्यति, गारीषति, गारीषति, गृणातु, गृणीहि, अगृ-  
 णान्, गृणीयात्, अगारीत् । [ आद्य उदात्ता एकादश । ये  
 श् आदि ११ धातु उदात्त हैं ॥ ] २८ [ ज्या ] वयोहानौ  
 ( २८६ ) य को ई सम्प्रसारण और पूर्वरूप एकादेश हाता है ।

४५१—हलः ॥ ६ । ४ । २ ॥

अङ्ग का अवयव हल से परे जो सम्प्रसारण उस को दीर्घ होवे ।  
 जिनाति, यहा जि को दीर्घ होकर फिर ह्रस्व ( ४५० ) हो जाता है ।  
 जिज्यो ( २८२ ), जिज्यतु ( २८६ ), ज्याता, ज्यास्यति, ज्यासति,  
 ज्यासाति, जिनातु, अजिनात्, जिनीयात्, जीयात्, ( २८६ ),  
 अज्यासीत्, अज्यास्यत्, ॥ २९ [ व्री ] वरणे । त्रिणाति,  
 वित्राय, वित्रियतु, त्रेता, व्रीयात् ॥ ३० [ री ] गतिरेषणयोः  
 = गति और भेडिये का शब्द । रिणाति ॥ ३१ [ ली ] श्ले-  
 षणे । लिनाति, ( ४०० ) आत्वविकल्प । ललौ, लिलाय, लिल्यतुः,  
 ललिथ, ललाथ, लिलयिथ, लाता, लेता, लास्यति, लेष्यति, लासति,  
 लासाति, लैषति, लैषति, लिनातु, लिनीहि, अलिनात्, लिनीयात्,

लायात्, लेयान्, अलासीत्, अलैपीत्, अलास्यत्, अलेष्यत् ॥  
३२ [ व्ली ] वरणे = स्वीकार । त्विनास्ति ॥ ३३ [ व्ली ]  
गतौ । वृत् । य ( ४५० ) सूत्र मे कहे प्वादि<sup>१</sup> वातु पूरे हुए ॥

३४ [ व्री ] वरणे । व्रीणाति । ] ३५ [ व्री ] भये  
= डर । [ वरण ] इत्येके । व्रीणाति ॥ ३६ [ व्री ]  
हिंसायाम् । षिन् का प्रयोजन कृदन्त<sup>२</sup> मे आवेगा । व्रीणाति ॥  
३७ [ व्री ] अववाधने । जानाति ( ४०२ ), जानीतः,  
जानान्, जानामि, जजौ, जजतु, जज्ञिथ, जजाथ, ज्ञाता, ज्ञास्यति,  
ज्जम्ति, ज्ञामाति, जानातु, जानीहि, जानानि, अजानात्, जानी-  
यन्, जयान्, ज्ञायात्, अजामीत्, अज्ञास्यत् ॥ ३८ [ वन्ध ]  
वन्धन = वाधना । वन्नाति, ववन्धिथ, ववन्व, वन्धा, वन्धारौ,  
वन्धारः, वन्स्यति, वन्स्यति, वन्स्यति, वन्स्यति, वन्धातु, वधान ( ४४८,  
४४९ ) वधाय, अवधनात्, वधनीयात्, वध्यात्, अभान्तीत्,  
अवान्त्वाम्—यहा भपभाव से पृथ सिचत्वाप ( १४२ ) हा जाता है,  
पाँछे प्रत्ययलक्षण सूत्र की अपेक्षा मे त्रिपादा सिचलोप के असिद्ध  
हाने से । प्रत्यय के न रहने से भपभाव नहीं होता । अभान्तुः ।  
ज्यादयाऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः । ये ज्यादि [ ११ ] धातु अनिट्  
परस्मैवदी है ॥

२९ [ वृड् ] संभक्तौ = अच्छी भक्ति । उदात्त आत्म-

१ यही पर प्वादि की परिममासि भी होती है । देखो आख्या०  
११५२ । अन्य त्रैयारुण इस वृत् करण को केवल प्वादि की समासि  
के लिये मानते हैं, और प्वादि आगणान्त मानते हैं । उन के मत मे 'व्री'  
व्री, व्रीष्, इन को भी ह्रस्व होता है, अर्थात् क्रमशः—'व्रीणाति, व्रीणाति,  
व्रीणाति' रूप बनते हैं ।

२ षिदिभिदादिभ्योऽङ् ( आ० १४६३ ) से अङ् प्रत्यय होता है ।

नेपदी । वृणीते, वने, ववृषे, ववृढ्वे, वरीता, वरिता, वृणी-  
नाम्, अवृणीत, वृणीत, वरिषीष्ट ( ४२०, ४२१ ) वृषीष्ट, अवरीष्ट,  
अवरिष्ट, अवृत, अवरोष्यत, अवरिष्यत ॥

इत परस्मैपदिनः । अब यहा से आगे परस्मैपदी धातु  
कहते है ॥ ४० [अन्थ] विमोचनप्रतिहर्षयो = छूटना  
और आनन्द । अथ्नानि, गश्राथ<sup>१</sup> ( २७१ ), श्रेथतुः, श्रेथुः,  
श्रथथ, शश्रथ, शश्राथ, श्रन्थिता, श्रन्थिष्यति, श्रन्थिषति,  
श्रन्थिपाति, श्रथ्नातु, श्रथान, श्रथाय, अश्रथ्नात्, श्रथ्नीयात्,  
श्रथ्यात् ( १३९ ), अश्रन्थीत्, अश्रन्थिष्टाम्, अश्रन्थि-  
ष्यत् ॥ ४१ [मन्थ] विलाडने । मथ्नाति, मथान, मथाय ॥  
[अन्थ, ४२ ग्रन्थ] सद्भे । प्रथ्नाति, प्रथान, प्रथ्यात्, अथे भिन्न  
होने से अन्थ फिर पढ़ा है ॥ ४३ [कुन्थ] संश्लेषणे । कुन्नाति,  
कुथान ॥ ४४ [मृद] क्षोदे = पीसना । मृद्नाति, मृदान ॥  
४५ [मृड] च । अयं सुखेऽपि । मृड्नाति, मृडान ॥ ४६ [गुघ]  
रोष = रिसाना । गुध्नाति, गुवान ॥ ४७ [कुष] तिकार्ये =  
खीचना । कुष्णाति, चुकोष, चुकुषतु, कोषिता, कोषिष्यति, कोषि-  
षति, कोषिषाति, कुष्णातु, कुषाण, अकोषीत् ।

४५२-निरः कुषः ॥ ७ । २ । ४६ ॥

नि उपसर्ग पूर्वक कुष धातु से परे वलादि आर्धधातुक को इट  
का आगम विकल्प करके होवे । निष्कोषिता, निष्कोषा, निरकोषीत्,  
निरकुक्षत् ( २०७ ) क्स ॥ ४८ [श्रुम] संचलने = चलाय-  
मान होना । यहा षकार से परे शत्व प्राप्त है इसलिये—

१. दम्भु धातु पर सूत्र २७१ से क्तिव का विधान अपिद् वचन  
में माना है । यहां पक्षान्तर से पिद् वचन में भी क्तिव का विधान किय  
है । विशेष देखो, आख्या० पृष्ठ २७५, टि० १ ।

४५३-क्षुभ्नादिषु च ॥ ८ । ४ । ३८ ॥

क्षुभ्ना आदि शब्दो मे नकार को एकारादेश न होवे । क्षुभ्-  
नाति, क्षुभ्नीतः, क्षोभिता, क्षुभाणः, क्षुभाय ॥ ४९, ५०

[णभ, तुभ] हिंसायाम् । नभ्नाति, तुभ्नाति, नभान, नभाय । ये  
दोनो वातु भ्नादि और दिवादिगण मे भी आ चुके है ॥ ५१

[ क्लिशू ] विवाधने = दुख होना । क्लिश्नाति, चिक्लेश, क्ले-  
शिता, क्लेशा (१४०), अक्लेशीत्, अक्लिच्छत् ॥ ५२ [अश]

भोजन । अश्नाति, आश, आशतु, अशान ॥ ५३ [उध्रस]

उद्धे । उकार की इत्सज्ञा<sup>१</sup> । ध्रस्नाति, दध्रास, ध्रसिता, ध्रसान ॥

५४ [इष] आभीक्ष्ण्ये = बार-बार वा शीघ्र होना । इष्णाति,  
इष्य, इषतुः एषिता<sup>२</sup>, एषिष्यति, इष्णाण, ऐष्णात्, इष्णीयात्,

१ क्षुभ्नादिषु च ( आ० ४५३ ) सूत्र में 'क्षुभ्ना' स्वरूप का ग्रहण है  
अतः यहा णत्व का निषेध नहीं होता । इसी प्रकार 'क्षोभणम्' मे भी  
समझना चाहिये । भट्टोजिदीक्षित ने 'क्षुभान' णत्व की निषेध माना है ।  
वह अशुद्ध है ( कर्चित्त शुभाण इत्यपि पाठ ) 'क्षुभ्नीत, क्षुभ्न्ति'  
इत्यादि प्रयोगों में 'एकदेशविकृतमनन्यवत्' ( पारि० ३७ ) नियम से  
णत्व का प्रतिषेध हो जाता ह

२ कई वैयाकरण उकार की इत्सज्ञा नहीं मानते । उनके मत में—  
उध्रस्नाति, उध्रसाञ्जकार आदि प्रयोग बनते हैं । अन्य 'उद्ध्रस् पूढते है ।  
उनके मत मे 'उद्ध्रस्नाति, उद्ध्रसाञ्जकार' आदि प्रयोग होते हैं ।

३ अनेक वैयाकरणों का मत है कि 'तीपसहलुभ०' सूत्र (आ० २१२)  
में सह धातु के साहचर्य से अकार विकरणवाली तौदादिक इष का ही ग्रहण  
होता है अतः इसको इडविकल्प नहीं होता । वस्तुतः इषेस्तकारे श्यन्प्रत्ययात्  
प्रतिषेधः' (वा० ७ । २ । ४८) इस वार्तिक के प्रमाण से इस 'इष' धातु  
से भी इट का विकल्प होता है । अतः 'एषिता, एष्ठा' दोनो रूप होंगे ।

इष्यात्. ऐषीत् ॥ ५५ [ विप ] विप्रयोगे = विरुद्धसयोग  
विष्णाति, वेष्टा । यह धातु अनिट् है ॥ ५६, ५७ [ प्रुप, प्लुप ]  
स्नेहनसेवनपूरणेपु । प्रुष्णाति, प्लुष्णाति ॥ ५८ [ पुप ] पुष्टौ ।  
पोषिता, पुषाण ॥ ५९ [ मुप ] स्नेये = चोरी । मुष्णाति,  
मोषिता, मुषाण ॥ ६० [ खच ] भूतप्रादुर्भावे = हो चुके का  
फिर होना । खच्चाति, खचान । वान्तोऽयमित्येके । काँइ के मत मे  
यह खव धातु है वहां—

४५४—च्छ्वोः शूडनुनासिके च ॥ ६ । ४ । १६ ॥

तुक् आगम के सहित जो छ और व उनका श और ऊठ्  
आवेश यथासख्य करके हो अनुनासिक, क्षिप और क्लनादि कित्  
डित् प्रत्यय परे हो तो । पीछे ऊठ् के साथ वृद्धि एकादेश होकर—  
खौनाति, खौनीतः, चखाव, चखवतु., खविता, खौनीहि । यहां परत्व  
से प्रथम ऊठ् होकर हलन्त के न रहने मे हि को धि न हुआ ।  
६१ [ हेठ ] च । चकार मे पूर्वोक्त अर्थ लिया जाता है । ष्टुत्व  
होकर—हृष्णाति, हृष्ठान ॥ श्रन्थादय द्वाविंशतिरुदात्ता उदा-  
त्तेत [ विष्णातिस्त्वनुदात्तः ] । [ ये ] श्रन्थ आदि वाईस (२२) धातु  
सेट् परस्मैपदी है [ और विप अनिट् है ] ६२ [ ग्रह ] उपादाने =  
लेना ॥ उदात्त स्वरितेत् । यह धातु सेट् उभयपदी है । गृह्णाति ।  
(२८६) सम्प्रसारण । गृह्णीत, जग्राह, जगृहतु, जगृहु ॥

४५५—ग्रहोऽलिटि दीर्घः ॥ ७ । २ । ३७ ॥

एकाच् ग्रह धातु मे विहित जो इट् उसको दीर्घ होवे परन्तु  
लिट् परे न हो तो । ग्रहीता । लिट् मे निषेध होने से 'जग्रहित्' यहां  
दीर्घ न हुआ । ग्रहीष्यात्, ग्रहीष्यते, ग्राहिषति, ग्राहिषाति, गृह्णातु, गृहाण,  
अगृह्णात्, गृह्णीयात्, गृह्यात्, ग्रहीषीष्ट, अग्रहीत् (१६२), अग्रहीष्टाम्,  
अग्रहीष्ट, अग्रहीषाताम्, अग्रहीषत, अग्रहीष्यत्, अग्रहीष्यत । वृत् ॥

॥ इति श्नाविकरणः क्र्यादिगण समाप्तः ॥



## अथ चुरादिगणः

१ [ चुर ] स्तेये = चोरी करना ।

४५६—सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालो-  
मत्वचवमेवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् ॥३॥१२५॥

सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्म, वर्ण, चूर्ण [ सुवन्तो ] और चुरादि धातुओं से णिच् प्रत्यय होवे । सत्याप आदि चूर्णपयेन्त प्रातिपदिकों का वर्णन नामधातु-प्रक्रिया में करेंगे । चुरादि धातुओं से स्वार्थ में णिच् होकर 'चुर—णिच्' की धातु संज्ञा ( १६७ ), णिच् को मानकर गुण ( ५२ ), तिप्, शप्, को मान कर गुण और अयादेश होकर—चोरयति, चारयतः, चोरयन्त ।

४५७—णिचश्च ॥ १ । ३ । ७४ ॥

क्रिया का फल कर्ता के लिये हो तो णिजन्त धातु से आत्मने-पद सङ्ग प्रत्यय हो । चोरयत', चोरयाञ्चकार, चोरयाञ्चक्रे, चोर-यामास, चोरयाम्बभूव, चोरयिता, चोरयिष्यति, चोरयिष्यते, चोर-यिषति, चोरयिषति, चोरयतु, चोरयताम्, अचोरयत, चोरयत, चोरयात्, चारयिषाष्ट, लुङ् में (१७६) चङ् (१७९) उपधा को ह्रस्व (१८०) द्वित्व (१८३) अभ्यास को दीर्घ—अचूचुरत्, अचूचुरत ॥ २ [ चिति ] स्मृत्याम् = स्मरण । चिन्तयति, अचिचिन्तत् । इस चिति धातु को इदित् पढ़ने से यह ज्ञापक होता है कि

१ चन्द्र और श्रीभद्र आदि कतिपय वैयाकरण 'णिचश्च' सूत्र में चौरादिक णिच् का ग्रहण नहीं मानते, इसलिये उनके मत में आत्मनेपद नहीं होता । पाणिनीय वैयाकरण दोनों पद मानते हैं ।

चुरादि धातुओं से णिच् प्रत्यय विकल्प<sup>१</sup> से होंगे, पक्ष में चुरादिको से शप् भी होंगे अन्यथा चिन्त धातु पढ़ देते । चिति पढ़ने से 'चिन्त्यात्' आदि प्रयोगो में नकारलोप ( १३९ ) नहीं होता ॥ ३ [यत्रि]<sup>२</sup> सकोचने । यन्त्रयति, अययन्त्रत् ॥ ४

१ ज्ञापक इस प्रकार का होता है—चिति धातु का आशीर्लिङ् में 'चिन्त्यात्' और भावकर्म प्रक्रिया में 'चिन्त्यते' प्रयोग होता है । यदि यहा 'चिन्त' धातु पढ़ते तो भी उपयुक्त प्रयोग सिद्ध हो ही जाते, क्योंकि यासुट् या यक् के परे णि का लोप हुआ, पुन न-लोप करने में णिलोप ( आ० ४४ सूत्र से ) के असिद्ध हो जाने से न लोप प्राप्त ही नहीं होता । पुन नकार की रक्षा के लिये इदित् पढ़ना व्यर्थ है । अतः इदित् करना इस बात का ज्ञापक है कि कोई ऐसी अवस्था भी होती है जहां बिना इदित् क्रिये नलोप का प्रतिषेध नहीं हो सकता । वह अवस्था तभी मिलेगी जब णिच् न हो और चिन्त से सीधे आशीर्लिङ् या यक् आदि की उत्पत्ति हो तब बिना इदित् क्रिये न-लोप को कोई रोक नहीं सकता । कई वैयाकरण इम ज्ञापक में सब धातुओं से सामान्यतया णिच् विकल्प मानते हैं जैसा क्रि ऊपर लिखा है । परन्तु महाभाष्य ७।२।२३ से तथा चुरादिगण में गित्विकल्प करने के लिये 'आष्टपाद्वा' गणसूत्र पढ़ने से प्रतीत होता है कि यह सामान्य ज्ञापक नहीं हो सकता, अन्यथा 'आष्टपाद्वा' वचन व्यर्थ होगा । अतः जिस धातु में कोई लिङ्ग होगा या जिसके लिये विशेष वचन होगा उसी धातु से णिच् का विकल्प होगा, सब से नहीं ।

२. सायण ने धातुवृत्ति में 'यत्रि, कुद्रि, तत्रि, मत्रि, धातुओं से भी इदित्करण सामर्थ्य से पक्ष में शप माना है, वह अयुक्त है क्योंकि यहां 'यन्त्र, कुन्द, आदि पढ़ते तब भी नकार का लोप प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यहा इन में नकार उपधा में नहीं है । अतः यह इकार उच्चारणार्थ है ।

[ स्फुडि ] परिहासे = ठट्टा करना । स्फुण्डयति, अपुस्फुण्डत् ।  
 [ स्फुटि ] इत्येके । स्फुण्टयति ॥ ५ [ लक्ष ] दर्शनाङ्कनयोः  
 देखना और चिह्न । लक्षयति, अललक्षत् ॥ ६ [ कुद्रि ]<sup>१</sup>  
 अनृतभाषण = भूँठ बोलना । कुन्द्रयति, अचुकुन्द्रत् ॥ ७ [ लड ]  
 उपसेवायाम् = लाड । लाडयति ( १२७ ) वृद्धि, अलीलडत् ॥  
 ८ [ मिदि ] स्नेहेन । मिन्दयति, अमिमिन्दत्, मिन्द्यात् ॥ ९  
 [ ओलडि ] उत्क्षेपे = ऊपर को फेंकना । लण्डयति, किन्हीं के मत  
 में आकार की इत्सङ्गा नहीं होती वहां 'ओलण्डयति' । उकारा-  
 दिरयामित्यन्ये । कोई इस धातु को उकारादि कहते हैं । उलण्ड-  
 यति ॥ १० [ जल ] अपवारणे = जाल । जालयति, अजी-  
 जलत् । [ लज ] इत्येके । लाजयति, अलीलजत् ॥ ११ [ पीड ]  
 अवगाहनं = पीडा । पीडयति ॥

४५८-भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्य-  
 तरस्याम् ॥ ७ । ४ । ३ ॥

भ्राज आदि धातुओं की उपा को विकल्प करके ह्रस्व हो, चड्-  
 परक णि परे हो तो । अपीपिडत्, अपिपीडत्, यहा जिस पक्ष में  
 ह्रस्व नहीं होता है वहा लघुपरक अभ्यास के न होने से अभ्यास को  
 दीर्घ ( १८३ ) नहीं होता ॥ १२ [ नट ] अवस्थ्यन्दने = ना-  
 चना । नाटयति, अनीनटत् ॥ १३ [ अथ ] प्रयत्ने । प्रस्थान  
 इत्येक । कोई के मत में अथ धातु प्रस्थान अथ में है ॥ १४  
 [ वध ] समयने = बन्धन । बाधयति, अबीबधत् ॥ १५ [ पू ]  
 पूरणे । पारयति, पारयते, पारयाञ्चकार, पारयिता, अपीपरत् । इस  
 धातु को दीर्घ ऋकारान्त पढ़ा है सो ह्रस्व कहते तो भी णिच् में  
 वृद्धि हो ही जाती, फिर यह ज्ञापक होता है कि इससे शप् भी होवे ।  
 परति, परतः, पपार, पपरतुः, पप्रतुः, ( ३८१ ) ॥ १६ [ ऊर्ज ]

बलप्राणनयोः = बल और जीवन । ऊर्जयति ॥ १७ [ पक्ष ]  
परिग्रहे = लेना । पक्षयति, अपपक्षत् ॥ १८, १९ [ वर्ण, चूर्ण ]  
प्रेरणे । वर्णयति, चूर्णयति, ॥ [ वर्ण ] वर्णन इत्यके = व्याख्यान ॥  
२० [ प्रथ ] प्रख्याने = प्रकट करना । प्रथयति ।

४५६-अत् स्मृदृत्वरप्रथमदस्तृस्पशाम् ॥

७ । ४ । ६५ ॥

स्मृ आदि धातुओं के अभ्यास का अकारान्त आदेश हो चङ्-  
परक णि परे हो तो । यह सूत्र सन्वद्भाव ( १८१ ) से प्राप्त इत्व  
( १८२ ) का अपवाद है । अपप्रथत् ॥ २१ [ पृथ ] प्रक्षपे =  
पर्थयति, पर्थयत्, पर्थेयाञ्चकार ।

४६०-उञ्चत् ॥ ७ । ४ । ७ ॥

धातु का उपधा ञ्कार के स्थान से ञ्चत् आदेश विकल्प से होवे  
चङ्परक णि परे हो तो । यह सूत्र गुण वृद्धि आदि का बावक है ।  
अपीपृथत्, अपपर्थत्, अपीपृथत्, अपपर्थत् ॥ [ पथ ] इत्येके । पा-  
थयति ॥ २२ [ पम्ब ] सम्बन्धने = मेल । सम्बयति, असस-  
म्बत् ॥ २३ [ शम्ब ] च । अशशम्बत् ॥ [ साम्ब ] इत्येके ।  
अससाम्बत् ॥ २४ [ मत्त ] अदने । मत्तयति ॥ २५  
[ कुट्ट ] छेदनभर्त्सनयोः । पूरण इत्येके । कुट्टयति, अचुकुट्टत् ॥  
२६, २७ [ पुट्ट, चुट्ट ] अल्पीभावे = थोडा होना । पुट्टयति, चुट्ट-  
यति ॥ २८, २९ [ अट्ट, पुट्ट ] अनादरे । अट्टयति । इस धातु  
को दकारोपध मानने से उस दकार को ट के सयोग मे टकार ही  
होकर उसके असिद्ध होने से सयोगादि दकार को द्वित्व नहीं होता ।  
आट्टित् ॥ ३० [ लुण्ठ ] स्तेये । लुण्ठयति ॥ ३१, ३२  
[ शठ, श्वठ ] असस्कारगत्यो । [ श्वठि ] इत्येके । शाठयति,  
श्राठयति, श्वठयति, ॥ ३३, -३८ [ तुज, तुजि, पिज, पिजि

लजि, लुजि ] हिंसावलादाननिकेतनेषु = हिंसा, बल, आदान  
 और स्थान । ताजयति, अतृतुजत्, तुञ्जयति, अतुतुञ्जत्, पेजयति,  
 अपापिजत्, [ पिञ्जयति, अपिपिञ्जत्, लञ्जयति, अललञ्जत्, लु-  
 ञ्जयति, अलुलुञ्जत् ] ॥ ३९ [ पिस ] गतौ । पेसयति ॥  
 ४० [ पान्त्व ] सामप्रयोगे = शान्ति करना । सान्त्वयति ॥  
 ४१, ४२ [ श्वल्क, चल्क ] परिभाषणे । श्वल्कयति ॥ ४३  
 [ षिणह ] स्नेहने = घृति । स्नेहयति, असिस्निहत् ॥ [ स्फिठ ]  
 इत्येके । स्फेठयति ॥ ४४ [ स्मिड ] अनादरे । अस्मिडत् ॥  
 ४५ [ स्मिड् ] अनादर इत्येके । इसमें णिच् का छोडकर केवल  
 स्मिड् धातु से डित्करण निष्प्रयोजन होने से णिजन्त से आत्मने-  
 पद ही होत है ॥ ४५ [ श्लेष ] श्लेषणे । श्लेषयति, अशिशिलपत् ॥  
 ४६ [ पथि ] गतौ । पन्थयति ॥ ४७ [ पिच्छ ] कुट्टन =  
 कूटना । पिच्छयति ॥ ४८ [ छुदि ] संवरणे । छन्दयति ॥  
 ४९ [ अण ] दान । आणयति ॥ ५० [ ळड ] आघाते =  
 ताडना । ताडयति, अतीतडत् ॥ ५१—५३ [ खड, खाडि,  
 कडि ] भेदने । खाडयति, खण्डयति, कण्डयति ॥ ५४ [ कुडि ]  
 रक्षण ॥ ५५ [ गुडि ] वेष्टने । रक्षण इत्येके ॥ [ कुठि,  
 गुठि ] चेत्यन्ये । कुण्ठयति, गुण्ठयति, अचुकुण्ठत् ॥ ५६  
 [ खुडि ] खण्डने = काटना । खुण्डयति ॥ ५७ [ वडि ]  
 विभाजनं = वाटना । वण्डयति ॥ [ वडि ] इत्येके ॥ ५८  
 [ मडि ] भूपायाम् = शोभा । मण्डयति, मण्डयत्, मण्डयाञ्चकार,  
 मण्डयिता, मण्डयिष्यति मण्डयिषति मण्डयिषाति, मण्डयत्, मण्ड-  
 यताम्, अमण्डयत्, मण्डयेत्, मण्डयात्, अममण्डत्, अमण्ड-  
 यिष्यत् ॥ ५९ [ भडि ] कल्याणे । भण्डयते, १ ॥

१. यहा से आगे कुछ धातुओं के आत्मनेपद तथा उत्तरोत्तर लकार के प्रयोग दर्शाये हैं ।

६० [ छर्द ] वमने । छर्दयाञ्चक्रे ॥ ६१, ६२ [ पुस्त, बुस्त ]  
 आदरानादरयोः । पुस्तयितासे ॥ ६३ [ चुद ] सचोदने ।  
 चादयिष्यते ॥ ६४, ६५ [ नक्क, धक्क ] नाशने । नक्कयिषतै,  
 नक्कयिषातै ॥ ६६, ६७ [ चक्क, चुक्क ] व्यथने । चक्कयताम् ॥  
 ६८ [ लल ] शौचकर्मणि = शुद्धि करना । चालयति ॥ ६९  
 [ नल ] प्रतिष्ठायाम् । अतालयत ॥ ७० [ तुल ] उन्माने  
 तोलना । तोलयति, अतू तुलत् ॥ ७१ [ दुल ] उन्क्षेपे = फेंकना ।  
 दोलयति ॥ ७२ [ पुल ] महत्त्वे । पालयेत् ॥ ७३ [ चुल ]  
 समुच्छ्राये । चालयिषीष्ट, अचू चुलत् ॥ ७४ [ मूल ] रोहणे ।  
 मूलयति ॥ ७५ [ वुल ] निमज्जने = डूबना । अवृवुलत् ॥  
 ७६, ७७ [ कल, विल ] क्षेपे = निन्दा । कालयति, वेलयति ॥  
 ७८ [ विल ] भेदने । वेलयति ॥ ७९ [ तिल ] स्नेहने ।  
 तेलयति ॥ ८० [ चल ] भृतौ । चालयति ॥ ८१ [ पाल ]  
 रक्षणे । पालयति ॥ ८२ [ लूप ] हिंसायाम् । लूषयति ॥  
 ८३ [ शुल्च ] माने । शुल्चयति ॥ ८४ [ शूर्प ] च । शूर्प-  
 यति ॥ ८५ [ चुट ] छेदने । चोटयति ॥ ८६ [ मुट ]  
 सचूर्णन । मोटयति ॥ ८७, ८८ [ पाडि पसि ] नाशने ।  
 परडयति, पमयति ॥ ८९, ९० [ ब्रज, मार्ग ] -संस्कार  
 गत्यां । ब्राजयति, मार्गयति ॥ ९१ [ शुल्क ] अनिस्पर्शने ।  
 शुल्कयति ॥ ९२ [ चपि ] गत्याम् । चम्पयति, अचचम्पत् ॥  
 ९३ [ क्षपि ] क्षान्त्याम् = सहना । क्षम्पयति, अचक्षम्पत् ॥ ९४  
 [ क्षि ] कृच्छ्रजीवने = कठिनता से जीना ॥ ९५ [ श्वर्त ]  
 गत्याम् । श्वर्तयति ॥ ९६ [ श्वभ्र ] च । श्वभ्रयति ॥ ९७  
 [ झप ] मिञ्च । झप धातु से णिच् प्रत्यय और उसकी मित्  
 सन्ना हो ।

४६१—मितां ह्रस्वः ॥ ६ । ४ । ६२ ॥

मित्संज्ञक धातुओं की उपवा को ह्रस्व हो णिच् परे हो तो ।  
 झपयति ॥ ९८ [ यम ] च परिवेषणे । परोसने अर्थ मे यम  
 धातु से णिच् प्रत्यय और उसकी मित्संज्ञा होती है । यमयति  
 ( ४६१ ) ह्रस्व ॥ ९९ [ चह ] परिकल्कने = मूर्खता । चह-  
 यति, अर्चीचहत् ॥ [ चप ] इत्येके । चपयति, अर्चीचपत् ॥  
 १०० [ रह ] त्यागे । रहयति, अरौरहत् ॥ १०१ [ बल ]  
 प्राणने = जीवन । बलयति ॥ १०२ [ चिञ् ] चयने = इकट्ठा  
 करना ।

४६२—चिस्फुरोणौ ॥ ६ । १ । ५४ ॥

चि और स्फुर धातु के एच का आकारादेश विकल्प से हो  
 णिच् परे हो तो आकारादेश होने के पश्चात्—

४६३—अर्निहीन्लीरीकनूयीदमाय्यातां पुण् णौ ॥

७ । ३ । ३६ ॥

ऋ, ही, व्ही, री, कनूयी, क्षमायी और आकारान्त धातुओं को पुक्  
 का आगम हा णि परे हो तो । चपयति<sup>१</sup>, अर्चीचपत् । जिस पक्ष  
 में आकार न हुआ वहा चययति । इस धातु मे चित् करने से णिच्  
 प्रत्यय का विकल्प होता है क्योंकि चित् करने का प्रयोजन आत्मने-  
 पद होना है णिजन्त से भी उसी अर्थ मे हो जाता फिर णिच् से  
 अलग भी आत्मनेपद होने के लिये चित् पदा है । चयते, चयति ।  
 नान्ये मितोऽहेतौ । स्वार्थ णिच् मे झप आदि धातुओं से अन्य  
 धातु मित्संज्ञक न हो । इस नियम के करने मे प्रयोजन यह है कि  
 जिन शम आदि अमन्त धातुओं की भ्वादिगण मे मित्संज्ञा कर  
 चुके हैं उनमें से जिस किसी धातु से इस चुरादिगण में स्वार्थ मे

१ मित्ता ह्रस्वः ( भा० ४६१ ) से ह्रस्व होता है ।

णिच् करे तो भी मित्संज्ञा न हा केवल झप आदि वातुओ की ही हो । १०३ [ घट्ट ] चरुने ॥ १०४ [ मुस्त ] सघाते ॥ १०५ [ खट्ट ] संवरणे ॥ १०६—१०८ [ पट्ट, स्फिट्ट, चुवि ] हिंसायाम् । चुम्बयति ॥ १०९ [ पूल ] संघाते—पूर्ण इत्येके । [ पुण ] इत्येके । पूलयति ॥ ११० [ पुंस ] अभिवर्द्धने = वदना । पुसरति, अपुपुसत् ॥ १११ [ टकि ] वन्धने । टङ्कयति ॥ ११२ [ धूस ] कान्तिकरणे = इच्छा करना । वूसयति, अदूधुसत् ॥ ११३ [ धृप् ] इत्येके । [ धृष् ] इत्यपर ॥ ११३ [ कीट ] वरणे । कीटयति, अर्चाकृतत् ॥ ११४ [ चूर्ण ] संकाचन । चूर्णयति ॥ ११५ [ पूज ] पूजायाम् । अपुपूजत् ॥ ११६ [ अर्क ] स्तवने = स्तुति । तपन इत्येके । अक्रेयति, आचिकत् ॥ ११७ [ शुड ] आलस्य । अशुशुठत् ॥ ११८ [ शुठि ] शोषणे । शुठयति ॥ ११९ [ जुड ] प्रेरणे ॥ १२०, १२१ [ गज, मार्ज ] शब्दार्थौ । गाजयति, मार्जयति, अममार्जत् ॥ १२२ [ मचे ] च । मर्चयति । १२३ [ घृ ] प्रस्त्रवणे । धारयति, अजीघरत् ॥ १२४ [ पचि ] विस्तारवचने = विस्तार से करना । पञ्चयति ॥ [ तिज ] निशाने = तोक्षणाता । तजयति ॥ १२६ [ कृन ] संशब्दने = कीर्ति ।

### ४६४—उपधायाश्च ॥ ७ । १ । १०१ ॥

धातु की उपधा का जो ऋकार उसको इकारादेश हो । रपर इर् होकर ( १३० ) सूत्र से दीर्घ होता है । कीर्त्तयति, कीर्त्तयाचकार, अर्चाकृतत्, अचिकीर्त्तत् ॥ १२७ [ वर्ध ] लुदनपूरणयोः । वर्धयति ॥ १२८ [ कुवि ] आच्छादने । कुम्बयति ॥ [ कुभि ] इत्येके । कुम्भयति ॥ १२९, १३० [ लुबि, तुबि ] अदर्शने । अर्दन इत्येके ॥ १३१ [ हल्प ] व्य-



कायां वाचि । ह्लापयति ॥ [ क्लप ] इत्येके । क्लापयति ॥  
१३२ [ चुटि ] छेदने । चुण्टयति, अचुचुण्टत् ॥ १३३  
[ ड्ल ] प्ररणे । एलयति, एलिलत् ।

४६५—नोनयति ध्वनयत्येलत्यर्दयतिभ्यः ॥

३ । १ । ५१ ॥

ऊन, ध्वन, इल और अर्द इन गणजन्त धातुओ से परे च्लि के स्थान मे चड् आदेश न हो वेदविषय मे । यहा ( १७६ ) मे चड् अप्त या उसका निषेध है । एलयीत् ॥ १३४ [ म्रच्छ ] म्लेच्छन = अशुद्ध बोलना । म्रच्छयति, अमम्रच्छत् ॥ १३५ [ म्लेच्छ ] अव्यक्ताया वाचि ॥ १३६, १३७ [ ब्रूस, बर्ह ] हिंसायाम् । ब्रूसयति, बर्हयति ॥ १३८ १३९ [ गर्ज, गर्द ] शब्दे । गर्जयति गर्दयति ॥ १४० [ गर्ध ] अभिकाङ्क्षायाम् गर्धयति ॥ १४१, १४२ [ गुर्द, पुर्व ] निकेतने = स्थान । गुर्दयति, पुर्वयति, अजुगुर्दन्, अपुपूर्वन् ॥ १४३ [ जासि ] रक्षण । मोक्षण इत्येक । जसयति अजजसत् ॥ १४४ [ ईड ] स्तुतो । ईडयति, ऐडिडत् ॥ १४५ [ जसु ] हिसायाम् । जामयति, अर्जाजसन्, ॥ १४६ [ पिडि ] संघाते । पिण्डयति, अपिपिण्डत् ॥ १४७ [ रुप ] रोषे । [ सट ] इत्येके ॥ १४८ [ डिप ] ज्ञेपे । अडीडिपत् ॥ १३९ [ छुप ] समुच्छ्रये स्तोपयति, अतुष्टपत् । सेट एकशतमेकोनपञ्चाशच्च । ये चुर आदि १४९ धातु परस्मैपदी हैं ।

आकुस्मादात्मनेपदिनः । अब यहां से कुस्म धातु पर्यन्त आत्मनेपदी कहते हैं, अर्थात् कर्तृगामी क्रियाफल से अन्यत्र भी आत्मनेपद ही हो । १५० [ चित ] संचेतने । चेतयते, अचीचितत् ॥ १५१ [ दशि ] दंशनदर्शनयोः

= काटना और देखना । [ दंशयते, अददंशत् ] [ दस, दसि ]  
 इत्येके । दासयत, दसयत, अदादसत, अददसत ॥ १५२, १५३  
 [ डप, डिप ] संघाते । डापयत, डेपयते । अडाडपत् ॥ १५४  
 [ तत्रि ] कुटुम्बधारणे । तन्त्रयते, अततन्त्रत ॥ १५५ [ मत्रि ]  
 गुप्तभाषणे । मन्त्रयते, अममन्त्रत ॥ १५६ [ स्पश ] ग्रहण-  
 संश्लेषणयोः स्वाशयत, अपस्पशत ॥ १५७, १५८ [ तर्ज,  
 भर्त्स ] नर्जने = डरना । तर्जयत । अततजत, भर्त्सयत, अबभर्त्सत ॥  
 १५९, १६० [ वस्न, गन्ध ] अर्दने = मागना । वन्तयते, गन्व-  
 यते ॥ १६१ [ त्रिष्क ] हिसायाम् । [ हिष्क ] इत्येके ।  
 १६२ [ निष्क ] परिमाणे = ताल । निष्कयत ॥ १६३ [ लल ]  
 ईप्सायाम् = लेन की इच्छा । लालयते, लालयन्श्चक्रे, लालयांबभूव,  
 लालयामास ॥ १६४ [ कूण ] संकोचने । कूणयत, अचुकु-  
 णत् ॥ १६५ [ तूण ] पूरणे ॥ १६६ [ भ्रूण ] आशा-  
 विशङ्कयोः = इच्छा और सदह । भ्रूणयत ॥ १६७ [ शठ ]  
 श्लाघायाम् = अपनी प्रशंसा । शाठयते, शाठयाश्चक्रे, शाठयावभूव  
 शाठयामास ॥ १६८ [ यक्ष ] पूजायाम् । यक्षयत ॥ १६९  
 स्वयम् ] चित्तके । स्यामयत ॥ १७० [ गुर ] उद्यमने ।  
 गोरयत, अजगुरत् ॥ १७१, १७२ [ शम, लक्ष ] आलाचने  
 = देखना । शामयते, लक्षयत ॥ १७३ [ कुत्स ] अवक्षेपणे ।  
 कुत्सयते, अचुकुत्सत ॥ १७४ [ वृट ] छेदने । त्रोटयते, अतु-  
 व्रुटत ॥ [ कुट ] इत्येके ॥ १७५ [ गल ] स्रवणे = झरना ।  
 गालयते, अर्जागलत, अगालयिष्यत ॥ १७६ [ भल ] अण्डने  
 बहुत बोलना । भालयते ॥ १७७ [ कूट ] आप्रदाने । आसा-  
 दन इत्येके । कूटयते, अचुकूटत ॥ १७८ [ कुट्ट ] प्रतापने  
 = तपाना । कुट्टयते, अचुकुट्टत ॥ १७९ [ वञ्च ] प्रलम्भने =  
 ठगना । वञ्चयते, अववञ्चत् ॥ १८० [ वृष ] शक्तिबन्धने =

सन्तानोत्पत्ति का सामर्थ्ये । वर्षयते, अवीवृषत, अववर्षत (४६०) ॥  
 १८१ [ मद् ] तृप्तियोगे । मादयते, अमीमदत ॥ १८२ [ दिवु ]  
 परिकूजने = शब्द । देवयते अदीद्वित ॥ १८३ [ गृ ] विज्ञाने ।  
 गारयते, अजीगरत ॥ १८४ [ विद् ] चेतनाख्याननिवासेषु ।  
 वेदयते, अवीविदत ॥ १८५ [ मान ] स्तम्भे = रोकना । मान-  
 यते, अमीमनत ॥ १८६ [ यु ] जुगुप्सायाम् = निन्दा । यावयते,  
 अयीयवत ॥ १८७ [ कुस्म ] नाम्नो वा । यह कुस्म प्रातिपदिक-  
 अथवा धातु है और इस का अर्थ चुरा हंसना है । कुस्मयते, अचु-  
 कुस्मत ॥ चितादयोऽष्टात्रिंशत् । ये चित आदि ३८ धातु पूरे हुए ॥

१८८ [ चर्च ] अध्ययने = पढ़ना । चर्चयति, अचच-  
 चत् ॥ १८९ [ बुक्क ] मयणे । बुक्कयते ॥ १९० [ शब्द ]  
 उपसर्गादाविष्कारे च, चाद्भाषणे । उपसर्गपूर्वक शब्द धातु से  
 परे प्रकट करने और बोलने अर्थ मे णिच् होता है । परिशब्दयति ॥  
 १९१ [ कण ] निमीलने = मीचना । काणयति, काणयते ।

४६६—वा०—काण्यादीनां वा ॥ ७ । ४ । ३ ॥

चङ् परक णिच् परे हो तो काणि आदि धातुओ की उपधा को  
 हल् विकल्प करके हो । अचीकणत्, अचकाणत् ॥ १९२  
 [ जभि ] नाशने । जम्भयति, अजजम्भत् ॥ १९३ [ षूद् ]  
 क्षरणे = झरना । सूदयति ॥ १९४ [ जसु ] ताडने । जास-  
 यति ॥ १९५ [ पश ] बन्धने । पाशयति ॥ १९६ [ अम ]  
 रोगे । आमयति, आमिमत् ॥ १९७, १९८ [ चट, स्फुट ]  
 भेदने । चाटयते, स्फोटयते, अचीचटत्, अचीचटत, अपुस्फुटत्,  
 अपुस्फुटत ॥ १९९ [ घट ] संघाते = समूह । घाटयति, घाट-  
 यते, अजीघटत् ॥ हन्त्यर्थाश्च । चुरादि से पहिले नव गणो मे जो  
 हिसार्थक धातु कहे हैं उन सब से स्वार्थ मे णिच् होता है । हिसयति,

त्रिहयति, इत्यादि ॥ २०० [ दिवु ] मर्दने । देवयति, अदी-  
 दिवत् ॥ २०१ [ अर्ज ] प्रतियत्ने = सञ्चय । अर्जयति, ॥  
 २०२ [ घुषिर् ] विशब्दने । घोषयति, अजघुषत् । इस धातु में इरित्  
 करने का यह प्रयोजन है कि णिच् प्रत्यय विकल्प से होवे, जहा  
 णिच् नहीं होता वहा अङ् ( १३८ ) से हो जाता है । अघुषत्,  
 अघोषीत् ॥ २०३ [ आङ् क्रन्द ] सातत्ये । आङ्पूर्वक क्रन्द  
 धातु से निरन्तर अर्थ मे णिच् होता है । आक्रन्दयति, आचक्रन्दत्,  
 आचक्रन्दत् ॥ २०४ [ लस ] शिल्पयोगे = कारीगरी मे युक्त । लास-  
 यति, लासयते, अलीलसत्, अलासयिष्यत्, अलासयिष्यत ॥ २०५,  
 २०६ [ तासि, भूष ] अलकारे । तंसयति, भूषयति ॥ २०७ [ अर्ह ]  
 पूजायाम् । अर्हयति ॥ २०८ [ ज्ञा ] नियोगे = नियुक्त करना ।  
 आज्ञापयति, आज्ञापयते ( ४६३ ) ॥ २०९ [ भज ] विश्रा-  
 णनं = बहुत सुनाना । भाजयति ॥ २१० [ शृधु ] प्रसहने ।  
 शर्धयति, अशीशधत्, अशशर्धत् ॥ २११ [ यत ] निकारो-  
 पस्कारयोः = स्थान और जोडना । यातयति ॥ २१२, २१३  
 [ कल; गल ] आस्वादाने । कालयति ॥ [ रघ ] इत्येके, [ रग ]  
 इत्यन्ये ॥ २१४ [ अञ्चु ] विशेषणे । अञ्चयति ॥ २१५  
 [ लिगि ] चित्राकरणे = चिह्न करना । लिङ्गयति, अलिलिङ्गत्,  
 अलिलिङ्गत ॥ २१६ [ मुद ] संसर्गे = मिलना । मोदयति,  
 मोदयते, अमूमुदत्, अमूमुदत्, अमोदयिष्यत्, अमोदयिष्यत ॥  
 २१७ [ त्रस ] धारणग्रहणवारणेषु । त्रासयति, अतत्रसत् ॥  
 २१८ [ उध्रस ] उञ्छे । ध्रासयति, उध्रासयति । इस धातुमे किन्ही  
 के मत मे उकार की इत्सज्ञा हो जाती है ॥ २१९ [ मुच ]  
 प्रमोचनमोदनयो । मोचयति, मोचयते ॥ २२० [ वस ]  
 स्नेहञ्छेदापहरणेषु = प्रीति, काटना और छीन लेना । वासयति,  
 वासयते ॥ २२१ [ चर ] संशये । चारयति, अचीचरत्,

अचीचरत ॥ २२२ [ च्यु ] हसने, सहन इत्येके । च्याव-  
यति, च्यायते ॥ [ च्युस ] इत्येके । च्योसयति । च्योसयते ॥  
२२३ [ भुवो ] अवकल्कने = मिलना वा विचारना<sup>१</sup> । भावयति ॥  
२२४ [ कृपेश्च ] कृपू धातु से भी सामर्थ्य<sup>२</sup> अर्थ में णिच् प्रत्यय हो ।  
कल्पयति ॥ आस्वद. सकर्मकात् । यहाँ से लेकर खद वातु पर्यन्त  
सकर्मक धातुओं से ही णिच् प्रत्यय कहेंगे<sup>३</sup> । २२५ [ ग्रस ]  
ग्रहणे । ग्रासयति, ग्रासयते ॥ २२६ [ पुष ] धारणे । पोषयति,  
अपूपुषत् ॥ २७ [ दल ] विदारणे = खण्ड करना ॥ २२८—  
२५७ [ पट, पुट, लुट, तुजि, मिजि, पिजि, भजि, लधि, त्रसि,  
पिसि, कुसि, दशि, कुशि, घट, घटि, बृहि, बर्ह, वल्ह, गुप,  
धूप, विच्छ, चीव, पुथ, लोक्, लोचृ, णद, कुप, तर्क, वृतु,  
वृधु ] भापार्थ<sup>४</sup> = बोलना । पाटयति, पांटयति, लोटयति, तुञ्जयति,  
लोकयति, लोचयति ।

### ४६७-नाग्लोपिशास्वृदिताम् ॥ ७ । ४ । २ ॥

णिच् प्रत्यय के परे जिन के अक् का लोप हुआ हो उन तथा  
शासु और ऋकार जिन का इत् गया हो उन धातुओं की उपधा

१ अवकल्कन का अर्थ कई वैयाकरण मिश्रीकरण मानते हैं, कई  
चिन्तन । अत एव भापार्थ में वा शब्द का प्रयोग किया है ।

२ कई वैयाकरण चकार से पूर्वनिर्दिष्ट 'अवकल्कन' अर्थ का निर्देश  
मानते हैं । क्षीरस्वामा 'कृपेस्तादर्थ्ये' ऐसा पठ कर तादर्थ्य अर्थात् प्रस्तुत  
भुव धातुके मिश्रीकरण अर्थ में णिच् मानता है, पक्षान्तर में तत् शब्द से  
कृप धातु का निर्देश मान कर सामर्थ्य अर्थ भी स्वीकार करता है ।

३. धातुओं के अनेक अर्थ होने से जिस अर्थ में कर्म का सम्बन्ध  
सम्भव होगा ( चाहे कर्म का प्रयोग न भी हो ) उस अर्थ में णिच् प्रत्यय  
होगा, अन्य में नहीं ।

को हस्व न हो चङ्परक णिच् परे हो तो । अलुलोक्त, अलुलो-  
 चत् ॥ २५८—२७२ [ रुट, लजि, अजि, दसि, मृशि, रुशि,  
 शीक, नट पुटि, जिवि, रधि, लधि, अहि, रंहि, नहि ] च,  
 २७३—२७५ [ लडि, तड, नल ] च । रोदयति, लब्जयति, नाटयति,  
 जिन्वयति ॥ २७६ [ पूरी ] आप्यायने = बढ़ना । पूरयति ॥  
 २७७ [ रुज ] हिंसायाम् । रोजयति, अरुरुजत् ॥ २७८  
 [ ष्वद् ] आस्वादने । स्वादयति, असिखदत् ॥ [ स्वाद् ] इत्येके ।  
 इस मे विशेष यह है कि षोपदेश के न होने से अभ्यास से परे षत्व  
 नहीं होता । असिखदत् । इत्यास्वदीयाः । खदपर्यन्त जो सकर्मक  
 धातु कह चुके हैं सो पूरे हुए ।

आधृषाद्वा । अब यहां से आगे धृष धातु पर्यन्त सब  
 धातुओं से णिच् प्रत्यय विकल्प करके होगा. पद में सब  
 धातुओं से भ्वादिगण के प्रयोग होंगे । २७९, २८०  
 [ युज, पृच ] संयमने । योजयति, योजति, अयूयुजत्, अयौक्षीत्  
 पचयति, अपीपृचत्, अपपचत्, पचति, पचिता, पचिष्यति, अप-  
 च्चीत् ॥ २८१ [ अर्च ] पूजायाम् । अर्चयति, अर्चेति, आर्चि-  
 चत्, आर्चीत् ॥ २८२ [ पह ] मर्षणे = सहना । साहयति,  
 असीसहत्, सहति, असहीत् ( १६२ ) ॥ २८३ [ ईर ] क्षेपे ।  
 ईरयति, ऐरिरत् ॥ २८४ [ ली ] द्रवीकरणे = गीला करना ।  
 लाययति, लयति ॥ २८५ [ वृजी ] वर्जने । वर्जयति, वर्जति,  
 अवीवृजत्, अववर्जत्, अवर्जीत् ॥ २८६ [ वृञ् ] आवरणे  
 = ढाकना । वारयति, वरति, वरते ॥ २८७ [ जृ ] वयोहानौ ।  
 जारयति, जरति, जरिता, जरीता ॥ २५८ [ जि ] च । जाय-  
 यति, अयति, अ्रेता, ॥ २८६ [ रिच ] वियोजनसम्पर्चनयोः  
 = पृथक् होना और सम्बन्ध । रेचयति, रेचति, रेक्ता, अरीरिचत् ॥

२९० [ शिष ] असवोपयोगे = बाकी होना । शेषयति, शेषति,  
 शेषा, अशीशिषत् ॥ २९१ [ तप ] दाहे । तापयति, तपति,  
 तप्ता, अतीतपन्, अताप्सीत् ॥ २९२ [ तृप ] तृप्तौ । तपेयति,  
 तप्ता, त्रप्ता ॥ २९३ [ छृडी ] सन्दीपने = प्रकाश होना । छर्द-  
 यति, छर्दति, अचीछृदन्, अचच्छर्दन्, छर्दिष्यति । यहां इट् का  
 विकल्प ( ३९७ ) कृतादि रौवादिक् के साहचर्य से नहीं होता ॥  
 [ चृप; छृप; दृप ] सन्दीपन इत्येके । चर्पयति, छर्पयति, दर्पयति,  
 दर्पति, अदीदृपत्, अददर्पत् ॥ २९४ [ दृभी ] भये । दर्भयति,  
 दर्भति, दर्भिता ॥ २९५ [ दृभ ] सन्दर्भे = गांठना ॥ २९६  
 [ छृद ] संवरणे । छादयति, छदति ॥ २९७ [ श्रथ ] मोक्ष-  
 णे । हिंसायामित्येके । श्राथयति ॥ २९८ [ मी ] गतौ ।  
 माथयति, मयति, मेता ॥ २९९ [ ग्रन्थ ] बन्धने । ग्रन्थयति,  
 ग्रन्थति ॥ ३०० [ क्रथ ] हिंसायाम् । स्वरितेदित्येके । यह  
 धातु शप पक्ष मे स्वरितेत् है । क्राथयति, क्रथति, क्रथते ॥ ३०१  
 [ शीक ] आमर्षणे = सहना ॥ ३०२ [ चीक ] च । चीकयति,  
 चीकति, अचीचिकत् ॥ ३०३ [ अर्द ] हिंसायाम् । स्वरि-  
 तेत् । अर्दयति, आर्दिदन्, अर्दति, अर्दते ॥ ३०४ [ हिसि ]  
 हिंसायाम् । हिसयति, हिसति ॥ ३०५ [ अर्ह ] पूजायाम् ॥  
 ३०६ [ आडः पद ] पद्यर्थे = गति । आसादयति, असीदति ( २३१ )  
 सीद आदेश, आसत्ता, असात्सीत् ॥ ३०७ [ शुन्ध ] शौच-  
 कर्मणि । शुन्धयति ॥ ३०८ [ छृद ] अपवारणे = बुरे प्रकार  
 हटाना । स्वरितेत् ॥ ३०९ [ जुष ] परितर्कणे' = इकट्ठा  
 होना वा मारना । परितर्पण इत्यन्ये । जोषयति, जोषति ॥ ३१०  
 धूञ ] कम्पने ।

१. धातुवृत्तिकार परितर्कण का अर्थ 'ऊहा' या 'हिंसा' करता है ।

४६८-वा०-धूञ्प्रीञ्ओर्नुग्वक्तव्यः ॥ ७ । ३ । ३७ ॥

णिच् परे हो तो धूञ् और प्रीञ् धातु को लुक् का आगम हो । धूनयति, ववति, धवते । इस वार्तिक को कोई आचार्य 'धूञ्प्रीणोः' ऐसा पढ़के ऋचादिस्थ प्रीञ् धातु के साहचर्य से ऋचादि का जो धूञ् धातु है उसी को हेतुमान् णिच् के परे लुक् कहते हैं । धाव-यति ॥ ३११ [ प्रीञ् ] तर्पण । प्रीणयति, प्रयति, प्रयते ॥ ३१२, ३१३ [ ग्रन्थ, ग्रन्थ ] सन्दर्भे = गाठना ॥ ३१४ [ आप्ल ] लम्भने = प्राप्त करना । आपयति, आपति, आपत् (२१७); आप्ना । स्वरितेदयमित्येके । आपते ॥ ३१५ [ तनु ] श्रद्धोपकरणयोः = श्रद्धा और उपकार करना । उपसर्गाच्च दैर्घ्ये । विस्तार अर्थ में उपसर्ग से परे णिच् होता है । तानयति, वितानयति, तनति, वितनति ॥ [ चन ] श्रद्धोपहननयोरित्येके । चानयति, चनति ॥ ३१६ [ वद ] सदेशवचने । संदेशा कहना । स्वरितेत् । वादयति, वदति, वदते ॥ ३१७ [ वच ] परिभाषणे = अधिक बोलना । वाचयति, वचति, वक्ता, अर्वावचत्, अवाक्षीत् ॥ ३१८ [ मान ] पूजायाम् । मानयति, मानति, मानिता ॥ ३१९ [ भू ] प्राप्तावात्मनेपदी । भावयते, भवति । इस धातु से णिच् के संयोग में ही आत्मनेपद होता है, अन्यत्र नहीं ॥ ३२० [ गर्ह ] विनिन्दने = निन्दा । गर्हयति ॥ ३२१ [ मार्ग ] अन्वेषणे = खोजना । मार्गयति ॥ ३२२ [ कठि ] शोके । कण्ठयति ॥ ३२३ [ मृजू ] शौचालंकारयोः । मार्ज-यति, मार्जति, मार्जिता, मार्ष्टी ॥ ३२४ [ मृष ] तितित्ना याम् । स्वरितेत् । मर्षयति, मर्षति, मर्षते ॥ ३२५ [ घृष ] प्रसहने । धर्षयति, धर्षति । इत्याधृषीयाः । घृषपर्षन्त धातुओ ऋ णिच् का विकल्प कह चुके हैं, सो पूरे हुए ।



अथादन्ताः । अब्ब अदन्त धातु कहते हैं अर्थात् उनके अकार का लोप ( १७२ ) से णिच् के परे होंगों, इसीसे ये अग्लोपी कहाते हैं । ३२६ [ कथ ] वाक्यप्रबन्धने = प्रबन्ध से कहना । कथयति, अचकथन् । यहां अग्लोप के हाने से वृद्धि नहीं होती ॥ ३२७ [ वर ] ईप्सायाम् = मिलने की इच्छा । वरयति, अववर्न् ॥ ३२८ [ गण ] सख्याने = गणना । गणयति ।

४६६-ई च गणः ॥ ७ । ४ । ६७ ॥

गण धातु के अभ्यास को ईकारादेश और चकार से अकारादेश भी हां चङपरक णिच् परे हा नां । अजीगणत्, अजगणन् ॥ ३२९, ३३० [ शठ, श्वठ ] सम्यगवभाषणे = अच्छे प्रकार कहना । शाठयति, श्वाठयति, अशशठत्, अशश्वठत् ॥ ३३१, ३३२ [ पट वट ] ग्रन्थे । पटयति, वटयति ॥ ३३३ [ रह ] त्यागे । अररहन् । ३३४, ३३५ [ स्तन, गदी ] देवशब्दे । स्तनयति, गदयति ॥ ३३६ [ पत ] गतौ वा । यह धातु विकल्प करके णिजन्त है । पतयति, पतयाचकार, [ अपपतत् ] पतति, अपतीत् । चाऽदन्त इत्येके । कोई लाग विकल्प करके अदन्त कहते है । पातयति, अपीपतत् ॥ ३३७ [ पप ] अनुपसर्गात् । यहा पूर्व से गति अर्थे की अनुवृत्ति आती है । पषयति ॥ ३३८ [ स्वर ] आक्षेपे = निन्दा । स्वरयति ॥ ३३९ [ रच ] प्रतिघत्ने । रचयति ॥ ३४० [ कल ] गतौ संख्याने च । कलयति ॥ ३४१ [ चह ] परिकल्कने = अभिमान और मूर्खता । चहयति, अचचहत् ॥ ३४२ [ मह ] पूजायाम् । महयति ॥ ३४३— ३४५ [ सार, कृप, अथ ] दौर्बल्ये = निबलता । सारयति, कृपयति, अथयति ॥ ३४६ [ स्पृह ] ईप्सायाम् । स्पृहयति ॥ ३४७ [ भाम ] क्रोध । अबभामत् । अग्लोपी होने से उपधा ह्रस्व

का निषेध ( ४६७ ) ॥ ३४८ [ सूच ] पैशुन्ये = चुगुली करना । सूचयति, असुसूचत् ॥ ३४९ [ खेट ] भक्षणे । खेटयति, अचिखेटत् । तृतीयान्त इत्येके । कोई के मत मे डकारान्त 'खेड' धातु है । खेडयति, अचिखेडत् ॥ [ खोट ] इत्यन्ये ॥ ३५० [ क्षोट ] क्षेपे = निन्दा । अचुक्षोटत् ॥ ३५१ [ गोम ] उपलेपने = लीपना । गोमयति, अजुगोमत् ॥ ३५२ [ कुमार ] क्रीडायाम् । कुमारयति, अचुकुमारत् ॥ ३५३ [ शील ] उपधारणे = अच्छे गुणों का अभ्यास करना । शीलयति, अशिशीलत् ॥ ३५४ [ साम ] सान्त्वप्रयोगे । अससामन् ॥ ३५५ [ वेल ] कालोपदेशे = नियत समय का उपदेश । वेलयति ॥ [ काल ] इति पृथक् धातुरित्येके । कालयति, अचकालत् ॥ ३५६ [ पल्पूल ] लवनपवनयोः = खेत काटना और पवित्र करना । पल्पूलयति, अपपल्पूलत् ॥ २५७ [ वात ] सुखसेवनयोः ॥ गतिसुखसेवनेष्वित्येके । वातयति, अबवात् ॥ ३५८ [ गवेप ] मार्गणे = खोजना । गवेपयति, अजगवेपत् ॥ ३५९ [ वास ] उपसेवायाम् । वासयति ॥ ३६० [ निवास ] आच्छादने । निवासयति, अनिनिवामत् ॥ ३६१ [ भाज ] पृथक्कर्मणि = अलग करना । भाजयति, अबभाजत् ॥ ३६२ [ सभाज ] प्रीतिदर्शनयोः । प्रीतिसेवनयोरित्येके । सभाजयति, अससभाजत् ॥ ३६३ [ ऊन ] परिहाणे । ऊनयति, औननत् । वेद में—औनयीत् ( ४६५ ) चड नहीं होता ॥ ३६४ [ ध्वन ] शब्दे । अदध्वनन्, अध्वनयीत् ( ४६४ ) ॥ ३६५ [ कूट ] परितोषे । परिदाह इत्यन्ये । कूटयति, अचुकूटत् ॥ ३६६-३६९ [ सङ्केत, ग्राम, कुण, गुण ] चामन्त्रणे । चकार से कूट धातु की अनुवृत्ति है । सङ्केतयति, ग्रामयति, कुणयति, गुणयति ॥ ३७० [ कूण ] संकोचन । अचुकूणत् ॥ ३७१ [ स्तेन ] चौर्ये = चोरी । अतिस्तेनत् ॥

आगर्वादान्मनेपदिनः । यहां से आगे गर्व धातुपयन्त  
 आत्मनेपदी है ॥ ३७२ [ पद् ] गतौ । पदयते, अपपदत् ॥  
 ३७३ [ गृह ] ग्रहणे । अजगृहत् ॥ ३७४ [ मृग ]  
 अन्वेषणे । मृगयत्, ३७५ [ कुह ] [विस्मापने = सन्देह  
 कराना । कुहयत् ॥ ३७६, ३७७ [ शूर, वीर ] विक्रान्तौ  
 = पराक्रम दिखाना । शूरयत्, अशुशूरत्, वीरयत् ॥ ३७८  
 [ स्थूल ] परिवृंहणे = मोटापन । स्थूलयत् ॥ ३७९  
 [ अर्थ ] उपयाच्ञायाम् = चाहना । अर्थयत्, आर्तथत् ॥ ३८०  
 [ सत्र ] सन्तानक्रियायाम् = विस्तार । सत्रयत्, अससत्रत् ॥  
 ३८१ [ गर्व ] माने । गर्वयत्, अजगर्वत् ॥ इत्यागर्वाद्याः ॥

३८२ [मूत्र] वेष्टने = लपेटना । विमोचन इत्यन्ये = छोड़ना सूत्र  
 यति ॥ ३८३ [मूत्र] प्रस्रवणे । मूत्रयति, अमुमूत्रत् ॥ ३८४ [रूक्ष]  
 पारुष्ये = कठोरपन । रूक्षयति, अरुरूक्षत् ॥ ३८५, ३८६ [पार,  
 तीर] कर्मसमाप्तौ । पारयति, तीरयति, अपपारत्, अतितीरत् ॥  
 ३८७ [ पुट ] संसर्गे = मिलाना । पुटयति ॥ [ धेक ] दर्शन  
 इत्येके । अदिधेकन् ॥ ३८८ [ कत्र ] शैथिल्ये । कत्रयति, अच-  
 कत्रत् ॥ [ कर्त ] इत्यप्येके । कर्तयति ॥

प्रातिपदिकद्धात्वर्थे बहुलमिष्टवच्च । प्रातिपदिक से सामान्य  
 धातु के अर्थ में णिच् प्रत्यय हां और जैसे इष्टन् तद्धित प्रत्यय के  
 परे कार्य हांते है वैसे णिच् प्रत्यय के परे हां । जैसे-पटुमाचष्टे पटयति ।  
 यहां इष्टन् प्रत्यय के समान टिलोप होता है । अपपदत् ।

तत्करोति तदाचष्टे । द्वितीयान्त कर्मवाची प्रातिपदिक से  
 'करोति' और 'आचष्टे' अर्थ में णिच् हांता है । मृदुं करोत्याचष्टे  
 वा म्रदयति । यह तथा अगले सूत्र प्रथम सूत्र के ही प्रपञ्च है ।

तेनाऽतिक्रामति । तृतीयान्त प्रातिपदिक से अतिक्रमण =

उल्लङ्घन अर्थे मे णिच् प्रत्यय हो । अश्वेनातिक्रामति अश्वयति, हस्तिना अतिक्रामति हस्तयति इत्यादि ।

धातुरूपं च । जिस प्रातिपदिक से णिच् प्रत्यय करें वह जिस धातु से बना हो उसी का रूप णिच् प्रत्यय में हो जावे और चकार से अन्य कार्य भी णिच् प्रत्यय के अनुकूल हो जावें । कंसवधमाचष्टे कस घातयति । यहाँ वध शब्द हन धातु से बना है वह णिच् प्रत्यय के परे धातुरूप होकर हन धातु का प्रयोग होता है इस विषय की विशेष व्याख्या आगे नामधातु प्रक्रिया में लिखेंगे ।

कर्तृकरणाद्धात्वर्थे । कर्ता के व्यापार के लिये जो साधन हैं उससे धातु के अर्थ में णिच् प्रत्यय हो । असिना हन्ति, असयति, परशुना वृश्चति परशयति ॥ ३८९ [ वल्क ] दर्शने । वल्कयति ॥ ३९० [ चित्र ] चित्रीकरणे । कदाचिद्दर्शने । किसी ममय देखने अर्थ में भी चित्र धातु से णिच् हाता है । चित्रयति, अचिचित्रत् ॥ ३९१ [ अस ] समाघाते । असयति ॥ ३९२ [ वट ] विभाजने ॥ ३९३ [ लज ] प्रकाशने । लजयति ॥ [ वटि, लाजे ] इत्येके । वटयति, लजयति ॥ ३९४ [ मिश्र ] संपर्क = संयोग करना । मिश्रयति ॥ ३९५ [ संग्राम ] युद्धे । अनुदात्तेत् । संग्रामयते, अससंग्रामत् ॥ ३९६ [ स्तोम ] श्लाघायाम्, स्तोमयति ॥ ३९७ [ छिद्र ] कर्णभेदने । = कान का छेदना । छिद्रयति । कर्णभेदन इत्येके = साधनो का भेद । [ कर्ण ] इति धात्वन्तरमित्यन्ये । कर्णयति ॥ ३९८ [ अन्ध ] दृष्ट्युपघाते = नेत्र फूटना । उपसहार = इत्यन्ये समाप्ति अन्धयति ॥ ३९९ [ दण्ड ] दण्डनिपातने = दण्ड देना । दण्डयति, अददण्डत् ॥ ४०० [ अङ्ग ] पदे लक्षणे च = पग और चिन्ह । अङ्कयति । आश्वकत् ॥ ४०१ [ अङ्ग ] च । आश्वकत् ॥ ४०२, ४०३ [ सुख, दुःख ] तात्कियायाम्

= सुख और दुःख करना । सुखयति, दुःखयति ॥ ४०४ [रस] आस्वादस्नेहनयो । रसयति ॥ ४०५ [व्यय] वित्तसमुत्सर्गं = खर्च करना । व्यययति, अवव्ययत् ॥ ४०६ [रूप] रूपक्रियायाम् = रूप को देखना वा करना । रूपयति, अरुरूपत् ॥ ४०७ [छेद] द्वैवीकरणे = दो भाग करना । अचिच्छेदत् ॥ [छद] अपवारण इत्यक । छदयति ॥ ४०८ [लाभ] प्रेरण = आज्ञा करना । लाभयति, अनलाभत् ॥ ४०९ [व्रण] गात्रविचूर्णने = घाव । व्रणयति, अवव्रणत् ॥ ४१० [वर्ण] वर्णाक्रियाविस्तारगुणवचनेपु = रगना, फैलाव, स्तुति करना । वर्णयति, अववर्णत् ॥

बहुलमेतन्निदर्शनम् । कथ आदि अदन्त धातुओं का पाठ बहुल से जानो अर्थान् बहुल कहने से अन्य धातुओं से भी यहां णिच् हांता है जैम—[पर्ण] हरितभावे = हरा होना । पर्णयति, अपपर्णत् ॥ [विष्क] दर्शने = देखना । विष्कयति, अविष्कत् ॥ [क्षप] प्रेरणे । क्षपयति ॥ [वस] निवासे । वसयति ॥ [तुत्थ] आवरण । तुत्थयति ॥ तथा गण्डयति, आन्डोलयति, ड्रेड्खालयति, विडम्बयति, अववीरयति इत्यादि प्रयोग भी बहुल ग्रहण से होते हैं । तथा कोई ऐसा कहते हैं कि दशो गण के धातुओं के लिये बहुल ग्रहण है इससे सौत्र, लौकिक और वैदिक धातु अपठित ( जो दश गणों में नहीं पढ़े ) उनसे भी उन गणों के प्रयोग होते हैं । और कोई मत में नव गणों में पढ़े धातुओं के लिये बहुल है इससे चुरादिगण में अपठित धातुओं से भी स्वार्थ में णिच् हो जाता है । जैम—अचीकरत् । और कोई के मत में चुरादि धातुओं से ही णिच् बहुल करके हांता है ॥

णिङ्ङाग्निरसने । अङ्गवाची प्रातिपदिक से फेंकने अर्थ में णिङ् प्रत्यय हो । डित् करने से आत्मनेपद होता । हस्तौ निरस्यति—हस्तयते, पादौ निरस्यति—पादयते, इत्यादि ।

श्वेताश्वाश्वतरगालोडिताह्वरकाणामश्वतरेतकलोपश्च ।  
 श्वेताश्व, अश्वतर, गालोडित, आह्वरक, इन प्रातिपदिको से  
 अतिक्रमण अर्थ मे णिङ् प्रत्यय और इनके अश्व, तर, इत और  
 ककार का लोप हो जावे । श्वेताश्वमाचष्टे, अतिक्रामति वा—श्वे-  
 तयते, अश्वतरमाचष्टे—अश्वयते, गालोडितं वागविमर्षमाचष्टे तत्क-  
 रोत्यतिक्रामति वा—गालोडयते, आह्वरक करोत्यतिक्रामति वा—  
 आह्वरयते ।

पुच्छादिषु धात्वर्थ इत्येव सिद्धम् । पुच्छ आदि प्रातिपदिको  
 से “पुच्छभाण्डचीवराणिङ्” इस सूत्र मे णिङ् प्रत्यय कहा है  
 वहा भी धात्वर्थ मे प्रातिपदिकमात्र के कहने से णिच् होकर बहुल-  
 वचन सामर्थ्य से आत्मनेपद भी हो जावेगा फिर पुच्छ आदि से  
 णिङ् कहने का कुछ प्रयोजन नहीं । और यहा सिद्ध शब्द के मङ्गलार्थ  
 होने से इस चुरादिगण की समाप्ति जानो । इन दश गणो मे भ्वा-  
 दिगण सब का उत्सर्ग है और नौ गण सब शप् के बाधक ही  
 हैं । जब नव गणो मे पठे भ्वादि के धातु को अवकाश मिलता है तब  
 शप् ही होता है । जितने धातु इन दश गणो मे लिखे है वे ही औ-  
 पदेशिक हैं और इन्ही से सब प्रकार के शब्द बनते है और आगे  
 १२ प्रक्रियां लिखेंगे उन प्रत्येक में इन सब धातुओ का काम  
 पड़ा करेगा ॥

॥ इति चुरादिगणः समाप्तः ॥

## अथ सिजन्तप्रक्रिया

४७०—तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ १ । ४ । ५५ ॥

स्वतन्त्र कर्ता को प्रेरणा करनेहारे की हेतु और कर्ता दोनों संज्ञा हो ।

४७१—हेतुमति च ॥ ३ । १ । २६ ॥

प्रयोजक कर्ता के भेजने आदि व्यवहार अर्थ मे धातु से सिच् प्रत्यय हा । सो दश गणो मे जितने धातु लिख चुके है उन सब से सिच् आदि प्रक्रिया के प्रत्यय होंगे, उन सब धातुओ के प्रयोग सर्वत्र नहीं लिखेंगे, किन्तु जिनमे कुछ विशेष कार्य सूत्रो से होते हैं वे लिखे जावेंगे । भवतीति भवन्, भवन्तं प्रेरयति—भावयति, भावयते । यहां क्रिया का फल कर्ता के लिये होने मे आत्मनैपद ( ४५७ ) होता है, और शप् आदि की उत्पत्ति होती है । भावयाञ्चकार, भावयाम्बभूव, भावयामास, भावयिता, भावयिष्यति, भावयिषति, भावयिषाति, भावयतु, अभावयत्, भावयेत्, भाव्यात् ( १७७ ) णिलोप ।

४७२—आः पुयणञ्यपरे ॥ ७ । ४ । ८० ॥

अवर्णपरक पवगे, यण और जकार परे हो तो सन् प्रत्यय के परे जो अङ्ग उसके अवयव अभ्यास के उवर्णो को इकारादेश हो । अभीभवत्, अपीपवत्, अभीमवत्, अयीयवत्, अरीरवत्, अलीलवत्, अजीजवत् । यद्वा सर्वत्र यद्यपि सन् प्रत्यय परे नहीं है तो भी ( १८१ ) से सन्वद्भाव मानकर कार्य होता है ।

४७३—स्रवतिशृणोतिद्रवातिप्रवतिप्लवतिच्यव-  
तीनां वा ॥ ७ । ४ । ८१ ॥

स्रवति आदि धातुओं के अभ्यासस्थ उकार को विकल्प करके इकारादेश हो सन् प्रत्यय के परे अवर्णपरक धातु का अक्षर परे हो तो । असिस्रवत्, असुस्रवत्, अशिश्रवत्, अशुश्रवत्, अदिद्रवत्, अदुद्रवत्, अपिप्रवत्, अपुप्रवत्, अपिप्लवत्, अपुप्लवत्, अचिच्यवत्, अचुच्यवत् ॥ अडुडौकत्, अचीचकासत्, यहा (४५७) सर्वत्र उपाध को ह्रस्व नहीं होता ॥ चुरादिगण मे स्वार्थे णिच् से भी हेतुमान् णिच् प्रत्यय होता है । चारयन्त प्रेरयति, चोरयति, अचूचुरत् ।

४७४—णौ च संश्चडोः ॥ ६ । १ । ३१ ॥

सन् और चड् जिससे परे हों ऐसा णि परे हो तो श्चि धातु को सम्प्रसारण विकल्प करके हो, सम्प्रसारण और उसके आश्रय जो कार्य है उनके बलवान् होने से सम्प्रसारण और पूर्वरूप होकर—अशुशुवत् । पक्ष मे—अशिश्चियत् ॥ आटिटत् । यहा उपाध को

१. 'अ + चोरू + इ + इ + अ + त्' इस अवस्था मे णिच् के परे प्रथम णिच् का लोप होता है । उपाधाह्रस्वत्व करते समय पूर्व णिच् स्थानिवत् हो जाता है । इसलिये जिस णिच् से परे चड् है उसे पूर्व ह्रस्वभावी अङ्ग नहीं, बीच मे णिच् का व्यवधान इ । जो णिच् ( प्रथम ) ह्रस्वभावी अङ्ग से परे है उससे पर चड् नहीं, द्वितीय णिच् का व्यवधान है, अतः यहा ह्रस्वत्व की प्राप्ति नहीं होती । ऐसी अवस्था मे 'गेण्च्युपसख्यानम्' ( महा० ७ । ४ । १ ) इस वातिक से या 'ण्याकृतिनिर्देशात् सिद्धम्' ( महा० ७ । ४ । १ ) इस आकृतिग्रहण से ह्रस्वत्व होता है ।

२. सम्प्रसारणं सम्प्रसारणाश्रय च कार्यं बलीयो भवति । पारि० १०६ ।



ह्रस्व बहिरङ्ग<sup>१</sup> है परन्तु ओण धातु में ऋदित्करणसामध्ये<sup>२</sup> मान द्वित्व से पहिले ही ह्रस्व हो जाता है। औन्दित्, आङ्गिडत्, आचिचत्। यहां सयोग के आदि न द और र को द्वित्व ( ३२६ ) से नहीं हांता। [ उञ्ज ] आर्जवे धातु उपदेश में दकारोपध है और “भुजन्युञ्जौ<sup>३</sup>” सूत्र में निपातन करने से दकार को बकार हो जाता है, वह अन्तरङ्ग भी है परन्तु द्वित्वविषय में औपदेशिक का प्रहण होने से दकारस्थानी बकार को द्वित्व नहीं होता। औञ्जिजत्।

४७५—रभेरशच्त्वलिटोः ॥ ७ । १ । ६३ ॥

रभ धातु को लुम् का आगम हो शप् और लिट् भिन्न अजादि प्रत्यय परे हो तो। रम्भयति, अररम्भत्।

४७६—लभेश्च ॥ ७ । १ । ६४ ॥

१. ‘आट् + इ + अ + त्’ इस अवस्था में द्विवचन और उपधा ह्रस्वत्व दोनों की प्राप्ति है। उपधा ह्रस्वत्व में णिच, चट् दोनों निमित्त हैं, द्विवचन में केवल चट्। इस प्रकार उपधा ह्रस्वत्व वङ्गापेक्ष होने से बहिरङ्ग है। वस्तुतः द्विवचन और उपधा-ह्रस्वत्व दोनों समान कोटि में हैं, क्योंकि द्विवचन में यद्यपि चट्मात्र की अपेक्षा है तथापि चट् बिना णिच् के उत्पन्न नहीं होता। अतः द्विवचन को अन्तरङ्ग नहीं मान सकते। द्विवचन उपधा-ह्रस्वत्व की अपेक्षा नित्य है और उपधा-ह्रस्वत्व अनित्य है, क्योंकि द्विवचन करने पर उपधा में आकार न होने से ह्रस्वत्व प्राप्त नहीं होता। अतः एव प्रथम द्विवचन की प्राप्ति होती। महाभाष्य ७ । ४ । १ ॥

२. ‘ओण् + इ + अ + त्’ इस अवस्था में यदि पहले द्विवचन हो जावे तो ओकार उपधा में नहीं रहता। अतः एव ह्रस्वत्व की प्राप्ति भी नहीं होती, ऋदित् करना व्यर्थ है। व्यर्थ होकर इस बात का ज्ञापक है कि द्विवचन से पूर्व ह्रस्वत्व होता है। ३. अष्टा० ७ । ३ । ६१ ॥

पूर्वसूत्रोक्त कार्यलभ धातु को भी हो। लम्भयति, अल्लम्भत् ॥ अजीहयत्। यहां ( ४२२ ) से चङ् के परे अभ्यास का कृत्व का निषेध हो जाता है। स्मारयति, असस्मरत्, दारयति, अददरत्, अतत्वरत्, अमम्रदत्, अतस्तरत्। यहां सर्वत्र स्मृ आदि धातुओं के अभ्यास को अकारादेश ( ४५९ ) से हो जाता है।

### ४७७—विभाषा वेष्टिचेष्ट-योः ॥ ७। ४। ६६ ॥

चङ्परक णिच् परे हो तो वेष्ट और चेष्ट धातु के अभ्यास को अकारादेश विकल्प करके होवे। अववेष्टत्, अविवेष्टत्, अचचेष्टत्, अचिचेष्टत्। भ्राज आदि धातुओं की उपधा को विकल्प करके ह्रस्व ( ४५८ ) सूत्र से होकर—अविभ्रजत्, अबभ्राजत्, अवीभसत्, अबभासत्, अवीभषत्, अबभाषत्, अदीदिपत्, अदिदीपत्, अजीजिवत्, अजिजीवत्, अपीपिडत्, अपिपीडत्। कण आदि णिजन्त धातुओं की उपधा को चङ्परक णिच् मे ( ४६६ ) से विकल्प करके ह्रस्व हो जाता है। कण, रण, भण, भ्रण, लुप, हेठ ये ह्र' धातु महाभाष्य में काणयादि गिनाये गये हैं। अचीकणत्, अचकाणत् इत्यादि।

### ४७८—स्वापेश्चडि ॥ ६। १। १८ ॥

णिजन्त स्वापि धातु को संप्रसारण हो चङ् परे हो तो। स्वापयति, असूषुपत्।

### ४७९—शाच्छासाहाव्यावेपां युक् ॥ ७। ३। ३७ ॥

शा आदि धातुओं को युक् का आगम हो णिच् परे हो तो। ( ४६३ ) सूत्र से युक् प्राप्त है उसका यह अपवाद है। शाययति, छायायति, साययति, ह्याययति, संन्याययति, वाययति, पाययति, अशीशयत् ॥ द्वा धातु में विशेष है—

४८०—हः सम्प्रसारणम् ॥ ६ । १ । ३२ ॥

सन् और चङ् जिससे परे हो ऐसा णिच् परे हो तो ह्वा धातु को सम्प्रसारण हो। अजूहवत्, अजुहावत्<sup>१</sup>। यहां (४६६) वार्तिक से उपधाह्रस्व [ का ] विकल्प होता है ॥ पा धातु मे यह विशेष है—

४८१—लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य ॥ ७ । ४ । ४ ॥

चङ्परक णिच् परे हो तो पिबति अङ्ग की उपधा का लोप और अभ्यास को ईकारादेश हो। अपीप्यत् ॥ अर्पयति, हेपयति, बलेपयति, रेपयति, क्नोपयति, क्षमापयति, स्थापयति, दापयति, धापयति, प्रापयति। यहां सर्वत्र (४६३) सूत्र से णिच् के परे पुक् होता है ॥ स्था धातु में यह विशेष है—

४८२—तिष्ठतेरित् ॥ ७ । ४ । ५ ॥

चङ्परक णिच् परे हो तो स्था अङ्ग की उपधा को इकारादेश हो। अतिष्ठित्, अतिष्ठिताम् ॥ घ्रा धातु मे यह विशेष है—

४८३—जिघ्रतेर्वा ॥ ७ । ४ । ६ ॥

चङ्परक णिच् परे हो तो घ्रा धातु की उपधा को इकारादेश विकल्प करके हो। अजिघ्रित्, अजिघ्रित् ॥ कर्तयति इत्यादि ऋवर्णोपध धातुओं मे (४६०) सूत्र से विकल्प करके ऋत् हो जाता है। अचीकृतत्, अचकर्तत्, कीर्तयति, अचीकृतत्, अचिर्कर्तत्; वर्तयति, अवीवृतत्, अववर्तत्, अमीमृजत्, अममार्जत् ॥ पाति धातु मे यह विशेष है—

१. न्यासकार ने 'ह्रस्व, वण, लुठ, लप' इन चार को भी काण्यादि माना है। महाभाष्यकार ने पूर्व पृष्ठ ३३६ पक्ति १४ पर लिखी छ धातुएं ही काण्यादि मानी हैं। अतः यह रूप न्यासकार के मतानुसार है। महाभाष्यकार के अनुसार नित्य ह्रस्व होता है।

४८४—वा०—पातेर्लुग्वचनम् ॥ ७ । ३ । ३७ ॥

णिच् परे हो तो पाति धातु को लुक् आगम हो । पालयति ।

४८५—वो विधूनने जुक् ॥ ७ । ३ । ३८ ॥

णिच् परे हो तो कपाने अर्थ मे वर्तमान 'वा' धातु को जुक् आगम हो । वाजयति । और जहा कंपाना अर्थ नहीं है वहां—केशान् वापयति ।

४८६—लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने ॥

७ । ३ । ३९ ॥

णिच् परे हो तो चिकनाई गिराने अर्थ मे ली और ला धातु को नुक् और लुक् का आगम यथासंख्य और विकल्प करक हो । घृतं विलीनयति, घृतं विलापयति । जहां स्नेहविपातन नहीं है वहां—विलापयति, विलापयति । इस सूत्र मे ईकारान्त ली धातु ऋ का प्रहण इसलिये है कि जिस पक्ष मे (४००) सूत्र से आकारादेश होता है वहां नुक् का आगम न हो ।

४८७—लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च ॥

१ । ३ । ७० ॥

सत्कार, तिरस्कार और ठगने अर्थ मे णिजन्त ली धातु से आत्मनेपद हो । जटाभिरालापयते । अर्थात् जटाओं से सत्कार को प्राप्त होता है । श्येनो वर्तिकामुल्लापयते । बाघ पखेरू बतक का तिरस्कार करता है । कस्त्वामुल्लापयते । कौन तुम्हको ठगता है ।

\*ईकारान्त कहने से प्रयोजन यह है कि ( ली-इ ) ऐसा भाष्यकार ने प्रश्लेष करके व्याख्यान दिखाया है ॥

४८८-विभेतेहेतुभये ॥ ६ । १ । ५६ ॥

णिच् प्रत्यय परे हो तो हेतु से भय अर्थ में 'भी' धातु के एच् को विकल्प से आकार आदेश हो ।

४८९-भीस्म्योहेतुभये ॥ १ । ३ । ६८ ॥

हेतुभय अर्थ से णिजन्त 'भी' और 'स्मि' धातु से आत्मनेपद हो । आकारादेश पक्ष में—मुण्डो भाषयते । और जहा आकारादेश न हुआ वहा यह विशेष है—

४९०-भियो हेतुभये षुक् ॥ ७ । ३ । ४० ॥

णिच् परे हो तो हेतुभय अर्थ में 'भी' धातु को षुक् का आगम हो । जटिलो भीषयत । जटाधारी डरपाता है । यहा [सूत्रस्थ] 'भी' धातु में महाभाष्यकार ने ईकार का प्रश्लेष माना है, इससे आकारान्त 'भी' धातु को षुक् नहीं होता है । "स्मि" धातु में यह विशेष है—

४९१-नित्यं स्मयतेः ॥ ६ । १ । ५७ ॥

णिच् परे हो तो हेतुभय अर्थ में स्मि धातु को नित्य ही आकारादेश हो । जटिला विस्मापयते । और जहां हेतुभय अर्थ नहीं है वहां—कुञ्चिकयैनें विस्माययति । यहा कूची से भय है, किन्तु हेतु प्रयोजक कर्ता से नहीं है ।

४९२-स्फायो वः ॥ ७ । ३ । ४१ ॥

णिच् परे हो तो स्फायि अङ्ग को वकारादेश हो । स्फाययति ।

४९३-शदेरगतौ तः ॥ ७ । ३ । ४२ ॥

णिच् परे हो तो गतिभिन्न अर्थ में वर्तमान शब्द अङ्ग को तकारादेश हो । पुष्पाणि शातयति । और गति अर्थ में तो—गोपालो गाः शादयति । यहां चलाना अर्थ है ।

४६४—रुहः पोऽन्यतरस्याम् ॥ ७ । ३ । ४३ ॥

णिच् परे हो तो रुह् अङ्ग को पकारादेश विकल्प करके होवे । रोपयति ।

४६५—ऋङ्जीनां णौ ॥ ६ । १ । ४८ ॥

णिच् प्रत्यय परे हो तो ऋी, इङ् और जि धातुओं के एच् को आकारादेश हो । आकारादेश होकर पुक् ( ४६२ )—क्रापयति, अभ्यापयति, जापयति । इङ् धातु में कुछ विशेष है—

४६६—णौ च संश्चङोः ॥ २ । ४ । ५१ ॥

सन् और चङ् जिससे परे हो ऐसा णिच् परे हो तो इङ् धातु को गाङ् आदेश विकल्प करके होवे । अध्यजीगपत्, अभ्यापिपत् ।

४६७—सिध्यतेरपारलौकिके ॥ ६ । १ । ४६ ॥

णिच् परे हो तो सांसारिक पदार्थों की सिद्धि करने अर्थ में वर्तमान जो सिध्यति धातु है उसके एच् को आकारादेश हो । अन्नं साधयति । अलौकिक ग्रहण इसलिये है कि “तपस्तापसं सेधयति” [ आकारादेश न हो ] ॥

“चापयति, स्फारयति” यहां ( ४६२ ) इस सूत्र से आकारादेश होता है ।

४६८—प्रजने वीयतेः ॥ ६ । १ । ५५ ॥

णिच् परे हो तो गर्भधारण कराने अर्थ में वर्तमान वी धातु के एच् को आकारादेश विकल्प करके हो । पुरोवातो गाः प्रवापयति, प्रवाययति वा ।

“गूहयति” ( २३५ ) सूत्र से उपधा को ऊकार होता है ।

४६६—दोषो णौ ॥ ६ । ४ । ६० ॥

णिच् परे हो तो दुष् धातु के उपधा ओकार को उकारादेश हो । दूषयति ।

५००—वा चित्तविरागे ॥ ६ । ४ । ६१ ॥

णिच् परे हो तो चित्त विगाड़ने अर्थ में दुष् धातु के ओकार को विकल्प करके उकारादेश हो । चित्तं दूषयति, दोषयति वा कामः ॥ जितने मित्सन्नक धातु भ्वादि और चुरादिगण में लिख चुके हैं उन सब की उपधा को ह्रस्व ( ४६१ ) से होता है । जैसे—घटमान प्रयोजयति, घटयति, जनयति, जरयति । रञ्ज धातु में यह विशेष है—

५०१—वा०—रञ्चेणौ मृगरमणे ॥ ६ । ४ । २४ ॥

णिच् परे हो तो मृगरमण<sup>१</sup> अर्थ में रञ्ज धातु के उपधा नकार का लोप हो । मृगान् रजयति । अन्यत्र—रञ्जयति वस्त्राणि ॥ गच्छन्त प्रयोजयति गमयति, अजीगमत्, ज्वलयति, ज्वालयति ।

५०२—णौ गमिरबोधने ॥ २ । ४ । ४६ ॥

णिच् परे हो तो अबोधन अर्थ में वर्तमान इण् धातु को गमि आदेश हो । यन्तं प्रयोजयति गमयति । बोधन अर्थ में तो—प्रत्या-

१. मृगरमण का अर्थ आखेट = शिकार खेलना है । संस्कृत में मृग शब्द व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के लिये भी प्रयुक्त होता है । यथा—मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा. ( ऋ० १० । १८० । २ ) । यहा मृग का विशेषण 'भीम' = भयानक लिखा है । कागडा जिले के ग्रामीण लोग चीते के लिये मृग शब्द का व्यवहार करते हैं । अत एव संस्कृत भाषा में शिकार के लिये मृगया शब्द का व्यवहार होता है । प्रजा और कृषि की रक्षा के लिये मृगया = हिंसक प्राणियों का आखेट क्षत्रियों का धर्म है ।

ययति । इक् वातु को भी इण्वत् कार्य ( ३४७ ) वार्तिक से होता है—अधिगमयति ।

५०३-हनस्तोऽचिण्णलोः ॥ ७ । ३ । ३२ ॥

चिण् और णल्भिन्न वित् णित् प्रत्यय परे हो तो हन् धातु को तकारादेश हो । घातयति । यहाँ ( ३०४ ) से कुत्व हो जाता है ॥ ईर्ष्ययति—

५०४-वा०-ईर्ष्यतेस्तृतीयस्य द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥ ६ । १ । ३

ईर्ष्य धातु के द्वित्वप्रसंग मे तृतीय व्यञ्जन वा तृतीय एकाच् अवयव को द्वित्व आदेश हो । ऐर्ष्ययत्, ऐर्ष्ययत्<sup>१</sup> । यहा तृतीय के कहने से षकार को द्वित्व नहीं होता है । नाथयति, अननाथत् ॥

॥ इति णिजन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥

१ जिस षक्ष में 'तृतीय' पद का सबन्ध एकाच् के साथ होता है उस षक्षमें तृतीय एकाच् के न होने से उत्सर्ग प्राप्त द्वितीय एकाच् को ही द्वित्व होता है ।



## अथ सन्नन्तप्रक्रिया

५०५—धानोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां  
चा ॥ ३ । १ । ७ ॥

जो धातु इप धातु का कर्म हो और इप धातु के साथ समान-  
कर्तृक हो उस धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प करके सन् प्रत्यय हो ।  
पठितुमिच्छति, पिपठिपति । कर्म ग्रहण इसलिये है कि 'गमनेने-  
च्छति' यहा करण से न हो । समानकर्ता इसलिये कहा है कि—  
देवदत्तस्य भोजनमिच्छति यज्ञदत्त । विकल्पग्रहण से एक पक्ष में  
वाक्य भी होता है । पिपठिपांचकार, पिपठिषिता, पिपठिषिष्यति,  
पिपठिपिपति, पिपठिपिपाति, पिपठिपति, पिपठिपाति, पिपठिषतु,  
अपिपठिपन्, पिपठिपेन्, पिपठिष्यात्, अपिपठिपीत्, अपिपठि-  
षिष्यत् । अद् धातु को घस्तु आदेश ( ३०२ ) से होता है ।  
अत्तुमिच्छति—जिघत्सति । ईर्ष्य धातु के तृतीय एकाच् ( ५०४ ) को  
द्वित्व हाता है ।<sup>१</sup> ईर्ष्यपिपति ।

५०६—रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च ॥

१ । २ । ८ ॥

रुदादि धातुओं से परे जो सन् और क्त्वा सो क्द्वत् हो ।  
रुदपिपति, विविदिपति, मुमुषिपति । इन में कित् मानकर गुणादेश  
नहीं होता ।

५०७—सनि ग्रहगुहोश्च ॥ ७ । २ । १२ ॥

ग्रह, गुह और उगन्त धातुओं से परे जो सन् उसको इट् का

आगम न हो। जिघृक्षति। यहां ( २८६ ) से संप्रसारण होता है। सुपुप्सति ( २८३ ) से संप्रसारण।

५०८-किरश्च पञ्चभ्यः ॥ ७ । २ । ७५ ॥

कृ गृ हृ ड् धृ ड् और प्रच्छ इन पांच धातुओं से परे बलादि सन् आर्यधातुक को इट् का आगम हो। पिपृच्छिषति, चिकरिषति, जिगरिषति, जिगलिषति,<sup>१</sup> दिदरिषते, दिधरिषते।

५०९-इको भल् ॥ १ । २ । ६ ॥

इगन्त से परे जो भलादि सन् वह कित् हो। भवितुमिच्छति-नुभूषति, पुपूषति, पुपूषते; लुद्धषति, लुद्धषते।

५१०-हलन्ताच्च ॥ १ । २ । १० ॥

इक्समीपवर्ती हल् से परे भलादि सन् कित् हो। तितिप्सते, जुघुक्षति, विभित्सति। इग्ग्रहण इसलिये है कि 'यियक्षते' यहा कित् के न होने से संप्रसारण न हुआ। भल् इसलिये है कि 'विवद्विषते'। हल्ग्रहण यहा जातिपरक है इससे—तितृक्षति<sup>२</sup>, तितृहिषति।

५११-अडभनगमां सानि ॥ ६ । ४ । १६ ॥

१. अचि विभाषा ( आ० ४३२ ) से लत्व का विकल्प होता है।

२. वृह् धातु के उदित् होने से इडभाव ( १४० ) पक्ष में सक् को कित् होकर अनुनासिक लोप और लघूपध गुण का अभाव होता है।

अजन्त, हन और अजादेश<sup>१</sup> गम धातु को दीर्घ हो झलादि सन् परे हो तो। जेतुमिच्छति—जिगीषति। चिर्कीषति, चिचीषति। यहा ( ४१७ ) से कुत्वविकल्प। हन्तुमिच्छति जिघांसति।

### ५११—सनि च ॥ २। ४। ४७ ॥

सन् परे हो तो इङ् धातु को गमि आदेश हो। अधिजिगांसते। यहाँ ( ५११ ) से दीर्घ होगया। अजादेश ग्रहण से गम् धातु को दीर्घ नहीं होता है इससे 'सजिगंसते' यहाँ उपधादीर्घ न हुआ।

### ५१४—रलोव्युपधाद्धलादेः सश्च ॥ १। २। २६ ॥

इकार और उकार जिसकी उपधा और हल् आदि तथा रल् अन्त मे हो उस से परे मेट् त्त्वा और सन् [ विकल्प से ] कित्सञ्चक हो। दिद्युतिषते, दिद्योतिषते ( २१८ ), स्रचिषते, स्रोचिषते; लिलिखिषति, लिलेखिषति। रल्ग्रहण इसलिये है कि 'दिदेविषति'। इ, उ, उपधा मे इसलिये कहा कि—विवर्त्तिषते। हलादि इसलिये है कि 'एपिषिषति'। यहा नित्य द्वित्व को भी बाधकर पूर्व गुणादेश हांता है।

१. महाभाष्यकार ने इस सूत्र का योगविभाग करके उक्त अर्थ दर्शाया है। "अच."—अजन्त अग को दीर्घ होता है झलादि सन् परे रहने पर। यथा—चिचीषति। "हनिगम्योश्च"—'अच.' की अनुवृत्ति है। अजादेश जो हन और गम उस को दीर्घ होता है। यहाँ अजादेश केवल गम का विशेषण है, हन का नहीं, असम्भव होने से। इक् और इण् के स्थान में जो गमादेश होता है उस को दीर्घ नहीं होता, क्योंकि 'जिगमिषति, अधिजिगमिषति' में सन् को इडागम होता है।

५१५—सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृयृणुंभरज्ञ-  
पिसनाम् ॥ ७ । २ । ४६ ॥

इवन्त, ऋधु, भ्रस्ज, दम्भु, श्रि, स्वृ, यु, ऊर्णु, भर, ज्ञपि और सन् इन अङ्गो से परे वलादि सन् आधेधातुक को विकल्प करके इट् का आगम हो । दिदेविषति, दुद्यूषति, सिस्त्रेविषति, सुस्यूषति, अर्दिधिषति । अनिट् पक्ष मे—

५१६—आप्लप्युधामीत् ॥ ७ । ४ । ५५ ॥

सकारादि सन् प्रत्यय परे हो तो आप, ज्ञपि और ऋध अङ्गो के अच् को ईकारादेश होवे ।

५१७—अत्र लोपोऽभ्यासस्य ॥ ७ । ४ । ५८ ॥

इस ( अ० ७ । ४ । ५४ ) से लेकर ( अ० ७ । ४ । ५७ ) इस सूत्र पर्यन्त जिन धातुओ से इस आदि का विधान किया है उनके अभ्यास का लोप होवे । आप्तुमिच्छति, ईप्सति, अर्धितुमिच्छति, ईर्त्सति । यहां धकार को चर्त्वं और ईकार को रपरभाव होता है । विभ्रज्जिषति, विभर्जिषति ( ४२७ ) रेफ और उपधा को रम् आगम का विकल्प । अनिट् पक्ष मे विभ्रञ्जति, विभर्ञ्जति ।

५१८—दम्भ इच्च ॥ ७ । ४ । ५६ ॥

सकारादि सन् परे हो तो दम्भ धातु के अच् को इकार और ईकार होवे । पूर्व सूत्र से अभ्यासलोप और ( ५१० ) सूत्र में हल् करके हलजाति का ग्रहण हाने से सन् को कित्त्व होकर नकारलोप ( १३९ ) होता है । धिप्सति, धीप्सति । सेट् पक्ष मे—दिदम्भिषति । शिश्रीषति, शिश्रयिषति, सुस्वूर्षति ( ५११, ३८० ) ऋ को ऌ आदेश । सिस्त्ररिषति, यियविषति ( ४७२ ) अभ्यास को इत् । युयूषति । कित्त्व ( ५०९ ) होकर दीर्घ ( ५११ ) होजाता है । ऊर्णुन-

विषति (३२७) डित्त्व का विकल्प । ऊर्णुनुविषति, ऊर्णुनूषति । (५१५) सूत्र मे भर कहने से भ्वादिगण के भृञ् धातु का ग्रहण है—बिभरिषति, वुभूर्षति (३८०), जिज्ञपयिषति, ज्ञीप्सति (५१६) से ईकार और अभ्यास का लोप । (५१७) सिसनिषति, सिषासति (३४४) आकारादेश ।

५१६—वा०—तनिषतिदरिद्राणामुपसंख्यानम् ॥

७ । २ । ४६ ॥

तन, पत और दरिद्रा धातुओं से परे जो वलादि सन् आधे-धातुक उसको विकल्प से इट् का आगम होवे ।

५२०—तनोतेर्विभाषा ॥ ६ । ४ । १७ ॥

मलादि सन् परे हो तो तन अङ्ग की उपधा को विकल्प करके दीर्घ होवे । तितनिषति, तितामति, तितमति ।

५२१—वा०—आशङ्कायामुपसंख्यानम् ॥

३ । १ । ७ ॥

सदेह करने अर्थ मे धातु मे सन् प्रत्यय हो । पतितुमिच्छति कूलं—पिपतिषति, आ मुमूर्षति ।

५२२—सनि मीमाधुरभलभशकपतपदामच इस् ॥ ७ । ४ । ५४ ॥

सकारादि सन् परे हो तो मी, मा, घु, रभ, लभ, शक, पत और पद इन धातुओं के अच् को इस् आदेश होवे । पिस्तु+सन् तिप्=पित्सति (२१०) से सलोप और (५१७) अभ्यास का लोप हो जाता है । दिदरिद्रिषति, दिदरिद्रासति । 'मी' से डुमिञ् और मीङ् दोनों का ग्रहण है । मित्सति, (२१६) इस के स को तकार । मा माने—मित्सति, माङ्, मेङ्—मित्सते । दा, दाण्—

दित्सति, देह्—दित्सते, दान्—दित्सति, दित्सते । धेट्—धित्सति, धाब्—धित्सति, धित्सते । रभ—रिप्सते । लभ—लिप्सते । शक्ल—शिक्षति । शक्—शिक्षति, शिक्षते । पद्—पित्सते ।

५२३—वा०—इस्त्वं सनि राधो हिंसायाम् ॥

७।४।५६ ॥

सन् परे हो तो हिंसा अर्थ में वर्तमान राध धातु के अच् को इस आदेश और अभ्यास का लोप होवे । प्रतिरित्सति । हिंसा अर्थ से अन्यत्र—आरिरात्सति ।

५२४—मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा ॥ ७।४।५७ ॥

सकारादि सन् परे हो तो अकर्मक मुच धातु का विकल्प से गुण और अभ्यास का लोप होवे । प्रयोजन यह है कि (५१०) सूत्र से कित्त्व नित्य प्राप्त है उस का विकल्प हो जावे । मोक्षते, मुमुक्षते वा वत्सः स्वयमेव । अकर्मक ग्रहण इसलिये है कि 'मुमुक्षति वत्सं देवदत्तः' यहां गुण न होवे ॥ वृत् आदि चार धातुओं से परे सादि अर्धधातुक को इट् का निषेध (२२२) विवृत्सति (२२१) परस्मैपदविधि । निनर्त्तिषति, निनृत्सति (३९७) से इट् का विकल्प । चिकर्त्तिषति, चिकृत्सति, चिचर्त्तिषति, चिचृत्सति, चिच्छर्त्तिषति, चिच्छृत्सति ।

५२५—इट् सनि वा ॥ ७।२।४१ ॥

वृङ् वृञ् और ऋकारान्त धातुओं से सन् को इडागम विकल्प करके हो । तितरिषति, तितरीषति (२६४) इट् को दीर्घ विकल्प । अनिट् पक्ष में—तितीषति । विवारिषति, विवरीषति, वुवूर्षति, विवरिषते, विवरीषते, वुवूर्षते । वृङ्—विवरिषते, विवरीषते, वुवूर्षते इत्यादि ।

५२६—स्मिपूङ्ग्ज्जवशां सनि ॥ ७।२। ७४ ॥

सन् परे हो तो स्मिङ्, पूङ्, ञ्, अञ्जू, अशू इन धातुओं को इट् का आगम होवे । स्मेतुमिच्छति सिस्मयिषते, पिपयिषते 'ओ. पुयणज्यपरे' सूत्र से अभ्यास को इकारादेश होता है । पिपावयिषति, अरिरिषति, अञ्जिषति, अशिषते, पूञ्-पुपूषति, उच्छ—उचिच्छिषति । चुरादिगण तथा अन्य सब धातु हेतुमान् गिणजन्तो से भी इच्छा अर्थ में सन् प्रत्यय होता है । जैसे—पाठयितुमिच्छति-पिपाठयिषति, अभ्यापयितुमिच्छति-अधिजिगापयिषति ( ४९६ ) इङ् को गाङ् आदेश विकल्प-अभ्यापयिषति, शिश्वापयिषति, शुशावयिषति ( ४७४ ) चि को सम्प्रसारण । जुहावयिषति, सम्प्रसारण । पुस्फारयिषति, चुक्षावयिषति, यियावयिषति, विभावयिषति, रिरावयिषति, लिलावयिषति, जिजावयिषति ( ४७२ ) । पु, यण, जि ग्रहण<sup>२</sup> इसलिये है कि 'नुनावयिषति' । अकार परे इसलिये कहा है कि 'बुभूषति' । ( ४७३ ) सूत्र से स्रव आदि के अभ्यास को इत्व का विकल्प होकर—सिस्रावयिषति, सुस्रावयिषति इत्यादि । तुष्टुषति, सुध्वार्पयिषति, सिषाधयिषति, तिघ्रासति, सुधु-ष्सति, प्रतीषिषति, अर्धाषिषति, एधितुमिच्छति एदिषिषति, इस प्रक्रिया में भी सामान्य और विशेष सूत्रों में सब धातुओं का सम्बन्ध करके प्रयोग व्यवस्था जानो ।

॥ इति सन्नन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥

## अथ यङन्तप्रक्रिया



५२७—धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे  
यङ् ॥ ३ । १ । २२ ॥

क्रिया के वार वार शीघ्र वा निरन्तर अर्थ मे हलादि एकाच् धातुओ से यङ् प्रत्यय हावे । ( १६७ ) से धातुसंज्ञा और ( २६८ ) से द्वित्व हांकर—

५२८—गुणो यङ्लुकोः ॥ ७ । ४ । ८२ ॥

यङ् और यङ्लुक् परे हो तो अङ्ग के इगन्त अभ्यास को गुणादेश हो । पुनः पुनरतिशयेन भृशं वा भवतीति बोभूयते, बोभूयांचक्रे, बोभूयांबभूव, बोभूयामास, बोभूयिता, बोभूयिष्यते, बोभूयिष्यतै, बोभूयिषातै, बोभूयताम्, अबोभूयत, बोभूयत, बोभूयिषीष्ट, अबोभूयिष्ट, अबोभूयिष्यत । धातुग्रहण आधेधातुक संज्ञा होने के लिये है । एकाच्ग्रहण इसलिये है कि 'पुन. पुनजोगति' यहा यङ् न हो । हलादिग्रहण इसलिये है कि 'भृशमीक्षते' । जिस धातुके यङन्त प्रयोग से शीघ्र आदि अर्थ विदित नहीं होते है उससे यङ् प्रत्यय नहीं होता । जैसे—भृशं शोभते, भृश रोचते ।

\* तच्चत्वावश्यमनभिधानमाश्रयितव्यं क्रियमाणेऽपि ह्येकाज्झलादिग्रहणे यत्र  
वैकाचो हलादेश्चोत्पद्यमानेन यडाथस्याभिधानं न भवति, न भवति तत्रोत्पत्तिः ।  
तद्यथा—भृशं शोभते, भृशं रोचते । महाभाष्य अ० ३ । पा० १ ।  
स० २२ ॥



५२६—वा०—सूचिसूत्रिमृञ्यद्यत्यशूणातानां  
ग्रहणं यङ्विधावनेकाजहलाद्यर्थम् ॥ ३।१। २२ ॥

यङ्विधान में अनेकाच् और अहलादि धातुओं के अर्थ सूचि, सूत्रि, मृत्रि, आदि, अति, अगू, ऊर्णू इन धातुओं का ग्रहण कर्तव्य है। अर्थात् ( ५२७ ) सूत्र में एकाच् और हलादिग्रहण से सूचि आदि धातुओं से यङ् नहीं प्राप्त है वह हो। सोसूच्यते, सोसूच्यते, सोमृच्यते ।

५३०—यस्य हलः ॥ ६।४। ४६ ॥

आर्धधातुक विषय में हल् से परे यकार का लोप हो। सोसूच्य + अम् + कृ + एश् = सोसूचाञ्चके, सोसूचिता, सोसूत्रिता, सोमृत्रिता ।

५३१—दीर्घोऽकितः ॥ ७।४। ८३ ॥

यङ् और यङ्लुक् परे हों तो अङ्ग के अकित् अभ्यास का दीर्घ हो। अट् आदि अजादि धातुओं में यङन्त द्वितीय एकाच् अवयव 'ट्य' मात्र को द्वित्व होता है। अटाट्यते, अटाटाञ्चके, अटाटिष्यत ।

५३२—यङि च ॥ ७।४। ३० ॥

यङ् परे हों तो ऋ और संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुणादेश होंगे। अरायते, अशाश्यते, अराराञ्चके, अरारिता, अशाशिता,

१. यहा 'न न्द्रा. संयोगादय.' ( भा० ३२६ ) में रेफ को द्विर्वचन का निषेध प्राप्त होता है। परन्तु महाभाष्यकार के वचन सामर्थ्य (ऐसा उदाहरण देने) से द्विर्वचन का निषेध प्रवृत्त नहीं होता। काशिकाकार ने 'यकारपरस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवतीति वक्तव्यम्' ( काशिका ६। १। ३ ) ऐसा स्पष्ट वचन पढा है ।

अणौनूयते, बेभिद्यते, बेभिदिता । यहां अकारलोप को स्थानिवत् मानने से उपधा को गुण नहीं होता ।

५३२—नित्यं कौटिल्ये गतौ ॥ ३ । १ । २३ ॥

कुटिलता अर्थ मे गत्यर्थक धातुओं से नित्य ही यङ् प्रत्यय हो, अर्थात् क्रियासमभिहार अर्थ मे जो यङ् ( ५२७ ) कहा है वहां उसी अर्थ में लकारार्थ प्रक्रिया में पात्तिक लोट् भी होगा, परन्तु गत्यर्थ धातुओं से कुटिलगति मे यङ् ही होगा लोट् नहीं । कुटिलं व्रजति, वाव्रज्यते, वाव्रज्यते ।

५३४—लुपसदचरजपजभदहृदशगृभ्यो भा-  
वगर्हायाम् ॥ ३ । १ । २४ ॥

धात्वर्थ की निन्दा मे लुप् आदि धातुओं मे यङ् प्रत्यय हो । लुप् आदि से क्रियासमभिहार मे यङ् नहीं होता, किन्तु निन्दा मे ही होता है । गर्हितं लुम्पति लोलुप्यते, निन्दितं सीदति सासद्यते ।

५३५—चरफलोश्च ॥ ७ । ४ । ८७ ॥

यङ् और यङ्लुक् परे हो तो चर और फल धातु के अभ्यास को लुक् आगम होंगे ।

५३६—वा०—अनुस्वारागमः पदान्तवच्च  
७ । ४ । ८५ ॥

लुक् के स्थान मे अनुस्वार आगम कहो और उसको पदान्त के समान कार्य हों ।

२. अथवा 'न धातुलोप भार्घधातुके' ( भा० ५५४ ) सूत्र से गुण का प्रतिषेध समझना चाहिये ।

५३७—उत्परस्यातः ॥ ७ । ४ । ८८ ॥

यङ् और यङ्लुक् परे हा तां चर और फल धातु के अभ्यास से पर अकार को उकारादेश हा । चञ्चूर्यते<sup>१</sup>, चंचूर्यते ( १९७ ) दीर्घ । पम्फुल्यते, पंफुल्यते ।

५३८—जपजभदहृदशभञ्जपशां च ॥

७ । ४ । ८६ ॥

यङ् और यङ्लुक् परे हां तो जप, जभ, दह, दश, भञ्ज और पश धातुओ के अभ्यास को लुक् का आगम होवे । कुत्सितं जपति, जञ्जप्यते, जजप्यते, जंजभ्यते, दंदह्यते, ददश्यते, [ भंभज्यते, ] पश धातु सौत्र है किसी गण का नहीं—पंपश्यते ।

५३९—ग्रो यङि ॥ ८ । २ । २० ॥

यङ परे हा ता ग धातु के रेफ को लकारादेश हो । गर्हितं गिरति जैगल्यते । अतिशयन पुनः पुनर्वा ददाति देदीयते, देधीयते, मेमीयते, तेष्ठीयते, जेगीयते, पेपीयते, जेहीयते, अवसेषीयते । यहाँ सर्वत्र ( ३४६ ) से द्वित्व से पूर्व ईकारादेश होता है । शोशूयते, शेश्वीयते, यहाँ ( २९४ ) से सप्रसारण विकल्प । अतिशयन प्यायते पेपीयते, यहाँ ( १९३ ) सूत्र प्यायी धातु को पी आदेश । सास्मर्यते, सास्वर्यते ( २५४ ) से ऋकार को गुण होता है ।

५४०—रीङ् ऋतः ॥ ७ । ४ । २७ ॥

कृत् और सार्वधातुकभिन्न यकारादि और च्वि प्रत्यय परे हाँ तो ऋकारान्त अङ्ग को रीङ् आदेश हो । चेक्रीयते, जेहीयते, देधीयते, वेत्रीयते ।

१. पदान्तवद्भाव का विधान ( भा० ५३६ ) होने से 'वा पदान्तस्य' ( सन्धि० १९८ ) से विकल्प से परसवर्णादेश होता है ।

५४१—न कवतेर्याङि ॥ ७ । ४ । ६३ ॥

यङ् परे हो तो कुङ् धातु के अभ्यास को चुत्व न हो । अतिशयेन—कवते कोकृत्यते, अतिशयेन कुर्वात—चोकृत्यते ।

५४२—कृषेश्लुन्दसि ॥ ७ । ४ । ६४ ॥

यङ् परे हो तो वेदावषय मे कृष् धातु के अभ्यास को चुत्व न हो । कर्षोकृत्यते यज्ञकृष्णपः । अन्यत्र लोक मे—चरीकृत्यते कृषीवलः ।

५४३—नीग् वञ्चुस्त्रंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपदस्क-  
न्दाम् ॥ ७ । ४ । ८४ ॥

यङ् और यङ्लुक् परे हो तो वञ्चु, ससु, ध्वसु, भ्रसु, कस, पत, पद और स्कन्द क अभ्यास का नीक् आगम हो । वनीवच्यते । ( ५३१ ) इस सूत्र मे अकित् कहने से दीर्घ नहीं होता । सनीस्त्रस्यते, दनीध्वस्यते, वनाभ्रस्यते । यहा ( १३९ ) से नलोप होता है । चनीकस्यते, पनीपत्यते, पनीपद्यत, चनीस्कद्यत ।

५४४—नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ॥ ७ । ४ । ८५ ॥

यङ् और यङ्लुक् परे हो तो अनुनासिकान्त अङ्ग के अकारान्त अभ्यास को नुक् आगम हो । ततन्यते, जंगम्यते, यथ्यम्यते । तपरग्रहण से पूवे दीर्घे अभ्यास को नुक् नहीं होता । यथा—बाभाम्यत, जाजायते, जञ्जन्यते, यहा ( १८५ ) सूत्र से आकारादेश विकल्प से होता है ।

५४५—हन्तेर्हिंसायां यङि घनीभावो वक्तव्यः ॥

७ । ४ । ३० ॥

यङ् प्रत्यय परे हो तो हिंसा अर्थ में हन् धातु का व्नी आदेश हो । आतशयेन हन्ति जेघनीयते । हिंसा से अन्यत्र—जघ्न्यते ।

५४६—रीगृदुपधस्य च ॥ ७ । ४ । ६० ॥

यङ् और यङ्लुक् परे हो तो ऋदुपध धातु के अभ्यास को रीक् का आगम हा अतिशयेन वर्तेत, वरीवृत्त्यते, वरीवृध्यते, नरीनृत्यत । यहा ( ४५३ ) इस मूत्र से णत्व का निषेध होता है । चर्त्ताक्लृप्यते । यहा २२३ ) से लत्व होता है ।

५४६—रीगृत्वन् इति वक्तव्यम् ॥७।४।६०॥

( रीगृदु० ) यहा ऋकारवान् धातु के अभ्यास को रीक् कहना चाहिये । पुनः पुनर्वृथात वरीवृश्च्यत, परीपृच्छ्यत ।

५४८—स्वपिस्वमिव्येजं यङि ॥ ६।१।१६ ॥

यङ् परे हो ता स्वपि, स्वमि और व्यञ् धातु को सप्रसारण हो । सोपुप्यत, संसिम्यते, वर्वायते ।

५४९—न वशः ॥ ६ । १ । २० ॥

यङ् परे हो तो वश धातु को संप्रसारण न हो । वावश्यते ।

५५०—चायः की ॥ ६ । १ । २१ ॥

यङ् परे हो तो चाय् धातु का की आदेश हो । अतिशयेन चायते, चेकीयते ।

५५१—ईं घ्राध्मोः ॥ ७ । ५ । ३१ ॥


यङ् परे हो तो घ्रा, ध्मा धातुओं को इकारादेश हो । अतिशयेन पुनः पुनवा जिघ्रति जेघ्रीयते, देभ्मीयते ।

५५२—अयङ् यि ङिति ॥ ७ । ४ । २२ ॥

यकारादि किन् ङित् प्रत्यय परे हो तो शीङ् धातु को अयङ् आदेश हो । शृश शते शाशय्यते, डाढौक्यते, तोत्रौक्यते । यहा अभ्यास को ह्रस्व होकर गुण हो जाता है । अतिशयेन प्रीणाति, पेप्रीयते ।

इति यङन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥

## अथ यङ्लुगन्त प्रक्रिया



५५३—यङोऽचि च ॥ २ । ४ । ७४ ॥

अच् प्रत्यय परे हो तो यङ् का लुक् हो, तथा चकार से उसके विना भी बहुल करके लुक् हा ।

५५४—न धातुलोप आर्धधातुके ॥ १ । १ । १६ ॥

आर्धधातुक का निमित्त मान कर जहा धात्ववयव का लोप हुआ हो, वहा इक् के स्थान मे गुण वृद्धि न हो । अतिशयेन यो लोड्यते स लोलुव', पापुवः, सर्नास्रसः, दनीध्वस । "दाधर्त्ति०" इस अगले (५५६) सूत्र मे 'तेतिके' इस प्रयोग मे यर्थाप प्रत्ययलक्षण मानकर आत्मनेपद सिद्ध है तथापि आत्मनेपद निपातन से यह ज्ञापन है कि अन्यत्र यङ्लुगन्त धातुओ से परस्मैपद<sup>१</sup> होता है । यहाँ अन्तरङ्गत्व मानकर द्वित्व से पूर्व यङ्लुक् होता है । प्रत्ययलक्षण से द्वित्व, लट् आदि लकारों की उत्पत्ति परस्मैपद और विकरणों का उत्सर्ग शप् विकरण हाता है । [ अदादिगण मे "चर्करीतं च" गणसूत्र का पाठ होने यङ्लुक् को आदादिक मानकर शप् का लुक् होता है ] ।

५५५—यङो वा ॥ ७ । ३ । ६४ ॥

यङ् से परे हलादि पित् सार्वधातुक को ईट् का आगम विकल्प करके हो । शाकुनिको लालपीति, दुन्दुभिवावदीति, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति ।

५५६—दाधतिदर्धतिर्दर्धाषबोभूतुतेतिक्तेऽख-  
 ष्यापनीफणत्संसनिष्यदत्करिक्रत्कनिक्रदद्भ्रिभ्रद्-  
 विध्वतोदविद्युत्तरित्रतःसरीसृपतंवरीवृजन्ममृज्या-  
 गनीगन्तीति च ॥ ७ । ४ । ६५ ॥

दाधति, दर्धति, दर्धेर्षि बोभूतु, ततिक्ते, अलषि, आपनीफणत्, संसनिष्यदत्, करिक्रत्, कनिक्रदत्, भ्रिभ्रत्. दावभ्रतः, दावद्युत्तत्, तरित्रतः, सरीसृपतम्, वरीवृजत्, ममृज्य और आगर्नागन्ति ये अष्टादश वेद में निपातन हैं। दाधति—यहाँ धारि और धृञ् धातु स श्लु वा यङ्लुक् मे अभ्यास का दीर्घ और णिच्लोप निपातन है। दर्धति—मे प्रत्यय के श्लु हाने पर अभ्यास का रुक आगम, तथा दर्धेर्षि मे भी। बोभूतु—मे यङ्लुगन्त भू धातु से लाट् प्रथमैकवचन मे गुण का निषेध निपातन है। यद्यपि ( ९३ ) सूत्र से गुण का निषेध हो जाता, फिर यहाँ गुण के अभाव निपातन से 'बोभवीति' आदि मे ( ९३ ) सूत्र से गुण का निषेध नहीं होता। ततिक्—मे यङ्लुगन्त तिज धातु से आत्मनेपद निपातन किया है। अलर्षि—यहाँ जुहोत्यादि ऋ धातु स लट् मध्यमैकवचन मे अभ्यास के हलादि शप् रफ का लत्व निपातन है। यहाँ सिप् निर्देश उपलक्षणमात्र है, इससे 'अलर्षि दक्षः' इत्यादि मे उक्त कार्य होता है। आपनीफणत् मे आङ्पूर्वक यङ्लुगन्त फण धातु के अभ्यास को नाक् आगम शतृ प्रत्यय मे निपातन है। संसनिष्यदत्—मे सम्पूर्वक यङ्लुगन्त स्यन्दू वातु को शतृ परे हो ता अभ्यास को निक् आगम [ तथा धातु क सकार को पत्व ] निपातन है। यहाँ सम्पूर्वक होना अतन्त्र है, इससे 'आसनिष्यदत्' यहाँ भी उक्त कार्य होता है। करिक्रत्—यहाँ कृञ् धातु के अभ्यास का चुत्व न हाना तथा उसके ककार को रिक् आगम [ शतृ प्रत्यय के रहत ] निपातन है।

कनिक्रदत्—मे लुङ् मे क्रन्द से परे च्लि को अङ् आदेश, धातुद्वि-  
 र्वचन अभ्यास को चुत्व न होना और निक् आगम निपातन है।  
 भरिभ्रत्—में यङ्लुगन्त भृव् धातु क अभ्यास को जश्त्व और  
 इत्व का होना और रिक् आगम निपातन है। दविध्वत्.—में  
 यङ्लुगन्त ध्वृ धातु के अभ्यास को विक् आगम और ऋलोप  
 शतृपूर्वक जस् विभक्ति के परे निपातन है। दविध्वतो रश्मय  
 सूर्यस्य। दविद्युतत्—में यङ्लुगन्त द्यृन् धातु के अभ्यास को  
 सम्प्रसारण निषेध, अकारादेश और विक् आगम निपातन है।  
 तरित्रत्—मे त् धातु को श्लु, गृत् प्रत्यय के परे षष्ठी के एकवचन  
 मे अभ्यास को रिक् आगम निपातन है। सरीसृपतम्—मे सृप्  
 धातु को श्लु, शतृ प्रत्यय क परे द्वितीया के एकवचन मे अभ्यास  
 को रीक आगम निपातन है। वरीवृजत्—मे वृजी धातु को श्लु, शतृ  
 प्रत्यय के परे अभ्यास को रीक् आगम निपातन है। मर्मृज्य—में  
 भृज धातु से लिट् णल् परे हो तो अभ्यास को रुक्, वातु को युक्  
 निपातन है यहां मृज को लघूपध के अभाव से वृद्धि नहीं होती।  
 आगनीगन्ति—मे आङ्पूर्वक गम धातु का श्लु होने मे लट् मे  
 अभ्यास को चुत्व निषेध और नीक् आगम निपातन किया है।  
 वक्ष्यन्ति वेदागनीगन्ति कर्णम्। “दाध०” इस सूत्र मे इति शब्द  
 पढ़ने से इस प्रकार के अन्य प्रयोगो का भी संग्रह हाता है।

( २६१ ) इस सूत्र मे हु श्नु ग्रहण का मुख्य प्रयोजन यही है  
 कि यङ्लुगन्त मे अजादि सार्वधातुक के परे इन को यणादेश न  
 हो। इससे हु श्नु ग्रहण ज्ञापक है कि लोक मे भी सब लकारो के  
 विषय में यङ्लुक होता है। यथा—अतिशयन पुनः पुनवो भिनत्ति  
 बेभिदीति। यहा ( ३९० ) से गुणानिषेध हाता है। बेभेत्ति, बेभित्तः,  
 बेभिदति, बेभिदीषि, बेभेत्सि, बेभित्यः, बेभित्य, बेभिदीमि, बेभेद्मि,  
 बेभिद्मः, बेभिद्म, बेभेदाश्चकार, बेभेदामास, बेभेदाबभूव, बेभेदिता,



वेभेदिष्यति, वेभेदिषति, वेभेदिषाति, वेभिदति, वेभिदाति, वेभिदीतु, वेभेत्तु, अवेभिदीत्, अवेभेत्, अवेभेः, यहां ( ३५१ ) से रुत्वविकल्प होता है । अवेभेदीः, वेभिद्यात्, वेभिद्यास्ताम्, अवेभेदीत्, अवेभेदिष्टाम्, अवेभेदिष्यत्, चेच्छिदीति, चेच्छेत्ति इत्यादि । वांभवीति, वांभोति, बोभृतः, वांभुवति, वांभवाचकार, वांभविता, अवांभवीत्, अवांभूताम्, अवांभुः । यहां ( ३६३ ) से गुणादेश होता है । वांभयात्, वांभूयाताम्, वांभूयास्ताम्, अवांभूवीत् । ( ११ ) से मिच्लुक् तथा ( ३५ ) नित्यत्व मानकर वुक् । अवाभोत्, अवाभूताम्, अवाभुः, अवाभविष्यत् ।

अतिशयेन स्पर्द्धते, पास्पर्द्धीति । पास्पर्द्धि । पास्पर्द्धः । पास्पर्द्धति । पास्पर्द्धि, पास्पर्द्धि । यहां ( ३०० ) से हि को वि हुआ है । अपास्पर्द्ध, अपास्पर्द्धः, यहां सिप क परे ( ३५१ ) से रुत्वविकल्प हुआ । अपास्पर्द्ध, अपास्पर्द्धि ॥ अतिशयन गावते जागाद्धि, जागावीति, जाघात्सि, अजाघात्, अजाघा । यहां ( २०४ ) से भ ० ॥ पुनः पुननाथत नानात्ति, नानाथीति, नानात्तः, चास्कुन्दीति, चांस्कुन्ति, अचास्कुन्, अचास्कुन्ताम्, अचास्कुन्दुः ॥ अतिशयेन मोदत मोमुदीति, मामोदांचकार, मामोदिता, अमामुदीत्, अमोमोत्, अमोमुताम्, अमामुद्, अमामुदी, अमामा, अमामोत्, अमामोदीत् ॥ पुनः पुनः कृहेन चोकृदीति, चोकृत्ति, चाकृत्तः, चोकृद्दति, अचोकृत्, अचोकृदीत्, अचोकृः, अचोखूः<sup>१</sup>, अजोगू<sup>२</sup> ॥ अतिशयेन वञ्चति वनीवङ्क्ति, वनीवञ्चात्, वनीवन्त्, वनीवचति, अवनीवञ्चीत्, अवनीवन् ॥ अतिशयन गच्छति जंगमाति, जगन्ति, जंगत । यहां ( ३०३ ) से अनुनासिक लोप होता है । जंगमाति, जगन्मि, जंगन्वः । यहां ( १७३ ) से म को न आदेश होता है । जगमिता, यहां

१. खुर्द धातु का रूप ।

२. गुर्द धातु का रूप ।

एकाच् से निषेध होने से इट् निषेध नहीं होता। जंगहि, [ अजंगन्, ]  
 “मो नो घातोः”<sup>१</sup> इस सूत्र से ककार को नकार होता है।  
 अजगमीत् अजंगमिष्टाम् । यहा लुदिन् कार्य ‘चित्त’ को ‘अङ्’  
 आदेश नहीं होता, [ ( १६२ ) सूत्र से वृद्धि का निषेध हा जाता  
 है ] ॥ भृश हन्ति जंघनीत्, जंघन्ति, जंघतः, जंग्रति, जघनिता,  
 जघहि, अजघनीत्, अजंघन्, [ जंघन्यात्, आशिषि— ] वध्यात् ।  
 यहां द्वित्व आदेश हाकर वध आदेश होता है फिर आदेश को  
 स्थानिवत् मानकर अनभ्यास निषेध से वधादेश को द्वित्व नहीं  
 हाता। आङ् पूर्व से “आङो यमहनः”<sup>२</sup> से आत्मनेपद हागा—  
 आजघत इत्यादि ॥ अतिशयेन चरति, चचुरीति, चञ्चूर्ति, चञ्चूर्तः,  
 चञ्चुरति, अचञ्चुरीत्, अचञ्चू ॥ चङ्घनीति, चङ्घन्ति, चङ्घतः ।  
 यहा ( २९४ ) सूत्र से आकारादेश। चङ्घाहि, अचङ्घनीत्, अचङ्घन्,  
 अचङ्घाताम्, अचंखनुः, चंखन्यात्, चङ्घायात् । यहां ( १८५ ) से  
 आकारादेश विकल्प। अचङ्घनीत् [ अचङ्घानीत् ] ॥ अतिशयेन  
 यौति, योयोति, योयवीति । यहा “उतो वृद्धिः”<sup>३</sup> इस सूत्र मे  
 “नाभ्यस्तः”<sup>४</sup> इस सूत्र की अनुवृत्ति होने से वृद्धि न हुई ।  
 अयोयवीत्, अयोयात्, योयुयात् । आशीलिङ् मे ( १६० ) दीर्घ—  
 योयूयात्, अयोयावीत् । नोनवीति, नोनाति ॥ अतिशयेन जहाति  
 जाहेति, जाहाति, जाहीतः । यहा ( ३८३ ) से ईकारादेश । जाहति,  
 जाहेषि, जाहासि, जाहीथः । यहाँ “जहातेश्च”<sup>५</sup> “आ च हौ”<sup>६</sup>  
 “लोपो यि”<sup>७</sup> “धुमास्थाः”<sup>८</sup> “एलिङि”<sup>९</sup>—ये पाच सूत्र स्तिप्

१. अष्टा० ८ । २ । ६४ ॥

२. आ० ६५४ ।

३. आ० ३२२ ।

४. आ० ३९० ।

५. आ० ३८४ ।

६. आ० ३८५ ।

७. आ० ३८६ ।

८. आ० ३४६ ।

९. आ० २४७ ।

के निर्देश से प्रवृत्त नहीं होते हैं। जाहीहि, अजाहेत्, अजाहात्, अजाहीताम्, अजाहुः, जाहीयात्, जाहायात्, अजाहासीत्, अजाहासिष्टाम्, अजाहिष्यत् ॥ अतिशयेन स्वपिति—सास्वपीति, सास्वप्ति। यहा यङ् का लुक् होने से “न लुमताङ्गस्य”<sup>१</sup> इस निषेध से “स्वपिस्यमि” सप्रसारण और गण के उच्चारण से “रुदादिभ्यः०”<sup>२</sup> यह इट् नहीं होता। सास्वप्तः, सास्वपति, असास्वपीत्, असास्वप्, सास्वप्यात्। आशीलिङ् मे—सासुप्यात्। यहा “वचिस्वपि०”<sup>३</sup> इससे सम्प्रसारण होता है। असास्वापीत्, असास्वपीत्।

### ५५७—रुद्रिकौ च लुकि ॥ ७।४।६१ ॥

यङ्लुक परे हो ता ऋकारोपध धातु के अभ्यास को रुक्, रिक् और रीक् आगम हो। अतिशयेन वर्तते, वर्धुतीति, वरिवृतीति, वरीवृतीति, वर्वत्ति, वर्ग्वत्ति, वरीवत्ति, वर्धृत्तः, वष्टेतति, ववेतामास, वर्वात्तता, ववत्तिष्यति, वर्धृत्ताति, वरिवृत्ताति, वरीवृत्ताति, वष्टेताति, ववेतामास, वर्वात्तषाति, वरिवत्तिषाति, वरीवत्तिषाति, अवष्टेतीत्, अववेत्, अववाः, अववेतीत् ॥ अतिशयेन गर्हते जर्ग्रीहीति, जर्गोडि, जर्गुडः, जर्गुहति, अजर्घट्, अजर्घड् ॥ अतिशयेन गृह्णाति जागृहीति, जाग्राडि। तस् आदि मे ङिन् मानकर सम्प्रसारण होता है, वह बाहरङ्ग है, इससे यहा अभ्यास को रुक् आदि नहीं हात। जागृड, जागृहति, जाग्रहीषि, जाग्रन्ति, जाग्रहिता। यहा “ग्रहो लिटि दीर्घः”<sup>४</sup> यह नहीं होता, क्योंकि वहा एकाच की अनुवृत्ति है। जगृवीति, जर्गद्धि, जर्गुद्धः, जर्गुधति, जगृर्धाषि,

१. आ० ९८।

२. आ० ५४८।

३. आ० ३५७।

४. आ० २८३।

५. आ० ४५५।

जर्घत्सि, अजर्घ्नीत्, अजर्घत् । यहां इट् के अभाव पक्ष में गुण, हल्ङ्यादिलोप, भष् भाव, जश्त्व और चर्त्वे होता है । अजर्घ्नीत्, अजघोः, अजर्घ्नीत्, अजर्घ्निष्ठाम्, अजर्घ्निष्ठुः ।

### ५५८—ऋतश्च ॥ ७ । ४ । ६२ ॥

यङ्लुक परे हो तो ऋकारान्त धातु के अभ्यास को रुक्, रिक् और रीक् का आगम हो । अतिशयेन करोति चर्कान्, चरिकर्त्ति, चरीकर्त्ति, चर्करीति, चरिकरीति, चगीकरीति, चक्रेतः, चक्रेति, चर्कराश्चकार, चर्करिता, चर्करिषति, चर्करति, अचर्करीत्, अचर्कः, चर्क्यात्, चक्रियात् । यहा ( २३९ ) से ऋ को रिङ् हा गया । अचर्करीत् ॥ ऋ धातु को यङ्लुक में द्वित्व हुए पीछे "उरत्" इस से अभ्यास को अत्व, रपरत्व, हलादिशेष, रुक् और रिक् तथा रीक् के स्थान में ( १५३ ) इयङ् होता है ॥ अतिशयेन ऋच्छति अररीति, अरियरीति, अरर्त्ति, अरियर्त्ति, अर्ऋतः, अरियतः । मि में यण और रुक् के रेफ का "रो रि"<sup>२</sup> करक लोप होता है "रो रि" में लोप करने में अजादेश स्थानिवत् नहीं होता । क्योंकि इसका पूर्वत्रासिद्धीय ऋ काये में निषेध है । आरति, अरियति, अरराचकार, आरिता, आरियात् । अरिय्यात् । अरिय्यात् । "ऋतश्च"<sup>३</sup> यहा तपरकरण से क्, त् आदि दीर्घे ऋकागन्तो में रुक् रिक् रीक् नहीं होते । अतिशयेन किरति, चाकृत्ति, चाकरीति ॥ पुनः पुनस्तरति तातरीति, तातति, तार्तार्तः, तातिरति, तातिरता, तातरीता, तातीहि, अतातरीत्, अतातः, अतातीर्ताम्, अतातरुः,

\* वा०—पूर्वत्रासिद्धे च ( सन्धि ६५ ) इस वर्तिक से स्थानिवत् का निषेध है ।

अतातारीत्, अतातारिष्टाम् इत्यादि ॥ पुनः पुनः पृच्छति, पाप्रच्छति, पाप्राष्ट, पाप्रष्टः, पाप्रच्छति, पाप्रश्मि, पाप्रश्मः । यहां “छ्वो शूड-  
नुनासिके च”<sup>१</sup> इस सूत्र से छ् को श् हो गया है । अतिशयेन  
हयन जाह्यति, जाहान्, जाहत । लोपो व्यो०”<sup>२</sup> इस से लोप० ।  
जाहयति, जाह्यतिषि, जाहसि, जाहामि । वहां ( २८ ) से दीर्घ ॥  
पुनः पुनर्हयति जाह्यति, जाहति, जाहर्तः जाह्यति, जाहर्हि,  
अजाहः, अजाहयुः ।

५५६—ज्वरत्वरस्त्रिव्यविमवामुपधायाश्च ॥

६ । ४ । २० ॥

क्विप् . क्लादि क्तिन् डित् और अनुनासिकादि प्रत्यय परे हो तो  
ज्वरादि धातुओं का उपधा और वकार को ऊठ आदेश हो ।  
अतिशयेन ज्वरति जाज्वरति, जाजूति, जाजूर्त ॥ तात्वरति,  
तानूर्ति ॥ अतिशयेन स्त्राव्यति, सेस्त्रितीति, सस्त्रूति, सेस्त्रूत ॥  
आवीति, औति, औतः ॥ मामवीति, मामांति, मामूतः, मामवति,  
मामांषि, मामामि, मामाव . मामूमः, मामांतु, मामूतान्, मामूहि,  
मामवानि, अमामान् . अमामां, अमामवम्, अमानाव, अमामूम ॥  
अतिशयेन तूर्दति, तानूर्वीति ॥

५६०—राल्लापः ॥ ६ । ४ । २० ॥

रेफ से परे छकार और वकार का लोप हो क्विप्, क्लादि  
क्तिन् डित् और अनुनासिकादि प्रत्यय परे हो तो । तातोत्ति,  
तातूत्तः, तातूवति, नाथात्ति, दादोत्ति, दोधात्ति । अतिशयेन मूर्च्छति  
मामांति, मामूतः । अतिशयेन वेत्ति वेविदीति, वेवित्तः, वेविदीति  
वेवित्तः, वेवि . वति, अवेविदीत्, अवेवेत्, अवेवेः ॥

इति यङ्लुगन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥

## अथ नामधातुप्रक्रिया



५६१—सुप आत्मनः क्यच् ॥ ३ । १ । ८ ॥

इच्छा करनेवाले के संबन्धी इच्छा के कर्मरूप सुवन्त स इच्छा अर्थ में विकल्प करके क्यच् प्रत्यय हो ।

५६२—क्यचि च ॥ ७ ॥ ४ । ३३ ॥

क्यच् परे हो तो अवर्णान्त अङ्ग को इकारादेश हो । यह सूत्र ( १६० ) सूत्र का अपवाद है । आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । यहां "सुपो धातुप्रतिपदिकयोः" सूत्र से पुत्र शब्द की द्वितीया विभक्ति का लुक् हो जाता है । आत्मनो गामिच्छति, गव्यति, ( सन्धि० १८२ ) सूत्र से वान्तादेश । आत्मनो नावमिच्छति, नाव्यति । यहां ( ५६३ ) से पदान्त के न होने से अवर्णपूर्वक वकार का लोप ( सन्धि० २५१ ) सूत्र स नहीं हाता । गव्याञ्चकार, गव्यिता, नाव्याञ्चकार, नाव्यिता । यहा सन्निपातपरिभाषा के आश्रय से क्यच् के यकार का लोप नहीं हाता ।

५६३—नः ॥ १ । ४ । १५ ॥

क्यच्, क्यङ् और क्यष् परे हो तो नकारान्त की ही पदसज्ञा हो अन्य की नहीं । आत्मना राजानमिच्छति, राजीयति । यहा पद सज्ञा हाने से राजन् शब्द के नकार का लोप होता है । राजीयाञ्चकार, राजीयिता, राजीयिष्यति, राजीयिषति, राजीयिषाति, राजीयतु, अराजीयत्, राजीयेत्, राजीय्यात्, अराजीयीत्, अराजीयिष्यत् ।

**५६५—प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ॥ ७ । २ । ६८ ॥**

प्रत्यय और उत्तरपद परे हा तो एक वचन मे वर्तमान मपर्यन्त युष्मद् अम्मद् शब्दों को त्व म आदेश हो । आत्मनस्त्वामिच्छति, त्वद्यति, मद्यति । एकवचन के कहने से “युष्मद्यति, अस्मद्यति” यहा त्व म, आदेश नहीं होते । आत्मनो गिरमिच्छति गीयेति । (१९७) दीघादश पूर्यति । द्विमिच्छति दिव्यति । धातु को दीर्घ कहा है [ इमालय अव्युत्पन्न ] दिव् शब्द के इकार को नहीं होता । अथ इच्छति अवस्यति । आत्मनः कर्तारमिच्छति कर्त्रीयति ( २३९ ) ऋ को रिङ् आदेश० ।

**५६५—क्यच्व्योश्च ॥ ६ । ४ । १६२ ॥**

क्य और च्वि प्रत्यय परे हा तो हल् से परे अपत्यसम्बन्धी यकार का लाप हो । आत्मनो गाग्येमिच्छति गागीयति, वास्वीयति । आत्मन कविमिच्छति, कवीयति ( १६० ) दीर्घ आत्मनो वाचमिच्छति वाच्यति, समिधमिच्छति समिध्यति ।

**५६६—क्यस्य विभाषा ॥ ६ । ४ । ५० ॥**

हल् से परे जो क्य प्रत्यय का यकार उसका विकल्प करके लाप हो आर्धधातुक विषय म । समिधाञ्चकार । यहाँ प्रथम अकारलाप ( १७२ ) से हाकर उसको स्थानिवत् मानकर लघूपध गुण नहीं होता । समिधाञ्चकार, समिधिता, समिध्यता इत्यादि ।

( ५६१ ) सूत्र मे सुप्रहण इसलिय है कि वाक्य मे क्यच् न हो । जैसे—महान्त पुत्रमिच्छति । और आत्मप्रहण इसलिये है कि ‘राज्ञः पुत्रमिच्छति’ यहा क्यच् न हो ।

**५६७—वा०—क्याचि मान्ताऽऽययप्रतिषेधः ॥**

३ । १ । ८ ॥

मकारान्त और अव्यय शब्दों से क्यच् प्रत्यय न हो । इदमिच्छति, किमिच्छति, उच्चैरिच्छति, नीचैरिच्छति, स्वारिच्छति इत्यादि ।

५६८—अशनायादन्यधनायाबुभुक्षापिपासाग-  
द्वेषु ॥ ७ । ४ । ३४ ॥

बुभुक्षा, पिपासा अभिलाषा इन अर्थों में अशनाय, उदन्य और धनाय य यथासख्य करके तीनों निपातन है । अशनाय यहा 'अशन' शब्द को आत्व क्यच् प्रत्यय के परे निपातन है । आत्मनाऽशनमिच्छति, अशनायति । बुभुक्षा से अन्यत्र—आत्मनाऽग्नः सघातमिच्छति, अग्नोयति । उदन्य यहा 'उदक' शब्द को उदन् आदेश निपातन है । उदकमिच्छति—उदन्यति । पान का इच्छा से अन्यत्र-उदकीयति । धनाय यहा 'धन' शब्द का आकारादेश निपातन है । धनायति । अभिलाष से अन्यत्र-वर्नायति ।

५६९—न लुन्दस्यपुत्रस्य ॥ ७ । ४ । ३५ ॥

वेदविषय मे क्यच् परे हा तो पुत्रभिन्न अवणान्त अङ्ग को इत्वं न हो । मित्रयति । पुत्र शब्द के ग्रहण से यहा न हुआ—पुत्रीयन्तः सुदानवः । अत्यल्पमिदमुच्यते अपुत्रस्यति, अपुत्रादीनामित्ति वक्तव्यम् । इहापि यथास्यात्—जनीयन्तोऽन्वग्रव ।

५७०—क्याचल्लुन्दसि ॥ ३ । २ । १७० ॥

वेद मे क्य प्रत्ययान्त धातुओं से तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारि इन अर्थों मे उ प्रत्यय हो । मित्रयुः, संखेदयुः, देवाब्जिगाति सुमन्यु ।

५७१—दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिरिषण्यति ॥

७ । ४ । ३६ ॥

वेद मे क्यच् प्रत्ययान्त दुरस्यु, द्रविणस्यु, वृषण्यति, रिषण्यति, ये शब्द निपातन किये हैं । दुरस्यु—यहा दुष्ट शब्द का दुरस् आदेश



निपातन है। अविद्योना दुरस्युः । 'दुष्टीयति' यह लोक में होता है। द्रविण शब्द को द्रविणसुभाव निपातन है। द्रविणस्युविपन्यया। 'द्रविणीयति' यह लोक में होता है। वृष शब्द का वृषण् निपातन है। वृषण्यति। लोक में—वृषीयति। रिष्ट शब्द को रिषण्भाव निपात है। रिषण्यति। लोक में—रिष्टीयति।

५७२—अश्वाघस्यात् ॥ ७।४।३७ ॥

वेदविषय में क्यच् परे हो तो अश्व और अघ अङ्ग को आकारादेश हा। अश्वायन्तो मघवन। मा त्वा वृका अघायवा विदन्। लोक में—अश्वीयति, अघीयति। यह अश्व और अघ अङ्ग का आत्वविधान ज्ञापक है कि इस प्रकरण में (१६०) मूत्र से दीर्घ नहीं होता।

५७३—देवसुम्नयोर्यजुषि काठके ॥७।४।३८॥

यजुर्वेद की काठक शाखा में देव और सुम्न अङ्ग को आकारादेश हो क्यच् परे हो तो। देवायन्तो यजमानाय, सुम्नायन्तो-हवामहे। यजुर्ग्रहण से 'देवान् जिगाय सुम्नयुः' यहा नहीं होता। काठकग्रहण से 'सुम्नयुरिदमार्मात्' [ यहा नहीं होता ।।

५७४—कव्यध्वरपृतनस्यर्चि लोपः ॥७।४।३९॥

वेदविषय में क्यच् परे हो तो कवि, अध्वर और पृतना अङ्ग का लोप हो। कव्यन्तः सुमनसः, अध्वयेन्तः, पृतन्यन्तस्तिष्ठन्ति।

५७५—अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि ॥ ७।१।५१ ॥

क्यच् परे हो तो अश्व, क्षीर, वृष, लवण इन अङ्गों को आत्मप्रीति अर्थ में असुक् आगम हो। अश्वस्यति वडवा, क्षीरस्यति माणवकः, आत्मनो वृषमिच्छति वृषस्यति गौः, लवणमिच्छति

लवणस्यत्युष्ट्रः । आत्मप्रीति अर्थ से अन्यत्र—'अश्वीयति' क्षीरीयति  
वृषायति, लवणीयति' इत्यादि मे नही हाता ।

५७६—वा० अश्ववृषयो मैथुनेच्छायाम् ॥

७ । १ । ५१ ॥

( अश्वक्षीर० ) सूत्र मे जो असुक् कहा है वह अश्व और वृष  
शब्दों से मैथुन की इच्छा मे हा । उदाहरण पूर्वोक्त जानो ।

५७७—वा० क्षीरलवणयालालसायाम् ॥

७ । १ । ५१ ॥

क्षीर और लवण शब्द से लालसा (अत्यन्त भोजन की इच्छा)  
मे असुक् होता है । यहां भी उदाहरण पूर्वोक्त जानो ।

५७८—वा०-अपर आह-सर्वप्रातिपादिकेभ्यो

लाललसायामिति वक्तव्यम् ॥ ७ । १ । ५१ ॥

किन्ही लोगो के मत मे क्यच् परे हो तो सब प्रातिपादिकों को  
असुक् हो । आत्मनो दधीच्छति, दध्यस्यति, मध्वस्यति इत्यादि ।

५७९—वा०-अपर आह-सुग्वक्तव्यः ॥ ७ । १ । ५१

कोई आचार्य कहते हैं कि क्यच् के परे सब प्रातिपादिकों को  
सुक् का आगम हो । दधिष्यति, मधुष्यति ।

५८०—काम्यच्च ॥ ३ । १ । ६ ॥

सुबन्त कर्म से आत्मा की इच्छा मे काम्यच् प्रत्यय होवे ।  
आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रकाम्यति, वधकाम्यति । यह सूत्र (५६१)  
सूत्र से पृथक् इसलिये किया है कि इससे अगले सूत्रों में क्यच्  
की अनुवृत्ति जावे काम्यच् की नही । यशसकाम्यति, सर्पिष्का-  
म्यति । और काम्यच्च प्रत्यय मान्त तथा अन्य्यों से भी होता  
है—इड्काम्यति, किङ्काम्यति, स्वःकाम्यति, उच्चैःकाम्यति ।

५८१-उपमानादाचार ॥ ३ । १ । १० ॥

आचार अर्थ में उपमानवाची सुबन्त कर्म से विकल्प करके क्यच् प्रत्यय हो। आचाररूप क्रिया प्रत्यय का अर्थ होने से उसी की अपेक्षा में उपमान का कर्मत्व बनता है। पुत्रमिवाचरति, पुत्रीयति शिष्यम्, मित्रमिवाचरति मित्रीयात शत्रुम्, इत्यादि।

५८२-वा०-अधिकरणाच्च ॥ ३ । १ । १० ॥

अधिकरणवाची प्रातिपदिक से भी आचार अर्थ में क्यच् प्रत्यय होत। कुट्यामिवाचरति कुटीयति प्रासादे, प्रासादीयति कुट्याम्, पर्यङ्कीयति मञ्चक।

५८३-कर्तुः क्यङ् सलोपश्च ॥ ३ । १ । १० ॥

आचार अर्थ में उपमानवाची कर्ता सुबन्त से विकल्प करके क्यङ् प्रत्यय और सकार का लोप हो। जो सकारान्त शब्द हैं उनके लिये सकार का लोप कहा है।

५८४-वा०-सलोपो वा ॥ ३ । १ । ११ ॥

सकारान्त शब्दों के सकार का लोप विकल्प करके होवे।

५८५-वा०-ओजोऽप्सरसो नित्यम् ॥ ३ । १ । ११ ॥

ओजस् और अप्सरस् शब्द के सकार का लोप नित्य हो। श्येन इवाचरति—श्येनायते काकः। यहाँ सर्वत्र क्यङ् के डित्व से आत्मनेपद होता है। पण्डित इवाचरति—पण्डितायते मूढः, राजेवाचरति—राजायते, पय इवाचरति पयायते, पयस्यते वा तक्रम् (५८४) सलोप, यशायते, यज्ञस्यते, विद्यायते, विद्वस्यते, त्वद्यते, मद्यते, आज इवाचरति ओजायते, अप्सरायते, हंसायते सारसायते, इत्यादि में अन्त्य सकार के न होने से सलोप नहीं होता।

### ५८६—वा०—आचारेऽवगल्भक्तीबहोडेभ्यः

क्विब् वा ॥ ३ । १ । ११ ॥

अवगल्भ, क्लीब और होड शब्दों से आचार अर्थ में विकल्प करके क्विप् प्रत्यय होवे । पक्ष में क्यङ् हाता है । क्विप् का सब लोप होकर—अवगल्भते, अवगल्भायते, विक्लीबते, विक्लीबायते, विहोडते, विहोडायते, अवगल्भाश्चक्रे, अवगल्भिव्यते, इत्यादि । इन शब्दों में क्विबन्तो से आत्मनेपद प्राप्त नहीं, इसलिये अवगल्भादि शब्दों को भाष्यकार ने अनुदात्तेत् माना है ॥

### ५८७—वा०—अपर आह—सर्वप्रतिपदिकेभ्य

आचारे क्विब् वा वक्तव्यः ॥ ३ । १ । ११ ॥

किन्हीं के मत में सब प्रतिपदिकों से आचार अर्थ में क्विप् होता है । अश्व इवाचरति, अश्वति, गर्दभति, अश्वायते, गर्दभायते अ इवाचरति अति, अतः, अन्ति । लिट् में—औ, अतुः, उः । मालेवाचरति, मालाति, मालाश्चकार, अमालात्, अमालासीत् । कविरिवाचरति कवयति, कवीयात्, अकवर्यात् । विरिवाचरति-वयति, विवाय, विव्यतुः, अवयीत्, श्रीरिव-श्रयति, शिश्राय, शिश्रियतुः, शिश्रयु, श्रीयात् । पितेवाचरति—पितरति, पित्रियात् ( २:९ ) से रिङ् आदेश । भूरिवाचरति भवाति, बुभाव, अभावीत् । द्रुरिवाचरति—द्रवति, अद्रावीत् ।

### ५८८—अनुनासिकस्य क्विब्भ्रलोः कृङिति ॥

६ । ४ । १५ ॥

क्विप् और भ्रलादि क्वित् ङित् परे हों तो अनुनासिकान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ हो । इदमिवाचरति, इदामति, राजेवाचरति राजानति, पन्था इवाचरति, पथीनति, ऋमुच्चीणति । द्यौरिवाचरति

यवति । यहाँ वकार को ऊठ्, यणादेश और शबाश्रय गुण होता है ।

५८६-क्यङ्मानिनोश्च ॥ ६ । ३ । ३६ ॥

क्यङ् प्रत्यय और मानिन् शब्द परे हो तो ऊङ्ग्रहित भाषित-पुंस्क स्त्रीलिङ्ग शब्द को पुवद्भाव होवे । एनी इवाचरति—एतायते, श्येनी इवाचरति श्येतायते यहाँ स्त्री प्रत्यय के निमित्त से हुए तकार को नकार आदि कार्य भी निवृत्त हो जाते हैं । कुमारी-वाचरति कुमारायत, हरिणीवाचरति हरिणायते, गुर्वावाचरति-गुम्हयते । पट्वीमृद्-न्याविवाचरति पट्वीमृदूयते ।

५९०—न कोपधायाः ॥ ६ । ३ । ३७ ॥

ककारापध स्त्री को पुवद्भाव न हा क्यङ् और मानिन् शब्द परे हो ता । पाचिका इवाचरति पाचिकायते, मद्रिकायत इत्यादि ।

५९१-भृशादिभ्यो भुव्यच्चेर्लोपश्च हलः ॥

३ । १ । १२ ॥

भू धातु के अर्थ मे अभूततद्भावविषयक भृशादि शब्दों से क्यङ् प्रत्यय होवे और भृशादिको मे जाँ हलन्त है उनके अन्त्य हल् का लोप हा । अभृशां भृशां भवति, भृशायते । इस सूत्र मे च्विप्रत्ययान्त के निषेध से अभूततद्भाव समझा जाता है । अभूत-तद्भाव ग्रहण से 'क दिवा भृशा भवन्ति' यहाँ क्यङ् नहीं होता । सुमनस्-सुमनायते, सकारलोप, सुमनायाञ्चक्रे, सुमनायिता-सुमनायिष्यते, सुमनायिषतै, सुमनायिषातै, सुमनायाताम, स्वम-नायत । यहाँ मनस् शब्दमात्र से क्यङ् प्रत्यय है इससे मनस

के पूवे अट् होता है। क्योंकि चुरादिगणपठित “संग्राम युद्धे” ❀ यह नियमाथे है कि सोपसर्ग प्रातिपदिक से जो क्यजादि प्रत्यय हो तो संग्राम ही से हो औरो से न हो।

५६२—लोहितादिडाज्भ्यः क्यष् ॥३।१।१३ ॥

भू धातु के अर्थ मे अभूततद्भावविषयक लोहितादि और डाच्प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से क्यष् प्रत्यय हो।

५६३—वा क्यषः ॥ १ । ३ । ६० ॥

क्यष् प्रत्ययान्त धातु से परस्मैपद विकल्प करके हो। अलोहितो लोहितो भवति लोहितायते, लोहितायति, अपटपटा पटपटा भवति पटपटायति, पटापटयते।

५६४—वा०—लोहितडाज्भ्यः क्यष्बचनं भृशा-  
दिष्वितराणि ॥ ३ । १ । १३ ॥

( ५९२ ) सूत्र मे जो क्यष् प्रत्यय कहा है वह लोहित और डाच् प्रत्ययान्तो से ही कहना चाहिये। किन्तु लोहितादिगण के नीले आदि शब्द भृशादिको मे पढ़ने चाहिये। अनीलो नीलो भवति नीलायते पटः। यहा क्यषन्त से जो उभयपद होता है वह न हुआ। अलोहिनी लोहिनी भवति लोहिनीयति, लोहिनीयते। यहां “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्” [ पारि० ६२ ] इस परिभाषा से लोहिनी शब्द का भी ग्रहण होता है ॥

\* अवश्य संग्रामयते सोपसर्गादुत्पत्तिवक्तव्या। असंग्रामयत शूर इत्येव-  
मर्थम्। तन्नियमार्थं भविष्यति, संग्रामयतेरेव सोपसर्गान्नान्यस्मात् सोपसर्गादिति ॥  
महाभाष्ये ३ । १ । २२ ॥

५६५—कष्टाय क्रमणे ॥ ३।१।१४ ॥

चतुश्च्येन्त् कष्ट शब्द से क्रमण अथात् उत्साह अर्थ में क्यङ् प्रत्यय हा । कष्टाय क्रमन् कष्टायन् ।

५६६—वा०—सत्रकष्टकृत्कृच्छ्रगहनेभ्यः कख्व-  
चिकीर्षायाम् ॥ ३।१।१४ ॥

कख्वचिकीर्षा अर्थान् पाप करने का इच्छा से सत्र, कष्ट, कृत्, कृच्छ्र और गहन शब्दों से क्यङ् प्रत्यय हा । कख्व चिकीर्षति—सत्रायत्, कष्टायन्, कृत्तायन्, कृच्छ्रायन् । इन से स्वपदविग्रह नहीं जाता ह । कख्वचिकीर्षा से अन्यत्र—कष्ट क्रामति ।

५६७—कर्मणो रोमन्थनपोभ्यां वर्तिचरोः ॥

३।१।१५ ॥

वर्ति और चर वातु के अर्थ से यथाक्रम से जां रोमन्थ और तपःकर्म उनसे क्यङ् प्रत्यय हा । रोञ्जाना रोमन्थ कहाता है ।

५६८—वा०—हनुचलन इति वक्तव्यम् ॥ ३।१।१५ ॥

ठांडा चलान अर्थ से क्यङ् प्रत्यय कहना चाहिये । रोमन्थं चतयात्, रोमन्थायन् ।

५६९—वा०—तपसः परस्मैपदं च ॥ ३।१।१५ ॥

क्यङन्त तप शब्द से परस्मैपद भी हो जावे । तपश्चरति तपस्यति ।

६००—वाष्पोष्मभ्यामुद्गमने ॥ ३।१।१६ ॥

उगलने अर्थ से वाष्प और ऊष्म कर्मवाची शब्दों से क्यङ् प्रत्यय हो । वाष्पमुद्गमति वाष्पायत्, ऊष्मायत् ।

६०१-वा०-फेनाच्च ॥ ३ । १ । १६ ॥

फेन शब्द से भी उगलने अर्थ में क्यङ् हो । फेनमुद्धमति फेनायते ।

६०२-शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे ॥  
३ । १ । १७ ॥

करने अर्थ में शब्द, वैर, कलह, अभ्र, कण्व और मेघ प्रातिपदिक से क्यङ् प्रत्यय हो । शब्दं करोति शब्दायते, वैरायते, कलहायते, अभ्रायते, कण्वायते, मेघायते ।

६०३-वा०-सुदिनदुर्दिनाभ्यां च ॥ ३ । १ । १७ ॥

सुदिन और दुर्दिन शब्द से करने अर्थ में क्यङ् प्रत्यय हो । सुदिनं करोति सुदिनायते, दुर्दिनं करोति दुर्दिनायते ।

६०४-वा०-नीहाराच्च ॥ ३ । १ । १७ ॥

नीहार करोति नीहारायते ।

६०४-वा०-अटाट्टाशीकाकोटापोटासोटाक-  
ष्टाप्रुष्टाप्लुष्टाग्रहणम् ॥ ३ । १ । १७५ ॥

करने अर्थ में अटा, अट्टा, शीका, कोटा, पाटा, सोटा, कष्टा, प्रुष्टा और प्लुष्टा शब्दों से क्यङ् प्रत्यय हो । अटा करोति अट्टायते, अट्टायते, शीकायते, काट्टायते, पोट्टायते, सोट्टायते, कष्टायते, प्रुष्टायते, प्लुष्टायते ।

६०६-सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् ॥

३ । १ । १८ ॥

वेदना अर्थ में ज्ञाता के संबन्धी सुख आदि कर्मवाची प्रातिपदिकों से क्यङ् प्रत्यय हो । सुखं वेदयते सुखायते, दुःखायते, कर्णायते, कृपणायते इत्यादि । इस सूत्र में कर्तृग्रहण इसलिये है कि 'सुखं वेदयति प्रसाधको देवदत्तस्य' यहाँ सुख शब्द से क्यङ् न हो ।



६०७—नमोवरिवश्चित्रङः क्यच् ॥

३।१।१६ ॥

नमस्, वरिवस् और चित्रङ् प्रातिपदिको से सत्कार करने आदि अर्थों में क्यच् प्रत्यय हो। नमसः पूजायाम्, वरिवसः परिचर्यायाम्, चित्रङ् आश्चर्ये। नमः करोति नमस्यति गुरुम्, वरिवः करोति वरिवस्यति पितरम्, चित्र करोति चित्रीयते। चित्रङ् शब्द में ङिन् अनुबन्ध आत्मनेपद होने के लिये है।

६०८—पुच्छभाण्डचीवराणिङ् ॥

३।१।२० ॥

करणविशेष में पुच्छ, भाण्ड और चीवर प्रातिपदिक से णिङ् प्रत्यय हो। पुच्छाद्बुदसने व्यसने पर्यवसने च। पुच्छमुदस्यति उक्लिपति उःपुच्छयत, पुच्छं व्यस्यति विविधं विरुद्ध वा क्षिपति विपुच्छयत, पुच्छ पर्यस्यति परितः क्षिपति परिपुच्छयते। भाण्डात् समाचयने। भाण्डानि समाचिनोति सभाण्डयते, राशीकरोतीत्यर्थः। चीवरादजने परिधाने च। चीवराण्यर्जयति परिधत्ते वा संचीवरयते भिक्षुः।

६०९—मुण्डमिश्रऋक्षलवणव्रतवस्त्रहलक-  
लकृतनूस्तेभ्यो णिच् ॥ ३।१।२१ ॥

करण अथे म मुण्ड, मिश्र, ऋक्षण, लवण, व्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत और तूस्त में णिच् प्रत्यय हो। मुण्डं करोति मुण्डयति, मिश्रं करोति मिश्रयति, ऋक्षणयति, लवणयति, व्रतयति, वस्त्रयति। हलिकल्योरदन्तनिपातन सन्वद्भावप्रतिषेधार्थम्। हलि करोति हलयति, कलयति, अजहलत्, अचकलत्, कृपयति, वितूस्तयति ऋ केशान्, विशदीकरोति ॥

\* तूस्ता. जटीभूताः केशाः तूस्तं पापं वा ।

## सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वच- वर्मवर्णचूर्ण०

यह सूत्र पीछे ( ४५६ ) सख्या मे लिख चुके है इसका शेष विवरण लिखने के लिये यहा लिखा है ।

६१०—वा०—णिविधावर्थवेदसत्यानामापुक्  
च ॥ ३ । १ । २५ ॥

णिच् विवि मे अथे, वेद् और सत्य शब्द को आपुक् अगम हो । अथेमाचष्टे अशोपयति वेदापयति सत्य कर्गति आचष्टे वा सत्यापयति, पाश विमुञ्चति, विपाशयति, रूप पश्यति रूपयति, वीणयोपगायति उपवीणयति, तूलेनानुकुष्णाति अनुतूलयति, श्लोकैरुपस्तौति उपश्लोकयति, सेनया अभियाति अभिषेणयति, उपसर्गात्सुनोति<sup>०</sup> इस सूत्र से पत्व हाता है । अभ्येपणयत्, प्राक् सिता<sup>०</sup> इस सूत्र से पत्व । अभिषेणयितुमिच्छति अभिषेणयिषति, स्थादिष्वभ्या<sup>०</sup> इस सूत्र से पत्व । लामान्यनुमाष्ट अनुलोमयति, त्वचं गृह्णाति त्वचयति, वर्मेणा सनह्यात संवमेयति, वर्णं गृह्णाति वर्णयति, चूर्णैरवध्वंसयति अवचूर्णयति ।

६११—वा०—प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमि-  
ष्ठवच्च ॥ ३ । १ । २६ ॥

प्रातिपदिक से धात्वर्थे मे णिच् प्रत्यय है और वह बहुल करके

( उपसर्गात् सुनोति०, प्राक्सितादभ्य०, स्थादिष्वभ्य०, इन सूत्रों को पत्वप्रकरण में लिखेंगे ।

इष्टन प्रत्यय के तुल्य हो । पृथुमाचष्टे-प्रथयति ( स्त्रैण० ८९६ )<sup>१</sup> से ऋ का र आदेश । स्रथयति, भ्रशयति, क्रशयति, ऊढिमाख्यत् औजिडत् । यहा ढत्वादिको के अमिद्र होने से ह शब्द को द्वित्व होकर अम्याम के हकार को चुत्व होता है । अथवा 'पूर्वत्रामिद्धी-यमद्विर्वचन'<sup>२</sup> इस वचन से ढत्वादि सिद्ध मानकर ढि शब्द को द्वित्व होता है—आडिडत् । ऊढमाख्यत् औजिडत्, औडिडत् । 'ओ. पुयण'<sup>३</sup> यह यहां नहीं प्रवृत्त होता है क्योंकि इस सूत्र मे पवग और प्रत्याहार क वर्णों का ग्रहण है । स्वमाचष्टे, स्वापयति । यहां ( स्त्रैण० ८९९ )<sup>४</sup> प्रकृतिभाव ( ६० ) वृद्धि और ( ४६३ ) पुक् हा जा ॥ है । त्वामाऽऽचष्टे त्वापयति, मामाचष्टे मापयति । यहा पररूप से पूर्व ही नित्यत्व मानकर ( स्त्रैण० ८८९ )<sup>५</sup> टिलोप होता है । तुवाभावा वाचष्टे युमयति, अम्मयति, उदध्वमाचष्टे उदाचयति, उदेचिचत्; प्रत्यध्वनाचष्टे प्रतीचयति, प्रत्याचिचन्, 'इकोऽस्वर्णे शा०'<sup>६</sup> इसमे प्रकृतिभावपक्ष मे प्रतिअचिचत्, सम्य-ध्वमाचष्टे समीचयति, सम्याचिचन्, समिअचिचन्, सुवमाचष्टे भावयति, अवीभवन्; भ्रुवमाचष्टे भ्रावयति, अयुभ्रवत्, श्रिय-माचष्टे श्राययति, अशिश्रियत्, गामाख्यत् अजूगवत्; रायमाख्यत् अरारयन्; स्वमाचष्टे रथयति, असभ्वत्, असिस्वत्, बहूनभाव-यति बहयान्<sup>७</sup>, श्रीमती श्रीमन्त वा स्तौति श्राघयति, अशिश्रयत्;

१. र ऋतो ह्वादेर्लघोः ।

२ पारि० १०४ ।

३. आ० ४७२ ।

४ प्रकृत्यैकाच् ।

५. टेः ।

६ सन्धि० १७३ ।

७. इष्टस्य यिट् च ( स्त्रै० ८९४ ) सूत्र से 'यिट्' के सन्नियोग मे ही भू आदेश होता है ऐसा जिन वैयाकरणों का मत है, उन के मत में 'बहयति' रूप होता है । अन्यो के मत में 'भावयति' रूप होता है ।

पवस्विनीमाचष्टे पयसयति । यहाँ टिलोप नहीं होता क्योंकि टिलो-  
पापवाद 'विनमतोर्लुक्' ( स्त्रैण० ७८८ ) इससे विन् प्रत्यय का  
लुक् हो जाता है । स्थूलमाचष्टे स्थवयति, दूरं गच्छति दवयति,  
इत्यादि प्रयोगो मे जो जो कार्य ( स्त्रैण० ८९१ )<sup>१</sup> सूत्र में जिन जिन  
शब्दों को कहे हैं वे उन शब्दों को होते हैं । युवान-युवयति, कन-  
यति वा, ( स्त्रैण० ७८७ )<sup>२</sup> से कन् आदेश विकल्प से होता है ।  
अन्तिकं प्राप्नोति-नेदयति, बाढ-साधयति, प्रगस्य-प्रशस्यति यहाँ  
( श्र, ज्य ) ये आदेश न होंगे, क्योंकि नापधातुओं में उपसर्ग पृथक्  
माने हैं और पृथक् होने से 'शस्य' शब्द प्रकृति रह जायगा 'शस्य'  
को आदेश विधान नहीं है । वृद्धं सेवयते-ज्यापयति, प्रियमाचष्टे,  
प्रापयति, स्थिर-स्थापयति, स्फिर-स्फापयति, उर-वरयति, बहुल-  
दहयति, गुरु-गरयति, [ वृद्धं-वर्षयति, ] वृषं-त्रपयति, दीर्घ-  
द्राघयति, वृन्दारकं,-वृन्दयति ।

६१२—वा०—तत्करोतीत्युपसंख्यानं सूत्र-  
यत्यावर्थम् ॥ ३ । १ । २६ ॥

सूत्रयति, इत्यादि प्रयोगो के लिये द्वितीयासमर्थं प्रातिपादिक से  
करने अर्थ मे णिच् प्रत्यय कहना चाहिये । सूत्रं करोति सूत्रयति,  
व्याकरणस्य सूत्रं करोति व्याकरणं सूत्रयति । यहा वाक्य मे जो  
षष्ठी है उसके स्थान मे प्रत्ययोत्पत्ति मे द्वितीया हो जाती है क्योंकि  
जो वह सूत्र और व्याकरण शब्द का सम्बन्ध है उसकी प्रत्ययोत्पत्ति  
में निवृत्ति हो जाती है ।

१. स्थूलदूरयुवह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणा यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः ।

२. युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् ।

६१३-वा०-आख्यानान् कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक्  
प्रकृतिप्रत्ययापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम् ॥ ३ ।

१ । २६ ॥

द्वितीयाममथ आख्यान कृदन्त से कहन अथ मे णिच् प्रत्यय हो, कृन् का लुक्, प्रकृति का पूर्वरूप और प्रकृति के तुल्य कारक हो। कंसवधमाचष्टे वस घातयति। यहा अप् जो कृत प्रत्यय है उसका लुक्, 'वध' का पूर्वरूप [हन] और कस कारक प्रकृति के तुल्य होता है। बलिबन्धमाचष्टे बलि बन्धयति। राजागमनमाचष्टे राजानमागमयति।

६१४-वा०-दृश्यर्थायां च प्रवृत्तौ ॥ ३।१।२६॥

जिम मे देखना प्रयोजन है ऐसी जहां प्रवृत्ति हो वहा आख्यान कृदन्त से णिच और पूर्वोक्त समस्त का हो। मृगरमणमाचष्टे मृगान रमयति। दृश्यर्थाप्रवृत्ति क्यों कही ? 'प्राप्ते मृगरमणमाचष्ट' यहा न हो।

६१५-वा०-आङ्लोपश्च कालात्यन्तसंयोगे  
मयोदायाम् ॥ ३ । १ । २६ ॥

समय के अत्यन्तसंयोग अथे मे मयोदा प्राप्त हो तो द्वितीया-समथे प्रातिपदिक से णिच्, पूर्वोक्त कार्य और आङ् का लोप हो। आरात्रिविवासमाचष्टे रात्रि विवासयति। जब तक रात्रि व्यतीत होती है तब तक किसी प्रसङ्ग को कहता है।

६१६-वा०-चित्रीकरणे प्रापि ॥ ३।१।२६॥

आश्चर्य करने अर्थ मे प्राप्ति अर्थ हो ता द्वितीयासमर्थ प्रातिप-दिक से णिच और पूर्वोक्त कार्य हो। उज्जायन्याः प्रास्थतो माहिष्मत्यां

सूर्याद्गमन सभावयते सूर्यभुद्गमयति । कोई पुरुष उज्जयिनी नगरी से चला हुआ और माहिष्मती नगरी में सूर्य के उदय को प्राप्त होता है । यहाँ अति दूर देश पहुँचने से आश्चर्य की प्रतीति होती है ।

६१७—वा०—नक्षत्रयोगे जि ॥ ३ । १ । २६ ॥

नक्षत्र के योग में जानना अर्थ हो तो द्वितीयान्त प्रातिपादक से णिच् प्रत्यय तथा पूर्वोक्त काये अर्थात् कृत्प्रत्यय का लुक् प्रकृति का पूर्वरूप और प्रकृति के तुल्य कारक हो । पुष्ययोग जानाति पुष्येण योजयति, मवाभिर्योजयति ।

॥ इति नामधातुप्रक्रिया समाप्ता ॥

अथ कण्ड्वादिप्रक्रिया

६१८—कण्ड्वादिभ्यो यक् ॥ ३ । १ । २७ ॥

कण्ड्वादि धातुओं से यक् प्रत्यय नित्य हो ।

६१९—का०—

धातुप्रकरणाद्धातुः कस्य चासजनादपि ।

आह चायमिमं दीर्घ मन्ये धातुर्विभाषितः ॥

धातु के अधिकार होन और यक् प्रत्यय में ककार अनुबन्ध करने से मैं इन कण्ड्वादिकों को धातु मानता हूँ, तथा ये आचार्य इस कण्डू शब्द को दीर्घ पढ़ते अर्थात् दीर्घ पढ़ने का मुख्य प्रयाजन

१ यदि कण्ड्वादि केवल धातु हों तो 'कण्डू' आदि का दीर्घ पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि 'कण्डू' ह्रस्वान्त पढ़ने में भी 'यक्' परे रहने पर (१६०) सूत्र से दीर्घ होकर 'कण्डूय' धातु से क्तिप् होकर 'अतो लोपः' (१०१७२) से अकार लोप, 'लोपो व्योर्बल्लि' (अ० ६।१।६५) से य लोप और

यहाँ है कि एक पक्ष में यह कण्डू शब्द धातु और दूसरे पक्ष में प्रातिपदिक हो इसमें इनका विरूप करके ध तु मानता हूँ। प्रयोजन यह है कि कण्डूञ् आदि धातु और प्रातिपदिक दोनों हैं जिस पक्ष में धातु मान जान है वहाँ (६१८) सूत्र से यक् हाता है, अन्यत्र नहीं।

१ [ कण्डूञ् ] गात्रविधपेणे = शरीर खुजाना । अकार् अन्वन्ध में उभयपद होत हैं । कण्डूयति, कण्डूयत, कण्डूयाचक्रे, कण्डूयाचक्रुव, कण्डूयामास, कण्डूयिता, कण्डूयिष्यति, कण्डूयिषति, कण्डूयिषाति, कण्डूयतु, अकण्डूयन्, कण्डूयन्, कण्डूय्यान्, अकण्डूय्यान्, अकण्डूयिष्वत् ॥ [ मन्तु ] अपराधे । राष इत्येके मन्तुयति । ३ [ वल्गु ] पूजामाधुर्ययोः = सत्कार और मीठापन । वल्गुयान । ४ [ असु ] उपनाप = दुःख हाना । असुयति । [ अम, असुञ् ] इत्येके । अस्यति, अमूयति, असुयते । ५-६ [ लेट, लोट ] धौन्धे, पूर्वभावे, स्वाने च । दीप्तादित्येके = धूर्तपन, पिछलापन और साना तथा प्रकाश । लेट्यति, लोट्यति, लेटिता, लोटिता । ७ [ लेला ] दीप्तौ । लेलायति । ८-१० [ इरस्, इरञ्, इरञ् ] ईर्यायाम् । इरस्यति, इरज्यति, इयेति, ईर्यते ( ११७ ) से दीघ । ११ [ उपस् ] प्रभानीभावे = प्रातःकाल का

‘वेरपृक्तस्य’ ( अ० ६।१।६६ ) में क्क्प् का लोप होकर ‘कण्डू’ दीर्घान्त प्रातिपदिक सिद्ध हो जाता है । अतः कण्डूञ् का दीर्घ पाठ व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि कण्डू आदि धातु और प्रातिपदिक दोनों हैं । प्रातिपदिक मानने का फल यह है कि ‘कण्डू’ शब्द से ‘औ’ विभक्ति पर रहने पर ‘कण्ट्वौ’ प्रयोग बनता है । अन्यथा केवल धातुपक्ष में ‘क्विबन्तो धातुत्वं न जहाति’ नियम से ‘अचि इनुधातुः’ ( आ० १५९ ) से उवह होकर ‘कण्डुवौ’ रूप की प्राप्ति होती । प्रातिपदिक पक्ष मानने से ज्ञापक होता है कि यगन्त से क्क्प् नहीं होता । अतः ‘कण्डुवौ’ प्रयोग नहीं बनता ।

होना । उरस्यति । १२ [ वेद् ] धौर्त्ये स्वप्ने च । वेद्यति । १३  
 [ मेघा ] आशुग्रहणे = तुरन्त लेना । मेघायति । १४ [ कुसुभ ]  
 क्षेपे = निन्दा । कुसुभ्यति । १५ [ मगध ] परिवेष्टने, नीचदास्य  
 इत्यन्ये = लपेटना तथा नीच की सेवा करना । मगध्यति । १६, १७  
 [ तंतस्, पंपस् ] दुःखे । तंतस्यति, पंपस्यति । १८, १९  
 [ सुख, दुःख ] तत्क्रियायाम् । सुख्यति, दुःख्यति, सुख दुःखं  
 चानुभवति । २० [ सपर ] पूजयाम् । सपर्यति । २१  
 [ अरर ] आराकर्मणि = चाम काटना आदि । अरयति । २२  
 [ भिषज ] चिकित्सायाम् । भिषज्यति । २३ [ भिषण्ज् ]  
 उपमेवायाम् । भिषण्यति । २४ [ इषघ ] शरधारणे =  
 वाण धारण । इषुध्यति । २५, २६ [ चरण, वरण ] गतौ ।  
 चरण्यति । वरण्यति । २७ [ चुगण ] चौथे । चुगयति ।  
 २८ [ तुरण ] त्वरायाम् = शीघ्रता । तुरयति । २९ [ भुरण ]  
 धारणपोषणयोः । भुरयति । ३० [ गद्गद ] वाक्स्खलने  
 गिर्डागडाकर बोलना । गद्गद्यति । ३०-३३ [ एला, कला,  
 खेला ] विलासे । एलायति । केलायति । खेलायति । [ इला ]  
 इत्यन्य । इलायति । [ खला ]<sup>१</sup> स्खलने च । अदन्तोप्ययमि-  
 त्यन्य । खेस्यति<sup>१</sup> । ३४ [ लिट् ] अल्पकुन्पनयोः ।  
 लिट्यति । ३५ [ लाट् ] जीवने । लाट्याति । ३६ [ हृणीङ् ]  
 शोषणे लज्जाया च । हृणीयते । ३७ [ महीङ् ] पूजयाम् ।  
 महीयते । ३८ [ रेखा ] श्लाघासादनयोः = आत्मप्रशंसा,  
 स्थिति । रेखायति । ३९ [ दुवस् ] परितापपरिचरणयोः =  
 कष्ट और सेवा । दुवस्यति । ४० [ तिरस् ] अन्तर्द्धौ ।

१ अन्त्यों के मत में 'लेखा' धात्वन्तर है किन्हीं के मत में 'लेख'  
 अदन्त है, उसका 'लेखयति' रूप बनता है ।



तिरस्यति । ४१ [ अगद् ] नीशोगत्वे । अगद्यति । ४२  
 [ उग्स् ] बलार्थे । उरस्यति । ४३ [ तरण ] गतौ ।  
 तरण्यति । ४४ [ पयस् ] प्रसृतौ । पयस्यति । ४५  
 [ संभूयस् ] प्रभूतभावे = समर्थे होना । संभूयस्यति । ४६,  
 ४७ [ अम्बर सम्बर ] सभरणे । अम्बर्यति । सम्बर्यति ।  
 आकृतिगणोऽयम् । यह कण्ड्वादि आकृतिगण अर्थात् इस गण  
 में अर्थानुसार अन्य शब्द भी धातु माने जाते हैं ।

॥ इति कण्ड्वादिप्रक्रिया समाप्ता ॥

### अथ प्रत्ययमालाप्रक्रिया ॥

३२०-का०—

शैषिकान्मतुवर्थीयाच्छैषिको मतुवर्थिकः ।

सरूपः प्रत्ययां नेष्टः सन्नन्नान्न सनिष्यत ॥

महा० ३ । १ । ७ ॥

शेषाधिकार के प्रत्यय से समानरूपवाला शेषाधिकारी प्रत्यय  
 और मतुप् प्रत्यय के अर्थवाले से समान रूपवाला मतुवर्थ प्रत्यय  
 इष्ट नहीं ; तथा इच्छा अर्थवाला सन् प्रत्यय जिसके अन्त में हो  
 उससे फिर इच्छार्थ सन् प्रत्यय नहीं इष्ट है । शैषिकात् - शालायां  
 भवः, शालीया घटः, शालीये घटे भवमुदकम् । यहाँ 'छ' प्रत्यय  
 फिर न हुआ । और विरूप हा जाता है, जैसे—अहिच्छत्रे भव  
 आहिच्छत्रः, आहिच्छत्रे भव आहिच्छत्रीयो माणवक । मतुवर्थी  
 यात्—दण्डोऽस्यास्तीति, दण्डिकः, दण्डिकोऽस्यास्तीति । यहाँ  
 फिर मतुवर्थ ठन् प्रत्यय नहीं हाता, और विरूप तो होता है जैसे—  
 दण्डिमती सेना । सन्नन्तात्—चिकीषितुमिच्छति, जिहीषितुमि-

च्छति । यहा फिर सन् नहीं होता । स्वाथे सन्नन्त से तो इच्छार्थ सन् होता है । जैसे—जुगुप्सितुमिच्छति, जुगुप्सिषते, मीमांसिषते ।

६२१—वा०—कण्डवादीनां च ॥ ६ । १ । ३ ॥

कण्डवादि शब्दों के तृतीय एकाच् अवयव को द्वित्व हो । कण्डूयितुमिच्छति कण्डूयिषति, असूययिषति ।

६२२—वा०—वा नामधातूनां तृतीयस्य द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥ ६ । १ । ३ ॥

नामधातुओं के तृतीय एकाच् अवयव को विकल्प करके द्वित्व हो । क्यजन्तात् सन् आत्मनोऽध्मिच्छति अर्श्रीयति, अर्श्रीयितुमिच्छति अर्श्रीयिषति, अर्श्रीयिषति ।

६२३—अपर आह—यथेष्टं वा नामधातूनाम् ॥

६ । १ । ३ ॥

पुत्रीयितुमिच्छति पुपुत्रीयिषति, पुतित्रीयिषति, पुत्रीयिषति अजादि के आदि को छोड़कर औरों को यथेष्ट द्वित्व होता है । अभ्यापनीयितुमिच्छति अदिभ्यापनीयिषति, अभ्यापिपनीयिषति, अभ्यापनिर्णयिषति, अभ्यापनीयिषति । न, द, र, ये संयुक्त हो तो इन में जो अच् से परे हो उसको द्वित्व का निषेध है<sup>१</sup> । आत्मन इन्द्रमिच्छति इन्द्रीयति, इन्द्रीयितुमिच्छति इन्द्रीयिषति, इन्द्रीयिषति । प्रियमाचष्टे प्रापयति, प्रापयितुमिच्छति पिप्रापयिषति, प्रापिपयिषति, प्रापयिषति ऋमाचष्टे वारयति, वारयितुमिच्छति [विवारयिषति] वारिरयिषति, वारयिषति । बाढमाचष्टे साधयति, साधयितुमिच्छति सिसाधयिषति, सादिधयिषति, साधयिषति ।

अतिशयन पुनः पुनत्रो भवति, बोभूयते, बोभूयितुमिच्छति, बोभूयि-  
षत्, बोभूयिषमाचष्टे बोभूयिषयति, बोभूयिषयितुमिच्छति, बोभूयिष-  
यिषति । अन्तिकमाचष्टे नेदयति, आत्मनो नेदयितुमिच्छति, नेदयी-  
यति, नेदयितुमिच्छति निनेदयीयति, निनेदयीयिषमाचष्टे, निनेद-  
यीयिषयति । गोमन्तमाचष्टे गवयति, आत्मनो गवयमिच्छति  
गवयीयात्, गवर्यायितुमिच्छति [ जिगवयीयिषति ], गविवयीयिषति,  
प्राचकीयितुमिच्छति, पिपाचकीयति । आख्यातमाचष्टे आख्यात-  
यति, आख्यातयितुमिच्छति आचख्यातयति । इत्यादि असख्य  
प्रयोग प्रत्ययमाला म वन सकन हैं । सो व्याकरण मे पूर्ण प्रवेश  
होने के अधीन हैं ।

॥ इति प्रत्ययमालाप्रक्रिया समाप्ता ॥

## अथात्मनेपदप्रक्रिया ॥

अनुदात्त और ङित् धातुओं से आत्मनेपद ( १५ ) सूत्र में कह चुके हैं । आस्ते, शेत, प्रवते, प्लवते इत्यादि ।

६२४-भावकर्मणोः ॥ १ । ३ । १३ ॥

भाव और कर्म में विहित जो लकार उसके स्थान में आत्मनेपद है । भाव में-आस्यते भवता, शय्यन् भवता । कर्म में-क्रियते कटः, हियते भारः ।

६२५-कर्तारि कर्मव्यतिहारे ॥ १ । ३ । १४ ॥

परस्पर एक दूसरे का काम करे इस अर्थ में वर्तमान धातु से कर्ता में आत्मनेपद हो । व्यतिलुनते, व्यतिपुनते, व्यतिस्ते, व्यतिषाते, व्यतिषते । [ व्यतिसे ] ( ५४ ) इससे सलोप व्यतिध्वे, यहां ( ११३ ) सूत्र से सलोप । व्यतिहे. ( ११४ ) सूत्र से अस् के स को ह । कर्मव्यतिहार करने से यहां न हुआ-स्व स्वं चैत्रं लुनन्ति । कर्ता का ग्रहण अगले सूत्रों के लिये है ।

६२६-न गतिहिंसार्थेभ्यः ॥ १ । ३ । १५ ॥

गत्यर्थक और हिंसार्थक धातुओं से कर्मव्यतिहार अर्थ में आत्मनेपद न हो । गत्यर्थे-व्यतिगच्छन्ति, व्यतिसर्पन्ति, हिंसार्थे-व्यतिहिसन्ति, व्यतिघ्नन्ति ।

६२७-वा०-प्रतिषेधे ह्रसादीनामुपसंख्यानम् ॥

१ । ३ । १५ ॥

यहां आत्मनेपद के प्रतिषेध में ह्रपादिकों का भी ग्रहण करना चाहिये । ह्रस के सदृश शब्दक्रिया वाले धातु ह्रसादि कहते हैं । व्यतिहसन्ति, व्यातजल्पन्ति, व्यतिपठन्ति ।

६२८—वा०—हरिवहोरप्रतिषेधः ॥ १ । ३ । १५ ॥

हृ और वह धातु से कमेव्यतिहार अर्थ में आत्मनेपद होने का प्रतिषेध न हो । सप्रहरन्ते राजानः, सविवहन्ते गर्गैः ।

६२९—इतरेतरान्योन्योपपदाच्च ॥ १ । ३ । १६ ॥

इतरेतर और अन्योन्य उपपद हो तो कर्मव्यतिहार अर्थ में धातु से आत्मनेपद न हा । इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति, अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति ।

६३०—वा०—परस्परौपपदाच्च ॥ १ । ३ । १६ ॥

परस्पर उपपद हो तो कमेव्यतिहार अर्थ में धातु से आत्मनेपद न हो । परस्परस्य व्यतिलुनन्ति, परस्परस्य व्यतिपुनन्ति ।

६३१—नेविशः ॥ १ । ३ । १७ ॥

निपूर्वक विश् धातु से आत्मनेपद हो । निविशते । नि ग्रहण से यहा न हुआ । प्रविशति “अर्थवत् आगमस्तद्गुणीभूतोऽर्थवद्ग्रहणेन गृह्यते”<sup>१</sup> इसमें अट् के व्यवधान में भी होता है । न्यविशत “अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य”<sup>२</sup> इससे यहा न हुआ—मधुनि विशन्ति भ्रमराः ।

६३२—परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥ १ । ३ । १८ ॥

परि. वि और अव उपसर्गों से परे डुक्रीञ् धातु से आत्मनेपद हो । परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । यहा न हुआ—बहुवि-<sup>३</sup>क्रीणीति वनम् ।

६३३—विपराभ्याञ्जेः ॥ १ । ३ । १९ ॥

वि और परा उपसर्ग से परे जि धातु से आत्मनेपद हो ।

१. पारि० ११ ।

२. पारि० १४ ।

३. बहुवो वय. सन्ति यस्मिन् वने तद् बहुवि वनम् ।

विजयते, पराजयते । उपसर्गं ग्रहणं से यहा न हुआ-बहुविजयति वनम्, परा जयति सेना ।

६३४-आङो दोऽनास्यविहरणे ॥ १ । ३ । २० ॥

मुख के फैलाने अर्थ से अन्यत्र अर्थ मे आङपूर्वक हुदान् धातु से आत्मनेपद हो । विद्यामादत्ते । अनास्यविहरणं कहने से यहां न हुआ-आस्यं व्याददाति । आस्यविहरणं के समान जो और क्रियाएँ हैं उनमे भी प्रतिषेध होता है । जैसे-विपादिका व्याददाति, कूलं व्याददाति ।

६३५-वा०-स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यम् ॥

१ । ३ । २० ॥

“अनास्यविहरणं” यहा स्वाङ्गकर्म वाले दा धातु से आत्मनेपद प्रतिषेध कहना चाहिये । इससे यहा प्रतिषेध न हुआ । व्याददते पिपीलिका पतङ्गस्य मुखम् ।

६३६-क्रीडोऽनुसंपरिभ्यश्च ॥ १ । ३ । २१ ॥

अनु, सम्, परि ओर आङ् उपसर्गों से परे जो क्रीड धातु उससे आत्मनेपद हो । अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते, आक्रीडते । उपसर्ग नियम से यहा नहीं होता-अनुक्रीडति माणवकम्, माणवकेन सह क्रीडतीत्यर्थ । यहाँ “तृतीयार्थे”<sup>१</sup> इससे अनु की कमेप्रवचनीय-संज्ञा है, किन्तु उपसर्गसंज्ञा नहीं । “समोऽकूजनै”<sup>२</sup> सम् से परे क्रीड से अकूजन अर्थ मे आत्मनेपद होना चाहिये, अर्थात् यहां न हो-संक्रीडन्ति शकटानि ।

६३७-वा०-आगमेः क्षमायाम् ॥ १ । ३ । २१ ॥

सहन अर्थ में आङ्पूर्वक णिजन्त गम धातु से आत्मनेपद हो ।  
माणवक्रमागमयस्व तावत्, सहनं कुरु ।

६३८—वा०—शिक्षेर्जिज्ञासायाम् ॥ १ । ३ । २१ ॥

जानने की इच्छा में शिक्ष धातु से आत्मनेपद हो । विद्यासु  
शिक्षते, धनुषि शिक्षते । विद्या वा धनुर्विषय के ज्ञान में समर्थ होने  
की इच्छा करता है ।

६३९—वा०—किरतेर्हर्षजीविकाकुलायकरणेषु ॥  
१ । ३ । २१ ॥

हृषे आनन्द, जीविका, कुलायकरण गड्ढा करना इन अर्थों में  
किरति धातु से आत्मनेपद हो । अपस्किरते वृषो हृष्टः, अपस्किरते  
कुक्कुटो भक्षार्थी, अपस्किरन्त श्वा आश्रयार्थी ।

६४०—वा०—हरतेर्गतताच्छ्रित्ये ॥ १ । ३ । २१ ॥

किसी प्रकार क स्वभाव होने अर्थ में हृधातु से आत्मनेपद हो ।  
पैतृकमश्वानुहरन्ते, मातृक गावोऽनुहरन्ते । घोडा पिता से पाये  
हुए प्रकार का अनुहार करत हैं, तथा गौ मातृस्वभाव का अनुहार  
करती हैं ।

६४१—वा०—आशिपि नाथः ॥ १ । ३ । २१ ॥

आशीवांश अर्थ में ही नाथ से आत्मने पद हो । सर्पिपो नाथते  
मधुनो वा ।

६४२—वा०—आङ् निपृच्छ्योः ॥ १ । ३ । २१ ॥

आङ् पूर्वक नि और पृच्छ धातु से आत्मनेपद हा—आनुते  
शृगालः, उ-कण्ठापूर्वक शब्दं करोतीत्यर्थः । आपृच्छते गुरुम् ।

६४३—वा०—शप उपलम्भने ॥ १ । ३ । २१ ॥

१. उपलम्भन का अर्थ शप देना भी होता है ।

उलाहना देने में शप धातु से आत्मनेपद हो—गुरवे शपते ।

६४४—समवप्रविभ्यः स्थः ॥ १ । ३ । २२ ॥

सम्, अव, प्र और वि उपसर्गों से परे स्था धातु से आत्मनेपद हो । सतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते ।

६४५—वा०—आडः स्थः प्रतिज्ञाने ॥ ३ । १ । २२ ॥

प्रतिज्ञा अर्थ में आड से परे स्था धातु से आत्मनेपद हो । अस्ति सकारमातिष्ठते, आगमो गुणवृद्धी आतिष्ठते, विकारो गुणवृद्धी आतिष्ठते ।

६४६—प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ॥ १ । ३ । २३ ॥

अपने अभिप्राय के प्रकाश और विवाद के निरणेय करने वाले की आख्या म स्था धातु से आत्मनेपद हो । भायो तिष्ठते पत्य, विदुषे तिष्ठते जिज्ञासुः, संशय्य कणादिषु तिष्ठते यः ।

६४७—उदोऽनूर्ध्वकर्माणि ॥ १ । ३ । २४ ॥

अनूर्ध्वे कर्म में वर्तमान उद् उपसर्ग से परे स्थाधातु से आत्मनेपद हो । “उद् ईहायाम्” यहाँ उद् उपसर्ग से चेष्टा अर्थ में कहना चाहिये । गहे उत्तिष्ठते । घर की उन्नति के लिये यत्न करता है । अनूर्ध्वेकर्म कहने से यहाँ न हुआ—आसनादुत्तिष्ठति । ईहाग्रहण से यहाँ न हुआ—उत्तिष्ठति सेना, उत्पद्यत जायत इत्यर्थः ।

६४८—उपान्मन्त्रकरणे ॥ १ । ३ । २५ ॥

मन्त्रकरण<sup>१</sup> में उप से परे स्था धातु से आत्मनेपद हो । ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते, आग्नेय्याऽऽग्नीध्रमुपतिष्ठते । मन्त्रकरण अर्थ के ग्रहण से यहाँ न हुआ—पतिमुपतिष्ठति यौवनेन ।

१. मन्त्र हैं करण, साधन जिसमें वह मन्त्रकरण अर्थात् स्तुति कहाती है ।



६४६—वा०—उपाद्देवपूजासंगतिकरणमित्रक-  
रणपथिष्विति वक्तव्यम् ॥१।३।२५॥

देवपूजा, सङ्गतिकरण, मित्रकरण और मार्ग अर्थ में उप से परे स्था धातु से आत्मनेपद हो। देवपूजायाम्—आदित्यमुपतिष्ठते, चन्द्रमसमुपतिष्ठते। सङ्गतिकरणे—रथिकानुपतिष्ठते, अश्वारोहानुपतिष्ठते। सङ्गतिकरण समीप जाकर मित्रपन से वर्तमान और मित्रकरण तो समीप वा असमीप में केवल मित्रपन समझना चाहिए<sup>१</sup>। पथिषु—अयं पन्थाः सुहनमुपतिष्ठते, अयं पन्थाः साकेतमुपतिष्ठते।

६५०—वा०—वा लिप्सायाम् ॥ १ । ३ । २५ ॥

लाभ की इच्छा अर्थ में स्था धातु से आत्मनेपद हो। भिक्षुको ब्राह्मणकुलमुपतिष्ठन् [ उपतिष्ठति वा ]

६५१—अकर्मकाच्च ॥ १ । ३ । २६ ॥

उप पूर्वक अकर्मक अथान् अकर्मकक्रियावचन स्था धातु से आत्मनेपद हो। यावद् भुक्तमुपतिष्ठते, यावदोदनमुपतिष्ठते। भोजन २ में सन्निहित होता है। अकर्मक ग्रहण से यहाँ न हुआ—२।जानमुपतिष्ठति।

६५२—उद्विभ्यां तपः ॥ १ । ३ । २७ ॥

उद् और वि उपसर्ग से परे अकर्मकक्रियावचन तप धातु से आत्मनेपद हो। उत्तपते, वितपते। प्रकाशित होता है। अकर्मक ग्रहण से यहाँ न हुआ—उत्तपति सुवर्ण सुवर्णकार, वितपति पृष्ठं सविता।

१ इसका भाव यह है—संगतिकरण में उपदलेष (परस्पर मिलना) होता है, और मित्रकरण में उपदलेष की आवश्यकता नहीं होती है।

६५३—वा०—स्वाङ्गकर्मकाच्च ॥ १ । ३ । २७ ॥

उद् और वि से परे स्वाङ्गकमेक तप धातु से आत्मनेपद हो ।  
उत्तपते पाणिम्, वितपते पाणिम्, उत्तपते पृष्ठम्, वितपते पृष्ठम् ।  
स्वाङ्ग यहां अपने ही अङ्ग का ग्रहण है अर्थात् “स्वमङ्गं स्वाङ्गम्”,  
किन्तु “अद्रवं मूर्त्तिमत्<sup>१</sup>” इस परिभाषा से जो उक्त है वह नहीं  
लिया जाता है । इससे यहां नहीं हुआ—देवदत्तो यद्देवदत्तास्य पाणि-  
मुत्तपति । उद्, वि ग्रहण से यहां न हुआ—निष्टपति ।

६५४—आडो यमहनः ॥ १ । ३ । २८ ॥

आड से परे अकर्मकक्रियावचन यम और हन धातु से आत्म-  
नेपद हो । आयच्छते, आयच्छेते, आयच्छन्त, आहत ( ३०३ )  
अनुनासिक लाप—आहनते, आहनत । अकमेक ग्रहण से यहां न  
हुआ—आयच्छति रङ्जुं कृपात्, आहन्ति वृषलं पादेन ।

१ अद्रव मूर्त्तिमत् स्वाङ्ग प्राणिस्थमविकारजम् ।

अतत्स्थ तत्र दृष्ट च तस्य चेत् तथा युतम् ॥

अप्राणिनोऽपि स्वाङ्गसञ्ज भवति । महा० ४ । १ । ५४ ॥

अर्थात्— जो द्रव = बहने वाली नहीं है, मूर्त्तिमान् है, प्राणा से  
रहने वाला है, विकार से उत्पन्न नहीं है और प्राणि से अन्यत्र भी देखा  
जाता है उस की स्वाङ्ग सञ्जा होती है ।

द्रव का निषेध करने से कफ, लोहित, मूर्त्त कहने से मन बुद्धि,  
विकारज का निषेध करने से फोडे, फुन्सी और प्राणि से अन्यत्र भी  
देखा जाय कहने से शिर उर. आदि का निषेध समझना चाहिये अर्थात्  
इन की स्वाङ्ग सञ्जा नहीं होती ।

उपर्युक्त लक्षण से जिसकी स्वाङ्ग सञ्जा की है वह अवयव यदि  
अप्राणिक हो तो उस की भी स्वाङ्ग सञ्जा होती है ।

६५५—वा०—स्वाङ्गकर्मकाच्च ॥ १ । ३ । २८ ॥

आङ् से परे स्वाङ्गकर्मक यम और हन् धातु से आत्मनेपद हो।  
आयच्छते पाणि, आहते उदरम्।

६५६—आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् ॥ २ । ४ । ४४ ॥

आत्मनेपद प्रत्यय परे हो तो लुङ्लकार मे हन् धातु को वध  
आदेश विकल्प करके हो। आवधिष्ट, आवधिषाताम्, आवधिषत।  
जिम पक्ष मे वध आदेश न हुआ वहा—

६५७—हनः सिच् ॥ १ । २ । १४ ॥

हन् धातु से परे आत्मनेपद मे क्लादि सिच् किद्वत् हो।  
आहत, आहमाताम्, आहसत।

६५८—यमो गन्धने ॥ १ । २ । १५ ॥

दूसरे क दोष को प्रकाश करने मे यम धातु से परे जो क्लादि  
सिच् सो किद्वत् हो आत्मनेपद मे। शत्रुमुदायत, उदायसाताम्,  
उदायसत। गन्धनग्रहण से यहा न हुआ—उदायस्त पादम्। यहा  
“समुदाङ्भ्यः” इस आगामी सूत्र से आत्मनेपद हुआ।

६५९—समो गम्यच्छिभ्याम् ॥ १ । ३ । २९ ॥

सम उपसर्ग से परे अकर्मक क्रियावचन गम और ऋच्छ धातु  
से आत्मनेपद हो। सगच्छते शास्त्रम्, सम्यच्छते वस्त्रम्। अकर्मक  
ग्रहण से यहा न हुआ—सगच्छति ग्रामम्।

६६०—वा गमः ॥ १ । २ । १३ ॥

गम धातु से परे आत्मनेपद विषयक क्लादि लिङ् सिच्  
[विकल्प से] किद्वत् हो। संगंसीष्ट, संगंसीष्ट, समगत, समगंस्त।

६६१—वा०—समो गमादिषु विदिपृच्छिस्वर-  
तीनामुपसंख्यानम् ॥ १ । ३ । २ ॥

सम् से परे गमादिकों में विद, प्रच्छ, स्तृ इन धातुओं से आत्मनेपद कहना चाहिये। संवित्ते, संविदाते, संपृच्छते, संस्वरते। यहाँ अकर्मक की अनुवृत्ति ( ६५० ) सूत्र से नहीं आती है।

६६२—वेतेर्बिभाषा ॥ ७ । १ । ७ ॥

विद ज्ञाने धातु से परे प्रत्ययादि भ्रकार के स्थान में ( १२३ ) से अत् और उसका रुट् आगम विकल्प करके हा आत्मनेपद विषय मे। इस सूत्र मे 'वेत्ति' को रुडागम कहा है इसी कारण पूर्व वार्तिक मे विद् करके वेत्ति का ही ग्रहण है, अन्य विद् का नहीं। सम् विद् + रुट् + अत् + अ = संविद्रते। संविदते।

६६३—वा०—अर्त्तिश्रुहाशिभ्यश्च ॥ १ । ३ । २६ ॥

सम् से परे ऋ, श्रु और दृश धातु से आत्मनेपद हो। मासमृत, मासपृषाताम्, मासमृषत ऋ, संश्रृणुन, संपश्यते।

६६४—वा०—उपसर्गादस्यत्यूहोर्वा वचनम् ॥ १ । ३ । २६ ॥

\* यहा कौमुदीकार वा काशिकाकार आदि ने ऋ धातु से आत्मनेपद विषयक लुङ् लकार में विल के स्थान में अट् "सर्तिहारत्यत्तिभ्यश्च<sup>२</sup>" सूत्र से करके "मासमरत, मासमरेताम्, मानमरन्त<sup>३</sup>" इत्यादि प्रयोग बनाये हैं। मो महाभाष्य से विरुद्ध है क्योंकि महाभाष्यकार केशास इदद् हला<sup>४</sup>। इस सूत्र के व्याख्यान<sup>५</sup> से निश्चिन होता है कि "नर्तिशास्ति०" सूत्र में परस्मैपद को अनुवृत्ति है ॥

उपसर्ग से परे जो अस् और ऊह धातु उनसे विकल्प करके आत्मनेपद हो । निरस्यति, निरस्यते; समूहति, समूहते ।

६६५—उपसर्गाद्भ्रस्व ऊहतेः ॥ ७ । ४ । २३॥

उपसर्ग से परे ऊह धातु का ह्रस्व हो, यकारादि कित् कित् प्रत्यय परे हों तो । समुह्यादभ्रिम् ।

६६६—निसमुपविभ्यो हः ॥ १ । ३ । ३० ॥

नि, सम्, उप और वि इनसे परे जो ह् धातु उससे आत्मनेपद हो । निह्वयत, संह्वयत, उपह्वयत, विह्वयते ।

६६७—स्पर्धायामाङः ॥ १ । ३ । ३१ ॥

स्पर्धा अर्थान् दूसरे के तिरस्कार करने की इच्छा में वत्तेमान आङ् उपसर्ग स परे जा ह्वा धातु उससे आत्मनेपद हो । मल्लो मल्लमाह्वयते, छात्रश्छात्रमाह्वयत । स्पर्धा से अन्यत्र—गामाह्वयति गोपाल ।

६६८—गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनापयोगेषु कृञः ॥ १ । ३ । ३२ ॥

गन्धन ( चुगर्ला ), अवक्षेपण ( वमकाना ), सेवन ( सेवा ), साहसिक्य ( दंठ ), प्रतियत्न ( गुणाधान ), प्रकथन, उपयोग ( धर्मार्थे नियम ) इन अर्थों में वत्तेमान कृञ् धातु से आत्मनेपद हा । गन्धन—शत्रुमुत्कुरुते । अवक्षेपण—श्येनावर्तिकामुदाकुरुते । सेवन—आचार्यमुपकुरुते शिष्य , पग्दारान् प्रकुरुते । प्रतियत्न—एवोदकस्योपस्कुरुते गुहस्योपस्कुरुते । प्रकथन—जनापवादान् प्रकुरुते । उपयोग—शतं प्रकुरुते । सहस्रं प्रकुरुते, धर्मार्थं विनियुह्त् इत्यर्थः । इन अर्थों से अन्यत्र—कटं करोति ।

६६९—अधेः प्रसहने ॥ १ । ३ । ३३ ॥

सहन वा तिरस्कार करने अर्थ मे अधि से परे कृञ् धातु से आत्मनेपद हो। सहन—शीतमधि कुरुते। तिरस्कार—शत्रुमधिकुरुते। अन्यत्र—अर्थमधिकरोति।

६७०—वेः शब्दकर्मणः ॥ १।३।३४ ॥

वि उपसर्ग से परे शब्दकर्मवाले कृञ् धातु से आत्मनेपद हो। यहां कर्मकारक का प्रहण है। क्रोष्टा विकुरुते स्वरान्, भ्वाङ्त्तो विकुरुते स्वरान्। अन्यत्र—विकरोति पयः।

६७१—अकर्मकाच्च ॥ १।३।३५ ॥

वि उपसर्ग से परे अकर्मक कृञ् धातु से आत्मनेपद हो। विकुर्वते सैन्धवाः, शोभनं वल्गन्वीत्यर्थे।

६७२—सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृ-  
तिविगणनव्ययेषु नियः ॥ १।३।३६ ॥

सम्मानन (अच्छे प्रकार मान), उत्सञ्जन (उछालना), आचार्यकरण ( आचार्यक्रिया ), ज्ञान, भृति ( वेतन ), विगणन ( ऋणादि का चुकाना ), व्यय ( धमादि कामो मे खर्च करना ) इन अर्थों मे वर्तमान नी धातु से आत्मनेपद हो। सम्मानन—मातरं सन्नयते। उत्सञ्जन—दण्डमुन्नयते। आचार्यकरण—माणवकमुपनयते। ज्ञान-तरुं नयते। भृति—कर्मकरानुपनयते, भृतिदानेन समीपं नयत इत्यर्थे। विगणन—मद्रा करं विनयन्ते। राजा का उगाही आदि धन देते हैं। व्यय—शत विनयते। धर्मार्थं शत मुद्रा खर्च करता है।

६७३—कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि ॥ १।३।३७ ॥

कर्ता मे स्थित शरीर भिन्न कर्म उपपद हो तो नी धातु से आत्म-  
नेपद होवे। शरीर का एकदेश भी शरीर कहाता है। कोधं विनयते,  
मन्युं विनयते। कर्तृस्थ प्रहण इसलिये है कि—देवदत्तो यज्ञदत्तस्य

क्रोधं विनयति । अशरीर ग्रहण इसलिये है कि—हस्तं विनयति ।  
कर्म ग्रहण इसलिये है कि—बुद्ध्या विनयति ।

**६७४—वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः ॥ १ । ३ । ३८ ॥**

वृत्ति ( अनिरोध ), सर्ग ( उत्साह ), तायन ( विस्तार ) इन अर्थों में वर्तमान क्रम धातु से आत्मनेपद हो । वृत्ति—मन्त्रेष्वस्य क्रमते बुद्धिः । सर्ग—व्याकरणाध्ययनाय क्रमते । तायन—क्रमन्ते ऽस्मिन् शास्त्राणि । वृत्ति आदि में अन्यत्र—अपक्रामति बालः ।

**६७५—उपपराभ्याम् ॥ १ । ३ । ३६ ॥**

वृत्ति, सर्ग, तायन अर्थों में उप और परा उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से परे ही आत्मनेपद हा, अन्य उपसर्गों से नहीं । उपक्रमते, पराक्रमते । उप, परा के नियम से 'सक्रामति' यहां आत्मनेपद नहीं होता । वृत्ति आदि अर्थों से अन्यत्र—उपक्रामति, पराक्रामति ।

**६७६—आङ् उद्गमने ॥ १ । ३ । ४० ॥**

बा०—ज्योतिषामुद्गमने ( १ । ३ । ४० ) आङ् से परे सूर्य आदि के ऊपर को उठने अर्थ में वर्तमान क्रम धातु से परे आत्मनेपद हो । आक्रमते सूर्यः, आक्रमते चन्द्रमाः । उद्गमन से अन्यत्र—आक्रामति माणवक कुतुपम् । ज्योतियो के ग्रहण से अन्यत्र—'आक्रामति धूमां हर्म्यतलात्' यहां आत्मनेपद न हो ।

**६७७—वेः पादविहरणे ॥ १ । ३ । ४१ ॥**

पादविहरण अर्थ में वर्तमान वि उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद हो । साधु विक्रमते वाजी । पादविहरण से अन्यत्र—विक्रामति सन्धिः ।

**६७८—प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् ॥ १ । ३ । ४२ ॥**

तुल्यार्थ प्र और उप से परे जो क्रम धातु है उससे आत्मनेपद हो। प्रक्रमते भोक्तुम्, उपक्रमते भोक्तुम्। प्र और उप दोनों शब्द आरम्भ अर्थ में तुल्यार्थ हैं। समर्थ ग्रहण इसलिये है कि—‘पूर्वेद्युः प्रक्रामति, अपरेद्युरुपक्रामति’ यहा आत्मनेपद न हां।

६७६—अनुपसर्गाद्वा ॥ १ । ३ । ४३ ॥

उपसर्गे रहित क्रम धातु से आत्मनेपद विकल्प करके हां। क्रमते, क्रामति। अनुपसर्ग कहने से—‘सक्रामति’ में न हुआ।

६८०—अपह्ववे ज्ञः ॥ १ । ३ । ४४ ॥

मिथ्या अर्थ में वर्तमान ज्ञा धातु से आत्मनेपद हां। शतमप-जानीते। अपह्वव अर्थ से अन्यत्र—न त्व किंचिदपि जानासि।

६८१—अकर्मकाच्च ॥ १ । ३ । ४५ ॥

अकर्मक ज्ञा धातु से आत्मनेपद हां। सर्पिपो जानीते। यहा करण में षष्ठी है। अकर्मक से अन्यत्र—‘स्वरेण पुत्रं जानाति’ यहा आत्मनेपद नहीं होता।

६८२—संप्रतिभ्यामनाध्याने ॥ १ । ३ । ४६ ॥

उत्कण्ठापूर्वक स्मरण से अन्य अर्थ में सम् और प्रति उपसर्गो पूर्वके ज्ञा धातु से आत्मनेपद हां। शत संजानीते, शतं प्रतिजानीते। स्मरण का निषेध इसलिये है कि—मातुः संजानाति वाल।

६८३—भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युप-

मन्त्रणेषु वदः ॥ १ । ३ । ४७ ॥

भासन ( दीप्ति ), उपसभाषा ( समीप से समझना ), ज्ञान ( सम्यग्बोध ), यत्न ( उत्साह ), विमति ( नाना प्रकार की बुद्धि ), उपमन्त्रण ( एकान्त में कहना ), इन अर्थों में वद धातु से आत्मनेपद हो। भासन—शास्त्रे वदते, शास्त्र में विद्याप्रकाश



को प्राप्त हुआ कह रहा है। उपसंभाषा—कर्मकरानुपवदते । ज्ञान—  
व्याकरणे वदते । यत्न—क्षेत्रे वदते, गेहे वदते । विमति—सदसि-  
विवदन्ते त्रिद्वंसः । उपमत्रण—राजानमुपवदते मन्त्री । भासन  
आदि अर्थों में अन्यत्र—यत् किञ्चिद्वदति ।

६८४—व्यक्तवाचां समुच्चारणे ॥ १ । ३ । ४८ ॥

स्पष्ट वर्ण बोलने वालों के एक साथ उच्चारण करने अर्थ में  
वर्तमान वद धातु से आत्मनेपद हो । संप्रवदन्ते ब्राह्मणा । व्यक्त-  
वाणी वालों का ग्रहण इसलिये है कि—संप्रवदन्ति कुक्कुटाः ।  
साथ उच्चारण करने से अन्यत्र—‘ब्राह्मणो वदति’ यहा आत्मनेप  
न हो ।

६८५—अनोरकर्मकात् ॥ १ । ३ । ४९ ॥

स्पष्ट वर्ण बोलने वालों के एक साथ उच्चारण करने अर्थ में वत्से-  
मान अनु उपमगे में परे वद धातु में आत्मनेपद हो । अनुवदते  
कठ कृतापम्य । जैसे कलाप पढ़ना हुआ कहता है वैसे कठ नी ।  
अरुर्क ग्रहण में यहा न हुआ—उक्तमनुवदति । व्यक्तवाग् ग्रहण  
से यहा न हुआ—अनुवदति वीणा । यहा सदृश अर्थमात्र है ।

६८६—विभाषा विप्रलापे ॥ १ । ३ । ५० ॥

विरुद्धकथन में व्यक्तवर्ण बोलने वालों के एक साथ उच्चारण अर्थ  
में पद धातु से परे आत्मनेपद विकल्प करके हो । विप्रवदन्ते, विप्रव-  
दन्ति वा वैयाकरणाः । एक दूसरे के पक्ष का खण्डन करने से विरुद्ध  
बोलते हैं । विप्रलाप से अन्यत्र—संप्रवदन्ते ब्राह्मणा । व्यक्तवाणी  
से अन्यत्र—विप्रवदन्ति शकुनयः समुच्चारण से अन्यत्र—मेण  
तार्किकस्तार्किकेण सह विप्रवदति ।

६८७—आवद् ग्रः ॥ १ । ३ । ५१ ॥

अव उपसर्ग से परे जो ग धातु उससे आत्मनेपद हो । अव-  
गिरते, अवागिरते । अव से अन्यत्र—गिरति ।

६८८—समः प्रतिज्ञाने ॥ १ । ३ । ५२ ॥

प्रतिज्ञा अर्थ मे वर्तमान सम्पूर्वक ग धातु से आत्मनेपद हो ।  
शत सगिरते, नित्य शब्दं संगिरत । प्रतिज्ञा अर्ब से अन्यत्र—  
सगिरति प्रासम्' यहा आत्मनेपद नही होता ।

६८९—उदश्चरः सकर्मकात् ॥ १ । ३ । ५३ ॥

उद्पूर्वक सकर्मक चर धातु से आत्मनेपद हा । धर्ममुच्चरते,  
गुरुवचनमुच्चरते । धर्म और गुरु के वचन का उल्लङ्घन करता है ।  
सकर्मक से अन्यत्र—वाष्पमुच्चरति कृपात् ।

६९०—समस्तृतीयायुक्तात् ॥ ३ । १ । ५४ ॥

तृतीया विभक्ति से युक्त सम्पूर्वक चर धातु से आत्मनेपद  
हो । रथेन संचरते, अश्वेन संचरते । तृतीया से अन्यत्र—'उभौ  
लाकौ संचरति' यहां न हो ।

६९१—दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे ॥ १ । ३ । ५५ ॥

अशिष्टव्यवहार अर्थ मे तृतीया विभक्ति से युक्त सम्पूर्वक दाण  
धातु से आत्मनेपद हो परन्तु वह तृतीया विभक्ति चतुर्थी के अर्थ  
मे हो तो । दास्या संप्रयच्छते, वृषल्या संप्रयच्छते. कामी पुरुष दासी  
और वेश्या को कुछ देता है । चतुर्थ्यर्थ से अन्यत्र—पाणिना  
संप्रयच्छति ।

६९२—उपाद्यमः स्वकरणे ॥ १ । ३ । ५६ ॥

हाथ पकड़ कर जो स्वीकार करना है उस अर्थ में वर्तमान यम  
धातु से आत्मनेपद हो । भार्यामुपयच्छते । स्वकरण ग्रहण करने से  
यहां न हुआ । पटमुपयच्छति । देवदत्ता यज्ञदत्तास्य भार्यामुपयच्छति ।

६६३—जाश्रुस्मृदृशां सनः ॥ १ । ३ । ५७ ॥

ज्ञा, श्रु, स्मृ और दृश् इन वातुओं के सन् प्रत्यय से परे आत्मनेपद हो। धर्म जिज्ञासते, गुरु शुश्रूषते, विस्मृतं सुस्मूर्पते, नृप दिदृक्षते। मन् प्रहण से यहाँ न हुआ—जानाति, श्रृणाति, स्मरति, पश्यति।

६६४—नानोर्जः ॥ । ३ । ५८ ॥

अनु उपसर्ग से परे ज्ञा वातु के सन् से आत्मनेपद न हो। पुत्रमनुजिज्ञासति। 'अनु'प्रहण से यहाँ न हुआ—धर्म जिज्ञासते।

६६५—प्रत्याङ्भ्यां ँवः ॥ १ । ३ । ५९ ॥

प्रति और आङ् उपसर्ग से परे सन्नन्त श्रु धाट् से आत्मनेपद न हो। प्रति शुश्रूषति। आशुश्रूषति। उपसर्ग मानने से यहाँ न हुआ—देवदत्त प्रति शुश्रूषते।

६६६—पूर्ववत्सनः ॥ १ । ३ । ६२ ॥

सन्नन्त से पूर्ववत् आत्मनेपद हो। अथोत् जिस निमित्त से प्रथम आत्मनेपद होता हा, उसी निमित्त मे सन्नन्त में भी आत्मनेपद हो। जैम—अनुदात्ता ङिन् से आत्मनेपद होता है। आस्त, शेते। वैम ही उन्हीं निमित्तों से सन्नन्त मे भी आत्मनेपद हो। आसिसिषन, शिर्गायिषन, निविशत, निविविदत, आक्रमत, आचिक्रंसते। सन्नन्त शब्द और सृष्ट् वातु से आत्मनेपद न हागा। क्योंकि उनसे आत्मनेपद विधान मे सन्नन्त से निषेध है ❀ ॥

६६७—प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ॥ १ । ३ । ६४ ॥

\* ( २३२, ४३१ ) सूत्रों में आत्मनेपद विधान का नियम है, सो सन्नन्त में आत्मनेपद नहीं होता क्योंकि ( २३२, ४३१ ) सूत्रों में ( ६६४, ६६५ ) सूत्रों से मन्मन्त मे निषेध की अनुवृत्ति आती है—शिशत्सति, सुमूर्षति।

अयज्ञपात्र प्रयोग मे प्र और उप से परे युज धातु से आत्मनेपद हो। प्रयुङ्क्ते, उपयुङ्क्ते। “अयज्ञपात्र” ग्रहण से यहां न हुआ—  
द्वन्द्व यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति ।

६६८—वा०—स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति वक्तव्यम्

॥ १ । ३ । ६४ ॥

स्वर जिसके आदि तथा अन्त मे हो उस उपसर्ग से युक्त युज धातु से परे आत्मनेपद हो। अथोत् सम्, निस्, दुर्, इन तीन उपसर्गों का छोड़कर अन्य सब उपसर्गों से परे युज से आत्मनेपद हो। उद्युङ्क्ते, अयुद्युङ्क्ते, नियुङ्क्ते। यहां नहीं हाता—संयुनक्ति ।

६६९—समः क्षणवः ॥ १ । ३ । ६५ ॥

सम्पूर्वक क्षण धातु से आत्मनेपद हो। संक्षणुते शस्त्रम्। क्षणु धातु का ( ६५९ ) सूत्र मे पढ़ देते तो यह पृथक् सूत्र बनाना न पड़ता। फिर यहा सकमक ही क्षणु का ग्रहण होने के लिये पृथक् पढ़ा है। और वहा ( ६५९ ) सूत्र मे अकर्मक की अनुवृत्ति है।

७००—भुजोऽनवने ॥ १ । ३ । ६६ ॥

अपालन अथे में वर्तमान भुज धातु से आत्मनेपद हो। भुङ्क्ते, भुञ्जाते, भुञ्जते। पालन के निषेध से अन्यत्र—पृथ्वी भुनक्ति राजा। यहां रक्षार्थ के निषेध से जाना जाता है कि इस सूत्र में रुधादि के भुज का ग्रहण किया है तुदादि का नहीं।

७०१—एरणौ यत्कर्मणौ चेत्सकर्ताऽ-

नाध्याने ॥ १ । ३ । ६७ ॥

अण्यन्त अवस्था में जो कर्म वही अण्यन्त अवस्था में कर्म तथा कर्ता भी हो तो अनाभ्यान अथोत् अत्यन्त उत्साह से जो स्मरण करना है उससे भिन्न अथे में शिजन्त

धातु से आत्मनेपद हो। आराहन्ति हस्तिन हस्तिपकाः, आरोहयते हस्ती स्वयमेव, उपमिञ्चन्ति हस्तिन हस्तिपकाः, उपसेचयते हस्ती स्वयमेव, पश्यान्ति भू-या राजान, दशेयत राजा स्वयमेव। 'गि'ग्रहण से यहाँ न हुआ—आराहन्ति हस्तिन हस्तिपका मा आरोहयमाणो हस्ती साध्वाराहति। 'आण'ग्रहण से यहाँ न हुआ—गणयति गणं गोपालक, गणयति गणः स्वयमेव। 'कर्म' ग्रहण से यहाँ न हो—लुनाति दात्रेण, लावयति दात्र स्वयमेव। 'णौ चेत्' ग्रहण समान क्रिया के लिये है। आराहयमाणो हस्ती भीतान सेचयति मूत्रेण। 'यत्' ग्रहण अनन्यकर्म के लिये है—आरोहयमाणो हस्ता स्थलमाराहयति मनुष्यान्। 'कर्ता' ग्रहण इसलिये है कि—आराहन्ति हस्तिनं हस्तिपका' तानारोहयति महामात्राः। अनाध्यान ग्रहण से यहाँ न हुआ—स्मरयत्य वनगुल्म स्वयमेव। आग कर्मकर्तृप्रक्रिया लिखेंगे उमी क सदृश उदाहरण इस सूत्र में दिये हैं सा कर्मकर्ता से आत्मनेपद हो जाता, फिर विशेष यह है कि उस प्रक्रिया में जो आत्मनेपद होता है सो कर्मस्थभावक और कर्मस्थक्रियक धातुओं से होता है और यह सूत्र कर्तृस्थभावक और कर्तृस्थक्रियक धातुओं के लिये है। वैसे ही कर्तृस्थक्रियक रह और कर्तृस्थभावक दृश धातुओं के उदाहरण दिये हैं।

### ७०२—गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने ॥ १।३।६६॥

१. भाव का लक्षण—अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो धात्वर्थो भावः। अर्थात् जो परिस्पन्दन = हिलना जुलना से रहित साधन से साध्य धात्वर्थ है वह भाव कहाता है।

२ क्रिया का लक्षण—सपरिस्पन्दन साधनसाध्यो धात्वर्थः क्रिया। अर्थात् जो परिस्पन्दन गत युक्त साधन से सिद्ध होने योग्य धात्वर्थ है वह क्रिया कहाती है।

प्रलम्भन अर्थात् भूठ साच बकने अर्थ मे वर्तमान गिजन्त गृधु और वञ्चु धातुओ से आत्मनेपद हो । माणवक गर्धयते । माणवकं वञ्चयते । प्रलम्भन प्रहण से यहां न हुआ—श्वान गर्धयति । रोटी आदि से कुत्ते की इच्छा को उत्पादन कराता है । अहि वञ्चयति । सर्प को हर लेता है ।

७०३—मिथ्यापपदात्कृजोऽभ्यासे ॥ १।३।७१॥

बार २ काम करने मे मिथ्या शब्द जिसके उपपद हो उस गिजन्त कृञ् धातु से परे आत्मनेपद हो । पदं मिथ्या कारयते । पद का बार २ मिथ्या उच्चारण कराता है । मिथ्या शब्द के प्रहण से यहां न हुआ—पदं सुष्ठु कारयति । कृञ् प्रहण से यहां न हुआ—पदं मिथ्या वाचयति । अभ्यास प्रहण से यहां न हुआ—पद मिथ्या कारयति । एक बार उच्चारण कराता है ।

७०४—अपाद्वदः ॥ १ । ३ । ७३ ॥

क्रिया का फल जहाँ कर्ता के लिये हो वहा अप उपसर्ग से परे वद धातु से आत्मनेपद हो । धनकामो न्यायमपवदते । धन का लोभी न्याय को छोड़े हुए कहता है । जहां कर्तृगामी क्रियाफल नहीं है वहां 'अपवदति' होगा ।

७०५—समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ॥ १ । ३ । ७५॥

अग्रन्थ अर्था मे सम, उद् और आङ् से परे यम धातु से आत्मनेपद हो, जो क्रिया का फल कर्ता के लिये हो तो । व्रीहीन सयच्छते, भारमुद्यच्छते, वस्त्रमायच्छते । अग्रन्थ प्रहण से यहाँ न हुआ—वेदमुद्यच्छति । वेद की पुस्तक को उठाता है । उद्यच्छति चिकित्सायां वैद्यः । कर्तृगामी प्रहण से यहां न हुआ—संयच्छति शिष्यम् ।

७०६—अनुपसर्गाज्ज्ञः ॥ २ । ३ । ७६ ॥

क्रिया का फल कर्ता के लिये हो तो उपसर्ग रहित ज्ञा धातु से आत्मनेपद हो। गां जानीते, अश्व जानीते। अनुपसर्ग ग्रहण से यहां न हुआ—स्वर्ग लोकं न प्रजानाति मूढः। कर्तृगामी फल न हो तो—द्वदत्तस्य गा जानाति।

७०७—वि भाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥ १।३।७७॥

समीपवर्ती पद के उच्चारण से कर्तृगामी क्रियाफल प्रतीत हो तो 'स्वरितामित०, अपाद्द', णिच्०, समुदाङ्भ्यो य०, अनुपर्स०५' इन सूत्रों से जो आत्मनेपद कहा है वह विकल्प करके हो। स्वं यज्ञं यजति, स्व यज्ञं यजते, स्व पुत्रमपवदते, स्व पुत्रमपवदति, स्वं यज्ञं कारयति, कारयत वा, स्वान् ब्रीहीन् संयच्छति, सयच्छते वा, स्वा गां जानाति, जानीते वा।

इत्यात्मनेपदप्रक्रिया समाप्ता ॥

अथ परस्मैपदप्रक्रियारम्भः ॥

७०८—अनुपराभ्यां कृञः ॥ १ । ३ । ७६ ॥

अनु और परा उपसर्गों से परे कृञ् धातु से परस्मैपद हो। अनुकराति, पराकराति। कर्तृगामी क्रियाफल और गन्धनादि अर्थों से भी अनु और परा पूर्वक कृञ् से परस्मैपद ही होता है।

७०९—अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ॥ १ । ३ । ८० ॥

अभि, प्रति और अति उपसर्गों से परे क्षिप धातु से परस्मैपद हो। अभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति। इनसे अन्यत्र—आक्षिपते।

१ आ० १०५ । २ आ० ७०४ । ३ आ० ४५७ । ४ आ०

७०५ । ५ आ० ७०६ ।

७१०—प्राद्वहः ॥ १ । ३ । ८१ ॥

प्र पूर्वक वह धातु से परस्मैपद हो । प्रवहति । अन्यत्र—आवहते ।

७११—परमृषः ॥ १ । ३ । ८२ ॥

परि पूर्वक मृष धातु से परस्मैपद हो । परिमृष्यति । अन्यत्र—  
आमृष्यत ।

७१२—व्याङ्परिभ्यो रमः ॥ १ । ३ । ८३ ॥

वि, व्याङ् और परि उपसर्ग से परे रम धातु से परस्मैपद हो ।  
विरमति, आरमति, परिरमति । अन्यत्र—अभिरमत ।

७१३—उपाच्च ॥ १ । ३ । ८४ ॥

उप पूर्वक रम धातु से परे परस्मैपद हो । उपरमति । यह सूत्र  
अलग जो क्रिया है इससे जानना चाहिये कि अगलेसूत्र में उप उपसर्ग  
से ही अकर्मक रम धातु से परस्मैपद होगा ।

७१४—विभाषाऽकर्मकात् ॥ १ । ३ । ८५ ॥

उपपूर्वक अकर्मक रम धातु से परे विकल्प करके परस्मैपद हो ।  
उपरमति, उपरमते । निवृत्ति को प्राप्त होता है ।

७१५—बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुसुभ्यो णेः ॥

१ । ३ । ८६ ॥

बुध, युध, नश, जन, इड, प्रु, द्रु और सु इन णिजन्त धातुओं से  
परे लकार के स्थान में परस्मैपद हो । बोधयति, योधयति, नाशयति,  
जनयति, अध्यापयति, प्रावयति, द्रावयति, स्त्रावयति । बुध आदि  
धातुओं में जो अकर्मक हैं उनका ग्रहण अचित्तवत्कर्तृको के लिये  
है क्योंकि चित्तवत् कर्तृको से “अणावकर्म०” इस सूत्र से परस्मैपद  
सिद्ध है और चलनार्थक धातुओं में “निगरणचलनार्थेभ्यश्च”  
इस सूत्र से परस्मैपद सिद्ध है फिर [ उनका ग्रहण ] चलनार्थ से



अन्यत्र भी परस्मैपद होने के लिये है ।

७१६—निगारणचलनार्थेभ्यश्च ॥ १ । ३ । ८७ ॥

भोजन और कम्पन अर्थात् वाले णिजन्त धातुओं से परे परस्मै-पद हा निगारयति, निगालयति वा । भोजन कराता है । चलयति, चापयति, कम्पयति । यह भी सूत्र सकर्मक और अचित्तवत् कर्तृको के लिये है । अन्ति ब्रह्मदत्त, आदयत् देवदत्तेन । यहा इससे परस्मैपद प्राप्त है उमका निषेध कारकाय वा०—३३<sup>१</sup>मे होता है ।

७१७ - अणवकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात् ॥

१ । ३ । ८८ ॥

अणयन्त अवस्था म जा अकर्मक और चित्तवान् कर्ता वाला धातु हा उम एयन्त म परस्मैपद हा । आम्ने वाल, आसीन वालं माता प्रयाजयति इति माता वालमामयति । स्वापयति शाययति । अणयन्त अवस्थ प्ररण से यहा न हुआ आरोग्यमाण प्रयोजयति, आरोग्ययति । अकर्मकप्रहण से यहा न हुआ—कट कुर्वाणं प्रयोज-यति करायति । चित्तवत्कता से अन्यत्र—शुष्यन्ति व्रीहय, शोषयति व्रीहीनात्प ।

७१८—न पादभ्याङ्यमाङ्यसपरिसुहरुचिन्त-

तिवदवसः ॥ १ । ३ । ८९ ॥

ना, दभि, आङ्यम, आङ्यम, परिसुह, रुचि, नृति, वद और वस इन एयन्त धातुओं से परस्मैपद न हा । 'अणाव०', निगारण०<sup>३</sup> पूर्वोक्त इन दो सूत्रा से जो परस्मैपद प्राप्त है उसका निषेध किया है । पाययते, दमयत, आयामयत, आयामयते, परिमोहयते, रोचयते, नर्तयते, वादयते, वासयत । यहा ऐसा जानना चाहिये कि पा आदि

१ सर्वमव प्रत्ययवान् कार्त्तृमूर्धेर्न भवतीति वक्तव्यम्, परस्मैपदस्यपि ।

धातुओं से कर्तृगामी क्रियाफल में यह निषेध है और परगामी क्रिया-फल में तो “शेषात् कर्तरि०” इससे परस्मैपद होता ही है। वत्मान् पय. पाययति ।

७१६—वा०—पादिषु धेट् उपसंख्यानम् ॥

१ । ३ । ६६ ॥

इन पा आदि धातुओं में धेट् धातु को भी पढ़ना चाहिये ।  
धापयते शिशुमेक समीची ।

इति परस्मैपदप्रक्रिया समाप्ता ॥

### अथ भावकर्मप्रक्रिया ॥

भाव, भावना क्रिया को कहते हैं । यह सब धातुओं से अपने २ धात्वर्थ को लेकर कहा जाता है । उसका अनुवाद भाववाची लकार से होता है । युष्मद् और अस्मद् से समानाधिकरण का अभाव है इससे यहाँ प्रथम पुरुष होता है । तथा तिङ् प्रत्ययवान्य भाव अद्रव्य [ और एक ] है इससे भाव में द्विवचन और बहुवचन की प्रतीति नहीं होती इसलिये भाव में द्विवचन और बहुवचन नहीं होते हैं किन्तु एक वचन होता है । क्योंकि वह द्विवचनादिको का उत्सर्गमात्र है । अब प्रथम पुरुष के परस्मैपद वा आत्मनेपद में कौन होना चाहिये इस विषय में ( ६२४ ) सूत्र से आत्मनेपद विधान कर चुके हैं सो यहाँ भाव में प्रथमपुरुष का आत्मनेपद एक वचन होगा, जैसे भू+त । इस अवस्था में—

७२०—सार्वधातुके यक् ॥ ३ । १ । ६७ ॥

भावकर्मवाचि सार्वधातुक परे हो तौ धातु से यक् प्रत्यय हो ।  
भू+यक्+ते । भूयते देवदत्तो । बभूवे ।

७२१—स्यमिच्सीयुट्तासिषु भावकर्मणोरुप-  
देशऽज्भून् ग्रहदृशां वा चिखवदिट् च ॥६।४।६२॥

भावकर्म विषय मे स्य, सिच्, सीयुट् और तासि परे हो तो उपदेश मे अजन्त हन, ग्रह और दृश अङ्गो को विकल्प करके चिखवन् कार्य और इट् का आगम हों। यहा चिखवद्भाव का विकल्प होने मे जिस पक्ष मे चिखवन् कार्य होता है वही इट् भी जानो। चिख्णित् है इसमे जो जा कार्य णित् प्रत्ययों मे होते है वे ही स्य आदि कं परे भी हो जावे। भविता। यहा चिखवत् कार्य वृद्धि होता है। भविता, भाविष्यत, भविष्यते, भाविपतै, भाविपातै, [भविपतै], भाविष्यतै, भूयताम्, अभूयत, भूयेत, भाविषीष्ट, भविषीष्ट।

७२२—चिण् भावकर्मणोः ॥ ३ । १ । ६६ ॥

भाव कर्मवाची त शब्द परे हों तो च्लि के स्थान मे चिण् आदेश हो। अभावि, अभावध्यत, अभविष्यत।

अनुपूर्वक भू धातु मकर्मक हा जाता है। अनुभूयते चैत्रेण त्वया मया वा आनन्दः। यहा आनन्द अनुपूर्वक भू धातु का कर्म है। उस आनन्दकर्म मे लकारादि प्रत्यय के होने से उससे द्वितीया विभक्ति नहीं होती, क्योंकि वह अनभिहित नहीं रहा। अनुभूयेते, अनुभूयन्ते, त्वमनुभूये, अहमनुभूये, अनुबभूवे<sup>१</sup>, त्वमनुभावितासे,

१ काशिकाकार ने 'भवतेर' ( आख्या० ४२ ) सूत्र मे कर्तृनिर्देश मानकर कर्म में अव नहीं किया उसके मत मे 'अनुबभूवे' प्रयोग बनता है। वस्तुतः काशिकाकार का मत अयुक्त है 'भवतेः', यह कर्तृप्रधान निर्देश नहीं है अपितु "इक्, शित्पौ धातुनिर्देश" ( भा० १४७६ ) वार्तिक मे शित्प प्रत्यय हुआ है। शित्करण सामर्थ्य से 'शप्' विकरण होता है।

अनुभवितासे । इत्यादि । अन्वभावि, अन्वभाविषानाम्, अन्वभ-  
विषाताम् ॥ णिजन्त से भाव कर्म मे यक्—भाव्यते, भावयाञ्चक्रे,  
भावयाम्बभूवे, भावयामासे, भाविता । यहा चिण्वद्भाव मे इट्  
को (४२) सूत्र से असिद्ध मानकर (१७७)मूत्र से णि लोप हो जाता  
है और जहां चिण्वद्भाव नहीं है वहा—भावयिता । भाविष्यते,  
भावयिष्यते, भाव्यताम्, अभाव्यते, भाव्यते, भाविषीष्ट, भावयिषीष्ट,  
अभाविषाताम्, अभावयिषानाम् ॥ सन्नन्त से भाव कर्म—बुभूष्यते,  
बुभूषाञ्चक्रे, बुभूषिता, बुभूषिष्यते ॥ यङन्त से भाव कर्म—बोभू-  
यते । यङ्लग्नन्त से भाव कर्म—बोभूयते, बोभवाञ्चक्रे, बोभाविता,  
बोभविता, स्तूयते परमात्मा, तुष्टुवे, स्ताविता, स्तोता, स्ताविष्यते,  
स्तोष्यते, अस्तावि, अस्ताविषानाम्, अस्तोषताम् ॥ अर्यते ( २५४ )  
से गुण होकर । स्मर्यते, मस्मरे, आरिता, यहाँ परत्व और नित्यत्व  
मानकर प्रथम गुण तथा गुण को रपर करने से ऋ धातु अजन्त  
है तथापि 'स्यासच्०' इस सूत्र मे जा उपदशग्रहण है इससे उसको  
णव वद्धाव और तत्संयोग इट् होता है । अर्ता, स्मारिता, म्मर्ता,  
स्क्रुयते । यहा ( २५४ ) इम सूत्र से संयोगादि मान कर ऋकार  
को गुणादेश नहीं होता है । क्योंकि यह संयोग सुट् से हुआ है  
सुट् बहिरङ्ग वा कृ का अभक्त होने से असिद्ध है ॥ स्रस्यते । यहा  
( १३९ ) इससे नकार का लोप हुआ । नन्द्यते । यहां इदित् मानकर  
नकार का लोप न हुआ । इज्यते । यहां ( २८२ ) इससे संप्रसारण  
हुआ । शय्यते । यहाँ ( ५५२ ) से अयङ् आदेश हुआ ।

७२३—तनोतेर्यक् ॥ ६ । ४ । ४४ ॥

यक् प्रत्यय परे हो तो तनोति धातु को आकारादेश विकल्प  
करके होंगे । तायते, तन्द्यते । जन धातु का आकारादेश विकल्प  
( १८५ ) से हाता है । जायते, जन्द्यते ।

७२४—तपोऽनुतापे च ॥ ३ । १ । ६५ ॥

कर्म, कर्ता और अनुताप अर्थ में तप धातु से परे च्लि के स्थान में चिण आदेश न हो । अनुताप पछतावे को कहते हैं । सो भाव-कर्मप्रक्रिया में ही चिण निषेध होने के लिये अनुताप ग्रहण है । अन्वतप्त पापेन पापस्य कर्ता । यह भावकर्म का उदाहरण है । कर्म-कर्ता का उदाहरण कर्मकर्तृप्रक्रिया में लिखेंगे । दीयते, धीयते (३४६) इस सूत्र से इकारादेश होता है ।

७२५—आतो युक्चिणकृतोः ॥ ७ । ३ । ३३ ॥

चिन् ग्लिन्, कृत और चिण परे हो तो आदन्त अङ्ग को युक् आगम हो । दायिता, दाता, धायिता, वाता, दायिपीष्ट, दापीष्ट, अदायि, अदायिपानाम्, अदिपाताम्, अवायिषाताम्, अविपाताम्, ग्लायते, ग्लायते, जम्ले, मम्ले । यहा ( २४२ ) सूत्र के अशित् शब्द में जां कर्मकारय समाम मान कर इत्सञ्जक शकारादि प्रत्यय के परे निषेध किया है उमन एश् आदि प्रत्ययो में आदि शित् न होने से आत्व निषेध नहीं होता है । ग्लायिता, ग्लायता, अग्लायि, अग्लायि-पाताम्, अग्लायिताम् ॥ हन्यते, घानिता । यहा ( ५०३ ) से तकारादेश नहीं होता, क्योंकि वहा चिण विषय में निषेध है । हन्ता, घानिष्यते, हनिष्यते, हन्यते, हन्यते, हन्यते, हन्यते, घानिषते, घानिषते, घानिषते, हनिषते, हनिषते, हनिषते, हनिषते, हनिषते, हनिषते, घानिषीष्ट । यहा ( ३०८ ) से सर्वत्र वध आदेश न हुआ । क्योंकि सीदुट् के परे विशेष विधान से चिणवद्भाव वध आदेश का अपवाद है । वधिपीष्ट । अघानि, अघानिषाताम्, अहसाताम् । दूसरे पक्ष में—अवधि, अवधिपाताम्, अवनिष्यते, अहनिष्यते । गृह्यते, ग्राहिता । यहा ( ४५५ ) इससे इट् का दीर्घादेश न हुआ क्योंकि इस प्रकरण में जो बलादिलक्षण इट् होता है उसी इट् का दीर्घविधि



चिण और चित् गित् कृत् परे हो तो आङ्पूर्वाक चम् वर्जित मकारान्त अंग की उपधा को वृद्धि न हो । अशमि, अदमि । उदात्तोपदेशग्रहण म यहा न हुआ —अगमि ।मान्त ग्रहण से यहाँ न हुआ—अवाद् । अनाचमि ग्रहण से यहां न हुआ—आचामि ।

७२८—वा०—अनाचमिकमिवमोनामिति

वक्तव्यम् ॥

( अनाचमि ) यहा आचम, कम, वम इन अङ्गो को निषेध कहना चाहिये अर्थात् चिण् और चित् गित् कृत् परे हो तो उक्त सब अंगो की उपधा को वृद्धिका निषेध न हो । अकामि, अवामि, अजागारि यहां ( ३६२ )से गुण न हुआ क्योकि चिण् के परे निषेध है ।

७२९—भञ्जेश्च चिणि ॥ ६ । ४ । ३३ ॥

चिण् परे हो तो भञ्ज धातु के नकार का लोप विकल्प करके हो । अभाजि, अभञ्जि ।

७३०—विभाषा चिण्णमुलोः ॥ ७ । १ । ६६ ॥

चिण् और णमुल् परे हो तो लभ धातु को नुमागम विकल्प करके हा । अलम्भि ।

टिकमक 'गौटुह्यते पयः' इत्यादिको मे अप्रधान कर्म मे लकार होते हैं । तथा 'अजा नीयते ग्रामम्' इत्यादिको मे प्रधान कर्म में लकार होत हैं । यह निर्णय "कारकीय" ग्रन्थ क २० वे सूत्र'के व्याख्याना मे कर चुके हैं । इति भावकर्मप्रक्रिया समाप्ता ॥

अथ कर्मकर्तृप्रक्रियारम्भः ॥

जब काम के अत्यन्त अच्छे प्रकार होने रूप अर्था को प्रकट करने के लिये कर्ता का क्रिया करना न कहा जाय तब अन्य कारक

भी कर्तृसंज्ञा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे अपने २ विषय में स्वतन्त्र हैं और स्वार्थीन व्यापार वाले की कर्ता संज्ञा भी हाती है । इस कारण प्रथम करण आदि संज्ञा होती हैं तथापि उन कारको के स्वतन्त्र होने से कर्तृसंज्ञा हांकर उस कर्ता में भी लकार हांत है । करण— देवदत्तोऽसिना छिनत्ति, छिन्दतो देवदत्तस्यासिः स्वयमेव छिनत्ति । देवदत्त तलवार स काटता है, काटते हुए देवदत्त की तलवार आप ही काटती है । देवदत्त काष्ठे पचति, पचतो देवदत्तस्य काष्ठानि साधु पचन्ति । देवदत्तः स्थाल्या पचति, पचतो देवदत्तस्य स्थाली स्वयमेव पचति । और जब कर्म की कर्तृत्व विवक्षा होती है तब प्रथम से सकर्मक भी धातु प्राय अकर्मक हो जाते हैं और उनसे भाव वा कता में लकार हाते हैं जैसे भाव में—देवदत्त ओदन पचति, पचतो देवदत्तस्य ओदनेन स्वयमेव पच्यते, भिद्यते काष्ठेन । और कता में तां—

७३१—कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः ॥३१॥८७॥

जिसकी कर्मस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया है वह कर्ता कर्मवत् हो । यहां कार्यातिदेश अर्थात् कर्म विषयक काम कर्ता में भी हो । इसका प्रयोजन यह है कि यक्, आत्मनेपद, चिण् और चिण्वद्भाव भी हावे । देवदत्तः काष्ठं भिनत्ति, भिन्दतो देवदत्तस्य काष्ठं स्वयमेव भिद्यते, देवदत्त ओदनं पचति, पचतो देवदत्तस्योदनं स्वयमेव पच्यते, अभेदि काष्ठं स्वयमेव, अपाच्योदनं स्वयमेव, पाचिष्यते ओदनः स्वयमेव । वत् प्रहण करने से स्वार्थीन कार्य भी हाते हैं ॥ भिद्यते कुसूलेन ।

\*“कर्मवत्” सूत्र में “वत्” को छोडके “कर्म कर्मणा” कहने से तुल्य क्रिया कर्ता की कर्म संज्ञा हाकर उसको कर्माश्रय कार्य ही हाते किन्तु जो कर्म को कर्तृत्व विवक्षा करने से सकर्मक धातु अकर्मक हाकर उनसे भाव में लकार हाते हैं वे न हाते । वत् करण करने से तो कर्म की तुल्यता हाकर स्वाश्रय कार्य भी हाते हैं ॥



यहा स्वाश्रय काये भाव मे लकार हुआ है। 'कर्मणा' ग्रहण इसलिये है कि करण और अविकरण के तुल्य क्रिया कर्ता को कर्मवद्भाव न हो। जैसे माध्वात्मशब्दान्त, साधु स्थाली पचति। इस प्रकरण मे वात का अविकार है इससे ए० ही धातु मे कर्मवद्भाव होता है किन्तु—'पचत्योदन देवदत्ता, राधत्योदन स्वयमेव' यहा न हुआ। इस सूत्र मे कर्मस्थभावक और कर्मस्थक्रियक धातुओं का कता कर्मवत् हाता है, किन्तु कर्तृस्थभावक तथा कर्तृस्थक्रियक धातुओं का कर्ता कर्मवत् नहीं होता। जैसे कर्तृस्थभावो मे—देवदत्त शास्त्रं चिन्तयति, शास्त्रं चिन्तयतो देवदत्तस्य शास्त्रं स्वयमेव चिन्तयति, अमात्यो राजानं मन्त्रयते, मन्त्रयमानस्यामात्यस्य राजा स्वयमेव मन्त्रयते। कर्तृस्थक्रियायां मे—गच्छति ग्रामं देवदत्तः, ग्रामं गच्छतो देवदत्तस्य ग्रामं स्वयमेव गच्छति, आरोहति हस्ती स्वयमेव। कर्मस्थ-भावको मे—शनं बाल, शयानं बाल जनकः प्रयाजयति, जनको बालं शाययति, शाययता जनकस्य बालं स्वयमेव शाययते। यहां सोना रूप भाव कर्मस्थ है। जहा कर्म मे क्रिया कृत् विशेष देख पड़े वह कर्मस्थक्रिय होता है। जैसे फटी हुई लकड़ियो मे काटना रूप क्रिया प्रत्यक्ष देख पडती है। इससे भिद धातु कर्मस्थक्रिय है।

७३२—तपस्तपः कर्मकस्यैव ॥ ३ । १ । ८८ ॥

सकर्मको मे तपः कर्म वाले ही तप का कर्ता कर्मवत् हो यह सूत्र नियमाथे है कि सकर्मक धातुओं को कर्मवद्भाव हो तो तप धातु ही का हो। सो भी तपः कर्म वाले ही तप धातु का हो, किन्तु और कर्म वाले का न हो। वेदव्रतादीनि तपासि तापसाः तपन्ति, स ताप-सस्त्वर्गास्थभूतः स्वर्गाय तपस्तप्यते। वेदव्रत आदि तप स्तापस अर्थात् तपस्या करने वाले को सताप देते हैं वह तापस अत्यन्त सुख के लिए तप को यत्न से सिद्ध करता है। पिछले सूत्र से कर्मवद्भाव प्राप्त

न था, इससे विधान किया है । अन्वतप्त तपसस्तापस । यह (७२४) इससे चिण् निषेध होकर सिच् हो जाता है । तप.कर्मक प्रहण करन से यहा न हुआ—उत्तपति सुवर्णा सुवर्णकारः । कारकः कटं करोति, कुणेतस्तस्य कट स्वयमेव क्रियते ।

७३३—अचः कर्मकर्त्तोरि ॥ ३ । १ । ६२ ॥

कर्मकर्त्ता मे त शब्द परे हो तो अजन्त धातु से परे च्लि का [ विकल्प से ] चिण् आदेश हो । अकारि कटः स्वयमेव, अकृत कट. स्वयमेव, कृषीवल केदारं लुनीते, लुनतस्तस्य केदार स्वयमेव ल्यते, [ अलावि केदार. स्वयमेव ] अलविष्ठ केदार. स्वयमेव । 'अच' इस प्रहण से यहा न हुआ—अभेदि काष्ठ स्वयमेव । कर्मकर्त्तुं प्रहण से यहाँ न हुआ—अकारि कटो देवदत्तेन ।

गोपालो गा ब्रजमन्ववरुणद्धि, हन्वतस्तस्य गौ स्वयमेवा-  
न्वरुध्यते ॥ ७३२ ॥

७३४—न रुधः ॥ ३ । १ । ६४ ॥

रुधि वातु से परे कर्मकर्त्ता मे च्लि के स्थान मे चिण् आदेश न हो । अन्ववारुणद्धि गौ स्वयमेव । कर्मकर्त्तुं प्रहण से यहा न हुआ—अन्ववारोधि गौर्गोपालेन ।

७३५—वा०—दुहिपत्थोर्बहुलं सकर्मकयोः ॥

सकर्मक दुह और पच धातु का कर्ता बहुल करक कर्मवत् हो ।

७३६—न दुहस्तुनमां यक्चिणौ ॥ ३ । १ । ६६ ॥

दुह, स्तु और नम इन धातुओं के कर्मवद्भाव मे यक् और चिण् न हो । इससे दुह् धातु से यक् का प्रतिषेध है । और चिण् तो विकल्प से कहेंगे । गोपालो गा पयो दोग्धि, दुहतस्तस्य गौ. पयः स्वयमेव दुग्धे ।

७३७—दुहश्च ॥ ३ । १ । ६३ ॥

दुह धातु से परे कर्मकता से विकल्प करके चिद् को चिण् आदेश हो । अदुग् योः पय स्वयमेव । कर्मकर्ता ग्रहण से—अदाहि गौर्गोपालेन । अतुरुदुंवरं सतोहितं फलं पचति, पचतस्तस्योदुस्वरः सतोहितं फलं पच्यत । प्रभुत गो स्वयमेव, प्राग्गोष्ट गो स्वयमेव । नमन दण्डः स्वयमेव । अनन्त दण्ड स्वयमेव ।

७३८—ना०—सृजियुज्योः श्यस्तु ॥३१॥८७॥

सकर्मक सृज् और युज् धातु का कर्ता बहुल करक कर्मेवत् और श्यन् हो । यद् श्यन् यक् प्रत्यय का अपवाद है ।

७३९—वा०—सृजः अद्रोपपन्नै कर्त्तरि कर्मवद्  
भावो वाच्यश्चिण्आत्मनेपदार्थः ॥

श्रद्धायुक्त कता से सृज धातु को कर्मवद्भाव कहना चाहिये । चिण् और आत्मनेपद होने के लिये । सृज्यत मालाम् । श्रद्धा से माला जनाता है । अमर्जि मालाम् । अद्रा स माला बनाली । युज्यते वक्रचर्गि दोगम् ॥ ३ । १ । ८७ ॥

७४०—वा०—भृषाकर्मकिरादिसनां चान्यत्रा-  
त्मनेपदात् ॥ ३ । १ । ८७ ॥

भृषण अर्थवाले, किरादि और सन्नन् धातुओं का आत्मनेपद से अन्यत्र प्रतिषेध कहना चाहिये । अर्थात् उनको यक्, चिण् और चिण्वद्भाव न हो । और आत्मनेपद हा । भृषार्थ से माता कन्या भृषयाते, कन्या भृषयिष्या मातु, कन्या स्वयमेव भृषयते,

अवुभृषत कन्या स्वयमेव ❀, मण्डयते कन्या स्वयमेव, अममण्डत्त कन्या स्वयमेव, अलंकुरुते कन्या स्वयमेव, अलमकृत कन्या स्वयमेव । किराति—अवकिरते हस्ती स्वयमेव, अवाकीर्षे हस्ती स्वयमेव, गीर्यते ग्रास स्वयमेव, अवार्गाष्टे ग्रास स्वयमेव, चिकीर्षते कटः स्वयमेव, अचिकीर्षे कट स्वयमेव । यहा इच्छा कर्तृस्थ भी है तथापि करोति क्रिया की अपेक्षा लेकर कर्मस्थ क्रिया जाननी चाहिये । क्योंकि करोति प्रधान है और इच्छा तो करोति के आधीन है किन्तु स्वतन्त्र नहीं है ।

### ७४१—वा०—यक्चिणोः प्रतिषेधे

हेतुमणिणश्चिब्रजामुपसंख्यानम् ॥

यक् और चिण् के प्रतिषेध में हेतुमान णि, श्चि और ब्रञ्ज् इन का उपसंख्यान करना चाहिये । णि—कारयते ऋट स्वयमेव, [ अर्चाकरत ऋट स्वयमेव ] । श्चि—उच्छ्रयत दण्ड स्वयमेव, उर्दाश् श्रयत दण्ड स्वयमेव । ब्रञ्ज्—ब्रूत कथा स्वयमेव, अवंचत कथा स्वयमेव ।

✧ यहा स्वायणिक मानकर भूपार्थका के प्रतिषेध में 'अपयते इत्यादि उदाहरण महाभाष्यकार ने दिये हैं क्योंकि "यक्चिणो प्रतिषेधे" इस वाचिक से केवल हेतुमत् णिच से प्रतिषेध है । और भारद्वाजीय जो णिमात्र से प्रतिषेध पढत है वह उन्ही का मत है । इसलिये स्वस्वस्मन से ण्यन्त अप्यन्त दोनों पक्ष से य/क०" इस वाचिक से भूपार्थको का ग्रहण क्रिया ट अन्यथा महाभाष्यकार वा "भृणयते इत्यादि स्वयमेव" इत्यादि उदाहरण देना बर्था हो, इससे यहा कैयट ने जो भूपार्थको का ग्रहण अप्यन्ता हा के लिये माना है यह उनका अनाख्यान असंगत है ॥

१ भारद्वाजीय आचार्यों के मत में णिमान से यक् और चिण् में ही कर्मवद्भाव का निषेध होना है चिण्वद्भाव और आरमनेपद होता ही है । अतः चिण्वद्भाव के प्रतिषेध के लिये ण्यन्त भृपादि का ग्रहण युक्त है । कैयट का भृपादि को अप्यन्त पक्ष में ग्रहण मानना अटुक्त है ।

७४२-वा०-भारद्वाजीयाः पठन्ति-यकूचिणीः  
प्रतिषेधे णिश्चन्थिग्रन्थिञ्च औत्तमनेपदाकर्मका-  
णामुपसंख्यानम् ॥

पुच्छमुदस्यति उत्पुच्छयते गौः । अन्तर्भाविनण्यर्थे मान कर—  
‘गामुत्पुच्छयते’ यह व्यवस्था हागा । फिर कर्तृत्व का अपेक्षा मे—  
‘उत्पुच्छयते गौः’ हागा । उदमुत्पुच्छत । यहा यक् और चिण् के  
प्रतिषेध मे शप् और चङ् हात हैं । श्रन्थ और प्रन्थ क आधृषीयत्व  
होने मे णिच् के अभाव पक्ष के लिये इनका ग्रहण है । प्रन्थते  
ग्रन्थमाचार्ये, अन्थते मेखला देवदत्त ग्रन्थत ग्रन्थ स्वयमेव श्रन्थते  
मेखला स्वयमेव अग्रन्थष्ट, अश्रन्थिष्ट । विकुर्वते \* सैन्यवा । फिर  
अन्तर्भाविनण्यर्थे के प्रयाजनाञ्ज त्याग करने मे—‘विकुर्वते सैन्यवाः  
स्वयमेव’ हागा । व्यकारिष्ट व्यकारिपतम् व्यगारिपतम् यहा  
चिगवदभाव हाता है । व्यकृत, व्यट्टपानाम व्यकृतपतम् ।

७४३-कूपिरञ्जोः प्राचां श्यन् परस्मैपद च

॥ ३ । १ । ६० ॥

प्राचीन आचार्यों के मत मे कूप और रञ्ज वातु का कर्मवद्-  
भाव मे श्यन् प्रत्यय और परस्मैपद हा, किन्तु यक् आत्मनेपद न हा ।  
कुञ्चत, कुञ्चत वा पाठ स्वयमेव, रञ्चन्, रञ्चन् वन्न स्वयमेव ।  
यह प्राचा ग्रहण चि लृक् लिये ३ और वह व्यवस्था से माना  
जाता है । इससे लृट् लृट् लृट् और स्या ट विषय मे यह मृत्र नहीं

\* अहा ‘व विकुर्वते’ हागा । इति लृट् लृट् लृट् ।

१. सर्वेषु न जायते जायते सन्तानात् ७ अनुसार  
सावधातुक की अनुवृत्त या स्यादि प्रत्ययो । अन्तर्भाविनण्यर्थे  
मे श्यन् और परस्मैपद का प्रतिषेध किया है ।

प्रवृत्त होता । चुकुपे पादः स्वयमेव, ररञ्जे वस्त्रं स्वयमेव, कोषिषीष्ट  
पादः स्वयमेव, रङ्क्षीष्ट वस्त्रं स्वयमेव, कोषिष्यते पादः स्वयमेव, रङ्क्ष्यते  
वस्त्रं स्वयमेव, अकोषि पादः स्वयमेव, अरञ्जि वस्त्रं स्वयमेव ।

॥ इति कर्मकर्तृप्रक्रिया समाप्ता ॥

अथ लकारार्थप्रक्रियारम्भः ॥

७४४—अभिज्ञावचने लृट् ॥ ३ । २ । ११२ ॥

अभिज्ञावचन अर्थात् स्मृतिवाचक उपपद हो तो धातु से लृट्  
प्रत्यय हो । यह लङ् का अपवाद है । अभिजानासि वत्स । कश्मीरेषु  
वत्स्यामः, स्मरसि बुध्यसे चेतयमे वा मित्र । काश्यां पठिष्यामः ।

७४५—न यदि ॥ ३ । २ । ११३ ॥

यत् शब्द सहित अभिज्ञावचन उपपद हो तो लृट् प्रत्यय न हो ।  
अभिजानामि देवदत्त । यत्कश्मीरेष्ववसाम । यहाँ निवास मात्र का  
स्मरण है । इससे यह अगले सूत्र का विषय नहीं है ।

७४६—विभाषासाकाङ्क्षे ॥ ३ । २ । ११४ ॥

अभिज्ञावचन उपपद हो और यत् शब्द उपपद हा वा न हो तो  
धातु से विकल्प करके लृट् हो साकाङ्क्ष अर्थ मे । अभिजानासि  
देवदत्त । कश्मीरेषु वत्स्यामाः, तत्र सत्तून् पास्यामः, ( अभिजानासि  
देवदत्त । कश्मीरेष्ववसाम, ) तत्र सत्तून्पिवाम, यद् अभिजानासि  
देवदत्त । यत् कश्मीरान् गमिष्यामः, यत् कश्मीरानगच्छाम, यत्तत्रौदनं  
भोक्ष्यामहे, यत् तत्रौदनमभुञ्जमहि । अयद्-अभिजानासि देवदत्त ।

कश्मीरान् गमिष्यामः, कश्मीरानगच्छाम, तत्रौदनं भोक्ष्यामहे, तत्रौदनमभुञ्जमहि । लक्ष्य और लक्षण के सम्बन्ध से वक्ता की आकाङ्क्षा होती है । उक्त उदाहरणों में निवास और गमन लक्षण है और पान, भोजन लक्ष्य है ।

( २९ ) से लिट् विधान कर चुके हैं यहा उत्तम पुरुष के विषय में विशेष कहते हैं ।

७४७—सुप्रमत्तयोरुत्तमः । महाभा० ॥ ३ । २ । ११५ ॥

सुप्र और मत्त के विषय में पारोक्षभाव में उत्तम पुरुष होता है । सुप्रोऽहं किल विललाप, सुप्रो न्वह किल विललाप, मत्तो न्वहं किल विललाप ।

७४८—वा०—परोक्षे लिङ् अत्यन्तापहनवे च ॥

“परोक्षे लिट्” यहा अत्यन्त अपहनव अर्थात् मिथ्यापन में भी लिट् कहना चाहिये । नो ग्वण्डिकोन् जगाम, नो कलिङ्गान् जगाम ।

७४९—ह्रशश्वनोर्लङ् च ॥ ३ । २ । ११६ ॥

भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में ह और शश्वत् शब्द उपपद हों तो धातु में लङ् और लिट् हो । इति ह अकरोन्, इति ह चकार, शश्वदकरोत्, शश्वच्चकार ।

७५०—प्रश्ने चासन्नकाले ॥ ३ । २ । ११७ ॥

समीप काल के पूछने में जो भूत अनद्यतन परोक्ष है उस अर्थ में धातु से लङ् और लिट् हो । अगच्छत् कि देवदत्तः ? जगाम किं

१, महषि में भट्टाभ्यायी भाष्य में अनद्यतन की अनुवृत्ति नहीं मानी है । देखो इस सूत्र का भट्टाभ्यायी भाष्य और उस पर मेरी टिप्पणी ।

देवदत्तः ? । कोई किसी से पृच्छता है कि क्या देवदत्त गया ? । प्रश्नग्रहण से अन्यत्र—जगाम देवदत्तः । यहां न हुआ । आसन्न काल से अन्यत्र - भवन्तं पृच्छामि, जघान कंसं किल वासुदेव ।

७५१—लट् स्मे ॥ ३ । २ । ११८ ॥

भूत अनद्यतन परोक्ष काल मे स्म उपपद हो तो धातु से लट् प्रत्यय हा । यजति स्म युधिष्ठिर. । स्म से अन्यत्र—इयाज युधिष्ठिर. ।

७५२—अपरोक्षे च ॥ ३ । २ । ११६ ॥

भूत अनद्यतन अपरोक्ष काल मे भी स्म उपपद हो तो धातु मे लट् हो । एव पिता ब्रवीति स्म ।

७५३—ननौ पृष्टप्रतिवचने ॥ ३ । २ । १२० ॥

ननु शब्द उपपद हो तो प्रश्न के उत्तर देने अर्थ मे भूतकाल मे वर्तमान धातु मे लट् प्रत्यय हो । अकार्षीं किम् ? ननु करोमिभो. । अवोचत् तत्र कि देवदत्त. ? ननु ब्रवीमि भो. । पृष्टप्रतिवचन से अन्यत्र—नन्वकार्षीन् माणवक ॥

७५४—नन्वेविभाषा ॥ ३ । २ । १२१ ॥

न और नु उपपद हो तो प्रश्न के उत्तर देने मे भूतकाल मे वर्तमान धातु से विकल्प करके लट् हो । अकार्षीं किम् ? न करोमि, नाकार्ष वा । नु करोमि, न्वकार्ष वा ।

७५५—पुरि लुङ् चास्मे ॥ ३ । २ । १२२ ॥

स्म रहित पुरा शब्द उपपद हो तो भूत अनद्यतन काल में धातु से विकल्प करके लुङ् और लट् हो । वसन्तीह पुरा छात्राः । अवात्सुरिह पुरा छात्रा. । पक्ष मे यथाप्राप्त हो । अवसन्निह पुरा छात्रा. । ऊषुरिह पुरा छात्राः । अस्मग्रहण से यहा लुङ् न हुआ । धर्मेण स्म पुरा कुरवो युध्यन्त ।



**७५६—यावत् पुरानिपातयोर्लट् ॥ ३। ३। ४ ॥**

निपात संज्ञक यावत् और पुरा शब्द उपपद हों तो भविष्यत् काल में धातु से लट् प्रत्यय हों। यावद् मुङ्क्ते, पुरा मुङ्क्ते। निपात ग्रहण से यहाँ न हुआ—यावद्दान्यति तावद्भोक्ष्यते, पुरा यास्यति। यहाँ पुरा तृतीया का एकवचन है।

**७५७—विभाषा कदाकर्होः ॥ ३। ३। ५ ॥**

कदा और कर्हि शब्द उपपद हों तो भविष्यत् काल में धातु से विकल्प करके लट् प्रत्यय हों। कदा मुङ्क्ते कर्हि मुङ्क्ते, कदा भोक्ष्यते, भोक्ता, कर्हि भोक्ष्यते, भोक्ता।

**७५८—किंवृत्ते लिप्तायाम् ॥ ३। ३। ६ ॥**

कि शब्द का प्रयोग उपपद हो तो भविष्यत्कालिक धातु से लाभ की इच्छा अथे न विकल्प करके लट् प्रत्यय हों। कं कतरं कतम वा ददामि, दाम्यमि, दातासि वा ? काई लाभ की इच्छा वाला पृच्छता है कि तुम किमका दोगे ? लिप्ता अर्थ से अन्यत्र—क. पाटलिपुत्रं गमिष्यति ?

**७५९—लिप्स्यमानमिद्वौ च ॥ ३। ३। ७ ॥**

अभीष्ट पदार्थ की सिद्धि गम्यमान हों तो भविष्यत्काल में धातु से विकल्प करके लट् प्रत्यय हों। यो धन ददाति स स्वर्गं गच्छति, या वन दास्यति स स्वर्गं गमिष्यति, यो वन दाता स स्वर्गं गन्ता। वन देने में स्वर्ग प्राप्त होता है इस प्रकार वन चाहता हुआ देने वाले का उत्साह कराता है।

**७६०—लोडधेलक्षणे च ॥ ३। ३। ८ ॥**

विध्यादिक जो लोट् के अर्थ हैं वे जिससे जाने जावे उस अर्थ में वर्तमान धातु में भविष्यत् काल में विकल्प करके लट् प्रत्यय

हो । उपाध्यायश्चेदागच्छति, आगमिष्यति, आगन्ता वा अथ त्व  
व्याकरणमधीष्व । यहा उपाध्याय का आगम पढाने की प्रेरणा  
को विदित कराता है ।

७६१—लिङ् चोर्ध्वमौहृत्तिके ॥ ३ । ३ । ६ ॥

लोडर्थे लक्षण मे वर्तमान धातु स दो घड़ी से ऊपर जो भवि-  
ष्यत् काल उसमे विकल्प करके लिङ् और लट् हो । उपाध्यायश्चेदा-  
गच्छति, आगच्छेत्, आगमिष्यति, आगन्ता वा, अथ त्व  
छन्दोऽधीष्व ।

७६२—वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ॥ ३ । ३ । १३१ ॥

वर्तमान के समीप का जो भूत वा भविष्यत् काल उसमे वर्तमान  
धातु से वर्तमानवत् प्रत्यय विकल्प करके हो । अर्थात् 'वर्तमाने  
लट्' इस सूत्र स लेकर "उणादयो बहुलम्" इस सूत्र पर्यन्त  
वर्तमानाधिकार मे जिस २ निमित्त से जो २ प्रत्यय कहे हैं । वे  
उन्ही निमित्तो से वर्तमानसमीप भूत वा भविष्यत् काल मे विकल्प  
करके हो । कदा देवदत्तागतोसि ? अयमागच्छामि, आगच्छन्तमेव  
मो विद्धि, अयमागमम, एपोऽस्म्यागत । कदा देवदत्त गमिष्यसि ?  
एष गच्छामि, गच्छन्तमेव मा विद्धि, एष गमिष्यामि, गन्तास्मि ।  
सामीप्यग्रहण से अतिकाल की विवक्षा मे न हो । परुदगच्छत्  
पाटलिपुत्रम् वर्षेण गमिष्यति ।

७६३—आशसायां भूतवच्च ॥ ३ । ३ । १३२ ॥

आशसा गम्यमान हो तो भविष्यत् काल मे धातु से विकल्प  
करके भूतवत् और वर्तमानवत् प्रत्यय हो । अप्राप्तप्रियवस्तु के पाने  
की इच्छा करने को आशंसा कहते [ है, वह भविष्यत् काल क

विषय ] है । उपाध्यायश्चेदागमत्, आगत., आगच्छति, आगमिष्यति वा एते वयं व्याकरणमध्यगीष्महि, गते वयं व्याकरणमधीतवन्त, अधीमहे, अध्येष्यामहे । यहा सामान्यातिदेशे विशेषान्तिदेशः।” इस परिभाषाबल से लङ् और लिट् नहीं होते हैं । आशंसाप्रहण से यहाँ न हुआ—आगमिष्यति ।

७६४—क्षिप्रवचने लृट् ॥ ३ । ३ । १३३ ॥

क्षिप्रवाची पद उपपद हो और आशंसा गम्यमान हो तो भविष्यत् काल में धातु से लृट् प्रत्यय हो । यह पिछले सूत्र का अपवाद है । उपाध्यायश्चेत् क्षिप्रमागमिष्यति, क्षिप्र व्याकरणमध्येष्यामहे, शीघ्रमाशु त्वरितमध्येष्यामहे वा ।

७६५—आशंसावचने लिङ् ॥ ३ । ३ । १३४ ॥

आशंसा कहने वाला पद उपपद हो तो धातु से लिङ् प्रत्यय हो । यह (७६३) सूत्र का अपवाद है । उपाध्यायश्चेदागच्छेद् आशसेऽधीयीय, आशसेऽवकल्पये युक्तेऽधीयीय, आशसे क्षिप्रमधीयीय ।

७६६—नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः

॥ ३ । ३ । १३५ ॥

क्रिया के प्रबन्ध और सामीप्य में अनद्यतनवत् प्रत्यय न हो । अर्थात् मृत अनद्यतन में लङ् और भविष्यत् अनद्यतन में लृट् विहित हैं वे न हो । क्रियाप्रबन्ध क्रिया का निरन्तर होना, सामीप्य तुल्य जानीय से अव्यवधान । क्रियाप्रबन्ध-यावज्जीव भृशमन्नमदान्, भृशमन्नं दास्यति, यावज्जीव पुत्रोऽव्यापिपन् । यावज्जीवमध्यापयिष्यति । सामीप्य—येयं पौर्यानास्यतिक्रान्ता, एतस्यामुपाध्यायोऽग्नीनाधित, सोमेनायष्ट, गामदित, येयमभावस्याऽऽगामिनी, एतस्यामुपाध्यायोऽग्नीनाधास्यत्, सोमेन यक्ष्यते, स गां दास्यते ।

### ७६७—भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन् ॥ ३।३।१३६ ॥

उरले भाग को लेकर मर्यादा हो तो भविष्यत् काल में अनद्य-  
तनवत् प्रत्यय न हो। आपाटलिपुत्राद् योऽयमध्वा गन्तव्यस्तस्य  
यदवरं कौशाम्ब्यास्तत्र स्थास्यामि। भविष्यत् के ग्रहण से यहाँ न  
हुआ—आपाटलिपुत्राद् योऽयमध्वागतस्तस्य यदवरं कौशाम्ब्यास्तत्र  
युक्ता अध्येमहि। मर्यादावचन से अन्यत्र - योऽयमध्वा निरवधिको  
गन्तव्यस्तस्य यदवरं कौशाम्ब्यास्तत्र द्विरोदन भक्तास्महे। अवरस्मिन्  
ग्रहण से यहाँ न हुआ—आपाटलिपुत्राद् योऽयमध्वा गन्तव्यस्तस्य  
यत् पर कौशाम्ब्यास्तत्र द्विरोदन भोक्तास्महे।

### ७६८—कालविभागे चानहोरात्राणाम् ॥

३।३।१३७ ॥

समय की मर्यादा के विभाग में उरले विभाग की अपेक्षा हो  
तो भविष्यत् काल में अनद्यतनवत् प्रत्यय न हो। यदि वह मर्यादा-  
विभाग अहोरात्र संबन्धी न हो। योऽय संवत्सर आगामी तत्र  
यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे। भविष्यत् ग्रहण से यहाँ  
न हुआ—योऽय वत्सरोऽतीतस्तस्य यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता  
अध्येमहि। मर्यादा से अन्यत्र—योऽय निरवधिकः काल आगामी  
तस्य यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता अध्येतास्महे। अवरभाग की  
अपेक्षा में यह होगा, और परभाग में अगले सूत्र से विधान करेंगे।  
अनहोरात्र ग्रहण से यहाँ न हुआ—योऽय मास आगामी तस्य  
योऽवरः षड्विंशदशरात्रस्तत्र युक्ता अध्येतास्महे, योऽयं त्रिंशद्रात्र आगामी  
तस्य योऽवरोऽर्धमासस्तत्र युक्ता अध्येतास्महे, तत्र सक्तून् पातास्मः।  
सब प्रकार से अहोरात्र के स्पर्श में प्रतिषेध है।

### ७६९—परस्मिन् विभाषा ॥ ३।३।१३८ ॥

समय की मयोदा के विभाग में परभाग की अपेक्षा हो तो विकल्प करके अनद्यतनवत् प्रत्यय न हो । यदि वह मर्यादावचन अहोरात्र सम्बन्धी विभाग में न हो । योऽयं सवत्सर आगामी तस्य यत्परमा-ग्रहायणान्तत्रयुक्ता अभ्येज्यामहे, अभ्येतास्महे । अनहोरात्र से अन्यत्र—योऽयं त्रिशद्रात्र आगामी तस्य यः परः ऋचदशरात्रस्तत्रयुक्ता अभ्येतास्महे । भविष्यत् काल से [ अन्यत्र—योऽयं सवत्सरो व्यतीतस्तस्य यत्परमाग्रहायणान्तत्रयुक्ता अभ्येज्यामहे । मर्यादा से अन्यत्र—योऽयमपरिमित काल आगामी तस्य यत्परं कार्तिक्यास्तत्र युक्ता अभ्येतास्महे । कालविभाग से ] अन्यत्र—योऽयमध्वा गन्तव्य आपाटलिपुत्रात् तस्य यत्परं कौशाम्ब्यास्तत्र अभ्येतास्महे ।

(९३) सूत्र से लृङ् विधान कर चुके हैं उसका विशेष व्याख्यान करते हैं । दक्षिणेन चेदायास्यन्न शकटं पर्याभविष्यत्, यदि कमलकमाह्वास्यन्न शकटं पर्याभविष्यत्, अभोक्ष्यत् भवान् धृतेन यदि मत्समीपमागमिष्यन् । यहा सर्वत्र भविष्यत्काल सम्बन्धी कार्य का न होना हेतुमान् और दक्षिणमागेगमन आदि हेतु है तथा भविष्यत् काल विषयक हेतु और हेतुमान् की अतिपत्ति वाक्य में प्रतीत होती है ।

७७०—भूते च ॥ ३ । ३ । १४० ॥

लिङ् निमित्त में क्रियातिपत्ति हो तो भूतकाल में भी लृङ् प्रत्यय हो । दृष्टो मया भवत्पुत्रोऽन्नार्थी चङ्कम्यमाणः, अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्थी, यदि स तेन दृष्टोऽभविष्यत् तदाऽभोक्ष्यत्, नतु भुक्तवान् अन्येन पथा स गतः ।

७७१—बोताद्योः ॥ ३ । ३ । १४१ ॥

यहा से लेकर “उताप्योः समर्थयोर्लिङ्”<sup>१</sup> इस सूत्र पर्यन्त जो विधान करेगे वहा भूतकाल मे लिङ् के निमित्त मे क्रियातिपत्ति हो तो लृट् विकल्प करके होता, यह अधिकार समझना चाहिये । “विभाषाकथमि०”<sup>२</sup> यह सूत्र आगे कहेंगे, इस के विषय में— कथं नाम तत्र भवान् वृषलमयाजयिष्यत्, याजयेद् वा ?

७७२—**गर्हायां लडपिजात्वोः ॥ ३ । ३ । १४२ ॥**

कुत्सा अर्थ मे अपि और जातु उपपद हो तो धातु से लट् प्रत्यय हो सामान्य काल मे । कालविशेष विहित जो प्रत्यय है उन को यह परत्व से बाँध लता है । अपि तत्र भवान् वृषलं याजयति, जातु तत्र भवान् वृषल याजयति, गर्हामहे अहो अन्याय्यमेतत् । लिङ्निमित्त के अभाव से यहा क्रियातिपत्ति मे लृट् नहीं होता है ।

७७३—**विभाषा कथमि लिङ् च ॥ ३ । ३ । १४३ ॥**

कथम् शब्द उपपद हो और निन्दा पाई जाय तो धातु से लिङ् और लट् प्रत्यय विकल्प करके हो । कथं नाम तत्र भवान् वृषलं याजयेत् ? कथं तत्र भवान् वृषल याजयति ? विकल्प पक्ष मे—कथं नाम तत्र भवान् वृषल याजयिष्यति ? कथं नाम तत्र भवान् वृषल याजयिता ? इत्यादि । यहा लिङ्निमित्त है इससे भूतकाल की क्रियातिपत्ति विवक्षा मे विकल्प करके और भविष्यत्काल की मे नित्य लृट् होता है ।

७७४—**किंवृत्ते लिङ्लृटौ ॥ ३ । ३ । १४४ ॥**

किम् शब्द का प्रयोग उपपद हो और गर्हा पाई जाय तो धातु से लिङ् और लृट् प्रत्यय हो । यहाँ लिङ् ग्रहण लट् की निवृत्ति के लिये है । को नाम वृषलो यं तत्र भवान् याजयेत् ? यं तत्र

भवान् वृषलं याजयिष्यति । कतरो नाम तत्र भवान् वृषलं याजयेत् ? याजयिष्यति । भूतकाल की क्रियातिपत्ति मे विकल्प करके लुङ् और भविष्यत् सम्बन्धी मे नित्य ही लृङ् होगा । को नाम तत्र भवान् अयाजयिष्यत् ? ।

७७५—अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिंवृत्तेऽपि ॥

३ । ३ । १४५ ॥

असंभावना और असहन अथे मे किम् शब्द का प्रयोग उपपद हो वा न हो तो धातु से लिङ् और लृट् प्रत्यय हो । यहाँ अधिक अच्वाले “अनवक्लृप्ति” शब्द का पूर्वनिपात किंवृत्त और अकिंवृत्त से अर्थों के यथासंख्य न होने का प्रकाशक है । [ अनवक्लृप्ति नावकल्पयामि तत्र ] भवान् गुरुं [ निन्दत्, ] निन्दिष्यति [ वा ], कः कतरः कतमो वा गुरु निन्देत् ? निन्दिष्यति वा ? अमर्ष—न मर्षयामि तत्र भवान् गुरुं निन्देत्, निन्दिष्यति वा, को नाम गुरुं निन्देत् ? निन्दिष्यति वा । लृङ् पूर्वनिगम के तुल्य होता है । जैसे—नावकल्पयामि तत्र भवान् वृषलमयाजयिष्यत् ।

७७६—किङ्किलास्त्यर्थेषु लृट् ॥ ३ । ३ । १४६ ॥

किंकिल और अस्त्यर्थक धातु उपपद हो तो अनवक्लृप्ति और अमर्ष अर्थ मे धातु से लृट् प्रत्यय हो । किंकिल शब्द क्रोध का प्रकाशक है । अस्त्यर्थक—अस्ति, भवति, विद्यति । यह लृट् लिङ् का अपवाद है । किंकिल नाम तत्र भवान् वृषलं याजयिष्यति, अस्ति नाम तत्र भवान् वृषलं याजयिष्यति, न श्रद्धे, न मर्षयामि इत्यादि । यहां लिङ् के अभाव होने से लृङ् नहीं प्राप्त है ।

७७७—जातुयदो लृङ् ॥ ३ । ३ । १४७ ॥

जातु और यद् उपपद हो तो [ अनवक्लृप्ति और अमर्ष अर्थ मे ]

धातु से लिङ् हो। यह लृट् का अपवाद है। जातु तत्र भवान् गुरु निन्देत्, यन्नाम तत्र भवान् गुरु निन्देत् नावकल्पयामि, न मर्षयामि। लृट् पूर्ववत्।

### ७७८—बा०—जातुयदोर्लिङ्बिधाने

यदायद्योरुपसंख्यानम् ॥

यदा भवद्विधः क्षत्रिय याजयेत्, यदि भवद्विधः क्षत्रिय याजयेत्, नावकल्पयामि, न मर्षयामि। मृत, भविष्यत् क्रियातिपत्ति विवक्षा मे पूर्ववत् लृट् होगा।

### ७७९—यच्चयत्रयोः ॥ ३। ३। १४८ ॥

यच्च वा यत्र उपपद हो और अनवक्लप्ति तथा अमर्ष गम्यमान हो तो धातु से लिङ् प्रत्यय हो। यह लृट् का अपवाद है। यच्च तत्र भवान् गुरुं निन्देत्, यत्र तत्र भवान् गुरुं निन्देत्, नावकल्पयामि, न मर्षयामि। क्रियातिपत्ति मे पूर्ववत् लृट् होता है।

### ७८०—गर्हायां च ॥ ३। ३। १४९ ॥

गर्हा गम्यमान हो और यच्च, यत्र उपपद हों तो धातु से लिङ् प्रत्यय हो। यह सब लकारों का अपवाद है। यच्च यत्र वा तत्र भवान् वृषल याजयेत्, गर्हामहे, अन्याय्यमेतत्। क्रियातिपत्ति में पूर्ववत् लृट् होता है।

### ७८१—चित्रीकरणे च ॥ ३। ३। १५० ॥

यच्च यत्र उपपद हो और चित्रीकरण [ अर्थ ] गम्यमान हो तो धातु से लिङ् प्रत्यय हो। चित्रीकरण आश्चर्ये अद्भुत विस्मय करने योग्य को कहते हैं। यच्च यत्र वा भवान् वृषल याजयेत्, आश्चर्य्यमेतत् ॥ क्रियातिपत्ति मे यथाप्राप्त लृट् होता है।

### ७८२—शेषे लृडयदौ ॥ ३। ३। १५१ ॥



यदि शब्द भिन्न यच्च यत्र से अन्य उपपद हो और चित्रीकरण गम्यमान हो तो धातु से लृट् प्रत्यय हो । यह सब लकारो का अपवाद है । आश्चर्यं चित्रमद्भुतम् अन्धो नाम पर्वतमारोक्ष्यति, बधिरो नाम व्याकरणमध्येत्येते । अयदिग्रहण से यहा न हुआ— आश्चर्यं यदि सोऽधीयीत । इस विषय मे लिङ् निमित्त के अभाव से लृङ् नहीं होता ।

### ७८३—उताप्योः समर्थयोऽलिङ् ॥ ३।३।१५२॥

समानार्थक उत और अपि उपपद हो तो धातु से लिङ् प्रत्यय हो । अङ्गीकार अर्थ में उत, अपि समानार्थक हैं । उत कुर्व्यात्, अपि कुर्व्यात्, उतावीयीत, अप्यधीयीत । हां यह करेगा वा पढेगा । समर्थग्रहण से यहा न हुआ—उत दण्ड, पतिष्यति, अपि द्वारं धास्यति । दण्ड गिरेगा, द्वार को ढांप लेगा । यहा प्रश्न [ और ] प्रच्छादन गम्यमान है 'उताप्योः' यह नियम पूरा होगया, अब यहा स लेकर भूतकाल मे भी क्रियातिपत्ति मे नित्य लृङ् होगा ।

### ७८४—कामप्रवेदनेऽकञ्चित् ॥ ३।३।१५३॥

कञ्चित् शब्द उपपद न हो तो अपने अन्निप्राय के प्रकाश करने मे धातु से लिङ् प्रत्यय हो । यह सब लकारो का अपवाद है । कामो मे गच्छेद् भवान्, अभिलाप, इच्छा वा मम सुऊर्जात भवान् । अकञ्चित् कहने से यहा न हुआ । कञ्चिज्जोर्वत् त गाता ?

### ७८५—संभावननेऽलमितिचेत् सिद्धाप्रयोगे ॥

३।३।१५४॥

जो सिद्ध अलम शब्द का प्रयोग न किया जाय तो संभावन अर्थ मे वर्तमान धातु से लिङ् प्रत्यय हो । जहा वाक्य मे अलम शब्द का अर्थ परिपूर्णता अथात् प्रौढपन गम्यमान हो और उसका

प्रयोग न हो वहा सिद्ध अन्तम् का अप्रयोग तथा क्रियाओं मे योग्यता का निश्चय करना सम्भावन समझना चाहिये । यह सब लकारों का अपवाद है । अपि पर्वत शिरसा भिन्द्यात्, अपि द्रोणपाक भुञ्जीत । अलम् ग्रहण से यहा न हुआ—विदेशस्थो देवदत्तः प्रायेण ग्राम गमिष्यति । सद्धाप्रयोग ग्रहण से यहा न हुआ—अलं कृष्णो हास्तन हनिष्यति । भूत वा भविष्यत्काल की क्रियातिपत्ति मे नित्य लिङ् होता है ।

७८६—विभाषा धातौ सम्भावनवचनेऽयदि ॥

३ । ३ । १५५ ॥

यद्शब्द वर्जित सम्भावन अर्थ का कहने वाला धातु उपपद हो तो धातु से विकल्प करके लिङ् प्रत्यय हो, यदि सिद्ध अलम् का अप्रयोग हो । पूर्वसूत्र से नित्य लिङ् प्राप्त था विकल्प के लिये यह सूत्र है । संभावयामि भुञ्जीत भवान्, संभावयामि भोक्ष्यते भवान् । अयद् ग्रहण से यहां न हुआ—संभावयामि यद् भुञ्जीत भवान् ।

७८७—हेतुहेतुमनोर्लिङ् ॥ ३ । ३ । १५६ ॥

हेतु कारण और हेतुमान् जिसमे कारण रहे अर्थात् फल, उनमे वर्तमान जो धातु हो उससे लिङ् प्रत्यय विकल्प करके हो । दक्षिणेन चेद् यायात् न शकटं पर्याभवेत् । यहां दक्षिणमार्ग से जाना हेतु और अपर्याभवन = न गिरना फल है । लिङ् वर्तमान था पुनर्लिङ् ग्रहण विशेष काल के समग्र करने के लिये है । इससे यह लकार भविष्यत्काल मे होता है । द्वितीय पक्ष मे लृट्—दक्षिणेन चेद्यास्यति न शकट पर्याभविष्यति । भविष्यत् के नियम से यहा न हुआ—इन्तीति पलायते, वर्षतीति धावति । क्रियातिपत्ति मे लृङ् होता है

७८८—इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ ॥ ३ । ३ । १५७ ॥

इच्छा अर्थ वाले धातु उपपद हो तो धातु से लिङ् और लोट् प्रत्यय हो। यह सब लकारो का अपवाद है। इच्छामि भुञ्जीत भवान्, इच्छामि भुङ्क्तां भवान्, कामये, प्रार्थये, पठतु भवान्। कामप्रवेदने चेत् । महाभाष्य । ३। ३। १५७ ॥ जो अत्यन्त इच्छा विदित करना गम्यमान हो तो उक्त लिङ् प्रत्यय हो, यह कहना चाहिये अर्थात् यहां न हो—इच्छन् कटं करोति ।

७८६—लिङ् च ॥ ३। ३। १५६ ॥

समानकर्ता वाले इच्छार्थक धातु उपपद हो तो धातु से लिङ् प्रत्यय हो। भुञ्जीयेतीच्छति, अधीयीयेतीच्छति। क्रियातिपत्ति मे लुङ् होता है।

७९०—इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने ॥

३। ३। १६६ ॥

इच्छार्थक धातुओं से वर्तमान काल मे विकल्प करके लिङ् प्रत्यय होता है। इच्छति, इच्छेत्, कामयते, कामयेत, वष्टि, उश्यात्।

प्रथम (७९, ६५) से लिङ् और लोट् का विधान किया है। अब उस विषय के क्रम से उदाहरण देते हैं जैसे—विधि—भवान् पठेत्, ग्रामं भवानागच्छेत्। निमन्त्रण—इह भवान् भुञ्जीत। आमन्त्रण—इह भवानासीत्। अधीष्ट—भवान् पुत्रमध्यापयेत्। सप्रश्न—किं भो वेदमधीयीय। प्रार्थन—अस्ति मे प्रार्थना व्याकरणमधीयीय। इसी प्रकार लोट् भी होगा। भवान् पठतु इत्यादि।

७९१—प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च ॥

३। ३। १६३ ॥

प्रैष = प्रेरणा करना, अतिसर्ग = इच्छानुकूल करने की स्वीकृति, प्राप्तकाल = कार्य करने के अनुकूल अवसर पाना इन अर्थों मे धातु

से कृत्य संज्ञक और लोट् † प्रत्यय हो। कृत्य—भवता कट्-  
करणीयः, कर्तव्यः कटः, कृत्यः कार्य इत्यादि। लोट्—करोतु कटं  
भवानिह प्रेषितः, भवानतिसृष्टः, भवतः प्राप्तकालः कटकरणे।

७६२—लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके ॥३३॥१६४॥

प्रैषादि अर्थ गम्यमान हां तो दो घडी से ऊपर जो भविष्यत्-  
काल है उसमे वर्तमान धातु से लिङ् और यथाप्राप्त वृत्त्य और लोट्  
भी हो। सुहूर्तोदुपरि भवता खलु कटं कर्तव्यः करणीय कार्यः,  
भवान् खलु कटं कुर्यान्, भवान् खलु कटं करोतु, भवानिह प्रेषित,  
अतिसृष्टः प्राप्तकालो वा।

७६३—स्मे लोट् ॥ ३ । ३ । १६५ ॥

प्रैषादि अर्थ गम्यमान हां और स्म शब्द उपपद हो तो ऊर्ध्वमौ-  
हूर्तिक अर्थ मे वर्तमान धातु से लोट् प्रत्यय हो। यह लिङ् और  
कृत्य प्रत्ययो का अपवाद है। सुहूर्तोर्ध्व भवान् कटं करोतु स्म,  
साणवकमध्यापयतु स्म।

† “प्रैषातिसर्गं” सूत्र की व्याख्या मे जो कौमुदीकार ने लोट् का  
अनुकर्षण कर केवल उसको प्राप्तकाल अर्थ ही के लिये माना है यह  
उनका मानना असङ्गत है, क्योंकि उक्त सूत्र की व्याख्या जो महा-  
भाष्यकार ने की है उससे स्पष्ट विदित होता है कि प्रैषादि तीनो अर्थों में  
लोट् प्रत्यय होता है यथा—अयं प्रैषादिवर्षेण लोट् विधीयते स विशेष-  
विहितः सामान्यविहितान् कृत्यान् इत्यादि” महाभाष्य ३ । ३ । १६३ ॥

१. वस्तुतः पौर्वापर्य की सङ्गति को ध्यान मे रखते हुए असङ्गत नहीं  
है। क्योंकि प्रैष का अर्थ विधि और अतिसर्ग का अर्थ कामचारानुज्ञा  
है। इन अर्थों मे लोट् का विधान पूर्व (आ० ६५) कर चुके है। अतः  
इस सूत्र में लोट् का अनुकर्षण केवल प्राप्तकाल के लिये है। कई आचार्य  
विधि और प्रैष में भेद मानते हैं उनके मत में प्रैष के लिये भी लोट्  
का अनुकर्षण सम्भवेना चाहिये।

७६४—अधीष्टे च ॥ ३ । ३ । १६६ ॥

सत्कारपूर्विका चेष्टा गम्यमान हो और स्म उपपद हो तो धातु से लोट् प्रत्यय हो। यह लिङ् का अपवाद है। अंग स्म राजन् माणवकमध्यापय ।

७६५—लिङ् यदि ॥ ३ । ३ । १६८ ॥

काल, समय और वेला तथा यद् शब्द उपपद हो तो धातु से लिङ् प्रत्यय हो। यह तुमुन् प्रत्यय का अपवाद है। कालो यद् भुञ्जीत भवान्, समयो यद् भुञ्जीत भवान्, वेला यद् भुञ्जीत भवान् ।

७६६—अर्हे कृत्यत्चश्च ॥ ३ । ३ । १६९ ॥

अर्ह कर्ता वाच्य वा गम्यमान हो तो धातु से कृत्य तृच् और लिङ् प्रत्यय हो। भवता खलु कन्या वोढव्या, वाह्या, वहनीया वा, भवान् खलु कन्याया वोढा, भवान् खलु कन्यां वहेत् ।

७६७—शक्ति लिङ् च ॥ ३ । ३ । १७२ ॥

शक्ति अर्थ मे धातु से लिङ् और कृत्य प्रत्यय हो। भवता खलु भारो वोढव्यः, वहनीयः, भवान् खलु वहेत् भारं, भवानिह शक्तः ।

७६८—माङि लुङ् ॥ ३ । ३ । १७५ ॥

माङ् उपपद हो तो धातु से लुङ्<sup>१</sup> प्रत्यय हो। यह सब लकारों का अपवाद है। मा कार्षीत् ।

७६९—स्मोत्तरे लङ् च ॥ ३ । ३ । १७६ ॥

स्म जिससे परे हो वह माङ् शब्द उपपद हो तो धातु से लङ्

१. महर्षि ने इस सूत्र के अष्टाध्यायी भाष्य मे “आशिषि लिङ् कोटौ” इन पदों की अनुवृत्ति मानी है। देखो इस सूत्र का अष्टाध्यायी भाष्य और उस पर मेरी टिप्पणी ।

और लुङ् प्रत्यय हों । मास्म करोत्, मास्म कार्षीत्, मास्म हरत्, मास्म हार्षीत् ।

८००—धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ॥ ३ । ४ । १ ॥

धात्वर्थ [ के ] सम्बन्ध में प्रत्यय हो । अर्थात् जिस जिस काल में प्रत्यय कहे हैं उन से अन्यत्र भी हो । अग्निष्टोमयाजी तव पुत्रो जनिता, कृतः श्वो भविता, भावि कृत्यमासीत्, अग्निष्टोमयाजी यह भूतकाल और जनिता यह भविष्यत्काल में है यहा भूतकाल जनिता के भविष्यत्काल का सम्बन्ध पाकर साधु होता है । अष्टाध्यायी के क्रम से प्रत्ययाधिकार वर्तमान था तथापि यहां प्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन है कि धात्वधिकार से अन्य भी प्रत्यय धातु सम्बन्ध काल में हो जावे । गोमानासीत्, गोमान् भविता । यहा “गावो विद्यन्तेऽस्य” इस विग्रह से वर्तमानकाल में भी क्रिया हुआ मतुप् “आसीत्, भविता” इन क्रियापदों के सम्बन्ध से भूत और भविष्यत्काल का कहने वाला होता है ।

८०१—क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वा

वा च तध्वमोः ॥ ३ । ४ । २ ॥

क्रियासमभिहार ( वार वार होना ) अर्थ में धातु से लोट् और उस लोट् के स्थान में परस्मैपद हि और आत्मनेपद स्व आदेश हो, तथा त और ध्वम् भावी लोट् के स्थान में हि और स्व विकल्प करके हो । यह सब लकारों का अपवाद है क्योंकि सब लकारों के विषय में होता है ।

८०२—समुच्चयेऽन्यतरस्याम् ॥ ३ । ४ । ४ ॥

अनैक क्रियाओं के अभ्याहार में धातु से विकल्प करके लोट् और उस लोट् के स्थान में यथोक्त हि और स्व आदेश हो ।

८०३—यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् ॥

३ । ४ । ४ ॥

पूर्वोक्त लोट् विधान मे यथाविधि अनुप्रयोग हो । अर्थात् जिस धातु से लोट् विहित हा । उसी धातु का संख्या, काल और पुरुष के नियम से पीछे प्रयोग हो ।

८०४—समुच्चये सामान्यवचनस्य ॥३।४।५॥

समुच्चय अर्थ मे लोट् विधान हो तो सामान्य अर्थ कहने वाले धातु का अनुप्रयोग हो ।

८०५—वा०—क्रियासमभिहारे द्वे भवत इति  
वक्तव्यम् ॥

क्रियासमभिहारार्थविहित लोट् के विषय मे द्विवचन हो । क्रियासमभिहार मे परस्मैपद लट् लकार—स भवान् लुनीहि लुनी-हीत्येवायं लुनाति, इमौ लुनीतः, इमे लुनन्ति, लुनीहीत्येव त्वं लुनासि, युवां लुनीथः, यूयं लुनीथ, लुनीहि लुनीहीत्येवाह लुनामि, आवां लुनीवः, वयं लुनीमः, इत्यादि । आत्मनेपद—अधीष्वाधीष्वेत्येवाय-मधीते, इमावधीयाते, इमेऽधीयते, इत्यादि । इस प्रकार सब लकारो में उदाहरण जानना चाहिये । क्रियासमभिहार मे—दुग्धं पिब, चणकान् चर्व इत्यभ्यवहरति । अन्नं भुङ्क्व दाधिकमास्वादस्वेत्य-भ्यवहरते । त, ध्वम् के विषय मे—दुग्धं पिब, चणकाश्चर्वेत्यभ्य-वहरत, अन्नं भुङ्क्व, दाधिकमास्वादस्वैत्यभ्यवहरध्वे, दुग्धं पिबत चणकाश्चर्वेत्यभ्यवहरत, अन्नं भुङ्ग्ध्वं, दाधिकमास्वादध्वम्, इत्यवहरध्वे । इसी प्रकार क्रियासमभिहार और समुच्चय अर्थ मे सब लकारो के विषय मे लोट् होता है ।

८०६—लुन्दासि लुङ्लङ्लिटः ॥ ३ । ४ । ६ ॥

छन्दोविषयक धातुसम्बन्ध होने पर सामान्यकाल में धातु से विकल्प करके लुङ् लङ् और लिट् प्रत्यय हो। लुङ्—शकलाङ्गु-ष्टकोऽकरत्, अहं तेभ्योऽकरभ्रमः। लङ्—अग्निमद्यहोतारमवृणीतायं यजमानः। लिट्—अद्य ममार, अद्य म्रियते [ इत्यर्थ ]।

॥ इति लकारार्थप्रक्रिया समाप्ता ॥

अथ षत्वप्रक्रियाऽरम्भः ॥

८०७—अपदान्तस्य मूर्धन्यः ॥ ८।३।५५ ॥

अपदान्त सकार को मूर्धन्य आदेश हो। यह अधिकार करते हैं। अष्टाध्यायी में इस पाद की समाप्ति पर्यन्त यह अधिकार है। सिषेव, सुष्वाप, अग्निषु, वायुषु। इत्यादि यहा सर्वत्र (२६) सूत्र से षत्व हुआ है। अपदान्त ग्रहण इसलिये है कि—“अग्निस्तत्र” यहा मूर्धन्य न हो। सकार को षकार कहते तो धकार को ढकार भी कहना पडता, इसलिये मूर्धन्य शब्द पडा है।

८०८—सहः साडः सः ॥ ८।३।५६ ॥

साड् रूप सह वातु के सकार को मूर्धन्य आदेश हो। जलाषाद् तुराषाद्, घृतनाषाद्। साड्ग्रहण से “तुरासाहम्” यहा नहीं हाता। स को इसलिये कहा कि आकार को न हो जावे।

८०९—इण्कोः ॥ ८।३।५७ ॥

यह भी अधिकार सूत्र है। अपदान्त सकार को मूर्धन्यादेश कहेगे सो इण् कवर्ग से ही परे हो जैसे—कर्तृषु, हर्तृषु, वाक् + सु = वाक्षु, इण् कवर्ग से परे नियम इसलिए है कि ‘दास्यति असौ’ यहाँ न हो।

८१०—नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि ॥ ८।३।५८ ॥

नुम्, विसर्जनीय और शर् प्रत्याहार इन के व्यवधान में भी इण्



कवर्ग से परे अपदान्त सकार को मूर्धन्यादेश हो । जैसे- नुम् के व्यवधान में—सर्पि+नुम्+स्+जस=सर्पिषि, हवीषि, यजूषि, इत्यादि । विसर्जनीय के व्यवधान में—सर्षिःषु, धनुःषु, यजुःषु इत्यादि । शर्व्यवधान में—सर्षिषु, यजुषु, हविषु इत्यादि । इस सूत्र में नुम् आदि प्रत्येक के व्यवधान का पृथक् पृथक् ग्रहण है, इसलिये “निस्से, निस्स्व” यहां नुम् और शर् दो के व्यवधान में षत्व नहीं होता ।

८११—स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् ॥८३६१॥

षण्णरूप सन् परे हो तो स्तु और णिजन्त धातुओं के इणन्त अभ्यास से परे जो आदेश का सकार उसको मूर्धन्य आदेश हो । स्तोतुमिच्छति तुष्टूषति । णिजन्त से—सेवयितुमिच्छति सिषेवयिषति, सुव्रापयिषति, सिषब्जयिषति । इन धातुओं में इण कवर्ग से परे अन्य सूत्रों से षत्व हो जाता, फिर यह सूत्र नियमार्थ है कि [ षण्णरूप ] सन् के परे स्तु और णिजन्त के ही अभ्यास से परे षत्व हो । इस नियम से—“सिसिद्धति, सुसूषति” यहां षत्व नहीं होता । स्तौति और णिजन्त के साथ एव शब्द पढ़ने से यह नियम नहीं होता कि स्तौति और णिजन्त को सन् होने [ पर ही ] षत्व हो । इससे “तुष्टाव” आदि में षत्व हो जाता है और “सिसिद्धति” में षत्व नहीं होता ।

८१२—सः स्विदिस्वदिसहीनां च ॥८३६२॥

षण्ण रूप सन् परे हो तो स्विदि, स्वदि और सहि इन णिजन्त धातुओं के इणन्त अभ्यास से परे अपदान्त सकार को सकारादेश ही हो । स्वेदयितुमिच्छति, सिस्वेदयिषति, सिस्वादयिषति, सिसाहयिषति । यहां सकार को सकार कहने से मूर्धन्य नहीं होता ।

८१३—प्राक्सितादङ्घ्यवायेऽपि ॥८३६३॥

“परिनिविभ्यः सेवासित०” इस आगामी (८२०) सूत्र के सित् शब्द से पहिले पहिले अट के व्यवधान मे भी मूर्धन्य आदेश होता है। अपि शब्द के पढ़ने से अड्व्यवाय से अन्यत्र निषेध नहीं होता।

८१४—स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥

८।३।६४ ॥

“उपसर्गात् सुनो०” इस अगले (८१५) सूत्र मे “परिनिविभ्यः से०” आगामी (८२०) सूत्र [ के सित् धातु ] से पहिले पहिले इण् कवर्ग से परे अभ्यास के व्यवधान मे और अभ्यास के सकार को मूर्धन्यादेश होता है।

८१५—उपसर्गात्सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौति-  
स्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम् ॥

८।३।६५ ॥

उपसर्गस्थ निमित्त इण् से परे सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, सेध, सिच, सञ्ज और स्वञ्ज इन के सकार को मूर्धन्यादेश हो। सुनोति-अभिपुणोति, परिपुणोति, अभ्यपुणोत्, पर्यपुणोत्। सुवति-अभिषुवति, परिषुवति, अभ्यषुवत्, पर्यषुवत्। स्यति—अभिष्यति, परिष्यति, अभ्यष्यत्, पर्यष्यत्। स्तौति—अभिष्टौति, परिष्टौति, अभ्यष्टौत्, पर्यष्टौत्। स्तोभति—अभिष्टोभते, परिष्टोभते, अभ्यष्टोभत्, पर्यष्टोभत्। स्था—अभिष्टास्यति, परिष्टास्यति, अभ्यष्टात्, पर्यष्टात्। स्थादिको मे अभ्यास के व्यवधान मे और अभ्यास के सकार को भी मूर्धन्य कह चुके हैं। अभितष्टौ, अभितष्टुः, पारतष्टौ। यहा अभ्यास मे सकार नहीं। सेनय—सेनया अभियाति अभिषेणयति, अभ्यषेणयत्, पर्यषेणयत्, अभिषेणयितुमिच्छति

अभिषिषेणयिषति, परिषिषेणयिषति । यहां अभ्यास के व्यवधान में और अभ्यास के सकार को भी मूर्धन्य होता है । सेध—अभिषेधति, परिषेधति, अभ्येधत्, अभिषिषेध । सिच्—अभिषिञ्चति, परिषिञ्चति, पर्यषिञ्चत्, अभिषिषिञ्चति । सञ्ज—अभिषजति, अभ्यषजत्, अभिषिषिञ्चति । स्वञ्ज—अभिष्वजते, अभ्यष्वजत, पर्यष्वजत, परिषिष्वञ्चते । सिध धातु का गुण क्रिया निर्देश है, इससे दिवादि के सिध धातु को षत्व नहीं होता—परिसिध्यति पर्यसिध्यत् । उपसर्ग ग्रहण इसलिये है कि—“दधि सिञ्चति” यहां षत्व न हो । निर्गतः सेचका अस्माद्ग्रामात्—निःसेचको ग्रामः । यहां निर् उपसर्ग का सम्बन्ध गमन क्रिया के साथ है सेचक शब्द के साथ नहीं ।

८१६—सदिरप्रतेः ॥ ८ । ३ । ६६ ॥

प्रति भिन्न उपसर्गस्थ निमित्त से परे सद् धातुके सकार को मूर्धन्यादेश हो । निषीदति, विषीदति, न्यषीदत्, व्यषीदत्, निषसाद विषसाद । प्रति का निषेध होने से “प्रतिसीदति” यहां षत्व न हुआ ।

८१७—स्तन्भेः ॥ ८ । ३ । ६७ ॥

उपसर्गस्थ इण् से परे स्तन्भ धातुके सकार को मूर्धन्यादेश होवे । अभिष्टभ्नाति, परिष्टभ्नाति, अभ्यष्टभ्नात्, अभितष्टम्भ, परितष्टम्भ । यहां प्रति के निषेध की अनुवृत्ति [ नहीं ] आती है । प्रतिष्टभ्नाति, प्रत्यष्टभ्नात्, प्रतितष्टम्भ । यहा स्तम्भ धातुको ही सूत्रकार ने नकारोपध पढ़ा है ।

८१८—अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः ॥ ८ । ३ । ६८ ॥

आश्रय और कुछ समीप होने अर्थ मे अव उपसर्ग से परे स्तम्भ धातु के सकार को मूर्धन्यादेश हो । आलम्बन—अवष्टभ्यास्ते, अवष्टभ्य तिष्ठति । सामीप्य—अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरत् ।

आलम्बन और अविदूर्य अथे से अन्यत्र—“अवस्तब्धो वृषलः शीतेन” यहां षत्व नहीं होता । अव उपसर्ग इगन्त नहीं है इसीलिए यह सूत्र पढा है, नहीं तो पूर्व सूत्र से षत्व हो ही जाता ।

८१६—वेश्च स्वनो भोजने ॥ ८ । ३ । ६६ ॥

वि और अव उपसर्ग से परे भोजन अर्थ मे स्वन धातु के सकार को मूर्धन्य हो । विष्वणति, व्यध्वणत्, विषध्वण, अवध्वणति, अवाध्वणत्, अवधध्वण । भोजन अर्थ से अन्यत्र—विस्वनति मृदङ्गः, अवस्वनति वीणाः, यहां शब्द अर्थ मे षत्व नहीं होता ।

८२०—परिनिविभ्यः सेवसितसयासिवसह-

सुट्स्तुस्वञ्जाम् ॥ ८ । ३ । ७० ॥

परि, नि, वि उपसर्गों से परे सेव, सित, सय, सिवु, सह, सुट्, और स्वञ्ज के सकार को मूर्धन्यादेश होवे । [सेव—] परिषेवते निषेवते, विषेवते, पर्यषेवत, व्यषेवत, न्यषेवत, परिषिषेविषते, विषिषे-विषते । सित—परिषित, विषित, निषितः । सय—परिषयः [विषयः] निषयः । सिवु—परिषीव्यति, विषीव्यति, निषीव्यति, पर्यपीव्यत्, [पर्यसीव्यत्,] व्यषीव्यत्, व्यसीव्यत्, न्यषीव्यत्, न्यसीव्यत् । यहां सिव आदि मे अट के व्यवधान मे अगले सूत्र से षत्व विकल्प है । सह—परिषहते, निषहते, विषहते, पर्यषहत्, न्यषहत्, व्यषहत्, पर्यसहत्, न्यसहत्, व्यसहत् । सुट् - परिष्करोति, [पर्यष्करोत्] पर्यष्करोत्, स्तु—परिष्ट्रौति, निष्ट्रौति, विष्ट्रौति, पर्यष्ट्रौत्, पर्यस्तौत् । स्वञ्ज—परिध्वजते, विध्वजते, पर्यध्वजत पर्यस्वजत् । स्तु और स्वञ्ज धातु पूर्व “उपसर्गात्सुनोति” ( ८१६ ) सूत्र मे भी पढ़े है उससे षत्व हो जाता है । फिर यहा पढने का यही प्रयोजन है कि अगले सूत्र से अट के व्यवधान मे विकल्प से षत्व होवे ।

८२१—सिवादीनां वाऽड् व्यवायेऽपि ॥८।३।७१ ॥

अट् के व्यवधान मे भी परि, नि, वि इन उपसर्गों से परे पूर्व सूत्रोक्त सिवादिको के सकार को विकल्प से मूर्धन्य आदेश हो। इस सूत्र के उदाहरण पिछले सूत्र मे दे चुके है। पर्यषहत, पर्यसहत इत्यादि।

८२२—अनुविपर्याभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ॥

८ । ३ । ७२ ॥

अप्राणी अभिधेय हो तो अनु, वि, परि अभि, नि इन उपसर्गों से परे स्यन्द धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश हो। अनुष्यन्दते, विष्यन्दते, परिष्यन्दते, अभिष्यन्दते, निष्यन्दते, तैलम् अनुस्यन्दते, विस्यन्दते, परिस्यन्दते, अभिस्यन्दते, निस्यन्दते। अप्राणिप्रहण से यहां न हुआ—अनुस्यन्दते मत्स्य उदके, अनुस्यन्दते हस्ती। “अप्राणिषु” यह पर्युदास प्रतिषेध है इससे जहा प्राणि अप्राणि दोनो का विषय है वहा भी मूर्धन्यादेश हो जाता है यहा ऐसा भाष्यकार का इङ्गित मालूम होता है। अनुष्यन्दते मत्स्यादके।

८२३—वेः स्कन्देरनिष्ठायाम् ॥ ८ । ३ । ७३ ॥

निष्ठा प्रत्यय पर न हो तो वि उपसर्ग से परे स्कन्द धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश विकल्प करके हो। विष्कन्ता, विस्कन्ता, विष्कन्तुम्, विस्कन्तुम्, विष्कन्तव्यम्, विस्कन्तव्यम्। अनिष्ठाप्रहण से यहां न हुआ—विस्कन्नः।

८२४—परेश्च ॥ ८ । ३ । ७४ ॥

परि उपसर्ग से परे स्कन्द धातु के सकार को मूर्धन्यादेश विकल्प करके हो। परिष्कन्ता, परिष्कन्तुम्, परिष्कन्तव्यम्, परिस्कन्ता, परि-

स्कन्तुम्, परिस्कन्तव्यम् । यह सूत्र जो पिछले सूत्र से अलग किया है इससे जानना चाहिये कि पिछले सूत्र से यहां “अनिष्ठायाम्” इस पद की अनुवृत्ति नहीं आती है ।

**८२५—परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥ ८ । ३ । ७५ ॥**

प्राच्यभरत अभिधेय हो तो “परिस्कन्द” यहां मूर्धन्यादेश का अभाव निपातन है । परिस्कन्दः । प्राच्यभरतो से अन्यत्र—“परिष्कन्द ” यह होता है ।

**८२६—स्फुरतिस्फुलत्योर्निर्निविभ्यः ॥ ८ । ५ । ७६ ॥**

निस्, नि, वि इनके उत्तर स्फुरति और स्फुलति के सकार को मूर्धन्यादेश विकल्प करके हो । स्फुरति—निष्फुरति, निस्फुरति, निष्फुरति. निस्फुरति, विष्फुरति, विस्फुरति । स्फुलति—निष्फुलति, निस्फुलति, निष्फुलति, विष्फुलति विस्फुलति ।

**८२७—वेः स्कभ्नातेर्नित्यम् ॥ ८ । ३ । ७७ ॥**

वि से परे स्कभ्नाति के सकार को नित्य मूर्धन्यादेश हो । विष्कभ्नाति, विष्कम्भिता, विष्कम्भितुम्, विष्कम्भिन्यम् ।

**८२८—समासेऽङ्गुलेः संगः ॥ ८ । ३ । ८० ॥**

समास मे अङ्गुलि शब्द से परे सङ्ग शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश हो । अङ्गुलेः सङ्ग. = अङ्गुलिषङ्गः समासग्रहण से यहां न हुआ—अङ्गुलेः सङ्गं पश्य ।

**८२९—भीरोः स्थानम् ॥ ८ । ३ । ८१ ॥**

समास मे भीरु शब्द से उत्तर स्थान शब्द के सकार को मूर्धन्यादेश हो । भीरुस्थानम् । समासग्रहण से यहां न हुआ—भीरोः स्थानं पश्य ।

**८३०—अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥ ८ । ३ । ८२ ॥**

अग्नि शब्द से परे स्तुत्, स्तोम, सोम इनके सकार को मूर्धन्य आदेश हो समास मे। अग्निष्टुत्, अग्निष्टोम, अग्नीषोमौ। दीर्घ अग्नि शब्द से परे मूर्धन्यादेश इष्ट है। इससे यहा न हुआ—अग्नि-सोमौ माणवकौ। समासग्रहण से यहां न हुआ—अग्नि सोमं पश्य।

८३१—ज्योतिरायुषः स्तोमः ॥ ८।३। ८३ ॥

समास मे ज्योतिस् और आयुस् शब्द से परे स्तोम शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश हो। ज्योतिष्टोमः, आयुष्टोमः। समास-ग्रहण से यहां न हुआ—ज्योतिः स्तोमं दर्शयति।

८३२—मातृपितृभ्यां स्वसा ॥ ८।३। ८४ ॥

समास मे मातृ और पितृ से परे स्वस् शब्द के सकार को मूर्धन्यादेश हो। मातृष्वसा, पितृष्वसा।

८३३—मातुः पितृभ्यामन्यतरस्याम् ॥ ८।३। ८५ ॥

समास मे मातृ और पितृ से परे स्वस् शब्द के सकार को मूर्धन्यादेश विकल्प करके हो। मातुःष्वसा, मातुःस्वसा, पितुःष्वसा, पितुःस्वसा। समासग्रहण से वाक्य मे न हुआ—मातुः स्वसा।

८३४—अभिनिः स्तनः शब्दसंज्ञायाम् ॥

८।३। ८६ ॥

शब्दसंज्ञा गम्यमान हो तो अभि निस् से परे स्तन धातु के सकार को विकल्प करके मूर्धन्यादेश हो। अभिनिष्ठानो वर्णः, अभिनिष्ठानो विसर्जनीयः, अभिनिस्तानो वर्णः, अभिनिस्तानो विसर्जनीयः। शब्दसंज्ञा से अन्यत्र—अभिनिस्तनति मृदङ्गः।

८३५—उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः ॥ ८।३। ८७ ॥

उपसर्गस्थ निमित्त और प्रादुस् शब्द से परे यकार और अच्

जिससे परे हो उस अस् धातु के सकार को मूर्धन्यादेश हो । अभिषन्ति, निषन्ति, विषन्ति, प्रादु.षन्ति, अभिष्यात्, निष्यात्, विष्यात्, प्रादु.ष्यात् । उपनर्गग्रहण से यहां न हुआ—दधि स्यात्, मधु स्यात् । अस्ति ग्रहण से यहां न हुआ—अनुसृतम् । यच्परग्रहण से यहां न हुआ—निस्तः, विस्तः, प्रादु स्तः ।

८३६—सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः॥ ८।३।८८॥

सु, वि, निर् और दुर् से परे सुपि, सूति और सम के सकार को मूर्धन्यादेश हो । “सुपि” यह सप्रसारण किये हुए स्वप् धातु का ग्रहण है । सुषुप्ति, सुषुप्तः, विषुप्तः, निःषुप्तः, दुःषुप्तः । सूति—सुषूति, विषूतिः, नि षूतिः, दुःषूतिः । सम—सुषमम्, विषमम्, नि.षमम्, दुःषमम् ।

८३७—निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ॥८।३।८९॥

कुशलता गम्यमान हो तो नि और नदी से परे स्नाति के सकार को मूर्धन्यादेश हो । निष्णातः शिल्पशास्त्रे, नद्या स्नातीति नदीष्णाः ॥ कौशलग्रहण से यहां न हुआ—निस्नात, नद्याँ स्नातो नदीस्नातः ।

८३८—सूत्रं प्रतिष्णातम् ॥ ८।३।९०॥

सूत्र वाच्य हो तो प्रतिष्णात यह निपातन है । प्रतिष्णातं सूत्रम् ॥ सूत्र शुद्ध है । यहां प्रति से स्ना धातु के सकार को मूर्धन्यादेश हुआ । सूत्र से अन्यत्र—“प्रतिस्नातम्” हागा ।

८३९—कपिष्ठलो गोत्रे ॥ ८।३।९१॥

गोत्रविषयक कपिष्ठल शब्द के सकार को मूर्धन्यादेश निपातन

\* “सुपिस्थः” ( आ० १००४ ) इस सूत्र में योग विभाग कियं है उससे “नदीष्णाः” यहां क प्रत्यय होता है ।



है । कपिष्ठल जिस का नाम है उसका कपिष्ठलि पुत्र है । अन्यत्र—  
कपेः स्थलं कपिस्थलम् ।

८४०—प्रष्टोऽग्रगामिनि ॥ ८ । ३ । ६२ ॥

अग्रगामी अभिधेय हो तो 'प्रष्टः' यह निपातन है । प्रतिष्ठत इति प्रष्टः । आगे चलता है । यहां प्र से परे स्था धातु के सकार को मूर्धन्यादेश निपातन किया है । अग्रगामीग्रहण से यहां न हुआ—  
त्रीहीना प्रस्थः ।

८४१—वृक्षासनयोर्विष्टरः ॥ ८ । ३ । ६३ ॥

वृक्ष और आसन वाच्य हो तो वि उरसर्ग से परे स्तृशाति धातु के सकार को मूर्धन्यादेश निपातन है । विष्टरो वृक्ष, विष्टरम् आसनम् । वृक्षासनग्रहण से यहा न हुआ—वाक्यस्य विस्तरः ।

८४२—छन्दोनाम्नि च ॥ ८ । ३ । ६४ ॥

छन्दोनामविषय मे वि पूर्वक स्तृब् धातु के सकार को मूर्धन्यादेश निपातन है । विष्टारपङ्क्तिः, विष्टारवृहती । छन्दोनामग्रहण से यहां न हुआ—पटस्य विस्तरः ।

८४३—गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥ ८ । ३ । ६५ ॥

गवि और युधि शब्द से परे स्थिर शब्द के सकार को मूर्धन्यादेश हो । गविष्ठरः, युधिष्ठिरः । इस सूत्र मे जो गवि, सप्तम्यन्त गो शब्द से मूर्धन्यादेश का विधान है इस ज्ञापन से समास मे गो शब्द से सप्तमी का अलुक् होता है ।

८४४—विकुशमिपरिभ्यः स्थलम् ॥ ८ । ३ । ६६ ॥

वि, कु, शमि, परि इन से परे स्थल शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश हो। विष्ठलम्, कुष्ठलम्, शमिष्ठलम्, परिष्ठलम्। अन्यत्र—कुशस्थली, मरुस्थली।

८४५—अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्वित्रिकुशेकुशङ्क्व-  
ङ्गुमञ्जिपुञ्जिपरमेवर्हिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः ॥

८।३।६७ ॥

अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सव्य, अप, द्वि, त्रि, कु, शेकु, शङ्कु अङ्गु, मञ्जि, पुञ्जि, परमे, वर्हिस, दिवि, और अग्नि इनसे परे स्थ शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश हो। अम्बष्ठ., आम्बष्ठ. गोष्ठः, भूमिष्ठः, सव्येष्ठः, अपष्ठ., द्विष्ठः, त्रिष्ठः, कुष्ठः, शेकुष्ठः, शङ्कुष्ठः, अङ्गुष्ठः, मञ्जिष्ठ., पुञ्जिष्ठः, परमेष्ठः, वर्हिष्ठः, दिविष्ठः, अग्निष्ठः।

८४६—वा-स्थास्थिनस्थृणामिति वक्तव्यम् ॥८।३।६७।  
सव्येष्ठा। परमेष्ठी। सव्येष्ठा।

८४७—सुषामादिषु च ॥ ८।३।६८ ॥

सुषामादिक शब्दों में सकार को मूर्धन्यादेश होता है। शोभन साम यस्यासौ सुषामा ब्राह्मण., निष्षामा, दुष्षेध इत्यादि।

८४८—एति सज्ञायामगात् ॥ ८।३।६९ ॥

सज्ञाविषय में एकार परे हो तो इण् और गरहित कवर्ग से परे सकार को मूर्धन्य आदेश हो। हरिषेण. वारिषेणः, जानुषेणी। एकार से अन्यत्र—हरिसक्थम्। सज्ञा से अन्यत्र—पृथ्वी सेना यस्य स पृथुसेनो राजा। अगात् के ग्रहण से यहाँ न हुआ—विष्व-क्सेनः। इण्, कु से अन्यत्र—सर्वसेनः।

८४९—नक्षत्राद्वा ॥ ८।३।१०० ॥

१ यह सुषामादि का गणसूत्र है। अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है।

संज्ञा विषय मे एकार परे हो तो इण और गकार भिन्न कवगेवान् नक्षत्र वाची शब्द से परे सकार को मूर्धन्य आदेश विकल्प करके हो । रोहिण्यिषेण, रोहिण्यिसेन, भरण्यिषेणः, भरण्यिसेनः । गकार के निषेध से यहा न हुआ—शतभिषक्सेन ।

**८५०—ह्रस्वात्तादौ तद्धिते ॥ ८ । ३ । १०१ ॥**

तकारादि तद्धित परे हो तो ह्रस्व से परे सकार को मूर्धन्य आदेश हो । तकारादि तद्धित—तर, तम, तय, त्व, तल्, तस्, त्यप् । तर—सर्पिष्टरम्, यजुष्टरम् । तम—सर्पिष्टमम्, यजुष्टमम् । तय—चतुष्टयम्, चतुष्टयी शब्दाना प्रवृत्तिः । त्व—सर्पिष्ट्वम्, यजुष्ट्वम् । तल्—सर्पिष्टा, यजुष्टा । तस्—सर्पिष्ट । त्यप्—आविष्ट्यः । ह्रस्व-ग्रहण से यहां न हुआ—धूस्तरा, गीस्तरा । ताद्विग्रहण से यहां न हुआ—सर्पिस्ता इवति । तद्धित से अन्यत्र—सर्पिस्तर्पयति ।

**८५१—निसस्तपतावनासेवने ॥ ८ । ३ । १०२ ॥**

तप धातु परे हो तो अनासेवन अर्थ मे निस् के सकार को मूर्धन्य आदेश हो । आसेवन=बार बार करना अर्थ न हो वह अनासेवन कहाता है । निष्टपति सुवणम् । अग्नि से सुवण को एक बार तपाता है । अनासेवन ग्रहण से यहां न हुआ—निस्तपति पाणि विष्णुमित्रः ।

**८५२—युष्मत्तत्तत्तुःष्वन्तः पादम् ॥ ८ । ३ । १०३ ॥**

तकारादि युष्मत् तत् और तत्क्षुस् परे हो तो सकार को मूर्धन्यादेश हो जो वह सकार पाद के मध्य मे हो तो । तकारादि युष्मत्—त्व, त्वां, ते, तव । त्वं—अग्निष्ट्वं नामासीत् । त्वा—अग्निष्टवा वर्धयामसि । ते—अग्निष्टे विश्वमानय । तव—अपूस्वमे

सधिष्ट्व । तत्—अग्निष्टद्विभ्रमापृणाति । ततक्षुस्—द्यावापृथिवी  
निष्टतक्षुः । अन्तःपादग्रहण से यहा न हुआ—नित्यमात्मनोविदाभू-  
दग्निस्तन् पुनराह जातवेदां विचर्षणि ।

८५३—यजुष्येकेषाम् ॥ ८ । ३ । १०४ ॥

यजुर्वेद के विषय मे तकारादि युष्द्, तत् और ततक्षुस् परे हो  
तो किन्हीं आचार्यों के मत से सकार का मूर्धन्यादेश हो । अर्चिर्भि-  
ष्ट्वम्, अर्चिर्भित्त्वम्, अग्निष्टेयम्, अग्निस्तेयम्, अग्निष्टत्, अग्निस्तत्,  
अर्चिर्भिष्टतक्षुः, अर्चिर्भित्तक्षु ।

८५४—स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि ॥ ८ । ३ । १०५ ॥

किन्हीं आचार्यों के मत से वेदविषय मे इण् कवर्ग से परे स्तुत  
और स्तोम शब्द के सकार का मूर्धन्यादेश हो । त्रिभिष्टुतस्य,  
[त्रिभिस्तुतस्य] गोष्टोम्, षोडशिनम्, गोस्तोम् षोडशिनम् ।

८५५—पूर्वपदात् ॥ ८ । ३ । १०६ ॥

किन्हीं आचार्यों के मत मे पूर्वपदस्य निमित्त से परे वेदविषय  
मे सकार को मूर्धन्यादेश हो । द्विषन्धिः, त्रिषन्धिः, द्विसन्धिः,  
त्रिसन्धिः, मधुष्ठानम्, मधुस्थानम्, द्विषाहस्र चिन्वीत, द्विसाहस्रं  
चिन्वीत । इस सूत्र मे पूर्वपदानात्र का ग्रहण किया है इससे अस-  
मास मे भी पूर्वपद से परे सकार को मूर्धन्यादेश होता है । त्रिः  
षमृद्धत्वाय, त्रि समृद्धत्वाय ।

८५६—सुजः ॥ ८ । ३ । १०७ ॥

वेदविषय मे पूर्वपदस्य निमित्त से परे सुज् निपात के सकार को  
मूर्धन्यादेश हो । अभी षु णः सखीनाम्, ऊर्ध्व ऊ षु णः ।

८५७—सनोतेरनः ॥ ८ । ३ । १०८ ॥

इण कवगे से परे नकारान्ताभिन्न सन् धातु के सकार का मूर्धन्य आदेश हो । गोषाः, नृषाः । नकार के निषेध से यहां न हुआ । गोषनिं वाचमुदीरयन् ।

८५८—सहेः पृतनर्ताभ्यां च ॥ ८ । ३ । १०६ ॥

पृतना और ऋत से परे सह धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश हो । पृतनाषाहम्, ऋताषाहम् । अन्यत्र—विश्वसाट् । चकार अनुक्त समुच्चय के लिये है इसमें 'ऋताषहम्' यहां भी मूर्धन्य हाता है ।

८५९—न रपरसृपिसृजसृशिसृहिसवनादोनाम् ॥

८ । ३ । ११० ॥

जिससे रेफ परे हो उस सकार को तथा सृपि, सृजि, सृशि, सृहि और सवनादको के सकार को मूर्धन्य आदेश न हो । [रपर] विस्रासिकायाः कारड जुहोति, विस्रब्धः कथयति । सृि—पुरा क्रूरस्य विसृप । सृजि—वाचां विसर्जनात् । सृशि—विस्विशम् । सृहि—निस्पृहं कथयति । सवनादि—सवने सवने, सूत सूते, इत्यादि । इस सवनादि षण्ण मे जो "अश्रसनि" ष्ठ का ग्रहण किया है इस ज्ञापन स अनिणन्त से भी परे सकार को मूर्धन्यादश होता है । जैसे—जलाषाहम्, अश्रषा ।

८६०—सात्पदाद्योः ॥ ८ । ३ । १११ ॥

सात् और पदादि सकार को मूर्धन्य आदेश न हो । सात्—अग्निसात्, दाधसात्, मधुसात्, पदादि—दाध सिञ्चति, मधु सिञ्चति ।

८६१—सिचो यडि ॥ ८ । ३ । ११२ ॥

यड् परे हो तो सिच् के सकार को मूर्धन्यादेश न हो । सेसिच्येत, अभिसेसिच्येत । यड् प्रहण से यहां न हुआ—अभिषिषिञ्चति ।

८६२—सेधतेर्गतौ ॥ ८ । ३ । ११३ ॥

गति अथे मे वर्तमान सेधति के सकार को मूर्धन्यादेश न हो । अभिसेधयति गाः, परिसेधयति गा । गतिप्रहण से यहां निषेध न हुआ—प्रतिषेधयति गाः ।

८६३—प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च ॥ ८ । ३ । ११४ ॥

प्रतिस्तब्ध और निस्तब्ध ये मूर्धन्यादेश प्रतिषेध के लिये निपातन हैं । प्रतिस्तब्ध, निस्तब्धः ।

८६४—सोढः ॥ ८ । ३ । ११५ ॥

सोढ के सकार को मूर्धन्य आदेश न हो । 'सोढ्' यह सह धातु का होना है । परिसोढ, परिसोढुम्, परिमोढव्यम् । सोढ्प्रहण से यहां न हुआ—परिषहते ।

८६५—स्तम्भुसिवुसहां चङि ॥ ८ । ३ । ११६ ॥

चङ् परे हो तो स्तम्भु, सिवु और सह के सकार को मूर्धन्यादेश न हो । स्तम्भुसिवुसहा चङ्युपसर्गात् । महाभाष्ये । ८।३।११६। स्तम्भु, सिवु, सह इनको उपसर्ग से जो प्राप्ति है उसका निषेध हो, किंतु अभ्यास से जो प्राप्ति उसका निषेध न हो । स्तम्भु—पर्यतस्तम्भत्, अभ्यतस्तम्भत् । सिवु—पर्यसाषिवत्, न्यसीषिवत् । सह—पर्यसीषहत्, व्यसीषहत् ।

८६६—सुनोतेः स्यसनोः ॥ ८ । ३ । ११७ ॥

सुनोति के सकार को मूर्धन्यादेश न हा स्य और सन् परे हो तो । अभिसोष्यति, परिसोष्यति, अभ्यसोष्यत्, पर्यसोष्यत् । स्य सन् प्रहण से यहां न हुआ—सुषाव ।

८६७—सदेः\*परस्य लिटि ॥ ८ । ३ । ११८ ॥

लिट् परे हां तो अभ्यास से परे सद क सकार को मूर्धन्य आदेश न हो । अभिषसाद्, परिषसाद्, निषसाद्, विषसाद् ।

८६८ वा०—सदो लिटि प्रतिषेधे

स्वञ्जरूपसङ्ख्यानम् ॥

लिट् परे हां तो सद् धातु के प्रतिषेध में स्वञ्ज के पर सकार को भी मूर्धन्यादेश का प्रतिषेध कहना चाहिये । परिपस्वजे, परिपस्वजात् ।

८६९—निव्यभिभ्योऽङ्गव्याये वा च्छन्दासि ॥

८ । ३ । ११९ ॥

वेदविषय में नि, वि, अभि इन उपसर्गों से पर अट् का व्यवधान हो वा न हो तो सकार का मूर्धन्य आदेश विकल्प करके हो । न्यपीदत् पिता न, व्यपीदत्, व्यसीदत्, अभ्यष्टौत्, अभ्यस्तौत् ।

इति षत्वप्रक्रिया समाप्ता ॥

अथ णत्वप्रक्रिया ॥

८७०—रषाभ्यां नो णः समानपदे ॥ ८ । ४ । १ ॥

रेफ और षकार म पर नकार को णकारादेश हो यदि निमित्त और निमित्ती एक पदस्थ हो तो । अवर्गीणम्, अवर्गूणम्, कुष्णाति, पुष्णाति, मुष्णाति । समानपद ग्रहण रु यहा न हुआ—अग्निर्न्यति,

\* ( सदे. ) इस सूत्र में काशिकाकार ने स्वञ्ज धातु को भी मिलाकर मूल सूत्र का अन्यथा पाठ “सादस्वञ्जो परस्य लिटि” करके व्याख्यान किया है, यह उनका व्याख्यान अनादरणीय है, क्योंकि स्वञ्ज धातु के लिये तो महाभाष्य में वातिक ही पढा है ।

वायुर्नयति । इमं सूत्रं मे षकारग्रहणं अगले सूत्रो के लिये है, क्योंकि षकार से परे नकार को एत्वादेश श्रुत्व से भी हो जाता है । रषाभ्यां णन्व ऋकारग्रहणम् । महाभाष्यम् ८ । ४ । १ । र और ष से परे एत्वादेश विधान में ऋकार का भी ग्रहण करना चाहिये । मातृणाम् । पतृणाम् । अथवा क्षुभ्नादिगण में जो नृनमन और वृणु शब्द का पाठ है उस [ क ] ज्ञापन से भी ऋकार से परे नकार को एत्वादेश होता है ।

८७१—अट्कुप्वाडनुम्ब्यवायेऽपि ॥ ८ । ४ । २ ॥

अट्, कु, पु, आड्, नुम् इनसे व्यवधान में भी रेफ षकार से परे नकार का एकारादेश होता है । अट्—कुरुणा, गुरुणा, किरिणा, गिरिणा । कवर्ग—अक्रेण, मुखेण । पवर्ग—दप्रेण, रेफेण, गर्भेण, कमणा, चर्मणा, वर्भणा । आड् पर्याणद्धम् । अट्ग्रहण से भी आड् व्यवाय में सद्ध था, फिर आड् ग्रहण “पदव्यवायेऽपि” इस प्रातिषेध ३ बाधने के लिये है । नुम्—वृङ्णम्, वृंहणीयम् । यहाँ नुम्ग्रहण अनुम्वार वा उपलक्षणमात्र है । इसमें उक्त ‘वृहणम्, वृंहणीयम्’ उदाहरणों में नुम् के अभाव में भी अनुस्वार के व्यवधान से एत्वादेश होता है । नुम् रु होने भी जहाँ अनुस्वार नहीं होता वहाँ नहीं होता है । प्रन्वनम्, प्रन्वनायम् ।

८७२—पूर्वपदात् संज्ञायामगः ॥ ८ । ४ । ३ ॥

सज्ञा विषय में पूर्वपदस्थ नामत्त स परे नकार को एकारादेश हो यदि पूर्वपद में गकार न हो तो । द्रुणस, खरणसः, शूर्पणखा । सज्ञा से अन्यत्र—चर्मनासिक । अग्रग्रहण से यहाँ न हुआ—ऋणयनम् ।

८७३—वनं पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोटराग्रेभ्यः

॥ ८ । ४ । ४ ॥



संज्ञाविषय मे पुरगा, मिश्रका, सिध्रका, शारिका, कोटरा, अग्रे इन्ही पूर्वपदों से परे वन शब्द के नकार को णकारादेश हो, औरों से न हो। पुरुगावणम्, मिश्रकावणम्, सिध्रकावणम्, शारिकावणम्, कोटरावणम्, अग्रेवणम्। औरों से न हा, जैसे—कुवेरवनम्, शतधारवनम्, असिपत्रवनम्।

८७४—प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपीयूक्षाभ्यो  
संज्ञायामाप ॥ ८ । ४ । ५ ॥

सज्ञा वा असज्ञा विषय मे प्र, निर, अन्तर, शर, इक्षु, प्लक्ष, आम्र, कार्ष्य, खदिर, पीयूक्षा इनसे परे वन शब्द के नकार को णकारादेश हो। प्रवणे यष्टव्यम्, निर्वणे प्रतिवीयते, अन्तर्वणम्, शरवणम्, इक्षुवणम्, प्लक्षवणम्, आम्रवणम्, कार्ष्यवणम्, खदिरवणम्, पीयूक्षावणम्।

८७५—विभाषौषधि\*वनस्पतिभ्यः ॥८।४।६॥

निमित्तवान् औषधि और वनस्पति वाचक जां पूर्वपद उनसे परे वन शब्द के नकार को णकारादेश विकल्प करके हां। औषधि—दूर्वावणम्, दूर्वावनम्, मूर्वावणम्, मूर्वावनम्। वनस्पति—शिरीषवणम्, शिरीषवनम्, बदरीवणम्, बदरीवनम्। द्व्यक्षरत्र्यक्षरेभ्य इति वक्तव्यम्। महाभाष्ये ८ । ४ । ६। दो अक्षर और तीन अक्षर वाले औषधि और वनस्पतियों से हो औरों से न हो। [जैसे] देवदारुवनम्, भद्रदारुवनम्।

\* उद्भिजा. स्थावरास्सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण ।

औषध्य फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा. ॥ १ ॥

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतय स्मृताः ।

पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तुभयत स्मृताः ॥ २ ॥

मनुस्मृति अध्याय १ । श्लोक ४७ ॥

८७६—वा०—इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

८ । ४ । ६ ॥

इरिकादिकों से परे नकार के एत्वादेश का प्रतिषेध कहना चाहिये । इरिकावनम्, तिगिरिकावनम् ।

८७७—अहोदन्तात् ॥ ८ । ४ । ७ ॥

निमित्तवान् अदन्त जां पूर्वपद उससे परे अहन् के नकार को एकारादेश हा । पूर्वार्द्ध । अपराद्गण । अदन्तग्रहण से यहा न हुआ—निरहन् । अहन् के ग्रहण से यहाँ न हुआ—दीर्घाह्नी ।

८७८—वाहनमाहितात् ॥ ८ । ४ । ८ ॥

आहितवाची निमित्तवान् पूर्वपद से परे वाहन शब्द के नकार को एकारादेश हो । यहा गाडी आदि में भर क जो बस्तु ले जाई जावे उसका ग्रहण आहित शब्द से है । इक्ष्वाहणम्, शरवाहणम्, दर्भवाहणम् । आहित ग्रहण से यहा न हुआ—‘दाक्षिवाहनम्, गर्गवाहनम्’ यहा गमनक्रिया विवक्षित नहीं है ।

८७९—पानं देशे ॥ ८ । ४ । ९ ॥

देश अभिधेय हो तो पूर्वपदस्थ निमित्त से परे पान शब्द के नकार को एकारादेश हो । पीयत इति ॐ पानम् । जो पीया जाय वह पान कहावे । क्षीर पान येपान्ते क्षीरपाणा उशीनरा, सुरापाणाः प्राच्याः, सौवीरपाणा बाह्लिका, कषायपाणा गान्धारा । इन उदा-

१ अर्थात् यहा दाक्षि = दक्ष के अपत्यो का गाडी में भर के ले जाना विवक्षित नहीं है । अपितु दाक्षि = दक्षापत्यो की गाडी, यह स्वस्वामिसंबन्ध विवक्षित है ।

\* यहा ‘कृत्यटो बहुलम् आ० इस सूत्र से कर्म में लुट है ।

हरणो मे मनुष्याभिधान से भी देशाभिधान की प्रतीति होती है ।  
देशग्रहण से यहां न हुआ - दाक्षिपानम् ।

८८०—वा०—भावकरणयोः ॥८४१०॥

पूर्वपदस्थ निमित्त से परे भाव और करण मे जो पान शब्द  
उसके नकार को एकारादेश हा । भाव—क्षीरपाणम्, क्षीरपानम्,  
कषायपानम्, कषायपाणम् । करण—क्षीरपाण, क्षीरपान कमण्डलुः ।

८८१—वा०—वाप्रकरणे गिरिनद्यादीनानुपसंख्यानम् ॥

वाप्रकरण मे गिरिनद्यादिको की गणना करना चाहिये । गिरनद्या,  
गिरिणदी । चक्रणितम्बा, चक्रनितम्बा ।

८८२—प्रातिपदिकान्तनुम् विभक्तिषु च ॥८४११॥

पूर्वपदस्थ निमित्त से परे प्रातिपदिकान्तनुम् और विभक्तिषु  
नकार को एकारादेश हा । प्रातिपदिकान्त—मापवापिणो, मापवा-  
पिनौ । नुम्—माषवापाणि, माषवापान । विभाक्त मापवापेण,  
माषवापेन, ब्रीहिवापेण, ब्रीहिवापेन । पूर्वपद के अकार से उत्तरपद  
का प्रातिपदिकस्थ अन्त्य जो नकार है उसका एत्वादेश बताना है ।  
इससे यहां नहीं होता—गर्गाणा भगिनी गगेभगिनी, दनभगिनी ।  
और जब यह वाक्य हो । गर्गाणा भगा गगेभग., गगेभगाऽस्या  
अस्तीति, गगेभगिणी । तब ( ८८३ ) अगल सूत्र से अन्त्य एत्वादेश  
होता है । माषवापिणी, मापवापिनी । यहां भी एकार विकल्प से  
होता है क्योंकि “गतिकारकोपपदाना कृद्भिस्सह समाभवचन  
प्राक् सुवुत्पत्तः” इस परिभाषा से कृदन्त क साथ ही से समास  
होने से कृतसंज्ञक प्रत्यय का नकार प्रातिपदिकान्त ही माना जाता  
है । इसी हेतु से सूत्र में नुम् का ग्रहण अलग किया है क्योंकि नुम्  
समुदाय का भक्त है अत एव प्रातिपदिकान्त नहीं होता है ।

८८३—वा०—युवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

प्रातिपदिकान्तादि नकार को एत्वविधान में युवादिको का प्रतिषेध कहना चाहिये । आर्ययूना, क्षत्रिययूना, प्रपक्वानि, परिपक्वानि, दीर्घाहनी शरत् ।

८८४—एकाजुत्तरपदे णः ॥ ८ । ४ । १२ ॥

जिस में एकाच् उत्तरपद है उस समास में पूर्वपदस्थ निमित्त से परे प्रातिपदिकान्त नुम् और विभक्ति के नकार को एकारादेश हो । [ प्रातिपदिकान्त ] वृत्रहणौ, वृत्रहण । नुम्—क्षीरपाणि, सुरापाणि । विभक्ति—क्षीरपाणे, सुरापाणे । ए अनुवर्तमान था फिर एग्रहण पूर्व-विकल्प के वाचने के लिये है ।

८८५—कुमति च ॥ ८ । ४ । १३ ॥

कवर्गवान् उत्तरपदवाले समास में पूर्वपदनिमित्त से परे प्रातिपदिकान्त नुम् और विभक्तस्थ नकार को एकारादेश हा । [ प्रातिपदिकान्त ] वन्नयुगिणौ, वन्नयुगिण, स्वगोकामिणी, वृषगामिणी । नुम्—वन्नयुगाणि, खरयुगाणि । विभक्ति—वन्नयुगेण, खरयुगेण ।

८८६—उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ॥ ८ । ४ । १४ ॥

समास वा असमास में उपसर्गस्थ निमित्त से परे णोपदेश धातु के नकार को एकारादेश हा । प्रणमति, परिणमति, प्रणयनम्, प्रणायकः, परिणायक, उपसर्गग्रहण से यहां न हुआ—प्रगता नायका अस्मादेशात् प्रनायको देश । असमासग्रहण समास की निवृत्ति के लिये है, क्योंकि पूर्वपद के अधिकार से समास ही में प्राप्ति थी । णोपदेशग्रहण से यहां न हुआ—परिनर्दति, परिनुत्यति ।

८८७—हिनुमीना ॥ ८ । ४ । १५ ॥

उपसर्गस्थ निमित्त से परे हिनु, मीना इनके नकार को एकारादेश हो । प्रहिणोति, प्रहिणुतः, प्रमीणाति, प्रमीणीतः ।

८८८—आनि लोट् ॥ ८ । ४ । १६ ॥

उपसर्गस्थ निमित्त से परे लोट् लकार के आदेश आनि शब्द के नकार को एकारादेश हो । प्रवपाणि, परिवपाणि, प्रयाणि, परियाणि । लोट् ग्रहण से यहां न हुआ—प्रवपानि मांसानि ।

८८९—नेर्गदनदपतपदधुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रा-  
तिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च ॥

८ । ४ । १७ ॥

गद, नद, पत, पद, घुसंज्ञक, ( डुदाब्, दाण, दो, देड, डुधाब्, धेट् ) मा, ( माड्, मेड् ) सो, हन्, या, वा, द्रा, प्सा, डुवप्, वह, शमु, चिब् दिह य धातु परे हो तो उपसर्गस्थ निमित्त से परे नि के नकार को एकारादेश हो । गद—प्रणिगदति, [ परिणिगदति ] । नद—प्रणिनदति, परिणिनदति । पत—प्रणिपतति, परिणिपतति । पद—प्रणिपद्यते, परिणिपद्यते । घु—प्रणिदधाति, प्रणिदाता, प्रणियच्छति, प्रणिद्यति, प्रणियद्यते, प्रणिदधाति, प्रणियद्यति । मा—प्रणिमिमीते, प्रणिमयते । सो—प्रणिव्यति, परिणिव्यति । हन्—प्रणिहन्ति, या—प्रणियाति । वा—प्रणिवाति । द्रा—प्रणिद्राति । प्सा—प्रणिप्साति । डुवप्—प्रणिवपति, परिणिवपति । वह—प्रणिवहति । शमु—प्रणिशाम्यति । चिब्—प्रणिचिनोति । दिह—प्रणिदेग्धि । यहां ( ८६८ ) सूत्र से अडव्यवाय का अनुवर्तन कर अट् के व्यवधान में भी नि के नकार को एकारादेश होता है—प्रणयगदन्, प्रणयागदान् ।

८९०—शेषे विभाषा कखादावषान्त उपदेशे ॥

८ । ४ । १८ ॥

उपदेश अवस्था मे क, ख जिसके आदि मे और प अन्त मे न हो ऐसा पृर्वोक्तो से शेष वातु परे हो तो उपसर्गस्थ निमित्त से परे नि के नकार को णकारादेश विकल्प करके हो । प्राणिपचति, प्रनिपचति, प्राणिभिनक्ति, प्रनिभिनक्ति । अकखादिग्रहण से यहाँ न हुआ—प्रनिकरोति, प्रनिखादाति । अषान्तग्रहण से यहाँ न हुआ—प्रनिपिनष्टि । उपदेशग्रहण का यह फल है कि “प्रनिचखाद, प्रनिचकार, प्रनिपेक्ष्यति” इत्यादिको मे प्रतिपेव हो । तथा विश—‘प्राणिवेष्टा, प्राणिवेक्ष्यति’ यहाँ प्रतिषेध न हो ।

८६१—अन्तरेरन्तः ॥ ८ । ४ । १६ ॥

अन्त [ अर्थात् ] समीपवर्ती जो उपसर्गस्थ रेफ उस से परे अन्त धातु के नकार का णकारादेश हो । हे प्राण, हे पराण, प्राणिति, पराणिति । यह ( ९१० ) सूत्र का अपवाद है । अन्तग्रहण से यहाँ न हुआ—पर्यनिति । यहाँ दा वर्ण का व्यवधान है इससे नकार को णकारादेश नहीं होता, एकवर्ण का व्यवधान तो अन्त धातु का जो ‘अ’ अवयव है उसी से प्राप्त है ।

८६२—उभौ साभ्यासस्य ॥ ८ । ४ । २० ॥

उपसर्गस्थ निमित्त से परे अभ्यासयुक्त अन्त धातु के दोनो नकारों को णकारादेश हो । प्राणिणिषति । प्राणिणत् । पराणिणिषति । पराणिणत् ।

८६३—हन्तेरत्पूर्वस्य ॥ ८ । ४ । २१ ॥

उपसर्गस्थ निमित्त से परे हन्त धातु के अकार पूर्वक नकार को णकारादेश हो । प्रहण्यते, परिहण्यन्, प्रहणनम्, परिहणनम् । अत्पूर्वग्रहण से यहाँ न हुआ—प्रन्नन्ति, परिन्नन्ति । तपर करण से यहाँ न हुआ—प्राधानि, पराधानि । ये चिण् के परे प्रयोग है ।

८६४—चमोर्वा ॥ ८ । ४ । २२ ॥

व, म परे हो तो उपसर्गस्थ निमित्त से परे हन धातु के नकार को एकारादेश विकल्प करके हो । प्रहणव., प्रहण्व, प्रहणमः, प्रहण्मः ।

८६५—अन्तरदेशे ॥ ८ । ४ । २३ ॥

देश न अभिधेय हो तो अन्तर् शब्द से परे हन धातु के अकार-पूर्वक नकार को एकारादेश हो । अन्तर्हणम् । अदेश प्रहण से यहां न हुआ—अन्तर्हननो देशः । अत्पूर्व प्रहण से यहां न हुआ—अन्तरघानि ।

८६६—अयनं च ॥ ८ । ४ । २४ ॥

देश न कहा जाय तो अन्तर् शब्द से परे अयन शब्द के नकार को एकारादेश हो । अन्तरयणम् । अदेशप्रहण से यहां न हुआ—अन्तरयनो देशः ।

८६७—छन्दस्यृद्वग्रहात् ॥ ८ । ४ । २५ ॥

वेदविषय मे अवग्रह [ संज्ञक ] ऋकार जिस के अन्त मे हो उससे परे नकार को एकारादेश हो । जो विग्रह मे उच्चारण करने से निरवकाश गृहीत हो वह अवग्रह कहाता है । नृमणाः, पितृयाणम् । नृ, पितृ ये विग्रह मे भिन्न २ भी पद है, तथापि यहां मकार और या के साथ ही ऋ, का उच्चारण होता है ।

८६८—नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥ ८ । ४ । २६ ॥

वेदविषय मे धातुस्थ निमित्त से तथा उरु और पु से परे नस् शब्द के नकार को एकारादेश हो । धातुस्थ—अग्ने रक्षा एणः, शिक्षा णो अस्मिन् । उरु--उरु एस्फुधि । पु--अभी पु णः सखीनाम्, ऊर्ध्व ऊ पु ण ऊतये ।

८६६—उपसर्गाद्बहुलम् ॥ ८ । ४ । २७ ॥

वेदविषय में उपसर्गस्थ निमित्त से परे नस् के नकार को णकारादेश बहुल करके हो । प्रणस , प्रणो राजा । बहुलग्रहण से— “प्र नो मुञ्चतम्” यहा नही भी होता । भाषा मे होता भी है— प्रणस मुखम् ।

६००—कृत्यचः ॥ ८ । ४ । २८ ॥

उपसर्गस्थ निमित्त से परे अच जिस के प्रवे उस कृतस्थ नकार को णकारादेश हो । अन, मान, अनीय, अनि, इनि और निष्ठादेश मे जो नकार उनको णकारादेश होता है । अन—प्रयाणम्, परियाणम्, प्रमाणम्, परिमाणम् । मान—प्रयायमाणम्, परियायमाणम् । अनीय—प्रयाणीयम्, परियाणीयम् । अनि—अपरियाणिः । इनि—प्रयायिणी, परियायणी । निष्ठादेश—प्रहीणः, परिहीण, प्रहीणवान्, परिहीणवान । अच के ग्रहण से यहा न हुआ—प्रभुम्, परिभुग्नः । भुजो कौटिल्ये से निष्ठा के परे प्रयोग है ।

६०१—वा०—कृतस्थस्य णत्वे निर्विणस्योपसं-

ख्यानं क्तब्यम् ॥

निर्विणसोऽहमन्न वासेन ।

६०२—णोविभाषा ॥ ८ । ४ । २९ ॥

उपसर्गस्थ निमित्त से परे एयन्तधातु से विहित कृतस्थ अच् पूर्वक जो नकार उसको णकारादेश विरूप करके हो । प्रयाणम्, प्रयापनम्, परियापणम्, परियापनम् । विहितविशेषण से— “प्रयाप्यमाणम्” यहा यक् प्रत्यय के व्यवधान मे नकार को णत्वादेश होता है ।

६०३—हलश्चेजुपधात् ॥ ८ । ४ । ३० ॥



उपसर्गस्थ निमित्त से और हलादि इजुपध धातु से परे कृतस्थ अचपूर्वक जो नकार उसको एकारादेश विकल्प करके हो। प्रकोपणम्, प्रकोपनम्। हलग्रहण से यहा न हुआ—>हणम्। इजुपध-ग्रहण से यहा न हुआ—प्रवपणम्।

६०४—इजादेः सनुमः ॥ ८।४।३१ ॥

उपसर्गस्थनिमित्त से परे इजादि सनुम् हलन्त धातु उससे विहित जो कृत् प्रत्यय तत्स्थ अचपूर्वक नकार को एकारादेश हो। प्रेङ्खणम्, प्रेङ्गणम्, प्रोम्भणम्। इस विषय मे एकारादेश।सद्ध था फिर एत्व-विधान इजादि सनुम् से नियम के लिये है। सनुम् सं हो तां इजादि ] ही सनुम् स हो अन्य से न हो “प्रमङ्गनम्” यदां एत्व नहीं होता।

६०५—वा निसान्त्तनिन्दाम् ॥ ८।४।३२ ॥

उपसर्गस्थ निमित्त से निस, नित्त और निन्द के नकार को एकारादेश विकल्प करके हो। प्रणिसनम्, प्रनिसनम्, प्रणिन्तणम्, प्रनिन्तणम्, प्रणिन्दनम्, प्रनिन्दनम्।

६०६—न भाभूपूकमिगमिप्यायिवेषाम् ॥ ८।४।३३ ॥

उपसर्गस्थनिमित्त से परं भा, मृ, पृ, क्मि, ग्मि, प्याय और वेष धातु के कृतस्थ नकार को एकारादेश न हो। प्रभानम्, परिभानम्, प्रभवनम्, परिभवनम्, प्रपवनम्, परिपवनम्, प्रकमनम्, परिकमनम्, प्रगमनम्, परिगमनम्, प्रप्यायनम्, परिप्यायनम्, प्रवपनम्, परिवैपनम्। भादिषु पूञ् ग्रहणम्। महाभाष्ये ८।४।३३। भादिको मे पूञ् धातु का ग्रहण करना चाहिये। किन्तु पूञ् से नित्य एत्व होता है। प्रवपणं सोमस्य।

६०७—वा०—एयन्तस्य चोपसंत्वानं कर्तव्यम् ॥

८।४।३३ ॥

प्रभापनम् । परिभापनम् ।

६०८—षात् पदान्तात् ॥ ८ । ४ । ३४ ॥

पदान्त षकार से परे नकार का एकारादेश न हो । निष्पानम्, दुष्पानम्, सर्पिष्पानम् । पग्रहण से यहा निषेध न हुआ—निर्णयः । पदान्त ग्रहण से यहा निषेध न हुआ—कुष्णाति, पुष्णाति । “पदान्तात्” यहा ‘पदे अन्तः’ यह सप्तमी समास इष्ट है । इससे यहाँ निषेध न हुआ—सुसर्पिष्केण ।

६०९—नशोः षान्तस्य ॥ ८ । ४ । ३५ ॥

षकारान्त नश को एकारादेश न हो । प्रनष्टः, परिनष्टः । षान्त-ग्रहण से यहा निषेध न हुआ—प्रणश्यति । अन्तग्रहण भूतपूर्व षान्त से भी एत्व के प्रतिषेध के लिये है । प्रनङ्क्ष्यति, परिनङ्क्ष्यति ।

६१०—पदान्तस्य ॥ ८ । ४ । ३६ ॥

पदान्त नकार को एकारादेश न हो । वृत्तान्, प्लत्तान्, रामान् ।

६११—पदव्यवायेऽपि ॥ ८ । ४ । ३७ ॥

निमित्त और निमित्ती को पदव्यवधान भी हो तो नकार को एत्वादेश न हो । माषकुम्भवापेन, प्रात्रनद्धम् ।

६१२—क्षुभ्नादिषु च ॥ ८ । ४ । ३८ ॥

क्षुभनादिक शब्दों में नकार का एकारादेश न हो । क्षुभ्नाति । अजादेश के स्थानिवद्भाव से यहा भी निषेध होता है—क्षुभ्नीतः, इत्यादि । अवहितलक्षण एत्वप्रतिषेध क्षुभ्नादिकों में देखना चाहिये ।

इति एत्वप्रक्रिया समाप्ता ॥

अजन्त धातु से यत् प्रत्यय हो। मेयम्। जेयम्। अच् ग्रहण क्यो क्रिया ? हलन्त से तो रयत् विधान ही करेगे प्रथम जो अजन्त धातु है उसमे भी हो इसीलिये। जैसे—लव्यम्, पव्यम्। यहा आगामी आर्धधातुक का विषय मानकर गुण और अवादेश किये पीछे हलन्त से यत् नहीं प्राप्त है। दित्स्यम्, धित्स्यम्। यहा आगामी आर्धधातुक विषय मान कर अकार लोप किय पाछे हलन्त स यत् नहीं प्राप्त है ।

६२२—ईद्यति ॥ ६। ४। ६५ ॥

यत् प्रत्यय परे हो तो आदन्त अंग को ईकारादश हो। आदेयम्, गेयम्।

६२३—वा०—तकिशसिचतियतिजनीनामुपसं-  
ख्यानम् ॥ ३। १। ६७ ॥

तकि—तक्यम्, शसि—शस्यम्, चति—चत्यम्, यति—यत्यम्, जनि—जन्यम्। यहा जन वातु से यत् प्रत्यय का विधान केवल स्वर के लिये है क्योकि यत् और रयत् मे इसका एकसा प्रयोग होता है<sup>२</sup>।

६२४—वा०—हनो वध च ॥ ३। १। ६७ ॥

हन धातु से यत् प्रत्यय और हन् को वध आदेश विकल्प करके

१ महाभाष्यकार ने यह प्रयोजन “आर्धधातुवे” ( ६। ४। ४७ आ० १७१ ) सूत्र में विषय सप्तमी मानकर दिया है, जो कि एकदेशीय है। वस्तुतः वहा पर परसप्तमी पक्ष है। उस पक्ष मे अच्ग्रहण के बिना भी कार्य चल सकता है।

२ इयत् होने पर “जनिवध्योश्च” ( आ० ४०३ ) से वृद्धि का प्रतषेध हो जाता है।

कहना चाहिये । वव्य । दूसरे पक्ष मे—घात्यः । यहा आगामी ख्यत् प्रत्यय हो जाता है ।

६२५—पोरदुपधात् ॥ ३ । १ । ६८ ॥

अकार जिसके उपधा मे हो ऐसे पवर्गान्त धातु से यत् प्रत्यय हो । शप्यम्, लभ्यम् । पवर्गग्रहण से यहा न हुआ—पाक्यम्, वाक्यम् । अदुपधग्रहण से यहा न हुआ—कोप्यम्, गोप्यम् । तपरकरण दीघादिको की निवृत्ति के लिये है—आप्यम् ।

६२६—शकिसहोश्च ॥ ३ । १ । ६९ ॥

शकल और सह धातु से यत् प्रत्यय हो । शक्यम्, सह्यम् ।

६२७—गदमदचरयमश्चानुपसर्गे । ३।१।१००॥

उपसर्ग पूर्व न हो तो गद, मद, चर और यम् धातु से यत् प्रत्यय हो । गद्यम्, मद्यम्, चर्यम्, यभ्यम् । अनुपसर्गग्रहण से यहाँ न हुआ—प्रगाद्यम्, प्रमाद्यम् । इस सूत्र मे यम् धातु का ग्रहण केवल अनुपसर्ग के लिये है क्योकि यम् धातु से यत् प्रत्यय (९२५) सूत्र से सिद्ध है । प्रयाभ्यम् । यहाँ यत् न हुआ, वक्ष्यमाण ख्यत् प्रत्यय होगया ।

६२८—वा०—अनुपसर्गाच्चरेराडि चागुरौ ॥

३ । १ । १०० ॥

अनुपसर्ग चर धातु से यत् के विधान मे गुरु अभिधेय न हो तो आड्पूर्वक चर धातु से यत् प्रत्यय का विधान करना चाहिये । आचरितुं योग्य आचर्यो देश । अगुरुग्रहण से यहा न हुआ—आचार्य उपनयमान<sup>१</sup> ।

६२९—अवद्यपरयवर्या गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु ॥

३ । १ । १०१ ॥

अथ कृदन्ते<sup>†</sup> कृत्यप्रक्रिया ॥

६१३—वासरूपोऽस्त्रियाम् ॥ ३ । १ । ६४ ॥

वात्वधिकार मे स्त्री अविकार के प्रत्ययों को छोड़कर असरूप = असमानरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प करके हो ।

६१४—कृत्याः ॥ ३ । १ । ६५ ॥

एतुलप्रत्यय से पूर्व जो २ प्रत्यय अब आगे कहे, वे सब कृत्य संज्ञक हो । धात्वधिकार मे धातु से जिन २ प्रत्ययों का विधान होता है, वे प्रथम ( ३ ) सूत्र से कृत् संज्ञक होते हैं फिर उन की कृत्य संज्ञा भी होती है ।

६१५—कर्तरि कृत् ॥ ३ । ४ । ६७ ॥

कृत् संज्ञक प्रत्यय कर्ता मे हो । इससे [ सब ] कृत् संज्ञक प्रत्यय कर्ता मे प्राप्त हुए इस व्यवस्था मे—

६१६—तयोरेव कृत्यत्तखलर्थाः ॥ ३ । ४ । ७० ॥

कृत्यसंज्ञक क्त और खलर्त्थ प्रत्यय भाव और कर्म ही मे हों । इससे कृत्य संज्ञक प्रत्ययों का भावकर्म मे सामान्य नियम है । ( ७९१, ७९६, ७९७ ) सूत्रों से प्रैष, अतिसर्ग, प्राप्तकाल, अर्ह और शक्ति अर्थ मे भी कृत्य प्रत्ययों का विधान है । इस विषय के उदाहरण भी उन्हीं सूत्रों पर दे चुके है वैसे यहां और भी उदाहरण समझने चाहिये ।

† कृदन्त प्रकरण अर्थात् तृतीयाध्याय ऋषि दयानन्द कृत अष्टाध्यायी भाष्य मे हमने अनेक उपयोगी टिप्पणियां लिखी हैं । उनका यहा पुन लिखना विद्यपेषणवत् हागा । अतः इस प्रकरण के साथ २ अष्टाध्यायी-भाष्य का अवलोकन भी अवश्य करना चाहिये ।

६१७— तव्यत्तव्यानीयरः ॥ ३ । १ । ६६ ॥

धातु से तव्यत्, तव्य और अनीयर प्रत्यय हो । तकार और रेफ स्वर के लिये है । भाव मे उत्सर्गमात्र एक वचन और नपुसक लिङ्ग होता है । एधितव्यम्, एधनीयमनेन, कथितव्यः, कथनीयो वा त्वया धर्म । कथितुं योग्य. शक्यो वा इत्यादि ।

६१८—वा०—केलिमर उपसंख्यानम् ❀ ॥३१॥६६॥

पचेलिमाः=पत्तव्या माषाः, भिदेलिमा.=भेत्तव्याः सरलाः । यह कर्म मे प्रत्यय है ।

६१९—वा०—वसेस्तव्यत् कर्तरि णिच्च । ३।१।६६॥

वस धातु से कर्ता मे तव्यत् प्रत्यय और वह णित् संज्ञक भी हो, यह कहना चाहिये । वसतीति वास्तव्यः ।

६२०—कृत्यल्युटो बहुलम् ॥ ३ । ३ । ११३ ॥

कृत्य संज्ञक और ल्युट् प्रत्यय बहुल करके हो । अर्थात् जहां २ कहे है वहां से अन्यत्र भी हो । जैसे कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भावकर्म से अन्यत्र—स्नात्यननेति स्नानीय चूर्णम्, दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः । ल्युट् प्रत्यय करण, अधिकरण और भाव मे कहेंगे, उससे अन्यत्र जैसे—आच्छाद्यते आच्छादन वास., प्रस्कन्दनम्, प्रतपनम् । बहुल-प्रहण से और भी कृत्य यथाविधान से अन्यत्र भी होते है, जैसे—पादाभ्या हियते—पादहागक, गले चाप्यते—गलेचोपक ।

६२१—अचो यत् ॥ ३ । १ । ६७ ॥

❀ (केलिमर्) इस प्रत्यय को वृत्तकारादिक कोई कर्मकर्ता मे मानत हैं, सो महाभाष्य से विरुद्ध है क्योंकि महाभाष्यकार ने तो उक्त प्रत्यय को कर्म ही में दिखलाया है ।

६३७—वा०—हनस्तश्चित् स्त्रियां छन्दसि ॥

३।१।१०८ ॥

वेदविषयक प्रयोग मे 'हनस्त च इससे हन् धातु से विहित क्यप् प्रत्यय स्त्रीलिङ्ग मे चित् हा । तां भ्रूणहत्या निगृह्यानुचरणम्, अस्यै त्वा भ्रूणहत्यायै चतुर्थं प्रतिगृह्यते । स्त्रीलिङ्ग ग्रहण से यहा चित् नहीं होता है—आप्तते दस्युहत्याय । छन्दोग्रहण से यहां चित्त्व धर्म नहीं होता—श्वहत्या, दस्युहत्या वर्तते ❀ ।

६३८—एतिस्तुशास्वृदजुषः क्यप् ॥३।१।१०९॥

इण्, स्तु, शास्, वृ, द्, जुष् धातुओं से क्यप् प्रत्यय हो । इत्यः, स्तुत्य, शिष्यः । यहा ( ३७१ ) सूत्र से इत् हो जाता है । वृत्यः, आद्यत्यः, जुष्यः । क्यप् प्रत्यय वर्तमान था, फिर क्यप् के ग्रहण का यह प्रयोजन है कि “अवश्य स्तुत्य ” यहा आवश्यक अर्थ मे वक्ष्यमाण जो ग्यत् प्राप्त है वह न हो । क्यविधौ वृञ्ग्रहणम् । महाभाष्ये ८।४।१०९ । क्यर्वाविधि मे वृञ् का ग्रहण है इससे यहां न हुआ—वार्या ऋविज । “प्रशस्यस्य अः” इस सूत्र मे जो प्रशस्य शब्द का ग्रहण है इस ज्ञापन से शंसु धातु से भी क्यप् प्रत्यय होता है क्योंकि प्र उपसर्गपूर्वक शंसु धातु का क्यप् के परे प्रशस्य यह सिद्ध होता है ।

६३९—वा०—अञ्जेश्चोपसङ्ख्यानं संज्ञायाम् ॥

३।१।१०९ ॥

\* महाभाष्यकार के “श्वहत्या दस्युहत्या” इन्हीं प्रयोगो से स्पष्ट है कि हन् धातु से यह क्यप् प्रत्यय लो० में नियम से स्त्रीलिङ्ग में होता है ।

संज्ञा गम्यमान हो तो अञ्जू धातु से क्यप् प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये । आनक्त्यनेनेति—आज्यं घृतम् । यहाँ करण में क्यप् है । यह क्यप् आङ्पूर्वक ही से होता है । आङ्पूर्वस्य प्रयोगो भविष्यति । महाभाष्ये ३ । १ । १०९ ।

६४०—ऋदुपधाच्चाकलृपिचृतेः ॥ ३ । १ । ११० ॥

कलृपि और चृति धातुओं को छोड़कर ऋकारोपध धातु से क्यप् प्रत्यय होता है । वृत्यम्, वृद्धम् । अकलृपिचृतिप्रहणं स यहाँ न हुआ—कल्प्यम्, चर्त्यम् । तपरं करण से यहाँ न हुआ—कीत्यम् । यहाँ एयत् होता है । यह कृत संशब्दने का प्रयोग है ।

६४१—ई च खनः ॥ ३ । १ । १११ ॥

खन धातु से क्यप् प्रत्यय और खन को ईकारादेश हो । खेयम् । यहाँ ह्रस्व इकार भी आदेश महाभाष्यकार को इष्ट है क्योंकि ( सन्धि १३३ ) मूत्र से ह्रस्व ग दीर्घ दोनों के परे पूर्वपर के स्थान में गुण एकारादेश हो जाता है ❀ ।

६४२—भृत्योऽसंज्ञायाम् ॥ ३ । १ । ११२ ॥

असंज्ञाविषय में भृत्य धातु से क्यप् प्रत्यय हो । भृत्याः कर्मकराः । असंज्ञाप्रहणं से यहाँ न हुआ—भार्या नाम क्षत्रिया, भार्या

\* यहाँ काशिकाकार ने इकार वृसरा प्रदलेष मानकर 'ये विभाषा' इससे आत्व की व्यावृत्ति की है यह उनका व्याख्यान आहोपुरषिकामात्र है, क्योंकि क्यप सन्नियोग में विधीयमान इत्व अन्तरङ्ग और यकारादि प्रत्यय के परे विधीयमान आत्व बहिरङ्ग है इससे "असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे" इसी से आत्व की व्यावृत्ति हो जायगी फिर प्रदलेष इकार क्यो माना जाय ? इसीलिये महाभाष्यकार की व्याख्या से विरुद्ध है ।



गर्ह्य = निन्द्य, पणितव्य = व्यवहार के योग्य, अनिरोध = न रोकना इन अर्थों में क्रम से अवद्य, पण्य, वर्या ये निपातन हैं। अवद्य पापम्। गर्ह्य से अन्यत्र—अनुद्यं मनोदु खम्। वद धातु से क्यप् और यत् प्रत्यय का विधान करेगे,<sup>१</sup> उनमें यत् के परे वद्य, उसी से नञ् समास में अवद्य सिद्ध हागा, वह गह्ये अर्थ में निपातन है। अन्यत्र क्यप् प्रत्ययान्त रहेगा जिससे नञ् में अनुद्य हाता है। पण्य वस्त्रम्, पण्य. कम्बल, पणया गौ। अर्थात् य वेचने योग्य पदार्थ है। यहा धातु से यत् प्रत्यय है। शतन वर्या। यहा वृङ् धातु से य् है। अन्यत्र—वृत्या। खालिगानदेश से यहा न हुआ—वाया ऋत्विजः।

६३०—वह्यं करणम् ॥ ३।१।१०२॥

वह धातु से करणकारक में यत् प्रत्यय निपातन है। वहत्यने-नेति वह्यं श+टम्। करण ग्रहण स अन्यत्र—‘वाह्यम्’ होता है।

६३१—अयः स्वामिवैश्ययोः ॥ ३।१।१०३॥

स्वामी और वैश्य अभिधेय हो तो ऋ धातु से यत् प्रत्यय निपातन है। अर्थ = स्वामी वैश्यो वा। स्वामिन्यन्तोदात्तत्व च। महाभाष्ये। ३।१।१०३। स्वामी अभिधेय हो तो ‘अर्थ’ शब्द को अन्तोदात्तत्व भी निपातन है।

६३२—उपसर्या काल्या प्रजने ॥३।१।१०४॥

प्रजन = प्रथम गर्भग्रहण में जो काल्या = समय को प्राप्त हुई वह अभिधेय हो तो उपसर्या यह निपातन हो। उपसर्या गौ, उपसर्या स्त्री। यहा उपपूर्व सृ धातु से यत् प्रत्यय निपातन किया है। काल्या प्रजन ग्रहण से यहा न हुआ—उपसर्या वसन्ते वाटिका।

६३३—अजर्यं सङ्गतम् ॥ ३ । १ । १०५ ॥

संगत विशेष्य हो तो नञ् पूर्वक जष् धातु से कर्ता मे यत् प्रत्यय  
नियातन हो । न जीर्यति अजर्यम्, अजर्यमार्यसगतम् । सगतग्रहण से  
यहा न हुआ—अजरिता कम्बलः ।

६३४—वदः सुपि क्यप् च ॥ ३ । १ । १०६ ॥

अनुपसर्ग<sup>१</sup> सुबन्त उपपद हो तो वद धातु से क्यप् और यत्  
प्रत्यय हो । ब्रह्मोद्यम्<sup>२</sup>, ब्रह्मवद्यम् । वेद का कथन है । सत्योद्यम्, सत्य-  
वद्यम् । सुप् के ग्रहण से यहा न हुआ—वाद्यम् । अनुपसर्ग ग्रहण से  
यहां न हुआ—प्रवाद्यम् ।

६३५—भुवो भावे ॥ ३ । १ । १०७ ॥

अनुपसर्ग सुबन्त उपपद हो तो भू धातु से भाव में क्यप् प्रत्यय  
हो । ब्रह्मणो भावो ब्रह्मभूयम्, देवभूयं गत । भाव ग्रहण अगले  
सूत्रो के लिये है । क्योकि सत्तार्थक भू धातु के अकर्मक होने से भाव  
मे क्यप् सिद्ध है । सुप् के ग्रहण से यहां न हुआ—भव्यम् । अनुप-  
सर्ग ग्रहण से यहां न हुआ—प्रभव्यम् ।

६३६—हनस्त च ॥ ३ । १ । १०८ ॥

अनुपसर्ग सुबन्त उपपद हो तो हन् धातु से भाव मे क्यप्  
प्रत्यय और हन् को तकार अन्तादेश हा । ब्रह्मणो हननें ब्रह्महत्या,  
गोहत्या, श्वहत्या वर्तते । सुप् के ग्रहण से यहा न हुआ—घात ।  
अनुपसर्ग ग्रहण से यहां न हुआ - प्रघातो वर्तते । भाव ग्रहण से  
यहा न हुआ—श्वघात्यो वृषल ।

१ आ० ९२७ से अनुपसर्ग की अनुवृत्ति है ।

२ निर्गुण ब्रह्म के निरूपण को ब्रह्मोद्य कहते हैं । द०—ब्रह्मोद्यं  
वदन्ति प्रजापतेरगुणाख्यानम् । का० श्रौ० १२, ४, १९, २० ॥ ब्रह्मोद्य-  
माद्ययामहे । शत० ११ । ६ । २ । ५ ॥

नद अभिधेय हो तो भिद्य, उद्धय ये क्यप् प्रत्ययान्त निपातन हैं। भिनन्ति कूलमिति भिद्यः<sup>१</sup>, उद्धत्युदकमिति उद्धयः<sup>१</sup>। यहा 'उज्झ' त्यागे धातु को वत्व भी निपातन है। नद से अन्यत्र—भेत्ता, उज्झिता।

६४७—पुष्यसिद्धयौ नक्षत्रे ॥ ३ । १ । ११६ ॥

नक्षत्र अभिधेय हो तो पुष्य, सिद्धय ये निपातन है। पुष्यन्त्यस्मिन् कायोणाति पुष्यः, सिद्धयन्त्यस्मिन्नर्था इति सिद्धयः। अन्यत्र—पोषणम्, सेधनम्।

६४८—विपूयविनीयजित्या मुञ्जकल्कहतिषु ॥

३ । १ । ११७ ॥

मुञ्ज, कल्क, हलि इन अर्थों में विपूय, विनीय, जित्य ये शब्द पयासङ्ख्य निपातन है। विपू, विना तथा जि में यत् प्रत्यय की प्राप्ति में क्यप प्रत्यय निपातन क्रिया है। विपूय मुञ्जः। रज्वादि कर्म के लिये शोधने योग्य है। अन्यत्र—विपाव्यम्। विनेतु योग्यो विनीयः कल्कः। विनेयमन्यत्। जित्यः हलि। जेयमन्यत्।

६४९—प्रत्यपिभ्यां ग्रहे ॥ ३ । १ । ११८ ॥

प्रति और अपि से परे ग्रह धातु से क्यप् प्रत्यय हो। प्रत्यपिभ्यां ग्रहेऽञ्जन्दासि। महाभाष्ये ३।१।११८ ॥ मत्तत्त्व [न] प्रति-गृह्यम्<sup>२</sup>, अनृत हि मत्तो वदति, तस्मान्नापि गृह्यम्। लोक में—प्रतिग्राह्यम्, अपिग्राह्यम्।

१ आजकल इनक नाम क्रमश "भिद्" और 'उद्ध' हैं ये दोनो रावी की सहायक नदिया है पठानकोट से पश्चिम की ओर जम्मू जाने वाले मार्ग में पडती हैं।

६५०—पदास्वैरिबाह्यापक्षेषु च ॥३।१।१६॥

पद अस्वैरिन् बाह्या और पक्ष्य अर्थ में ग्रह धातु से क्यप् प्रत्यय हों। पदप्रगृह्य पदम्। जिसकी प्रगृह्य सज्ञा करत है। अङ्गुह्यं पदम्। जिसका अवग्रह षरत है। अस्वैरी = परतत्र—गृह्यका पक्षिणः। गृहीत है। बाह्या—ग्रामगृह्याः वाप्यं। ग्राम से बाहर बावडी है। नगरगृह्या सेना। नगर से बाहर सेना है यह प्रतीति होता है। स्त्रीलिङ्ग निर्देश से यहां न हुआ—ग्रामग्राह्याः पादपा। पक्ष्य—पक्ष में जो हो वह “पक्ष्य” कहावे। आर्यगृहीतुयोग्य आर्यगृह्य पक्ष्य., अर्जुनगृह्या, वासुदेव गृह्याः।

६५१—विभाषा कृवृषोः ॥ ३ । १ । १२० ॥

कृञ् और वृष् धातु से क्यप् प्रत्यय विकल्प करके हों। कृत्त्यम्, कार्यम्, वृष्यम्, वर्ष्यम्।

६५२—युग्यं च पत्रे ॥ ३ । १ । १२१ ॥

पत्र = वाहन अभिधेय हो तो युग्य यह निपातन है। युग्योऽश्वः, युग्यो गौः। यहां युज् धातु से क्यप् और धातु को कुत्वादेश निपातन है। पत्रग्रहण से यहां न हुआ—योग्यम्।

६५३—अमावस्यदन्यतरस्याम् ॥३।१।१२२॥

अमावस्यत् यह विकल्प करके निपातन है अर्थात् अमापूर्वक वस धातु से ग्यत् प्रत्यय के परे विकल्प करके वृद्धि का अभाव निपातन है अमा शब्द सहार्थ में वर्तमान है। सहवसतोऽस्या सूर्या-चन्द्रमसाविति अमावस्या, अमावास्या।

६५४—छन्दसिनि ष्टक्यदेवहूयप्रणीयोत्रीयो-

च्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवय-

गृहिणी । यहा तो एयत् होता है । “असंज्ञायाम्” इस प्रतिषेध से भार्या शब्द एयत् प्रत्ययान्त सज्ञाविषय मे होता है उसके लिये कहते हैं—

का०—संज्ञायां पुंसि दृष्टत्वान्न ते भार्या प्रसिध्यति ॥  
स्त्रियां भावाधिकारोऽस्ति तेन भार्या प्रसिध्यति ।१।  
अथवा बहुलं कृत्याः संज्ञायामिति तत् स्मृतम् ॥  
यथा यत्नं यथा जन्यं यथा भित्तिस्तथैव सा ॥२॥

प्र०—पुलिंग विषयक सज्ञा मे एयत् प्रत्यय क देखने से तुम्हार । भार्या शब्द नहीं सिद्ध होता है । उ०—स्त्रीलिंग विषयक “सञ्ज्ञायाम्” इस सूत्र मे भाव का अधिकार है, उसमे भार्या शब्द प्रसिद्ध होता है अर्थात् भाव का अधिकार मानकर स्त्रीलिंग मे भाव-विषयक क्यप् प्रत्ययान्त भृत्या होगा तथा [कर्म मे] एयत् प्रत्ययान्त भार्या हो जायगा ॥ १ ॥ अथवा जो उक्त सूत्र मे भावाधिकार न माने तो कृत्य और ल्युट् बहुल करके होते है ऐसे ही सज्ञा मे क्यप् भी नहीं होगा । जैसे य य, जैसे जन्य और जैसे भित्ति शब्द है वैसे ही यह भार्या शब्द भी सिद्ध हो जायगा ❀ ।

६४३—मृजेर्बिभाषा ॥ ३ । १ । ११३ ॥

मृज धातु से विकल्प करके क्यप् प्रत्यय हो । मृज्यः,  
[ मृज+एयत् ] ।

\* अजन्त से विहित यत् प्रत्यय [ जैसे ] यत् जन धातुओं से होता और स्त्री अधिकार मे भिद् धातु से अद् विहित है तथापि बहुल भाव से क्तिन् भी होता है, वैसे ही बहुल भाव मे प्यन् प्रत्ययान्त भार्या शब्द हो जायगा ।

६४४—चजोः कु । घिण्यतोः ॥ ७ । ३ । ५२ ॥

घित् आर ग्यत् प्रत्यय परे हो तो चकार और जकार को कुत्व हो । मार्ग्य । यहां वक्ष्यमाण ग्यत् प्रत्यय होता और ( ३५५ ) से वृद्धि हो गई ।

६४५—राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्या-  
व्यथ्याः ॥ ३ । १ । ११४ ॥

राजसूय, सूर्य, मृषोद्य, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यथ्य ये क्यप् प्रत्ययान्त निपातन हैं । अभिषवद्वारा राज्ञा सोतव्यो राजानस्सूयन्ते-ऽस्मिन्निति वा राजसूयो यज्ञः । यहां राजन् शब्दपूर्वक 'षुव् अभिषवे' धातु से क्यप् प्रत्यय और निपात से दीर्घादेश होता है । सरत्याकाशमार्गेण गच्छति वा सुवति लोकं कर्मणि प्रेरयतीति सूर्यः । यहा 'सृ गतौ' वा 'षू प्रेरणे' धातु से क्यप् प्रत्यय और सृ को उकार आदेश वा षू [ से परे प्रत्यय ] को ङडागम निपातन है । मृषा उद्यत इति मृषोद्यम् । यहा मृषोपपद वद धातु से ( ५३४ ) सूत्र से क्यप् और यत् की प्राप्ति मे क्यव् विहित है । रोचनेऽसौ रुच्यः । यहा रुच धातु से कर्ता मे क्यप् है । गुप्यते यत्तत् कुप्यम् । यहा सज्ञा मे गुप धातु को क्त्वं निपातन है । गोप्यते यत्तत् कुप्यम् । सुवर्णं और रजत से भिन्न धन की सज्ञा है । अन्यत्र—“गोप्यम्” होगा । कृष्टे स्वयमेव पच्यन्त इति कृष्टपच्याः । यहा कर्मकर्ता मे पच से क्यप् प्रत्यय है । यो हि कृष्टे पक्तव्य सः कृष्टपाक्यो भवति । न व्यथत इति अव्यथ्यः ।

सूर्यरुच्याव्यथ्याः कर्त्तरि । कुप्यं सज्ञायाम् । कृष्टपच्यस्यान्तोदात्तत्वं च कम कर्त्तरि च ॥ महाभाष्ये । ३ । १ । ११४ ॥

६४६—भिद्योद्ध्यौ नदे ॥ ३ । १ । ११५ ॥

६६१—वञ्चैर्गतौ ॥ ७ । ३ । ६३ ॥

गति अर्थ मे वर्तमान वञ्च धातु को कवर्गादेश न हो । वञ्चितुं गन्तुं योग्य वञ्च्यम् । गतिग्रहण से यहाँ न हुआ—वञ्क्यं काष्ठम् । काष्ठ देढ़ा है ।

६६२—एय आवश्यके ॥ ७ । ३ । ६५ ॥

आवश्यक अर्थ मे एय प्रत्यय परे हो तो कवर्गादेश न हो । आवश्यकपाच्यम्, अवश्यवाच्यम् । आवश्यक से अन्यत्र—पाक्यम्, वाक्यम् ।

६६३—यजयाचरुचप्रवचचर्चश्च ॥ ७ । ३ । ६६ ॥

एय प्रत्यय परे हो तो यज, याच, रुच, प्रवच, ऋच इन धातुओं को कुत्वादेश न हो । याज्यम्, याच्यम्, रोच्यम्, प्रवाच्यम् । यह पाठ विशेष का नाम है । अर्च्यम् । यद्यपि ऋदुपधत्व मानकर ऋच धातु से क्यप् प्रत्यय प्राप्त है, तथापि एय के परे जो इस को कुत्व का निषेध किया है इस ज्ञापन से एयत् प्रत्यय इस से होगा ।

६६४—वा०—एयप्रतिषेधे त्यजेरुपसंख्यानम् ॥

७ । ३ । ६६ ॥

एय के परे कुत्व प्रतिषेध मे त्यज धातु का भी उपसंख्यान करना चाहिये । त्यक्तु योग्य त्याज्यम् ।

६६५—भोज्य भक्ष्ये ॥ ७ । ३ । ६६ ॥

भक्ष्य अर्थ मे भोज्य यह निपातन हों । भोज्यमभ्यवहार्यमितिवक्तव्यम् । महाभाष्ये ७ । ३ । ६९ ॥ अभ्यवहार्यमात्र अर्थ हो तो भोज्य यह निपातन हो । भोज्य सूपः, भोज्या यवागू । अभ्यवहार से अन्यत्र—भोग्य कम्बल ।

६६६—ओरावश्यके ॥ ३ । १ । १२५ ॥

आवश्यक अथे द्योत्य हो तो उवणोन्त धातु से ग्यत् प्रत्यय हा ।  
लाव्यम्, पाव्यम् । आवश्यक से अन्यत्र—लव्यम्, पव्यम् ।

६६७—आसृगुवपिरपिलपिन्नपिचमश्च ॥

३ । १ । १२६ ॥

आङ्पूर्वके षुब्, यु, डुवप्, रप्, लप्त्रपि और चम् धातु से ग्यत्  
प्रत्यय हो । यह यन् प्रत्यय का अपवाद है । आसाव्यम्, याव्यम्,  
वाप्यम्, राप्यम्, लाप्यम्, त्राप्यम्, आचाम्यम् ।

६६८—वा०—लपिदाभिभ्यां \* चेति वक्तव्यम् ॥

३ । १ । १२६ ॥

लप और दभ धातु स भी ग्यत् प्रत्यय कहने योग्य है । अपला-  
प्यम्, अपदाभ्यम् ।

६६९—आनाय्योऽनित्ये ॥ ३ । १ । १२७ ॥

अनित्य अर्थ अभिधेय हो तो आङ्पूर्वक णीब् धातु से आनाय्य  
यह निपातन है ।

“आनाय्यो नित्य इति चेद्दक्षिणाग्नौ कृतं भवेत् । एक-  
योनी तु तं विद्यादानेयो ह्यन्यथा भवेत् ।” महाभाष्ये ३ । १ ।  
१२७ । आनाय्यो दक्षिणाग्निः । यहा ग्यत् प्रत्यय और आयादेश-  
निपातन है । जो गार्हपत्य अग्नि से लिया जाता और आहवनीय  
अग्नि के साथ एक योनि को प्राप्त है, उस विशेषदक्षिणाग्नि में  
यह शब्द रुद्धि है, और जो वैश्य कुल से लिया जाता है उस मे  
आनेय होगा ।

\* दभ धातु धातुपाठ मे अपठित है तथापि वार्तिकबल से स्वीकार  
करना चाहिये ।



**ज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्ता-  
व्योपचाय्यपृडानि ॥ ३ । १ । १२३ ॥**

निष्टक्य, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य मर्य, स्तर्या, ध्वर्य, खन्य, खान्य, देवयज्या, आपृच्छ्य, प्रतिषीव्य, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्ताव्य और उपचाय्यपृडये निपातन है। निष्टक्ये चिन्वीत पशुकामः। यहा निस् पूर्वक कृती धातु से एयन् प्रत्यय, धातु का आद्यन्त विपर्यय और निस् के स् को प् आदेश निपातन है। स्पर्धन्ते वा उ देवहूये। यहा देवपूर्वक ह्वेन् वा हु धातु से क्यप् प्रत्यय [ ह्वेन् को सम्प्रसारण (२८३) ] धातु के उकार को दीर्घ और तुक का अभाव निपातन है। प्रणीयः, उन्नीयः। प्र और उद् इन से परे नी वातु से क्यप्। उच्छिष्यः। उत्पूर्वक शिष से क्यप्। मर्य—मृड् से यत्। स्तर्या—स्तृब् से यत् और स्त्रीलिङ्ग<sup>१</sup> मे निपातन है। ध्वर्य—ध्वृ से यत्। खन्यः, खान्यः—खन से यत् और एयत्। शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे देवयज्याये। देवपूर्वक यज धातु से यत् प्रत्यय और स्त्रीलिङ्ग मे निपातन है। आपृच्छ्य धरुण वाज्यर्षति। आड्पूर्वक प्रच्छ धातु से क्यप्। प्रतिषीव्य.—प्रतिपूर्वक सीव्यति से क्यप् और षत्व निपातन है। ब्रह्मवाद्यम्—ब्रह्मन् उपपद वद धातु से एयत्। भाव्य, स्ताव्य—भू और ष्टृब् से एयत्। ऋपचाय्यपृडम्—यहां उपपूर्वक चिञ् धातु से पृड उत्तरपद के परे एयत् प्रत्यय और आयादेश निपातन है।

**६५५-वा०-हिरण्य इति च महाभाष्ये ॥३।१।१२३॥**

हिरण्य अर्थ मे “उपचाय्यपृड” हो। हिरण्य से अन्यत्र—“उपचेयपृडम्” होगा।

१ यहा स्त्रीलिङ्ग निपातन अतन्त्र=गौण है। क्योंकि इसका पुंलिङ्ग मे भी प्रयोग देखा जाता है। यथा—स्तर्याभूत्वा स्तर्यान् सपरान्।

“निष्ठक्य वृत्त्ययं विद्याजिसः षत्वं निपातनात् । प्यदा-  
योदेश इत्येतावु च'उये निपातितौ ॥ १ ॥ एयदेकस्माच्चतुर्भ्यः  
क्यप् चतुर्भ्यश्च यतो विधिः । प्यदेकस्माद्यशब्दश्च द्वौ क्यपौ  
ण्यद्विधिश्चतुः” ॥ २ ॥ महाभाष्ये । ३ । १ । १२३ ।

इन कारिकाओं का अर्थ निष्ठक्यादि प्रयोगों की व्याख्या में  
आगया है ।

६५६—ऋह्लोर्यत् ॥ ३ । १ । १२४ ॥

ऋदणान्त और हलन्तो से एयत् प्रत्यय हो । धार्यम्, हार्यम्,  
वाक्यम्, पाक्यम् ।

६५७—वा०—पाणौ सृजेर्यद्विधिः ॥ ३ । १ । १२४ ॥

पाणि शब्द उपपद हो तो सृज धातु से एयत् प्रत्यय का विधान  
करना योग्य है । पाणिभ्यां सृज्यत इति पाणिसर्गा रज्जुः । यहाँ  
( १४३ ) से कुत्व हो गया ।

६५८—वा०—समवपूर्वाच्च ॥ ३ । १ । १२४ ॥

सम् प्रव पूर्व भी सृज धातु से एयत् प्रत्यय विधान करने योग्य  
है । समवसर्गा रज्जुः ।

६५९—न क्वादेः ॥ ७ । ३ । ५९ ॥

कवर्ग जिम्फे आदि में हे उम धातु के चकार और जकार को  
कुत्व न हो । कूज्यमनेन, खर्ज्यम्, गर्ज्यम्, कूजः, खर्ज, गर्जः ।

६६०—अजिन्नज्याश्च ॥ ७ । ३ । ६० ॥

अज और व्रज धातु को कुत्व न हो । परित्राज्यम्, परित्राजः,  
समाज, उदाजः । यहाँ ण्य प्रत्यय है । एयत् प्रत्यय की विवक्षा में  
( १५५ ) सूत्र से वीभाव होने से अज धातु का एयत् प्रत्ययान्त  
प्रयोग नहीं होता ।

६७०—प्रणाय्योऽसंमत्तौ ॥ ३ । १ । १२८ ॥

असंमति अभिधेय हो तो प्रणाय्य यह निपातन हो । संमति ( प्रीति का विषय और भोग में आदर बुद्धि ) जिसमें न हो वह असंमति कहावे । प्रणाय्यश्चोर , प्रणाय्याऽप्रियः, प्रणाय्योऽन्तवासी । यह विरक्त है अर्थात् भोगों में इच्छा नहीं रखता है ।

६७१—पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या मानह-  
विनिवाससामिधेनीषु ॥ ३ । १ । १२६ ॥

मान, हविष्, निवास, सामिधेनी ये अभिधेय हो तो यथाक्रम से पाय्य, सान्नाय्य, निकाय्य, धाय्या ये निपातन हैं । मीयतेऽनेनेति पाय्य मानम् । यहा एयत् प्रत्यय, धातु के आदि म को प आदेश होता है । अन्यत्र—मेयम् । सम्यङ्नीयते होमार्थमग्नि प्रतीति सान्नाय्यम् हविः । एयत्, आयादेश और सम् के अकार को दीर्घ निपातन होता है । अन्यत्र—सन्नेयऽम् । निचीयते धान्यादिकमत्रेति निकाय्यः निवासः । आय् और धातु के आदि को कुत्व निपातन है । अन्यत्र—[नि]चेयम् । धीयतेऽनया समिदिति धाय्या सामिधेनी ऋक । एयत् प्रत्यय निपातन है । धाय्या शब्द ऋगविशेष का वाचक है । [ अतः ] धाय्या शसत्यग्निर्नेता त्वं सोमक्रतुभिः [ इत्यादि असामिधेनियो मे भी व्यवहृत होता है ] ।

६७२—ऋतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ ॥ ३ । १ । १३० ॥

ऋतु अभिधेय हो तो कुण्डपाय्य और संचाय्य निपातन हैं । कुण्डेन पीयतेऽस्मिन् सोम इति कुण्डपाय्यः ऋतुः । यहां वृतीयान्त कुण्डशब्द पूर्वक पिबेति से यत् प्रत्यय और युगागम निपातन है । [ संचाय्यः ] यहा सम् पूर्वक चिनोति से ष्यत् और आयादेश का निपातन है । ] ऋतुग्रहण से यहा न हुआ—कुण्डपानम् । तथा सञ्चेय ।

### ६७३—अग्नौ परिचार्योपचार्यसमूहाः ॥

३ । १ । १३१ ॥

अग्नि अभिधेय हो तो परिचार्य, उपचार्य और समूह ये निपातन हो । परिचेतु योग्यः परिचार्यः, उपचार्यः । परि उप पूर्वक चिच् धातु से ग्यन् और आयादेश निपातन है । समूह चिन्वीत पशुकामः । सम् पूर्वक वह धातु से ग्यत् प्रत्यय धातु को संप्रसारण और दीर्घत्व निपातन है । अग्नि से अन्यत्र—परिचेयम् । उपचेयम् । संवाह्यम् ।

### ६७४—चित्याग्निचित्ये च ॥ ३ । १ । १३२ ॥

अग्नि अभिधेय हो तो चित्य और अग्निचित्या निपातन हो । चीयतेऽसौ चित्योऽग्निः । [ यहां क्यप् प्रत्यय का निपातन है । ] अग्निचयनमेव अग्निचित्या । यहां भाव मे प्रत्यय [गुण का अभाव] अन्तोदात्तत्व<sup>१</sup> और तुगागम [ का ] निपातन होता है । अग्निचित्येत्यन्तोदात्तत्वं भावे । महाभाष्ये ३ । १ । १३२ ॥

### ६७५ — भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्या-

प्लान्यापात्या वा ॥ ३ । ४ । ६८ ॥

भव्य आदि कृत्य प्रत्ययान्त कर्ता म विकल्प करके निपातन है । द्वितीय पक्ष मे यथाप्राप्त भाव कर्म मे होंगे । भवत्यसौ भव्यः, भव्यमनेन वा, गेयो माणवकः साम्नाम्, गेयानि माणवकेन सामानि,

१ यहां अन्तोदात्तत्व का निपातन मानना ठीक नहीं है 'य' प्रत्यय होने पर प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्तत्व स्वतः सिद्ध है । वस्तुतः 'अग्निचित्ये-त्यन्तोदात्तत्वं भावे' इस वार्तिक से ध्वनित होता है कि यहां प्यत् प्रत्यय वृद्धि का अभाव, तुगागम और अन्तोदात्तत्व का निपातन है । अन्तोदात्तत्व का निपातन प्यत् पक्ष मे ही उपपन्न होता है ।

प्रवचनीयो गुरुः स्वाध्यायस्य, प्रवचनीयो वा गुरुणा स्वाध्यायः,  
उपस्थानीयोऽन्तेवासी गुरोः, उपस्थानीय शिष्येण वा गुरुः, जायते-  
ऽसौ जन्य जन्यमनेन वा, आप्पवते आप्पाव्य, आप्पाव्यमनेन वा,  
आपतत्यसावापात्यः, आपात्यमनेन वा ।

इति कृत्यप्रक्रिया समाप्ता ॥

अथ कृदन्तप्रक्रियारम्भः ॥

६७६—एबुल्लृचौ ॥ ३ । १ । १३३ ॥

सब धातुओं से एबुल् और लृच् प्रत्यय हो । इस प्रकरण में सर्वत्र ( ३ ) सूत्र से कृत्संज्ञा होती और ( ११५ ) सूत्र से कृत् संज्ञक प्रत्यय सामान्य से कर्ता में होते हैं । करोतीति कारक, कर्ता, हारक, हर्ता । स्त्रीलिङ्ग में—कारिका, कर्त्री, हारिका, हर्त्री । कुटिता, यहां ( ३४५ ) सूत्र से डित्व मान कर गुणादेश न हुआ । कोटकः । विजिता ( ४२८ ) सूत्र से इट् होता है । घातकः, यहां ( ५०३ ) सूत्र से तकारादेश । दायकः, शमक, दमक, रन्धक, जम्भक यहाँ ( १६५ ) सूत्र से नुम् । रघिता, ( ४०८ ) से म्नु निषेध । एषिता, एष्टा, सहिता, सोढा । यहा ( २१२ ) सूत्र से इट् [का विकल्प] । एयन्त—भावयिता । सन्नन्त—बुभूषिता । यङन्त—पापचकः । यहा अल्लोप के स्थानिवद्भाव से वृद्धि न हुई । यङ्लुगन्त—पापाचकः ।

६७७—नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ॥

३ । १ । १३४ ॥

नन्द्यादिक, प्रह्लादिक और पचादिक धातुओं से यथाक्रम ल्यु, णिनि और अच् प्रत्यय हों। अर्थात् नन्द्यादिकों से ल्यु, प्रह्लादिकों से णिनि और पचादिकों से अच् होता है। नन्दयतीति नन्दनः, जनानर्हयतीति जनार्हनः, मधुसूदन, विशेषेण भीषयतीति विभीषणः, वामनः, मदनः, दूषणः, लवणः। यहा गणपाठ के निपातन से एत्वादेश है। ग्राही, स्थायी, मन्त्री, विशयी। यहां वृद्धि का अभाव निपातन है। विषयी। यहा षत्व निपातन है। परिभावी, परिभवी। यहा विकल्प करके वृद्धि का अभाव है। पचतीति पच। अजपि सर्वधातुभ्यः। महाभाष्ये ३।१।१३४। सब धातुओं से अच् प्रत्यय कहना चाहिये। भवतीति भवः, सव। यह अच् प्रत्यय धातुमात्र से इष्ट है इससे पचादिगण का कथन शब्दों के साथ अनुबन्ध लगाने और बाधको क बान्धने के लिये है। जैसे— नदट्, चोरट्, देवट्। इत्यादि टित् माने है। नदः, चोरः, देवः। स्त्रीलिङ्ग में—नदी, चोरी, देवी। यहा इगुपधत्व मान कर दिवु धातु से क प्रत्यय प्राप्त था, उसको बाध कर अच् प्रत्यय हुआ। जारभरा, श्वपचा। इन में अगला (९९९) अण प्राप्त था। चैक्रियः, लोलुवः, पोपुवः, मरीमृजः।

६७८—इगपधज्ञाप्रीकिरः कः ॥३।१।१३५॥

इक जिसके उपधा में हो और ज्ञा प्री तथा क धातु से क प्रत्यय हो। बुध, विक्षिप, ज्ञः, प्रीणातीति प्रियः, किंस्तीति किरः।

६७९—आतश्चोपसग ॥ ३।१।१३६॥

उपसर्ग पूर्व हो तो आदन्त धातु से क प्रत्यय हो। आगे ए प्रत्यय कहेंगे उस का यह अपवाद है। प्रस्थ, प्रद

॥ ४८६८०—पाघ्राभ्माधेद्दृशः शः ॥३।१।१३७॥

पा, घ्रा, भ्मा, घेट् और दृश धातु से श प्रत्यय हो । पिबतीति पिबः, उत पिबति उत्पिबः, विपिबः, जिघ्र, धमः, धयः, विधयः, पश्यतीति पश्य. ।

६८१—वा०—जिघ्रः संज्ञायां प्रतिषेधः ॥

३ । १ । १३७ ॥

व्याजिघ्रतीति व्याघ्र. ।

६८२—अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजि-  
चेतिसातिसाहिभ्यश्च ॥ ३ । १ । १३८ ॥

उपसर्गरहित लिम्प, विन्द, धारि, पारि, वेदि, उदेजि, चेति, साति, साहि, इन धातुओ से श प्रत्यय हो । लिम्पतीति लिम्पः, विन्दतीति विन्द, धारयतीति धारय, पारयतीति पारय, वेदयतीति वेदय, उदेजयतीति उदेजय, चेतयतीति चेतय. । साति सुखार्थक सौत्र धातु है । सातयतीति सातयः, साहयतीति साहय । अनुपसर्ग-ग्रहण से यहा न हुआ—प्रलिप. ।

६८३—वा०—अनुपसर्गात्त्रौ लिम्पेः ॥३११३८॥

“अनुपसर्गात्०” ( ९८२ ) इस विषय मे निपूर्वक लिम्प धातु से श प्रत्यय कहना चाहिये । निलिम्पा नाम देवाः ।

६८४—वा०—गवादिषु विन्देः संज्ञायाम् ॥

३ । १ । १३८ ॥

गवादिक उपपद हो तो विदूल् धातु से श प्रत्यय संज्ञा मे कहना चाहिये । गोविन्दः, अरविन्दः ।

६८५—ददातिदधात्योर्विभाषा ॥३११३९॥

उपसर्गरहित डुधाब् और डुधाब् धातु से श प्रत्यय विकल्प करके हो । यह ( १८८ ) सूत्र का अपवाद है । ददातीति ददः, दायः, दध, धाय । अनुपसर्ग ग्रहण से यहां न हुआ—प्रददातीति प्रदः, प्रधः । यहां ( १७८ ) सूत्र से क प्रत्यय हो गया ।

६८६—ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः ॥ ३ । १ । १४० ॥

उपसर्गरहित ज्वल आदि कस पर्यन्त धातुओं से विकल्प करके ण प्रत्यय हो । यहा इति शब्द आदि शब्द के लिये है । ज्वलतीति ज्वालः, ज्वल, चालः, चलः । दूसरे पक्ष में अच् प्रत्यय हो जाता है । अनुपसर्गग्रहण से यहा न हुआ—प्रज्वल ।

६८७—वा०—तनोतेरुपसंख्यानम् ॥ ३ । १ । १४० ॥

तनु धातु से ण प्रत्यय का उपसंख्यान [ करना ] चाहिये । अवतनोतीत्यवतान ।

६८८—श्याद्द्व्यधास्रुसंस्वतीणवसावहृलिह-

श्लिषश्चसश्च ॥ ३ । १ । १४१ ॥

श्यैङ्, आकारान्त, व्यध, आस्रु, सस्रु, अतीण्, अवसा, अवहृ, लिह, श्लिष, श्वस इन धातुओं से ण प्रत्यय हो । आकारान्त ग्रहण से श्यैङ् और अवपूर्वक सा धातु से ण हो जाता तथापि इनका अलग ग्रहण सोपसर्ग लक्षण क प्रत्यय के बाधने के लिये है । अवश्यायः, प्रतिश्यायः, दाय, धाय, शाय, व्याधः, आसावः, ससावः, अत्यायः, अवसाय, अवहारः, लेहः, श्लेषः, श्वासः ।

६८९—दुन्योरनुपसर्गे ॥ ३ । १ । १४२ ॥

उपसर्ग पूर्व न हो तो दु और नी धातु से ण प्रत्यय हो । दुनोतीति दावः, नयतीति नायः । अनुपसर्गग्रहण से यहां न हुआ—प्रदवः, प्रणयः ।



६६०—विभाषा-ग्रहः ॥ ३ । १ । १४३ ॥

ग्रह धातु से विकल्प करके एण प्रत्यय हो। यह अच् का अपवाद है। गृह्णातीति ग्राहः, ग्रहः। यह व्यवस्थित विभाषा है। इससे जलचर मे 'ग्राहः' नित्य होता और ज्योति मे 'ग्रहः' यही होता है ❀ ।

६६१—गेहे कः ॥ ३ । १ । १४४ ॥

गेह = घर कर्ता हो तो ग्रह धातु से क प्रत्यय हो। गृह्णाति धान्यादि-कमिति गृहम्, गृह्णन्ति पदार्थानिति गृहाणि वेश्मानि। तास्त्र्योपाधि से स्त्री जनो को भी गृह कहते हैं। गृहा दाराः।

६६२—शिल्पिनि ष्वुन् ॥ ३ । १ । १४५ ॥

शिल्पी कर्ता हो तो धातु से ष्वुन् प्रत्यय हो। नृत्तिखनिरञ्जिभ्य इति वक्तव्यम्। महाभाष्ये ३।१।१४५। शिल्प = क्रिया करने की चतुराई जिसमे विद्यमान है वह शिल्पी कहावे। नृत्यतीति नर्तकः, खनक, नर्तकी, खनकी, रञ्जकः, रञ्जकी †।

\* इस सूत्र के विवरण में जो काशिकाकार ने "भवतश्चेति वक्तव्यम्" यह वार्तिक पढा है सो महाभाष्यकार के मत से विरुद्ध है। महाभाष्य मे उस का मूल नहीं है। इसमे प्राप्त्यर्थक भृ धातु से अच् प्रत्ययान्त 'भाव' और सत्तार्थक से 'भव' समझ लेना चाहिये। भाव पदार्थों का नाम और भव महादेव और ससार आदि का नाम है।

† रजक, रजकी। यहा शिल्पी कर्ता मे उणादिस्थ क्वुन् प्रत्यय होता है। इस विषय में जो कौमुदीकार ने लिखा कि भाष्यमता से नृत्ति खनि इन्ही से ष्वुन् और रञ्जि से क्वुन् होता है। यह उनका कथन भयुक्त है क्योंकि जो रञ्जि से ष्वुन् नहीं होता है तो महाभाष्यकार ने रञ्जि का परिगणन क्यों किया ? महाभाष्य के परिगणन से नृत्ति खनि और रञ्जि इन तीनों से ष्वुन् प्रत्यय होगा। इस विषय मे काशिकाकार

६६३—गस्थकन् ॥ ३ । १ । १४६ ॥

शिल्पी कर्ता हो तो गै धातु से थकन् प्रत्यय हो । गायतीति गायकः ।  
स्त्रीलिंग मे—गाथिका ।

६६४—एयुट् च ॥ ३ । १ । १४७ ॥

शिल्पी कर्ता मे गै धातु से एयुट् प्रत्यय भी हो । गायतीति  
गायनः । स्त्री—गायनी ।

६६५—हरच व्रीहिकालयोः ॥ ३ । १ । १४८ ॥

व्रीहि और काल कर्ता हो तो ओहाक् और ओहाङ् धातु से  
एयुट् प्रत्यय हो । जहाति जल, जिहीते प्राप्नोति वा हायनः = व्रीहिः ।  
जहाति भावान्, जिहीते प्राप्नोति वा हायनः = वत्सरः ।

६६६—प्रसृत्वः समभिहारे वुन् ॥ ३ । १ । १४९ ॥

समभिहार = वार २ होने अर्थ मे प्रु सृ ल् इन धातुओ से वुन्  
प्रत्यय हो । प्रसृत्व साधुकास्मिण वुन्विधानम् । महाभाष्ये  
३ । १ । १४९ ॥ साधुकारी अर्थात् अच्छे प्रकार क्रिया करने वाला  
कर्ता अभिधेय हो तो प्रु सृ ल् इन से वुन् का विधान करना चाहिये ।  
प्रवत इति प्रवकः, सरक, लवकः । साधुकारित्व अर्थ मे वुन् विधान  
से जहा एक वार भी अच्छे प्रकार काम करना हो वहाँ वुन् प्रत्यय  
हो और वार २ भी काम का अच्छा करना न हो वहाँ न हो ।

ने वुन् प्रत्यय का विधान करके भी नकार का लोप माना, यह उनका  
मानना असङ्गत है क्योंकि न लोप तो कित् डित् के परे होता है और  
महाभाष्यकार भी रजक शब्द को उणादिस्थ वुन् प्रत्यय से मानते हैं ।  
रजकरजनरजःसु क्तिवात् सिद्धम्, कित् एवैते औणादिकाः । महाभाष्ये ।

६६७—आशिषि च ॥ ३ । १ । १५० ॥

आर्शावाद् अर्थे गम्यमान हो तो धातु से वुन् प्रत्यय हो ।  
जीवतात्—जीवक., नन्दात्—नन्दक ।

६६८—कर्मण्यण् ॥ ३ । २ । १ ॥

कर्म उपपद हो तो धातु से अण् प्रत्यय हो । कर्म तीन प्रकार का है अर्थात् निर्वर्त्य, विकार्य, प्राप्य ❀ । निर्वर्त्य—कुम्भकारः । विकार्य—ऋण्डलाव, शरलाव । प्राप्य—वेदाध्याय, चचोपारः, शमनीपार, सूत्रपाठः । यहा सर्वत्र उपपद समास होता है । आदित्यं पश्यति, हिमवन्तं शृणोति, ग्रामं गच्छति, इत्यादिको मे अनभिधान से नहीं होता अर्थात् लोक मे अर्थप्रतिपादन करने के लिये 'आदित्यदर्श आदि शब्दो का प्रयोग नहीं करते है ।

६६९—वा०—अन्नादायेति च कृतां व्यत्यय-

रङ्गन्दसि ॥ ३ । २ । १ ॥

वेदविषय मे अन्नादाय इत्यादिक प्रयोगो के लिये कृत् सङ्गक

\* जिसका उपादान कारण विद्यमान न हो वह निर्वर्त्य कहाता है जैसे—सयोगं करोति । अथवा जिसका विद्यमान भी उपादान कारण न विदक्षित हो वह भी निर्वर्त्य कहाता है जैसे—घट करोति । जब उपादान कारण ही परिणामी माना जाय तो निर्वर्त्य कर्म भी विकारी हो जाता है जैसे—मृद घट करोति । और जब भेदविवक्षा है तब वही निर्वर्त्य कर्म रहता है जैसे—मृदा घटं करोति । विकार्य कर्म दो प्रकार का है । अर्थात् एक तो प्रकृति के विनाश से जो कुछ विकार उत्पन्न हो जैसे—काष्ठादि भस्म और दूसरा गुणान्तर से जो उत्पन्न हो जैसे—सुवर्णादि विकार कुण्डलादि । जिसमे प्रत्यक्ष वा अनुमान से त्रियाकृत विशेष न पाया जाय अर्थात् प्रथम से न हो वह प्राप्य कर्म कहाता है ।

प्रत्ययो का व्यत्यय देखना चाहिये। अत्तीति अन्नः<sup>१</sup>, अन्नस्यादः अन्नादः तस्मै अन्नादाय। आदायान्नपतये, य आहुतिमन्नादां हुत्वा 'अन्नमत्ति' इस विग्रह मे कर्मोपपद अद् धातु से अण् की प्राप्ति में पचाद्यच् का विधान है।

१०००-वा०-शीलिकामिभक्ष्याचारिभ्यो णः

पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वञ्च ॥ ३ । २ । १ ॥

शीलि, कामि, भक्षि और आङ्पूर्वक चर इन धातुओ से ण प्रत्यय और पूर्वपद को प्रकृतिस्वर कहना चाहिये। मासशीलः, मांसशीला, मांसकाम, मांसकामा, मांसभक्षः, मांसभक्षा, कल्याणाचार, कल्याणाचारा।

१००१-वा०-ईक्षिन्मिभ्यां च ॥ ३ । २ । १ ॥

सुखप्रतीक्ष, सुखप्रतीक्षा, कल्याणक्षमः, कल्याणक्षमा।

१००२-ह्वावामश्च ॥ ३ । २ । २ ॥

कर्म उपपद हो तो ह्वेच्, वेच् और माङ् धातु से अण् प्रत्यय हो। स्वर्गह्वायः, तन्तुवायः, धान्यमायः।

१००३-आतोऽनुपसर्गे कः ॥ ३ । २ । ३ ॥

उपसर्ग रहित कर्मे उपपद हो तो आकारान्त वातुओ से क प्रत्यय हो। यह अण् का अपवाद है। गोदः, कम्बलद, पार्ष्णित्रम्। अनुपसर्गग्रहण से यहाँ न हुआ—गोसदायः।

१००४--सुपि स्थः ॥ ३ । २ । ४ ॥

१ जब अन्न शब्द ईश्वर का वाचक होता है ( अहमन्नमहमन्नम्—तै० उ० ) तब उपर्युक्त व्युत्पत्ति होगी। जब भोज्य का वाचक होगा तब 'अद्यत इत्यन्नम्' कर्म मे व्युत्पत्ति होगी।

सुबन्त उपपद हा तो स्था धातु से क प्रत्यय हो ॐ । कूटस्थः, समस्थः, विषमस्थः । इस सूत्र मे महाभाष्यकार ने योगविभाग भी माना है । जैसे—“सुपि” सुबन्त उपपद हो तो आकारान्त धातु से क प्रत्यय हो । कच्छेन पिबतीति कच्छपः, कटाहेन पिबतीति कटाहपः, द्वाभ्यां पिबतीति द्विर, पादपः । “स्थः” सुबन्त उपपद हो तो स्था धातु से क प्रत्यय हो । आखूनामुत्थानमाखूथः, शीलभोत्थः । “सुपि” इस अंश मे कर्ता मे क प्रत्यय होगा । “स्थः” भाव मे होने के लिये है । अब अगले सूत्रो मे “कमेणि, सुपि” इन दोनो पदो की अनुवृत्ति है, अर्थात् यथायोग्यता से दोनो उपस्थित होते है ।

१००५—तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः ॥३।२।५॥

तुन्द और शोक कर्म उपपद हां तो परिपूर्वक मृज और अपपूर्वक नुद धातु से क प्रत्यय हो ।

१००६—आलस्यसुखाहरणयोः । महाभाष्ये ३।२।५॥

“तुन्दशोकयो ०” इस विषय मे आलस्य, सुखाहरण और कहना चाहिये अर्थात् आलस्य गम्यमान हो और सुखात्पत्ति अर्थ हो तो उक्त धातुओं से क प्रत्यय हो । तुन्दं परिमार्ष्टि तुन्दपरिमृजोऽलस आस्ते । अन्यत्र—तुन्दपरिमार्जः । शोकापनुदः पुत्रो जातः । अन्यत्र—शोकापनोदः । अर्थात् जो संसार की अनित्यता आदि दिखा कर शोकमात्र की निवृत्ति करता किन्तु सुख नही उत्पन्न करता ।

१००७—वा०—कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य

उपसंख्यानम् ॥ ३ । २ । ५ ॥

\* स्था धातु से भी कर्ता में क प्रत्यय इष्ट हो तो इससे पृथक् ‘क’ विधान न करते, इसलिये पृथक् विधान सामर्थ्य से स्था से भाव मे क होगा । परन्तु यह भावस्थ क प्रत्यय कर्ता वाले क प्रत्यय की बाधा नही करता, क्योंकि “स्थः” इस अंश में भाव का प्रत्यक्ष ग्रहण नही है ।

मूलानि विभुजति मूलविभुजो रथः । नखानि मुञ्चन्ति नखमु-  
चानि धनूंषि, काकगुहास्तिलाः, सरसिरुह कुमुदम् ।

१००८—प्रे दाज्ञः ॥ ३ । २ । ६ ॥

कर्म उपपद हो तो प्रपूर्वक दा और ज्ञा धातु से क प्रत्यय हो ।  
धनं प्रददाति धनप्रदः, शास्त्रप्रज्ञः, पथिप्रज्ञः । प्र से अन्यत्र—  
धनसंप्रदायः ।

१००९—समि ख्यः ॥ ३ । २ । ७ ॥

कर्म उपपद हो तो सम्पूर्वक ख्या धातु से क प्रत्यय हो ।  
शास्त्रसंख्यः, गोसंख्य ।

१०१०—गापोष्टक् ॥ ३ । २ । ८ ॥

कर्म उपपद हो तो उपसर्ग रहित गा, पा धातुओं से टक् प्रत्यय  
हो । सामगायतीति सामगः, स्त्री—सामगी ।

१०११—सुराशोध्वोः पिबतेः ॥ महाभाष्ये ३/२/८॥

सुरापः, सुरापा, शीघुपी । इन से अन्यत्र—क्षीरपा ब्राह्मणी ।  
पिबति से अन्यत्र—सामसंगायः ।

१०१२—वा०—बहुलं तणि ॥ ३ । २ । ८ ॥

तण् = संज्ञा, छन्द विषय मे पिबति से बहुल करके टक् प्रत्यय  
हो । या ब्राह्मणी सुरापी भवति नैना देवा पतिलोकं नयन्ति, या  
ब्राह्मणी सुरापा भवति नैना देवा पतिलोक नयन्ति ।

१०१३—हरतेरनुद्यमनेऽच् ॥ ३ । २ । ९ ॥

कर्म उपपद हो तो अनुद्यमन अर्थ मे वर्तमान हृच् धातु से अच्  
प्रत्यय हो । उद्यमन उद्यम को कहते हैं, उससे अन्य अनुद्यमन  
कहाता है । अशं हरति अशहरः, भागहरः, रिक्थहरः । अनुद्यमन  
ग्रहण से यहा न हुआ—भारहारः ।

१०१४—वा०—अच्प्रकरणे शक्तिलाङ्गलाङ्कुशय-  
ष्टितोमरघटघटीधनुषु ग्रहेरूपसंख्यानम् ॥

३ । २ । ६ ॥

अच् प्रकरण मे शक्ति, लाङ्गल, अङ्कुश, यष्टि, तोमर, घट, घटी, धनुष् ये उपपद हो तो ग्रह धातु से अच् प्रत्यय का उपसख्यान करना चाहिये । शक्तिग्रह, लाङ्गलग्रह., अंकुशग्रह, यष्टिग्रह, तोमर-ग्रह., घटग्रह., घटीग्रह., धनुर्ग्रह. ।

१०१५—वा०—सूत्रे च धार्यर्थेऽर्थे ॥ ३ । २ । ६ ॥

तथा सूत्र उपपद हो तो धारणार्थकग्रह धातु से उपसंख्यान करना चाहिये । सूत्रग्रह. । सूत्र को धारण करता है । धार्यर्थ से अन्यत्र—सूत्रग्राह. । अर्थात् जो सूत्र का ग्रहण करता है ।

१०१६—वयसि च ॥ ३ । २ । १० ॥

वयस् यौवनादिभाव गम्यमान हो तो कर्मोपपद ह्य् धातु से अच् प्रत्यय हो । यह उद्यमन के लिये है । कवचहर कुमार, शकटहरः वृषभ. ।

१०१७—आङि ताच्छील्ये ॥ ३ । २ । ११ ॥

ताच्छील्य = तत्स्वभावता अर्थ गम्यमान हो और कर्म उपपद हो तो आङ् पूर्वक ह्य् धातु से अच् प्रत्यय हो । पुष्पाणि आहरति तच्छील. पुष्पाहर., फलाहर । स्वभाव से निष्प्रयोजन भी पुष्प और फलो को लेता है । ताच्छील्य से अन्यत्र—भारमाहरतीति भाराहारः ।

१०१८—अर्हः ॥ ३ । २ । १२ ॥

कर्म उपपद हो तो अर्ह धातु से अच् प्रत्यय हो । वेदाह., स्त्री—वेदाहार्हा ।

१०१६—स्तम्बकर्णयो रमिजपोः ॥३।२।१३॥

स्तम्ब और कर्ण ये सुबन्त यथासख्य उपपद हो तो रम और जप धातु से अच् प्रत्यय हो । रम अकर्मक और जप शब्दकर्मक है इससे यहा कर्म शब्द की अनुवृत्ति नही होती है ।

१०२०—स्तम्बकर्णयो ह्स्ति सूचकयोः ॥ महाभाष्ये ॥

३ । २ । १३ ॥

“स्तम्बकर्णयो ऽ” यहा ह्स्तिन्, सूचक और कहना चाहिये अर्थात् हस्ती और सूचक अभिधेय हो तो उक्त अच् प्रत्यय हो । स्तम्बे रमते स्तम्बेरमः हस्ती, कर्णे जपति कर्णेजपः सूचकः । ह्स्ति सूचक से अन्यत्र—स्तम्बेरन्ता, कर्णेजपिता मशक ।

१०२१—शमि धातोः संज्ञायाम् ॥३।२।१४॥

शम् उपपद हो तो संज्ञाविषय मे धातु मात्र से अच् प्रत्यय हो । शंकर, शम्भव, शंवद । यहां धातुग्रहण हेत्वादि अर्थो मे जो ट प्रत्यय का विधान करेगे उसके बाधने के लिये है अर्थात् उन अर्थो मे भी शम् पूर्वक कृञ् धातु से अच् प्रत्यय हो । शकरा नाम परिव्राजिका, शकरा नाम शकुनिका तच्छीला च ।

१०२२—अधिकरणे शेतेः ॥ ३ । २ । १५ ॥

सुबन्त उपपद हो ता अधिकरण मे शीङ् धातु से अच् प्रत्यय हो । खेशते खशय., गर्तशय ।

१०२३—वा०—अधिकरणे शेतेः पार्श्वादिषूपसं-

ख्यानम् ॥ ३ । २ । १५ ॥

“अधिकरणे शेते.” यहां पार्श्वादि पूर्व ही तो भी उपसंख्यान करना चाहिये । पार्श्वाभ्यां शेते पार्श्वशय, पृष्ठशय., उदरशयः ।

१०२४—वा०—दिग्धसहपूर्वाच्च ॥ ३ । २ । १५ ॥



दिग्धसहपूर्वक भी शीङ् धातु से अच् प्रत्यय कहना चाहिये । दिग्धेन सह शेते दिग्धसहशय' । यहा "दिग्धसह" इतना समुदाय पूर्व इष्ट है किन्तु प्रत्येक शब्द पूर्व इष्ट नहीं है ।

१०२५—वा०—उत्तानादिषु कर्त्तृषु ॥३।२।१५॥

कर्त्तृवाचक उत्तानादिक शब्द उपपद हो तो शीङ् धातु से अच् प्रत्यय हो । उत्तानः शेते उत्तानशय , अवनतो मूर्धा यस्य स अवमूर्धा, अवमूर्धा शेते अवमूर्धशयः ।

१०२६—वा०—गिरौ डश्छन्दसि ॥३।२।१५॥

गिरि शब्द उपपद हो तो वेदविषय मे शीङ् धातुसे ड प्रत्यय कहना चाहिये । गिरौ शेते गिरिश. । लोक मे 'गिरिशः' यह शब्द ( ऋण०-६८२ ) सूत्र से तद्धितविषय मे होता है ।

१०२७—चरेष्टः ॥ ३ । २ । १६ ॥

अधिकरणवाची सुबन्त उपपद हो तो चर धातु से ट प्रत्यय हो । खे चरतीति खेचर', खेचरी, निशाचर', निशाचरी, कुरुचर', कुरुचरी, मद्रचर , मद्रचरी, दिवाचर , दिवाचरी । अधिकरण ग्रहण से यहां न हुआ—कुरुश्चरतीति, पञ्चालश्चरतीति \* ।

१०२८—भिन्नासेनादायेषु च ॥ ३ । २ । १७ ॥

भिन्ना, सेना और आदाय शब्द उपपद हो तो चर धातुसे ट प्रत्यय हो । भिन्नां चरतीति भिन्नाचर , सेनाचरः । आदाय यह ल्यबन्त है । आदाय चरतीति आदायचरः, 'सहचरः' यह तो पचादिगण मे जो चरट् शब्द का पाठ है उससे बनेगा ।

\* कुरु देश मे भ्रमण करता है इस अर्थ की अपेक्षा में "कुरुषु चरति" यह विग्रह होता और अन्यदेश से कुरुदेश को प्राप्त होता है इस विवक्षा मे "कुरुश्चरति" यह विग्रह होता है ।

१०२६—पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सत्तैः ॥ ३ । २ । १८ ॥

पुरस् अग्रतस् अग्रे ये उपपद हो तो सृ धातु से ट प्रत्यय हो । पुरस्सरति पुरस्सर, अग्रतस्सर, अग्रम् अग्रेण अग्रे वा सरति अग्रे-सरः । यहा अग्रे शब्द एकारान्त निपातन से है ।

१०३०—पूर्वे कर्त्तरि ॥ ३ । २ । १६ ॥

कर्त्तृवाचक पूर्व शब्द उपपद हो तो सृ धातु से ट प्रत्यय हो । पूर्व. सरतीति पूर्वसर । कर्त्तृ से अन्यत्र--पूर्व देशं सरतीति पूर्वसारः ।

१०३१—कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ॥ ३ । २ । २० ॥

हेतु, ताच्छील्य और आनुलोम्य अर्थ गम्यमान और कर्म उप-पद हो तो कृञ् धातु से ट प्रत्यय हो । हेतु=कारण, ताच्छील्य= तस्त्वभावता, आनुलोम्य=अनुकूलपना । हेतु—यशस्करी विद्या, शोककरी कन्या, दुःखकरं पापम् । ताच्छील्य—श्राद्धकरः, अर्थकर । आनुलोम्य—वचनकर । इनसे अन्यत्र—कुम्भकार, नगरकारः ।

१०३२—दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तान-  
न्तादिबहुनान्दीकिंलिपिलिबिबलिभक्तिकर्त्तृ-  
चित्रक्षेत्रसंख्याजङ्घाबाह्वहर्षत्तद्वनुरुष्षु ॥

३ । २ । २१ ॥

दिवादिक शब्द उपपद हो तो कृञ् धातु से ट प्रत्यय हो । दिवा करोति दिवाकर, विभा करोति विभाकरः, निशाकरः, प्रभाकरः, भास्करः । यहा ( सन्धि० २०१ ) से सत्व । कारकर, अन्तकरः, अनन्तकर, आदिकर, बहुकरः । संख्या से पृथक् बहु शब्द का ग्रहण बहुत्व की अपेक्षा से है । नान्दीकरः, किकरः । लिपि लिबि एकार्थक हैं । लिपिकरः, लिबिकरः, बलिकर । [ भक्तिकरः, कर्त्तृकरः, चित्रकर, क्षेत्रकर ] संख्या—एककरः, द्विकरः, त्रिकरः,

जङ्घाकर, बाहुकर, अहस्कर, यत्कर, तत्कर । चोर अभिधेय हे तो "तस्कर" होगा, ( सन्धि० ३२४ ) से सुडागम और तलोप । धनुष्कर, अरुष्करः । यहा ( सन्धि० २७४ ) से षत्व ।

१०३३—क्रियत्तद्बहुषु कृजोऽज् विधानम् ॥  
महाभाष्ये ३ । २ । २१ ॥

पूर्वोक्त शब्दो मे कि यद् तद् और बहु उपपद हो तो अच् प्रत्यय का विधान करना चाहिये । अन्यत्र ट होगा । क्रिकरा, यत्करा, तत्करा, बहुकरा । किकरी, तस्करी आदि डीवन्त तो पुयोग से होते हैं ।

१०३४—कर्मणि भृतौ ॥ ३ । २ । २३ ॥

कर्मवाचक कर्मशब्द उपपद हो तो कृञ् धातु से ट प्रत्यय हो । भृति = वेतन अर्थ गम्यमान हो तो । कर्माणि करोति कर्मकरः भृत्यः । भृति से अन्यत्र—कर्मकारः ।

१०३५—न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्र-  
मन्त्रपदेषु ॥ ३ । २ । २३ ॥

शब्द, श्लोक, कलह, गाथा, वैर, चाटु, सूत्र, मन्त्र, पद, ये उपपद हो तो कृञ् धातु से ट प्रत्यय न हो । हेत्वादि अर्थों मे प्राप्त ट प्रत्यय का प्रतिषेध है । शब्दकार, श्लोककारः, कलहकार, गाथाकारः, वैरकार, चाटुकार, सूत्रकारः, मन्त्रकारः, पदकारः ।

१०३६—स्तम्बशकृतोरिन् ॥ ३ । २ । २४ ॥

स्तम्ब और शकृत उपपद हो तो कृञ् धातु से इन् प्रत्यय हो ।

१०३७—स्तम्बशकृतोर्ब्रीहिवत्सयोः ॥ महाभाष्ये

३ । २ । २४ ॥

उक्त सूत्र मे ब्रीहि, वत्स और कहना चाहिये । स्तम्बकरि ब्रीहिः, शकृत्करिः वत्स । अन्यत्र—स्तम्बकार, शकृत्कारः ।

१०३८—हरतेर्दृतिनाथयोः पशौ ॥ ३ । २ । २५ ॥

दृति और नाथ कर्म उपपद हो और पशु कर्ता हो तो हृञ् धातु से इन् प्रत्यय हो । दृति चर्ममय पात्रं हरति दृतिहरिः, नाथ नासारञ्जु हरति नाथहरि पशु । अन्यत्र—दृतिहारः, नाथहारः ।

१०३९—फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च ॥ ३ । २ । २६ ॥

फलेग्रहि और आत्मम्भरि यदोनो शब्द निपातन है । फलानि गृह्णाति फलेग्रहि । यहा उपपद को एकार ओर धातु से इन् प्रत्यय निपातन है ।

१०४०—भृञ् कुक्ष्यात्मनोर्मुम् च ॥ महाभाष्ये ॥  
३ । २ । २६ ॥

भृञ् धातु से इन् प्रत्यय के विधान मे कुक्षि और आत्मन् शब्द को मुम् आगम निपातन होना चाहिये । कुक्षि विभक्ति कुक्षिभरिः, आत्मम्भरिश्चरति यूथमसेवमानः । यहा चकार अनुक्त समुच्चय के लिये है इससे 'उदरम्भरिः' यह भी निपातन जानना चाहिये ।

१०४१—छन्दसि वनसनरन्दिमथाम् ॥३।२।२७॥

कर्म उपपद हो ता वेदविषय मे वन, षण्, रक्ष, मथे इन धातुओ से इन् प्रत्यय हो । ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनिम्<sup>१</sup>, गोसनिम्<sup>२</sup> यौ पथि रक्षी श्वानौ<sup>३</sup>, हविर्मथीनाम्<sup>४</sup> ।

१०४२—एजेः खश् ॥ ३ । २ । २८ ॥

१ यजुः १ । १७ ॥

२ अथ० ५ । २० । १० ॥

३ अथ० ८ । १ । १० ॥

४ ऋ० ५ । १०४ । २० ॥

कर्म उपपद हो तो गिजन्त एज् धातु से खश् प्रत्यय हो। जनान् एजयतीति = “जन—एजि— शप्—खश्” यहाँ—

१०४३—अरुद्विषदजन्तस्य मुम् ॥६।३।६७॥

खिदन्त उत्तरपद परे हो तो अरुष् द्विषत् और अव्ययभिन्न अजन्त शब्दा को मुमागम हो। मुम् होकर—जन + म्—एज्—अ—अ = जनमेजय।

१०४४—वा०—खश्प्रकरणे वातशुनीतिलशर्धेष्व-  
जधेट्तुदजहातिभ्यः ॥ ३।२।२८ ॥

खश् प्रत्यय के प्रकरण मे वात शुनी तिल शर्ध ये यथाक्रम उप-पद हो तो अज धेट् तुद और जहाति से खश् प्रत्यय का विधान करना चाहिये। वातमजा मृगा, शुनीं धयति यहा—

१०४५—खित्यनव्ययस्य ॥ ६।३।६६ ॥

खिदन्त उत्तरपद परे हो तो अव्ययरहित पूर्वपद को ह्रस्व आदेश हो। शुनिधयः। तिलंतुदः। शर्धमपानशब्द जहाति, जाहयन्ति वा शर्धञ्जहाः माषाः। यहा हा धातु अन्तर्भावितरण्यर्थ है।

१०४६—नासिकास्तनयोध्माधेटोः ॥३।२।२६॥

नासिका और स्तन कर्म उपपद हो तो ध्मा और धेट् धातुओं से खश् प्रत्यय हो।

१०४७—स्तने धेटः।

१०४८—नासिकायां धमश्च धेटश्च ॥ महाभाष्ये  
३।२।२६ ॥

स्तनं धयति स्तनन्धयः, नासिकन्धमः, नासिकन्धयः। स्त्रीलिङ्ग मे—स्तनन्धयी। यहाँ धेट् के टित् होने से (स्रैणता० ३५) से डीप् प्रत्यय हो जाता है। सूत्र मे बह्वच् नासिका शब्द का भी पूर्वनिपात अल्पाच् तर पूर्वनिपात के अनित्यत्व के लिये है।

१०४६—नाडीमुष्ट्योरच ॥ ३ । २ । ३० ॥

नाडी और मुष्टि कर्म उपपद हो तो ध्मा और घेष् धातु से खश् प्रत्यय हो । यहा मुष्टि इस विसञ्जकान्त का अपूर्वनिपात है इससे संख्यातानुदेश नहीं होता है । नाडी वयति नाडिन्धय, नाडी धमति नाडिन्धम, मुष्टिन्धय, मुष्टिन्धम । चकार अनुक्त समुच्चय के लिये है इससे वातन्धय, वातन्धम पर्वत । ये भी जानने चाहिये ।

१०५०—वा०—नासिकानाडीमुष्टिघटोखारीष्विति

वक्तव्यम् ॥ ३ । २ । ३० ॥

घटिन्धय, घटिन्धम, खारिन्धय, खारिन्धम । नासिक, नाडी और मुष्टि शब्दों के विषय में उदाहरण दे चुके हैं ।

१०५१—उदि कूले रुजिवहोः ॥ ३ । २ । ३१ ॥

कूलकर्म उपपद हो तो उत्पर्वक रुज और वह धातु से खश् प्रत्यय हो । कूलमुद्रजतीति कूलमुद्रजो रथ, कूलमुद्रहः ।

१०५२—वहाभ्रे लिहः ॥ ३ । २ । ३२ ॥

वह और अभ्र कर्म उपपद हो तो लिह धातु से खश् प्रत्यय हो । वहं स्रुन्धं लेटीति, वह—मुम्—लिह—शप्—खश्=वहंलिहो गौः । यहां अदादित्व से शप् का लुक् हो जाता है । [ अभ्रलिहः प्रासादः ] ।

१०५३—परिमाणे पचः ॥ ३ । २ । ३३ ॥

परिमाणवाचक कर्म उपपद हो तो पच धातु से खश् प्रत्यय हो । प्रस्थंपचति प्रस्थपचा स्थाली, द्रोणंपचः कटाहः ।

१०५४—मितनखे च ॥ ३ । २ । ३४ ॥

मित और नख ये कर्म उपपद हो तो पच धातु से खश् प्रत्यय हो । मितं पचति मितम्पचा ब्राह्मणी, नखम्पचा यवागूः । यहां पच

धातु ताप अर्थ [ का ] वाचक है ।

१०५५—विध्वरुषोस्तुदः ॥ ३ । २ । ३५ ॥

विधु और अरुष् कर्म उपपद हो तो तुद धातु से खश् प्रत्यय हो । विधुन्तुदः । अरुषि मर्मस्थलानि तुदति अरुन्तुदः । यहा मुम् क्रिये पीछे अरुष् के सकार का संयोगान्तलोप हो जाता है ।

१०५६—असूर्यललाटयोदृशितपोः ॥ ३ । २ । ३६ ॥

असूर्य और ललाट शब्द यथाक्रम से उपपद हो तो दृशि और तप धातु से खश् प्रत्यय हो । सूर्य न पश्यन्ति असूर्यपश्या राज-दारा । यहां नष् का दृश से सम्बन्ध है इससे यह असमर्थ समास इसी “असूर्य०” निर्देश से होता है । अनिवार्य सूर्य का भी दर्शन नही करने वाली राजदारा है । ललाटंतपः सूर्य ।

१०५७—उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च ॥ ३ । २ । ३७ ॥

उग्रम्पश्य, इरम्मद और पाणिन्धम ये शब्द निपातन किये है । उग्र शब्द यहां क्रियाविशेषण है । उग्रयथा स्यात् तथा पश्यति उग्रम्पश्यः, इरया जलेन माद्यति इरम्मदः, पाणयो ध्मायन्तेऽस्मिन्निति पाणिन्धमः पन्था. । जो अन्धकारयुक्त मार्ग होता है उस मे सर्पादिक क्षुद्र जीवो की निवृत्ति के लिये कभी हाथ से ताली भी देते है ।

१०५८—प्रियवशे वदः खच् ॥ ३ । २ । ३८ ॥

प्रिय और वश ये कर्म उपपद हो तो वद् धातु से खच् प्रत्यय हो । प्रिय वदतीति प्रियंवदः, वशवदः ।

१०५९—वा०-खचप्रकरणे गमेः सुपि उपसं-

ख्यानम् ॥ ३ । २ । ३८ ॥

खच् के प्रकरण मे सुबन्त पूर्वक गम धातु से भी उपसख्यान करना चाहिये । मितंगमो हस्ती, मितगमा हस्तिनी ।

१०६०—वा०—विहायसो विह च ॥३।२।३८॥

इस प्रकरण में विहायस् शब्द जो गम धातु के पूर्व हो तो उसको विह आदेश भी हो। विहायसाऽऽकाशमार्गेण गच्छति विहंगमः पक्षी।

१०६१—वा०—खच्च डिद्वा ॥ ३ । २ । ३८ ॥

विहायस् शब्द को विह आदेश होने में गम् से परे खच् प्रत्यय विकल्प करके डित्त्वत् हो। विहगः।

१०६२—वा०—डे च ॥ ३ । २ । ३८ ॥

गम् से ड प्रत्यय परे हो तो भी विहायस् को विह आदेश हो। विहगः। यहा गम् धातु से ( १०७९ ) इससे ड प्रत्यय होता है।

१०६३—द्विषत्परयोस्तापेः ॥ ३ । २ । ३९ ॥

द्विषत् और पर कर्म उपपद हो तो णिजन्त तप धातु से खच् प्रत्यय हो। द्विषन्त तपति = “द्विषत्—ताप्—णिच्—खच्” इस अवस्था में—

१०६४—खचि ह्रस्वः ॥ ६ । ४ । ६४ ॥

खच्परक णि परे हो तो अङ्ग की उपधा को ह्रस्वादेश हो। इससे ह्रस्वादेश होकर—“द्विषन्तपः” सिद्ध होता है। ऐसे ही—परन्तपः। “द्विषती तापयति” यहां लिङ्गविशिष्टपरिभाषा का अनित्यत्व ❀ मान कर खच् नहीं होता है। अथवा ‘द्विषत्परयोः’ यहा द्विषत् [ दो त ] कारकनिर्देश मान कर तकारान्त द्विषत् शब्द का ग्रहण है।

१०६५—वाचि यमो व्रते ॥ ३ । २ । ४० ॥

❀ वा०—नासिकानाडी० [आ० १०५०] यहा घट शब्द के साथ घटी शब्द के ग्रहण से लिंगविशिष्टपरिभाषा अनित्य है।



व्रत ( नियम ) अर्थ मे वाच् कर्म उपपद हो तो धातु से खच् प्रत्यय हो । वाच यच्छति = “वाच्—अम्—यम्—खच्” यहाँ—

१०६६—वाचंयमपुरंदरौ च ॥ ६ । ३ । ६६ ॥

वाचंयम और पुरन्दर ये निपातन किये है । अर्थात् वाच् और पुर् शब्द को अमन्तत्व निपातन है । इससे वाच् शब्द को अमन्तत्व होकर “वाचयमः” होता है । नियम से अन्यत्र [ जहा ] असामर्थ्य से वचन न निकले वहा—“वाग्यामः” होगा ।

१०६७—पूःसर्वयोदारिसहोः ॥ ३ । २ । ४१ ॥

पुर्, सर्व ये कर्म यथाक्रम से उपपद हो तो दारि, सह धातुओ से खच् प्रत्यय हो । पुर् दारयति पुरन्दरः । यहाँ भी अमन्तत्व हो गया । सर्वमह । कृत् संज्ञको मे ( ९२० ) सूत्र के बहुल नियम से भगपूर्वक दारि धातु से भी खच् प्रत्यय होता है—भगन्दर ।

१०६८—सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः ॥ ३ । २ । ४२ ॥

सर्वे, कूल, अभ्र, करीष ये कर्म उपपद हो तो कष धातु से खच् प्रत्यय हो । सर्व कषति, सर्वकषः खलः, कूलकषा नदी, अभ्रकषो गिरि, करीषकषा वात्या ।

१०६९—मेघर्त्तिभयेषु कृञ् ॥ ३ । २ । ४३ ॥

मेघ, ऋति, भय ये कर्म उपपद हो तो कृञ् धातु से खच् प्रत्यय हो । मेघकर, ऋतिकर, भयंकरः । यहाँ भय शब्द के साथ तदन्त-विधि भी है । अभयंकरः ।

१ उपपदविधौ भयाढ्याद्ग्रहणम् । महा० १ । १ । ८६ ॥ इस नियम से यहा तदन्तविधि होती है । भयङ्कर, अभयङ्करः, आढ्यंकरणम्, स्वाढ्यकरणम् ।

१०७०—क्षेमप्रियमद्रेऽण् च ॥ ३ । २ । ४४ ॥

क्षेम, प्रिय, मद्र ये कर्म उपपद हो तो कृञ् धातु से अण् और खच् प्रत्यय हो । क्षेमं करोति क्षेमकार, क्षेमकर, प्रियकार, प्रियकर, मद्रकारः मद्रंकरः । यहा 'वा' ग्रहण करने से दूसरे पक्ष मे (९९८) सूत्र से अण् प्रत्यय हो जाता है । फिर अण् ग्रहण हेत्वादिक अर्थों मे जां कृञ् से ट प्रत्यय विहित है उसके बाने के लिये है । क्षेमकर । यह तो कर्म का शेषत्वविवक्षा मान कर कृञ् से पृथक् 'पचाद्यच्' होता है ।

१०७१—आशिते भुवः करणभावयोः ॥ ३ । २ । ४५ ॥

आशित शब्द सुबन्त उपपद हो तो भू धातु से करण और भाव मे खश् प्रत्यय हो । करण—आशितो भवत्यनेनेति आशित-म्भव आदन । भाव—आशितस्य भवनं आशितंभवं वर्तते ।

१०७२—संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः ॥

३ । २ । ४६ ॥

कर्म वा अन्य सुबन्त उपपद हो तो भृ, तृ, जि, धारि, सहि, तपि, दम इन धातुओं से संज्ञा विषय मे खच् प्रत्यय हो । यहां यथासम्भव कर्म और सुप् उक्त धातुओं से संबद्ध होते है । विश्वं विभर्ति विश्वम्भरा वसुन्धरा, रथेन तरति रथन्तरं साम, पतिवरा कन्या, शत्रु जयो हस्ती, युगन्धर. पर्वतः, शत्रु सहः, शत्रु तपः, अरिदमः । संज्ञा ग्रहण से यहा न हुञ्जा—कुटुम्ब विभर्तीति कुटुम्बभारः ।

१०७३—गमश्च ॥ ३ । २ । ४७ ॥

सुबन्त उपपद हो तो संज्ञा मे गम् धातु से खच् प्रत्यय हो । सुतं गच्छति, सुतंगमः । पृथक् सूत्र उत्तरार्थ है ।

१०७४—अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः ॥

३ । २ । ४८ ॥

अन्त, अत्यन्त, अध्वन्, दूर, पार, सर्व, अनन्त ये कर्म उपपद हो तो गम् धातु से ड प्रत्यय हो । अन्तग, अत्यन्तग, अध्वगः, दूरगः, पारग, सर्वगः, अनन्तग । यहा डकार टि लोप के लिये है, इससे ड प्रत्यय के परे भसज्ञा के विना भी टिलोप होजाता है ।

१०७५—वा०—डप्रकरणे सर्वत्रपन्नयोरुपसं-

ख्यानम् ॥ ३ । २ । ४८ ॥

गम् धातु से ड प्रत्यय के प्रकरण मे सर्वत्र और पन्न शब्द का भी उपसख्यान करना चाहिये । सर्वत्र गच्छति सर्वत्रग, पन्न पतितं गच्छति पन्नगः ।

१०७६—वा०—उरसो लोपश्च ॥ ३ । २ । ४८ ॥

ड प्रकरण मे गम् धातु से उरस् पूर्व हां तो उसके अन्त्य सकार का लाप भी हो । उरसा गच्छति उरगः ।

१०७७—वा०—सुदुरोरधिकरणे ॥ ३ । २ । ४८ ॥

सु और दुर् उपपद हो तो गम् धातु से अधिकरण मे ड प्रत्यय कहना चाहिये । सुखेन गच्छत्यस्मिन्निति सुगः, दुःखेन गच्छत्यस्मिन्निति दुर्गो मार्गः ।

१०७८—वा०—निरो देशे ॥ ३ । २ । ४८ ॥

देश अभिधेय हो तो निर् से परे गम् धातु से ड प्रत्यय कहना चाहिये । निश्चयेन गच्छत्यस्मिन्निति निर्गो देशः ।

१०७९—वा०—अपर आह—डप्रकरणे अन्ये-

ष्वपि दृश्यते ॥ ३ । २ । ४८ ॥

इस प्रकरण मे और भी उपपद हो तो ड प्रत्यय देखा गया है ।  
तत्र स्त्र्यगारगः, अशनुते यावदन्नाय ग्रामगः, ध्वसते गुरुत्तल्पगः ।

१०८०—आशिषि हनः ॥ ३ । २ । ४६ ॥

आशीर्वाद अर्थ गम्यमान और कर्म उपपद हो तो हन धातु से  
ड प्रत्यय हो । शत्रुं बध्यात् शत्रुह तव पुत्रो भूयात्, तिमिहः ।  
आशीः से अन्यत्र—शत्रुघातः ।

१०८१—वा०—दारावाहनोऽणन्तस्य च टः

सज्ञायाम् ॥ ३ । २ । ४६ ॥

सज्ञाविषय मे दारु शब्द पूर्वक हन धातु से अण् प्रत्यय और  
अन्त्य को टकारादेश कहना चाहिये । दारु आहन्ति दार्वाघाटः,  
दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम् ।

१०८२—वा०—चारौ वा ॥ ३ । २ । ४६ ॥

चारु शब्द उपपद हो तो आङ्पूर्वक हन धातु से अण् प्रत्यय,  
नित्य और अन्त्य को टकारादेश विकल्प करके कहना चाहिये ।  
चारवाघाट, चारवाघातः ।

१०८३—वा०—कर्मणि समि च ॥ ३ । २ । ४६ ॥

कर्म उपपद हो तो सम्पूर्वक हन धातु से अण् प्रत्यय और  
उसको टकारादेश विकल्प करके कहना चाहिये । वर्णान् संहन्ति  
वर्णसघाट, वर्णसघातः, पदानि सहन्ति पदसघाटः, पदरुघातः ।

१०८४—अपे क्लेशतमसोः ॥ ३ । २ । ५० ॥

क्लेश, तमस् कर्म उपपद हो तो अपपूर्वक हन धातु से ड प्रत्यय  
हो । क्लेशमपहन्ति क्लेशापह पुत्रः, तमोपहन्ति तमोपहः सूर्यः ।

१०८५—कुमारशीर्षयोर्णिनिः ॥ ३ । २ । ५१ ॥

कुमार और शीषे कर्म उपपद हो तो हन धातु से णिनि प्रत्यय हो । कुमार हन्ति कुमारघाती, शीर्षघाती । यह शीर्ष शब्द शिरस् शब्द को शीर्षभाव निपातन के लिये है ।

१०८६—लक्षण जायापत्योष्टक् ॥३।२।५२॥

जाया और पति ये कर्म उपपद हो और लक्षणवान् कर्ता अभिधेय हो तो हन धातु से टक् प्रत्यय हो । जाया हन्ति जायाघ्नो ब्राह्मणः, पतिघ्नी वृषली ।

१०८७—अमनुष्यकर्तृके च ॥ ३ । २ । ५३ ॥

कर्म उपपद हो तो मनुष्यभिन्न कर्ता मे हन धातु से टक् प्रत्यय हो । जाया हन्ति जायाघ्नस्तिलकालकः, पति हन्ति पतिघ्नी पाण्डुरेखा, शशघ्नी शकुनी, श्लेष्माण हन्ति श्लेष्मघ्नं मधु, पित्र हन्ति पितृघ्न घृतम् । अमनुष्यकर्तृक ग्रहण से यहाँ न हुआ—आखुघातः शूद्र, नगरघातो हस्ती । यहाँ टक् प्रत्यय प्राप्त भी है तथापि कृत्सङ्गको के बहुलभाव से कर्मोपपद लक्षण अण् होता है । प्रलम्बघ्नः, शत्रुघ्नः, कृतघ्नः, इत्यादिक तो मूलविभुजादि क' प्रत्यय से होते हैं ।

१०८८—शक्तौ हस्तिकपाटयोः ॥ ३ । २ । ५४॥

शक्ति गम्यमान हो और हस्ति, कपाट कर्म उपपद हो तो हन धातु से टक् प्रत्यय हां । यह मनुष्यकर्तृक विषय के लिये सूत्र है । हस्तिन हन्तुं शक्त हस्तिघ्न मनुष्य, कपाटघ्नश्चोर । शक्तिग्रहण से यहाँ न हुआ—'विषेण हस्तिन हन्ति हस्तिघातः' यहाँ अण् होता है ।

१०८९—पाणिघताडघौ शिल्पिनि ॥३।२।५५॥

शिल्पी कर्ता अभिधेय हो तो पाणिघ, ताडघ ये दोनो शब्द निपातन हैं । पाणि हन्ति पाणिघ, ताडघ । यहाँ पाणि और ताड

कर्मोपपद हन धातु से टक् प्रत्यय के परे धातु को टि लोप और घकारादेश निपातन है ।

१०६०—त्रा०—राजघ उपसंख्यानम् ॥३।२।५५॥

उक्त निपातनो मे 'राजघ' यह भी उपसंख्यान करना चाहिये । राजान हन्ति राजघ ।

१०६१—आढ्यसु भगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु  
च्यर्थेऽच्यवौ कृञः करणे ख्युन् ॥३।२।५६॥

चि्वरहित च्यर्थ आढ्य, सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय ये कर्म उपपद हो तो कृञ् धातु से करण मे ख्युन् प्रत्यय हो । अनाढ्यमाढ्यमनेन कुर्वन्ति आढ्यकरणम्, सुभगकरणम्, स्थूलकरणम्, पलितकरणम्, नग्नकरणम्, अन्धकरणम्, प्रियकरणम् । च्यर्थग्रहण से यहां न हुआ—आढ्यं घृतेन कुर्वन्ति, घृतेनाभ्यञ्जयन्त्यः । 'अच्यवौ' यह प्रतिषेध आगे के लिये है क्योंकि यहां च्यन्त विषय मे ख्युन् के प्रतिषेध मे ल्युट् हो जायगा । ल्युट् मे समान रूप समान ही स्वर आदि कार्य है । आढ्यीकरणम् \* ।

१०६२—कर्त्तरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ ॥३।२।५७॥

चि्वरहित च्यर्थ आढ्यादिक सुबन्त उपपद हो तो भू धातु से कर्ता मे खिष्णुच् और खुकञ् प्रत्यय हो । अनाढ्य आढ्यो भवति

\* ख्युनि प्रतिषेधानर्थक्य ल्युट्ख्युनोरविशेषात् । ख्युनि चि्व प्रतिषेधोऽनर्थक । कि कारणम्? ल्युट्ख्युनोरविशेषात् ख्युना मुक्ते ल्युटा भवितव्यम् नचैवास्तिविशेष । चि्वन्त उपपदे ख्युनो वा ल्युटो वा । तदेव रूप स प्व स्वरः । महाभाष्ये ३ । २ । ५६ ॥ छीळिग मे ( त्रैण० ३६ ) ख्युन् प्रत्ययान्त से भी छीप् हो जायगा । आढ्यकरणी । काशिकाकार ने जो इस विषय में अर्थतः ल्युट् प्रत्यय का भी प्रतिषेध माना है सो असंगत है ।

आढयम्भविष्णु, आढयम्भावुकः, सुभगभविष्णु, सुभगभावुक, स्थूलंभविष्णु, स्थूलंभावुक, पलितभविष्णु, पलितंभावुक, नग्नभविष्णु, नग्नभावुक, अन्धभविष्णु, अन्धभावुक, प्रियभविष्णु, प्रियभावुक। कर्तृग्रहण से करण मे नहीं होते है। च्यथे मात्र से अन्यत्र—आढयो भविता। अचित्रग्रहण से यहा नहीं होता—आढ्यो भविता।

१०६३—स्पृशोऽनुदके किन् ॥ ३। २। ५८ ॥

अनुदक सुबन्त उपपद हां तो स्पृश धातु से क्विन् प्रत्यय हो। घृतं स्पृशति घृतस्पृक्, मन्त्रेण स्पृशति मन्त्रस्पृक्, जलेन स्पृशति जलस्पृक्। अनुदकग्रहण से यहा न हुआ—उदकस्पर्श। कर्म की अनुवृत्ति नहीं है किन्तु निवृत्ति हो गई।

१०६४—ऋत्विग्दधृक्स्त्रिग्दुष्णिगञ्चुयुजिक्रञ्चाञ्च।

३। २। ५६ ॥

ऋत्विज्, दधृष्, स्रज्, दिश् उष्णिज् ये किन् प्रत्ययान्त निपातन और अञ्चु, युजि, क्रुञ्चु धातुओ से क्विन् प्रत्यय हो। ऋतौ यजति ऋतुं यजति वा ऋतुप्रयुक्तो यजति वा ऋत्विक्। यहां ऋतु शब्द-पूर्वक 'यज' धातु से क्विन् प्रत्यय है। धृष्णोतीति दधृक्। यहां 'बिधृषा' धातु से क्विन् प्रत्यय, धातुद्विर्वचन और अन्तोदात्तत्व भी निपातन है। सृज्यते या सा स्रक्। यहा 'स्रज' से कम मे क्विन् प्रत्यय और अमागम निपातन है। दिश्यते जनैर्या सा दिक्। यहां 'दिश्' से कर्म मे क्विन् है। ऊर्ध्वं स्निह्यति उष्णिक्। यहां उत्पूर्वक 'स्निह' धातु से क्विन् षत्त्र और उपसर्गान्त लोप निपातन है। निपातनशब्दो के साथ जो अञ्चु आदि धातुओ से क्विन् का विधान किया है इससे उन मे कुछ अलाक्षणिक कार्य भी होता है। जैसे सोपपद अञ्चु से क्विन्—प्रकर्षणाञ्चति प्राङ्, प्रत्यङ्, उद्ङ्।

युञ् और कृञ्च से निरुपपद से होता है—युङ्, युञ्जौ, युञ्ज । कृङ्, कृञ्चौ, कृञ्च । यहां निपातन से न लोप नहीं होता । इन क्विन् प्रत्ययान्तो मे ( नामि० ११३ ) से सर्वत्र पदान्त मे कुत्व होता है ।

१०६५—त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ् ॥

३ । २ । ६० ॥

त्यदादिक उपपद हो तो अनालोचन अर्थ मे वर्तमान 'दृश' धातु से कञ् और क्विन् प्रत्यय हो । तमिवेम पश्यन्ति जना सोऽयं स इव दृश्यमानस्तमिवात्मानं पश्यति तादृक्, तादृश, यादृक्, यादृश । स्त्री—तादृशी, यादृशी । यहा ( स्त्रैण० ३५ ) सूत्र से डोप् प्रत्यय हो जाता है । अनालोचनग्रहण से यहा न हुआ—तं पश्यति तद्दर्श । तादृगादिक शब्द रूढि शब्दो के समान है, दर्शनक्रिया के अर्थ को नहीं कहते है ।

१०६६—वा०—दृशोः समानान्ययोश्च ॥ ३ । २ । ६० ॥

समान और अन्य शब्द भी उपपद हो और अनालोचन गम्यमान हो तो 'दृश' धातु से क्विन् और कञ् प्रत्यय हो । सदृक्, सदृश, अन्यादृक्, अन्यादृश ।

१०६७—सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदद्विदजि-

नोरामुपसर्गेऽपि क्विप् ॥ ३ । २ । ६१ ॥

उपसर्गे वा अनुपसर्गे सुबन्त उपपद हो तो सदादिक धातुओ से क्विप् प्रत्यय हो । द्विष के साहचर्य से अदादि पूङ् धातु का ग्रहण है । युञ् से युजिर् और युज दोनो का ग्रहण है । विद् इसको अकारान्त पढ़ने से विद् ज्ञाने । विद् सत्तायाम् । विद् विचारणे । इन स्तीनो का ग्रहण है किन्तु विद्लु का नहीं है । सत्—शुचिषत्, शुषत्,



परिषत् । सू—वीरसूः, शतसू, प्रसू । द्विष - मित्रद्विट्, परिद्विट्, प्रद्विट् । द्रुह—मित्रध्रुक, मित्रध्रुग्, प्रध्रुक । दुह—गोधुक, परिधुक । युज्—अश्वयुक्, प्रयुक् । विद—वेदवित्, प्रवित्, ब्रह्मवित् । भिद्—काष्ठभित्, प्रभित् । छिद्—रज्जुच्छित्, प्रच्छित् । जि—शत्रुजित्, परिजित् । नी—सेनानीः, ग्रामणी, प्रणी । 'ग्रामणा' मे ( स्त्र० ६६६ ) सूत्र मे ग्रामणी शब्द के निर्देश का मान कर ( ८७२ ) से णत्व हा जाता है । राजृ—विराट्, सम्राट् ।

१०६८—भजो णिवः ॥ ३ । २ । ६२ ॥

उपसर्ग वा अनुपसर्ग सुबन्त उपपद हो तो भज धातु से णिव प्रत्यय हो । विश्वं भजति विश्वभाक्, सुखभाक्, प्रभाक् ।

१०६९—छन्दसि सहः ॥ ३ । २ । ६३ ॥

वेदविषय मे सुबन्त उपपद हो तो सह धातु से णिव प्रत्यय हो । तुराषाट् । यहा ( ८०८ ) से षत्व होता है ।

११००—वहश्च ॥ ३ । २ । ६४ ॥

वेदविषय मे सुबन्त उपपद हो तो वह धातु से णिव प्रत्यय हो । प्रष्टवाट् ।

११०१—कव्यपुरीषपुरीष्येषु व्युट् ॥ ३ । २ । ६५ ॥

वेदविषय मे कव्य, पुरीष, पुरीष्य ये उपपद हो तो वह धातु से व्युट् प्रत्यय हो । कव्यवाहनः, पुरीषवाहनः, पुरीष्यवाहन ।

११०२—हव्येऽनन्तः पादम् ॥ ३ । २ । ६६ ॥

वेदविषय मे हव्य शब्द उपपद हो तो वह धातु से व्युट् प्रत्यय हो जो वह पाद के मध्य मे न हो । अग्निश्च हव्यवाहनः । अनन्तः-पादग्रहण से यहां न हुआ—हव्यवाडग्निरजरः पिता न ।

११०३—जनसनखनक्रमगमो वित् ॥ ३ । २ । ६७ ॥

वेदविषय मे सुबन्त उपपद हो तो जन आदि धातुओ से विट् प्रत्यय हो । जन—अब्जा, गोजा । सन—गोषा इन्द्रो नृषा असि । खन—बिसखा, कूपखा । क्रम—दधिका । गम—अप्रेगाः उन्नेतृणाम् ।

११०४—अदोऽनन्ने ॥ ३ । २ । ६८ ॥

अद धातु स अन्नभिन्न सुबन्त [उपपद] हो तो विट् प्रत्यय हो । आममन्ति आमात्, सस्यात् । अन्नग्रहण से यहा नहुआ—अन्नाद, ।

११०५—क्रव्ये च ॥ ३ । २ । ६९ ॥

क्रव्य शब्द उपपद हो तो अद धातु से विट् प्रत्यय हो । क्रव्यात् । यहाँ भी पूर्वसूत्र से विट् प्रत्यय होजाता फिर यह सूत्र असरूप प्रत्यय के बाध के लिये है, इससे क्रव्योपपद अद धातु से अण प्रत्यय नहीं होता है ।

११०६—दुहः कव्यश्च ॥ ३ । २ । ७० ॥

सुबन्त उपपद हो तो दुह धातु से कप् प्रत्यय और धातु को घकारान्तादेश हो । कामान् दोग्धि कामादुघा, अथदुघा ।

११०७—मन्त्रेश्वेतवहोक्थशसपुरोडाशो शिवन् ॥

३ । २ । ७१ ॥

मन्त्र विषय मे श्वेतवह, उक्थशस, पुरोडाश इन से शिवन् प्रत्यय हो । कर्तृवाचक श्वेत शब्दोपपद वह धातु से कर्मकारक मे शिवन् प्रत्यय हो—-श्वेता यं वर्हान्त स श्वेतवा, । कर्मवाचक वा करणावाचक उक्थ शब्दपूर्वक शसु धातु से शिवन्—उक्थान् शंसति उक्थैर्वा शसति उक्थशाः । पुरः पूर्वक दाश को डकारादेश कर्म मे शिवन्—पुरो दाशन्त इममिति पुरोडा । इस विषय मे पदान्त मे ( नामि० ११९, १२१ ) से डस् आदि काये होते है ।

११०८—अवे यजः ॥ ३ । २ । ७२ ॥

मन्त्रविषय मे अव उपपद हो तो यज धातु से गिवन् प्रत्यय हो । अवयजति अवया , त्व यज्ञे वरुणस्यावया असि ।

११०९—विजुपे छन्दसि ॥ ३ । २ । ७३ ॥

वेद विषय मे उप उपपद हो तो यज धातु से विच् प्रत्यय हो । उपयड्भिरूर्व वहन्ति । यहा छन्दोप्रहण ब्राह्मण विषय के लिए भी है ।

१११०—आतो मनिक्वनिक्वनिपश्च ॥ ३ । २ । ७४ ॥

वेदविषय मे सुबन्त उपपद हो तो आकारान्त धातु से मनिन्, क्वनिप्, वनिप् और विच् प्रत्यय हो । मनिन्—शोभन ददाति सुदामा, अश्वत्थामा । क्वनिप्—सुधीवा, सुपीवा । वनिप्—भूरि-दावा, घृतपावा । विच्—कीलालपाः ।

११११—अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥ ३ । २ । ७५ ॥

आकारान्तो से अन्य धातुओ से भी भिन्न मनिन्, कनिप्, वनिप्, विच् प्रत्यय देखे जाते है ।

१११२—नेडवशि कृति ॥ ७ । २ । ८ ॥

वशादि कृत् सन्नक प्रत्यय परे हो तो इट् न हो । इससे इट् का निषेध होकर—

मनिन्—शोभन शृणाति सुशर्मा । क्वनिप्—प्रातरित्वा, प्रातरित्वानौ । वनिप्—विजावा, अग्नेगावा । विच्—रेडसि पर्ण नये । यहा अपि शब्द सर्वोपाधिनित्ति के लिये है, इससे केवल से भी होता है—धीवा, पीवा ।

१११३—क्विप् च ॥ ३ । २ । ७६ ॥

धातु से क्विप् प्रत्यय हो। उखाया स्रस्यते उखास्रत्, पर्णध्वत्।  
चाहाद् भ्रश्यति वाहभ्रट्। यह क्विप् प्रत्यय सोपपद वा निरुपपद  
धातु से लोक वेद में सर्वत्र होता है।

१११४—इस्मन्त्रनक्विबुषु च ॥ ६।४।६७ ॥

इस, मन्, त्रन्, क्वि, ये परे हो तो ह्यादि धातु की उपधा को  
ह्रस्व आदेश हो। तनुं ह्यादयति तनुच्छत्।

ज्वरतीति, जूः, जूरौः, जूरः, तू, सू, जनानवतीति जनौः,  
जनावौ, जनाव., मवतीति मूः। यहा सर्वत्र (५५९) से ऊठ।  
मूर्च्छतीति मू, मुरौ, मुर., धूर्वतीति धू, धुरौ, धुर., (५६०) से  
छ और व लोप होता है।

१११५—गमः क्वौ ॥ ६।४।४० ॥

क्वि परे हो तो गम के अनुनासिक का लोप हो। अज्ञान्  
गच्छति अङ्गगत्, कश्मीरगत्, कलिङ्गगत्।

१११६—वा०—गमादीनामिति वक्तव्यम् ॥

६।४।४० ॥

क्वि के परे गमादिको के अनुनासिक का लोप हो। परितस्त-  
नोतीति परीतत्, परीतत् सह कुण्डिकया, सयच्छतीति सयत्। शोभनं  
नमति सुनत्।

१११७—वा०—ऊङ् च ॥ ६।४।४० ॥

लोपविषय में गमादिको को ऊङ् भी हो। अग्रे गच्छति अग्रेगू,  
अग्रे भ्राम्यति अग्रेभ्रूः।

१ अग्रे+गम्+क्विप्—इस अवस्था में क्विप् का लोप और सूत्र  
१११६ से मकार का लोप होने पर उङ् आदेश होता है। डित् होने से  
गकारोत्तरवर्ती भकार के स्थान में होता है। इसी प्रकार 'अग्रेभ्रू' में  
भी समक्षना चाहिये।

१११८—स्थः क च ॥ ३ । २ । ७७ ॥

उपसर्गे वा अनुपसर्ग सुबन्त उपपद हो तो स्था धातु से क और क्विप् प्रत्यय हो । श सुखं यथास्यात्तथा तिष्ठति शस्थः, शंस्थाः । यद्यपि “क, क्विप्” प्रत्यय ( १००४, १११३ ) सूत्रो से हो जाते, तथापि यह सूत्र बाधको के बाधने के लिये है इससे ‘शस्थः’ आदि मे ( १०२१ ) सूत्र से प्राप्त अच् को बाधता है ।

१११९—सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ॥ ३ । २ । ७८ ॥

अजातिवाची सुबन्तमात्र उपपद और ताच्छील्य अर्थ गम्यमान हो तो धातु से णिनि प्रत्यय हो । उष्णं भोक्तु शीलमस्य उष्णभोजी, शीतभोजी, कटुभोजी, मिष्टभोजी, न्यायकारी, उदासत्तु शीलमस्या उदासारिणी, उदासारिण्यौ, उदासारिण्य , प्रत्यासारिण्य , अनुयायी, विसारी, अनुजीवी । अजाति ग्रहण से यहा न हुआ—गवां दोग्धा । ताच्छील्य ग्रहण से यहां न हुआ—कदाचिन्न्याय करोति ।

११२०—वा०—णिन्विधौ साधुकारिण्युपसंख्यानम् ॥

३ । २ । ७८ ॥

साधु करोति साधुकारी, साधु ददाति साधुदायी ।

११२१—वा०—ब्रह्मणि वदः ॥ ३ । २ । ७८ ॥

ब्रह्म उपपद हो तो वद धातु से णिनि प्रत्यय हो । ब्रह्म वदति ब्र वादी, ब्रह्मवादिनो वदन्ति । उक्त दोनो वार्तिक ताच्छील्य से अन्यत्र के लिये है ।

११२२—कर्त्तर्युपमाने ॥ ३ । २ । ७९ ॥

उपमानवाची कर्ता उपपद हो तो धातु से णिनि प्रत्यय हो । उष्ट्र इव क्रोशति उष्ट्रक्रोशी, ध्वाङ्क्षरावी । अताच्छील्यार्थ वा जात्यर्थ यह सूत्र है । कर्त्तृग्रहण से यहा न हुआ—अपूपानित्र माषान् भक्ष-

यति । उपमानग्रहण से यहा न हुआ—उष्ट्र क्रोशति ।

११२३—व्रते ॥ ३ । २ । ८० ॥

शास्त्रोक्त नियम गम्यमान हो और सुबन्त उपपद हो तो वातु से णिनि प्रत्यय हा । स्थण्डिलस्थायी, स्थण्डिलशायी । नियम से स्थण्डिल ही पर सोता है । व्रत ग्रहण से यहां न हुआ—ऋदाचित् स्थण्डिले शेते देवदत्त । यह जाति के अर्थ वा ताच्छील्य से अन्य अर्थ मे होने के लिये सूत्र है ।

११२४—बहुलमाभीक्ष्ये ॥ ३ । २ । ८१ ॥

आभीक्ष्ये=वार वार होना अर्थ गम्यमान हो और सुबन्त उपपद हो तो धातु से णिनि प्रत्यय हो । कपायपायिणा गान्धारा, क्षीरपायिण उशीनरा, सौवीरपायिणो बाह्लीका । बहुलग्रहण से यहां न हुआ—कुल्माषखाद' ।

११२५—मनः ॥ ३ । २ । ८२ ॥

सुबन्त उपपद हो तो मन् धातु से णिनि प्रत्यय हो । दर्शनीय मन्यते दर्शनीयमानी, शाभनमानी, बहुमानी । सामान्य मन् के ग्रहण से मन् मात्र का ग्रहण प्राप्त है तथापि पूर्व सूत्र से 'बहुल' शब्द की अनुवृत्ति करके किसी मन् से णिनि नहीं भी होता, इससे यहां मन्यति का ग्रहण है, किंतु तनादिस्थ मनु धातु का ग्रहण नहीं है ।

११२६—आत्ममाने खश्च ॥ ३ । २ । ८३ ॥

आत्ममान=अपने को मानना अर्थ गम्यमान हो तो मन धातु से णिनि और खश् प्रत्यय हो । आत्मन पण्डितं मन्यते पण्डित-मन्य', पण्डितमानी । 'आत्ममान' ग्रहण से यहा खश् प्रत्यय न हुआ—विष्णुमित्रं पण्डितं मन्यते पण्डितमानी ।

११२७—इच्च एकाचोऽम् प्रत्ययवच्च ॥ ६ । ३ । ८८ ॥

श्विदन्त उत्तरपद परे हो तो इजन्त एकाच् को अम् आगम हो और वह अम् विभक्ति के तुल्य हो । गा मन्य । यहां (नामि० १०९) से ओकार को आकारादेश होता है । स्त्रीमन्यः, स्त्रियंमन्यः ? यहां ( नामि० ८८ ) से इयङ् विकल्प करके होता है । इच्प्रहण से यहां न हुआ—त्वमन्यः । एकाच् प्रहण से यहां न हुआ--लेखाभ्रुमन्यः ।

११२८—भूते ॥ ३ । २ । ८४ ॥

यहां से जो प्रत्यय विधान करें सो भूतकाल में हो । यह अधि-कार वर्तमानाधिकार से पूर्व पूर्व है ।

११२९—करणे यजः ॥ ३ । २ । ८५ ॥

करण उपपद हो तो भूतकाल में यज धातु से णिनि प्रत्यय हो । सोमेनेष्टवाञ् सोमयाजी, अग्निष्टोमेनायाचीत् अयष्ट वा अग्निष्टोम-याजी । भूतकाल से अन्यत्र—अग्निष्टोमेन यजते ।

११३०—कर्मणि हनः ॥ ३ । २ । ८६ ॥

कर्म उपपद हो तो हन धातु से भूतकाल में णिनि प्रत्यय हो । पितृव्यघाती । मातुलघाती । [ कुत्सितग्रहणं कर्तव्यम् । महाभाष्य ३ । २ । ८७ ॥ इससे यहां न हुआ—चोर हतवान् । ] यहां से सह<sup>१</sup> पर्यन्त कर्माधिकार है ।

११३१—ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् ॥ ३ । २ । ८७ ॥

ब्रह्मन्, भ्रूण, वृत्र ये कर्म उपपद हो तो भूतकाल में हन धातु से क्विप् प्रत्यय हो । ब्रह्माणमवीत् ब्रह्महा, भ्रूणहा, वृत्रहा । धातु-मात्र से क्विप् प्रत्यय का विधान कर चुके हैं इससे यह ब्रह्मादि विषय क्विप् प्रत्यय नियमार्थ है । वह यहां दो प्रकार का नियम है—प्रथम भूतकाल में ब्रह्मादिक ही उपपद हो तो हन धातु से क्विप्

हो, अन्योपपद हो तो न हा । इससे—‘पुरुषं हतवान्’ यहा क्विप् न हुआ । दूसरा—भूतकाल मे ब्रह्मादिक उपपद हो तो हन से क्विप् ही हो, किन्तु और प्रत्यय न हो । इससे —‘वृत्रमवधीत्’ यहां कर्मोपपद अण् भी नहीं होता ।

११३२—बहुलं छन्दसि ॥ ३ । २ । ८८ ॥

वेदविषय मे कर्म उपपद हो तो हन धातु से बहुल करके क्विप् प्रत्यय हो । मातृहा सप्तमं नरक प्रविशेत्, पितृहा, भ्रातृहा । कहीं नहीं भी होता—अभिन्नघातः ।

११३३—सुकर्मपापमन्त्रपुरणेषु कृञ् ॥ ३ । २ । ८९ ॥

स्वादिक कर्म उपपद हों तो कृञ् धातु से भूतकाल मे क्विप् प्रत्यय हो । शोभनं कृतवान् सुकृन्, कर्मकृत्, पापकृन्, मन्त्रकृत्, पुरणकृत् । यहा तीन प्रकार का नियम है । प्रथम—स्वादिक उपपद हो तो कृञ् से क्विप् ही हो और प्रत्यय न हो । इससे—‘कर्म कृतवान्’ यहा अण् नहीं होता । दूसरा—स्वादिक उपपद हो तो कृञ् ही से क्विप् हो, इससे—‘मन्त्रमधीतवान्’ यहां क्विप् न हुआ । [ तीसरा ]—स्वादिक उपपद हो तो भूतकाल ही मे कृञ् से क्विप् हो, अन्यकाल मे न हो । इसमे ‘मन्त्रङ्करोति, करिष्यति वा’ यहा क्विप् नहीं होता । स्वादिकों का नियम नहीं है, इससे अन्योपपद मे भी सामान्य क्विप् होता है । भाष्यकृत्, शारुकृत् ।

११३४—सोमे सुञ् ॥ ३ । २ । ९० ॥

सोम कर्म उपपद हो तो भूतकाल मे सुञ् धातु से क्विप् प्रत्यय हो । सोमं सुतवान् सोमरुत् ।

१ अष्टाध्यायी भाष्य मे दो प्रकार का नियम कहा है । यह लेख काशिकानुसारी है ।



११३५—अग्नौ चः ॥ ३ । २ । ६१ ॥

अग्नि कर्म उपपद हो तो चिञ् धातु से भूतकाल में क्विप् प्रत्यय हो । अग्नि चितवान् अग्निचित्, अग्निचितौ, अग्निचितः ।

११३६—कर्मण्यग्न्याख्यायाम् ॥ ३ । २ । ६२ ॥

कर्म उपपद हो तो भूतकाल में चिञ् धातु से कर्म कारक में क्विप् प्रत्यय हो, जो धातु उपपद और प्रत्यय के समुदाय से अग्न्याधारस्थल विशेष की आख्या पाई जाय । श्येन इव चित-श्येनचित्, कङ्कचित् । अग्नि के लिये जो ईंटों का चयन करना है उसकी संज्ञा है ।

११३७—कर्मणीनिर्विक्रियः ॥ ३ । २ । ६३ ॥

कुत्सानिमित्तक कर्म उपपद हो तो विपूर्व डुकीञ् धातु से भूतकाल में इनि प्रत्यय हो । सोम विक्रीतवान् सोमविक्रयी, रसविक्रयी । कर्म वर्तमान था फिर कर्मग्रहण शुद्ध कर्म से अन्य कर्म को ग्रहण करने के लिए है, इससे यहां कुत्सानिमित्तक कर्म का ग्रहण होता है । अत एव यहां न हुआ—धान्यविक्राय ।

११३८—दृशोः क्वनिप् ॥ ३ । २ । ६४ ॥

कर्म उपपद हो तो दृश धातु से भूतकाल में क्वनिप् प्रत्यय हो । पार दृष्टवान् पारदृश्वा, मेरुदृश्वा ।

११३९—राजनि युधिकृञः ॥ ३ । २ । ६५ ॥

राजन् शब्द कर्म उपपद हो तो युधि कृञ् धातुओं से भूतकाल में क्वनिप् प्रत्यय हो । राजानं योधितवान् राजयुध्वा । यद्यपि युधि अकर्मक है तथापि अन्तर्भावितण्यर्थ मानकर सकर्मक होजाता है । राजान कृतवान् राजकृत्वा ।

११४०—सहे च ॥ ३ । २ । ६६ ॥

सह शब्द उपपद हो तो युधि कृञ् धातुओं से भूतकाल मे क्वनिप् प्रत्यय हो । सहायौत्सीत् सहयुध्वा, सहाकार्षीत् सहकृत्वा ।

११४१—सप्तम्यां जनेडः ॥ ३ । २ । ६७ ॥

सप्तम्यन्त उपपद हो ता भूतकाल मे जन धातु से ड प्रत्यय हो । उपसरे जात उपसरज, सरसिज । यहां ( सामा० तत्पुरुषे कृति० १२२ ) सूत्र से सप्तमी का अलुक् भी होता है । लुक् पक्ष मे सरोजः ।

११४२—पञ्चम्यामजातौ ॥ ३ । २ । ६८ ॥

जाति भिन्न पञ्चम्यन्त उपपद हो तो जन धातु से भूतकाल मे ड प्रत्यय हो । सस्काराज्जातः सस्कारज, पङ्कज, दु खजः । अजाति ग्रहण से यहा न हुआ—हस्तिनो जातः, अश्वजात् ।

११४३—उपसर्गे च संज्ञायाम् ॥ ३ । २ । ६९ ॥

उपसर्ग उपपद हो तो भूतकाल मे जन धातु से ड प्रत्यय संज्ञा-विषय मे हो । प्रकर्षण जाता. प्रजाः ।

११४४—अनौ कर्मणि ॥ ३ । २ । १०० ॥

कर्म उपपद हो तो अनूपसर्गपूर्वक जन धातु से भूतकाल मे ड प्रत्यय हो । राममनुजातो रामानुज, भरतानुजः ।

११४५—अन्येष्वपि दृश्यते ॥ ३ । २ । १०१ ॥

अन्य भी उपपद हो तो भूतकाल मे जन धातु से ड प्रत्यय देखा जाता है । सप्तम्यन्तोपपद मे कहा है उससे अन्यत्र जैसे—नाज-नीति अजः, द्वाभ्यां जन्मसंस्काराभ्या जाता द्विजा । अजातिविषयक पञ्चम्यन्तोपपद मे कहा है उससे अन्यत्र जाति विषय मे जैसे—ब्राह्मणजो धर्मः, क्षत्रियजं युद्धम्, वैश्यजो व्यापार । उपसर्गोपपद से संज्ञा विषय मे कहा है उससे अन्यत्र असंज्ञा मे—अभिजाः, परिजाः, केशा । अनुपूर्वक से कर्मोपपद मे कहा है, अन्यत्र—

अनुजात , अनुज' । अपि शब्द सर्वोपाधिनिवृत्ति के लिये है, इससे यहा भी होता है—परित खाता, परिखा<sup>१</sup>, आखा<sup>१</sup> ।

११४६—क्तक्तवत् निष्ठा ॥ १ । १ । ४० ॥

क्त क्तवतु ये निष्ठा सङ्गक हा ।

११४७—निष्ठाः ॥ ३ । २ । १०२ ॥

अनकाल मे धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हो । अकारादि क्त, अकारादि क्त कृतवान्, भुक्तम्, भुक्तवान् । यह क्त प्रत्यय कर्म (११६) में और क्तवतु कर्ता ( ११५ ) मे होता है ।

११४८—निष्ठायामण्यदर्थे ॥ ६ । ४ । ६० ॥

ण्यदर्थे जो भाव कर्म \* उससे अन्य अर्थे ( कर्ता आदि ) में निष्ठा परे हो तो चि धातुको दीर्घादेश हो ।

११४९—क्षियो दीर्घात् ॥ ८ । २ । ४६ ॥

दीर्घ क्षि धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । अक्षेपीदति क्षीणवान् । भाव मे—क्षितमनेन । कर्म मे—क्षितः कामांऽनया ।

११५०—रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ॥ ८ । २ । ४२ ॥

रेफ और दकार से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश तथा उस निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को भी नकारादेश हा । शीर्ण, विस्तीर्णम् । यहा ( २६५ ) सूत्र से ऋकार को इकारादेश (संधि०

१. महाभाष्य और अष्टाध्यायीभाष्य में “अन्येभ्योऽपि दृश्यते” इस वाचिक से इनकी सिद्धि दर्शाई है । यह लेख काशिकानुसारी है ।

\* प्यत कृत्यसङ्गक प्रत्यय है । कृत्यप्रत्यय ( ११६ ) सूत्र से भाव कर्म मे होते है इससे ण्यदर्थे भाव कर्म है ।

८५) सूत्र से रपरत्व होता है। द—भिन्न, भिन्नवान् । रदप्रहण से यहाँ न हुआ—कृतः, कृतवान् । निष्ठाप्रहण से यहाँ न हुआ—कर्ता । त प्रहण से यहाँ न हुआ—चरितम् । पूर्व प्रहण से पर को न हुआ—भिन्नवद्भ्याम् ।

११५१—संयोगादेरातो धातोर्यएवतः ॥

द । २ । ४३ ॥

संयोगादि जो यएवान् आकारान्त धातु उससे परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । सस्त्यान, ग्लान, प्रद्राण । संयोगादि-प्रहण से यहाँ न हुआ—यात, यातवान् । आदप्रहण से यहाँ न हुआ—च्युतः, च्युतवान्, प्लुतः, प्लुतवान् । धातुप्रहण से यहाँ न हुआ—निर्यात । यएवदप्रहण से—‘स्नातः, स्नातवान्’ यहाँ न हुआ ।

११५२—त्वदिभ्यः ॥ द । २ । ४४ ॥

त्वदिभ्यः धातुओं से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । यहाँ ऋचादिगणस्थ “ल्व् छेदने” से लेकर “प्री गतौ” इस धातु पर्यन्त धातुओं का प्रहण है । उन में रेफ से परे नकारादेश पूर्व से भी सिद्ध है, शेष धातुओं से अप्राप्त है । लूनः, लूनवान्, धून, धूनवान् ।

११५३—वा०—दुग्बोर्दीर्घश्च ॥ द । २ । ४४ ॥

दु और गु धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश और उनको दीर्घ भी कहना चाहिये । दु—आदून । गु—आगून ।

११५४—वा०—पूजो विनाशे ॥ द । २ । ४४ ॥

विनाश अर्थ में वर्तमान पूज् धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । पूनाः ॐ यवाः । यव विनाश को प्राप्त हो गये । विनाशप्रहण से यहाँ न हुआ—पूत धान्यम् । धान्य पवित्र है ।

ॐ धातु अनेकार्थक होते हैं इससे “पूना यवा ” यहाँ पूज् धातु विनाशार्थक है ।

११५५—वा०—सिनोतेग्रासकर्मकर्तृकस्य ॥

८ । २ । ४४ ॥

जिसका ग्रास कर्म ही कर्ता हुआ हो उस सिञ् धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । असायि ग्रास स्वयमेवेति सिनो ग्रासः स्वयमेव । ग्रासकर्मकर्तृग्रहण से यहां न हुआ—सिता पाशेन सूकरी । पाश से सूकरी आप ही बध गई इस अपेक्षा में निष्ठा के 'त' को 'न' न हुआ । ग्रास शब्द भी जब कर्म ही रहता तब निष्ठा के तकार को नकार नहीं होता है । सितो ग्रासो देवदत्तेन ।

११५६—ओदितश्च ॥ ८ । २ । ४५ ॥

जिसका ओकार इत् संज्ञक हो उससे परे निष्ठा तकार को नकारादेश हो । ओलजी—लग्न, लग्नवान् । ओविजी—उद्विग्नः, उद्विग्नवान् । ओहाक्—प्रहीण, प्रहीणवान् ।

११५७—द्रवमूर्त्तिस्पर्शयोः श्यः ॥६।१।२४॥

निष्ठा परे हो तो द्रवमूर्ति = घृतादि पदार्थ का कडापन और स्पर्श = छूने अर्थ में वर्तमान श्यैङ् धातु को संप्रसारण हो । स्पर्श—शीत वर्तते, शीतो वायुः । द्रवमूर्ति के अगले सूत्र में उदाहरण देंगे । द्रवमूर्त्तिस्पर्गग्रहण से यहां न हुआ—संश्यानो वृश्चिक । सिमिटाः हुआ वीछ है ।

११५८—श्योऽस्पर्शे ॥ ८ । २ । ४७ ॥

स्पर्श भिन्न अर्थ में वर्तमान श्यैङ् धातु से परे निष्ठा तकार को नकारादेश हो । शीन घृतम, जमा घृत है । अस्पर्श ग्रहण से यहां न हुआ—शीतो वायुः ।

११५९—प्रतेश्च ॥ ६ । १ । २५ ॥

निष्ठा परे हो तो प्रति से परे श्यैङ् धातु को सप्रसारण हो । प्रतिशीन, प्रतिशीनवान् ।

११६०—विभाषाभ्यवपूर्वस्य ॥६।१।२६॥

निष्ठा परे हो ता अभि अव पूर्वक श्यैङ् धातु को विकल्प करके सप्रसारण हा । अभिशीनम्, अभिश्यानम् । अवशीनम्, अवश्यानम् । द्रवमूर्तिस्पर्शविवक्षा से भी विकल्प होता है । अभिशीनम्, अभिश्यानम्, अवशीनम्, अवश्यानम् वा घृतम्, अभिशीतः, अभिश्यान, अवशीतः, अवश्यानो वा वायु । यह व्यवस्थित विभाषा है इससे अभि, अव और किसी के साथ से हो ता सप्रसारण नहीं होता । समवश्यान । समभिश्यानः ।

११६१—अञ्चोऽनपादाने ॥ ८ । २ । ४८ ॥

अनपादान से अञ्चु धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हा ।

११६२—यस्य विभाषा ॥ ७ । २ । १५ ॥

जिस धातु के विषय से कहीं विकल्प करके इट् कहा है उससे निष्ठा से इडागम न हो । सम्+अञ्चु+त=सम्वन, न्यक्त । उदित् धातु से क्त्वा प्रत्यय को विकल्प करके इडागम कहेंगे । इससे यहां इट् ( ४७ ) न हुआ । अनपादान ग्रहण से यहां न हुआ—उदत्तमुदक कृपात् ।

११६३—दिवोऽविजिगीषायाम् ॥८।२।४६॥

अविजिगीषा=न जीतने की इच्छा अर्थ में दिवु धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । आद्यून । अविजिगीषाग्रहण से यहां न हुआ—द्यूत वर्तते ।

११६४—निर्वाणोऽवाते ॥ ८ । २ । ५० ॥

अवात अर्थ में निर्वाण यह निपातन है। निर्वाणो मुनि। निवृत्तमुख को मुनि प्राप्त है। यहा वात=पवन से अन्य कर्ता में निर् पूर्वक वा धातु से [परे] निष्ठा तकार को नकारादेश होता है। वात में तो—'निर्वात.' होगा।

११६५—शुषः कः ॥ ८ । २ । ५१ ॥

शुष धातु से परे निष्ठा के तकार को ककारादेश हो। शुष्कः, शुष्कवान्, शुष्कवन्तौ, शुष्कवन्त ।

११६६—पचो वः ॥ ८ । २ । ५२ ॥

पच धातु से निष्ठा के तकार को वकारादेश हो। पक्, पकवान्।

११६७—ज्ञायो मः ॥ ८ । २ । ५३ ॥

ज्ञै धातु से परे निष्ठा के तकार को मकारादेश हो। ज्ञामः, ज्ञामवान् ।

११६८—स्त्यः प्रपूर्वस्य ॥ ६ । १ । २३ ॥

निष्ठा परे हां तो प्र पूर्वक स्त्यै धातु को सप्रसारण हो।

११६९—प्रस्त्योऽन्यतरस्याम् ॥ ८ । २ । ५४ ॥

प्रप्रवक स्य वातु से परे निष्ठा के तकार को मकारादेश विकल्प करके हा। प्रस्तीम, प्रस्तीमवान्, प्रस्तीत, प्रस्तीतवान्।

११७०—आदितश्च ॥ ७ । २ । १६ ॥

आकार जिसका इत्संज्ञक हो उससे परे निष्ठा को इट् आगम न हो।

११७१—ति च ॥ ७ । ४ । ८६ ॥

तकारादि कित् परे हां तो चर, फल धातुओं के अकार को उकारादेश हो।

## ११७२—अनुपसगात्फुल्लक्षीबृशोलाघाः ॥

८ । २ । ५५ ॥

उपसर्ग से न परे हो तो फुल्ल, क्षीब, कृष और उल्लाघ ये निपातन हैं। फुल्ल । यहा 'विफला विशरणे' धातु से निष्ठा के त को लत्व निपातन और ( ११७० ) से इट् निषेध तथा ( ११७१ ) से उकार होता है। इस धातु से निष्ठा को लकार एकदेश मे भी इष्ट है। फुल्लवान् । क्षीबृ मदे—क्षीबः<sup>१</sup> मत्त का नाम है। कृश तनूकरणे—कृशः । दुबेलशरार । उत् पूर्व 'लाघ सामर्थ्ये' से- उल्लाघ । नीरोग कहाता है। इन प्रयोगो मे निष्ठा के तकार का लोप और उस के अक्षिद्ध ( सन्धि० ११८ ) होने से प्राप्त इट् का निषेध निपातन है। उपसर्ग से परे उक्त निपातन नही होते है जैसे—प्रफुल्लितः, प्रक्षीबित, प्रकृशितः प्रोलाघितः । प्रफुल्लशब्द तो फुल्ल विकसने धातु से ( ९७७ ) सूत्र से होगा।

## ११७३—वा०—उत्फुल्लसंफुल्लयोरिति वक्तव्यम् ॥

८ । २ । ५५ ॥

विफला धातु से निष्ठा के तकार को नकासदेश विधान मे उत्फुल्ल संफुल्ल इन शब्दो का भी उपसंख्यान करना चाहिये ; उत्फुल्ल, संफुल्ल ।

## ११७४—नुदविदोन्दत्राघ्राहीभ्योऽन्यतरस्याम् ॥

८ । २ । ५६ ॥

१ 'क्षीब पद मे दो प्रकार से निपातन माना है। प्रथम —'क्षीबृ इत्' इस अवस्था मे 'इत्' भाग का लोप ( इस पक्ष मे 'त' प्रत्यय का 'अ' बकार में मिल जाता है)। दूसरा—इट् करने से पूर्व तकार का लोप। देखो सन्धिविषय सूत्र १२४, पृष्ठ ६१ की टिप्पणी ५ ॥



नुद्, विद्, उन्द, त्रा, घ्रा, ही इन धातुओं से परे निष्ठा के तकार और पूवे दकार को नकारादेश विकल्प करके हो। नुद्—नुन्न, नुत्तः। विद्—विन्न, वित्तः। यहा रुधादिगणस्थ 'विद् विचारणे' धातु का ग्रहण है। उन्दी—उन्द+त, यहा—

११७५—श्वोदितो निष्ठायाम् ॥ ७। २। १४ ॥

श्वि और ईदित् धातु से परे निष्ठा को इट् आगम न हो। इससे इट् का निषेध होकर—उन्न., उत्तः। त्रा—त्रातः, त्राणः, घ्र—घ्राणः, घ्रातः। ही—हीणः, हीत।

११७६—न ध्याख्यापृमूर्द्धिमदाम् ॥ ८। २। १५ ॥

ध्या ख्या प मूर्द्धि मद् इनसे परे निष्ठा को नकारादेश न हो। ध्यातः, ध्यातवान्, ख्यातः, ख्यातवान्, पूतः, पूतवान्, मूर्तः, (५६०) मूर्तवान्, मत्तः, मत्तवान्।

११७७—वित्तो भोगप्रत्यययोः ॥ ८। २। १६ ॥

भोग और प्रत्यय=प्रतीत अर्थ मे 'वित्त' यह निपातन हो। भोग—बहुवित्तमस्य। इसके बहुत धन है। सब प्रकार धन ही भोगते हैं इससे भोग अर्थ प्रकाशित होता है। प्रत्यय—वित्तोऽयं पुरुषः। पुरुष प्रतीत हुआ है। यहां विद्लृ का ग्रहण है। उक्त अर्थों से अन्यत्र—'विन्नः' होगा।

वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेर्विन्न इष्यते। वित्तेर्विन्नश्च वित्तश्च भोगे वित्तश्च विन्दते। महाभाष्ये ८। २। ५८ ॥ 'विद् ज्ञाने' से निष्ठान्त—विदितः। और 'विद् सत्तायाम्' से निष्ठान्त—विन्नः। तथा 'विद् विचारणे' से निष्ठान्त—(११७४) विन्न, वित्तः। और भोग वा प्रत्यय मे 'विद्लृ लाभे' से—वित्तः, इष्ट है। यहां कारिका मे 'भोग' उपलक्षण मात्र है इससे 'प्रत्यय' का भी ग्रहण है।

११७८—भित्तं शकलम् ॥ ८ । २ । ५६ ॥

शकल ( टुकड़ा ) वाच्य हो तो भित्त यह निपातन है ।  
भिदिर्—भित्तं शकलम् । अन्यत्र—भिन्नम् ।

११७९—ऋणमाधमर्ये ॥ ८ । २ । ६० ॥

आधमर्ये=ऋण का लेना अर्थ में ऋण यह निपातन हो ।  
ऋण धारयति । यहा ऋ धातु से निष्ठा के तकार को नकारादेश  
निपातन है । आधमर्ये ग्रहण से यहा न हुआ—ऋतं वक्ष्यामि ।  
ऋणे अधम अधमरणे , अधमर्णस्य भावः आधमर्यम् । ऋण में जो  
लेने वाला है वह अधम कहाता है । यहां समास में सप्तम्यन्त ऋण  
शब्द का अपूर्वनिपात “आधमर्ये” इस निर्देश को देखकर होता  
है तथा यह ‘आधमर्ये’ उपलक्षण भी है इससे ‘उत्तमर्ण’ यह  
भी होता है ।

११८०—नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्त्तसूर्त्तगूर्त्तानि-

च्छन्दसि ॥ ८ । २ । ६१ ॥

वेदविषय में नसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतूर्त्त, सूर्त्त, गूर्त्त ये  
निपातन हैं । नसत्तमञ्जसा । निषत्तमस्य चरतः । इन में नञ् और  
निपूर्वक सद् धातु से निष्ठा तकार को नकारादेश का अभाव निपा-  
तन है । लोक में—‘असन्न निषण्ण’ होंगे । अनुत्तमा ते मघवन् ।  
यहा नञ् पूर्वक उन्दी से निष्ठा को नत्वाभाव निपातन है । अनुत्त ।  
यह लोक में होगा । प्रतूर्त्त वाजिनम् । यहां त्वर वा तुर्वी धातु से  
निष्ठा को नत्वाभाव । लोक में—प्रतूर्णम् । सूर्त्ता गावः । यहा सू  
धातु से निष्ठा को नत्वाभाव [ और धातु को उच्च निपातन है । ]  
लोक में—सृता । गूर्त्ता अमृतस्य । यहा गूर् से निष्ठा को नत्वाभाव ।  
लोक में—गूर्णम् ।

११८१—स्फायः स्फी निष्ठायाम् ॥६।१।२२॥

निष्ठा परे हो तो स्फाय धातु को स्फी आदेश हो । स्फायी—स्फीतः, स्फीतवान् । निष्ठाग्रहण से यहां न हुआ—स्फाति' । यहा क्तिन् प्रत्ययान्त है ।

११८२—इण् निष्ठायाम् ॥ ७ । २ । ४७ ॥

निर् से परे जो कुष धातु उससे निष्ठा परे हो तो उसको इडागम हो । निष्कुषितः ।

११८३—वसतिक्षुधोरिट् ॥ ७ । २ । ५२ ॥

वस और क्षुध धातु से परे क्त्वा और निष्ठा को इट् का आगम हा । वस—उषित, उषितवान् । क्षुध—क्षुधितः, क्षुधितवान् ।

११८४—अञ्चैः पूजायाम् ॥ ७ । २ । ५३ ॥

पूजाथे मे अञ्चु से क्त्वा और निष्ठा को इडागम हो । अञ्चिता अस्य गुरवः । पूजा से अन्यत्र—उदक्तमुदक कृपात् ।

११८५—लुभो विमोहने ॥ ७ । २ । ५४ ॥

विमोहन=व्याकुल करना अर्थ मे वर्तमान लुभ धातु से परे क्त्वा और निष्ठा को इट् आगम हो । विलुभित, विलुभितानि पदानि । विमोहन ग्रहण से यहां न हुआ—लुब्धो वृषल' ।

११८६—क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ॥७।२।५०॥

क्लिश धातु से परे क्त्वा और निष्ठा को विकल्प करके इट् आगम हो । क्लिष्ट, क्लिष्टवान्, क्लिशित, क्लिशितवान् । यहा 'क्लिश उपतापे' और 'क्लिशू विवाधने' इन दोनो का ग्रहण है ।

११८७—पूङ्अ ॥ ७ । २ । ५१ ॥

पूङ् धातु से क्त्वा और निष्ठा को इडागम विकल्प करके हां । पू+इ+त । यहां—

११८८—पूङः क्त्वा च ॥ १ । २ । २२ ॥

पूङ् धातु से परे [सेट्] क्त्वा और निष्ठा कित् न हो। पवितः। इट् विकल्प मे—पूत् ।

११८९—निष्ठा शीङ्खिदिमिदिद्विदिधृषः॥

१ । २ । १६ ॥

शीङ्, विष्विदा, विमिदा, विक्ष्विदा, विधृषा इन से परे सेट् निष्ठा कित् न हो। शीङ्-शयित., शयितवान्। यहा डकारोच्चारण यङ्लुगन्त की निवृत्ति के लिये है<sup>१</sup>। शोशीत., शोशीतवान्।

११९०—वा०-आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या ॥

३ । २ । १०२ ॥

आदिकर्म=क्रिया के प्रारम्भ मे धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहना चाहिये।

११९१—आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च ॥३।४।७१॥

आदिकर्ममे जो क्त प्रत्यय विहित है वह कर्ता और भाव कर्म मे हो।

११९२—विभाषा भावादिकर्मणाः ॥७।२।१७॥

आकार जिसका इत् सज्ञक हो उस धातु से परे भाव और आदिकर्म मे जो निष्ठा उसको विकल्प करके इट् आगम न हो। प्रस्वेदितम् मैत्रेण। मैत्र ने प्रस्वेद किया। प्रस्वेदितश्चैत्र। चैत्र प्रस्वेद को प्राप्त हुआ। प्रस्वेदितवान्, प्रमेदितम्, प्रमेदितः, प्रमेदितवान्, प्रक्ष्वेदितम्, प्रक्ष्वेदितः, प्रक्ष्वेदितवान्, प्रधषितम्, प्रधषितः, प्रधषितवान्।

१. स्तिपा शपानुबधेन निर्दिष्ट यद्गणेन च ।

यत्रैकाञ् ग्रहण चैव पञ्चैतानि न यद् लुकि ॥

इसकी व्याख्या पूर्व कर चुके हैं ।

११६३—मृषस्तित्त्वायाम् ॥ १ । २ । २० ॥

मृष धातु से परे तित्त्वा=सहन अथे मे इट् सहित निष्ठा कित् न हो। मर्षित, मर्षितवान्। तित्त्वाप्रहण से यहा न हुआ—अपमृषितं वाक्यम्। स्पष्टाक्षर वाक्य नहीं है।

११६४—उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् ॥  
१ । २ । २१ ॥

उकारोपध धातु से परे भाव और आदिकर्म मे जो सेट् निष्ठा सो विकल्प करके कित् न हो। प्रद्युतितम्, प्रद्योतितं वाऽनेन, प्रद्यो-  
तितः, प्रद्युतितः साधुः, प्रमुदितम्, प्रमोदितमनेन, प्रमुदितः, प्रमोदितः  
साधुः। उदुपधप्रहण से यहां न हुआ—लिखितमनेन, विदितमनेन।  
भावादिकर्मप्रहण से यहा न हुआ—रुचितं कार्षापणं ददाति।  
सेट्प्रहण से यहां न हुआ—प्रमुक्त ओदनः। यहा शब्दविकरण  
धातुओ का प्रहण इष्ट है।

११६५—शब्द विकरणेभ्य एवेष्यते। महाभाष्ये।  
१ । २ । २१ ॥

इससे यहां न हुआ—गुधितः, गुधितवान्।

११६६—निष्ठायां सेटि ॥ ६ । ४ । ५२ ॥

सेट् निष्ठा परे हां तो णि प्रत्यय का लोप हो। भावितः,  
भावितवान्।

गृह—गृहः, गृहवान्। वनु—वतः। तनु—ततः (३०३)।  
पत्नृ—पतितः। यद्यपि पत् धातु को विकल्प करके इट् (५१९)  
से विहित है, इससे निष्ठा मे इट् निषेध भी (११६२) से प्राप्त है,  
तथापि (सामा० द्वितीया० ७५) सूत्र मे पतित शब्द के प्रहण से  
'पतित' यहां इडागम (४७) से होता है।

११६७—क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्ध-  
फाएटबाढानि मन्थमनस्तमःसक्ताऽवि-  
स्पष्टस्वरानायासभृशेषु ॥ ७ । २ । १८ ॥

मन्थ, मनस, तमस, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, अनायास, भृश इन अर्थों में यथासंख्याकरके क्षुब्ध, स्वान्त, ध्वान्त, लग्न, म्लिष्ट, विरिब्ध, फाएट, बाढ ये इट् रहित निपातन हैं। क्षुभ सचलने—क्षुब्धो मन्थः। मन्थ यह मथनी आदि जो मन्थनदण्ड है उन का नाम है। मन्थ से अन्यत्र—क्षुभितम्। स्वन ध्वन शब्दे—स्वान्तं मनः, ध्वान्तं तमः। अन्यत्र—स्वनितम्, ध्वनितम्। लगे सगे—लग्नं सक्तम्। जो किसी में लग रहा है। यहां निष्ठा को नकारादेश भी निपातन है। अन्यत्र—लगितम्। म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे—म्लिष्टम् अविस्पष्टम्। जो अच्छे प्रकार स्पष्ट न हो। रेभृ शब्दे—विरिब्धः स्वरः। इन दोनो प्रयोगों में एकार को इकार भी निपातन है। अन्यत्र—म्लेच्छितम्, विरेभितम्। फण गतौ—फाएटम् अनायाससाध्यं कषायम्। विना परिश्रम से सिद्ध होने वाले काढ़े को कहते हैं अर्थात् जो ओषधि पकाई वा पीसी न जाय किन्तु जल में भिगोने से उससे जो रस उत्पन्न हो और उस को पीछे से कुछ उष्ण कर लिया जाय वह अनायास-साध्य काढा फाएट कहाता है। अन्यत्र—फाणितम्। बाह प्रयत्ने—बाढ भृशम्। अतिशय को कहते हैं। अन्यत्र—बाहितम्।

११६८—घृषिशसी वैयात्ये ॥ ७ । २ । १६ ॥  
निष्ठा परे हो तो वैयात्ये = अविनय ❀ अर्थ में विघृषा और

\* विरूपं यातं गमनं चेष्टन यस्य स वियातस्तस्य भावो वैयात्यम-  
विनयः। जिसका विरूप गमन = चेष्टा है वह वियात कहाता है, उसका  
होना वैयात्ये अर्थात् अविनय कहाता है ॥

शसु अनिट् हो अन्यत्र न हो। विवृषा—अयं धृष्टः पुरुषः। यह ढीठ पुरुष है। शसु—अयं विशस्तः पुरुषः। यह हिसक पुरुष है। 'विवृषा' से निष्ठा को इट् निषेध (११७०) सूत्र से सिद्ध तथा 'शसु' से (११६२) सूत्र से सिद्ध है इससे वैयात्य अर्थ में यह अनिट् विधान करना नियमाथे है अर्थात् वैयात्य ही अर्थ में धृषि, शसि, अनिट् हों अन्यत्र न हो। वैयात्य से अन्यत्र—धर्षितः, विशसितः।

११६६—दृढः स्थूलबलयोः ॥ ७ । २ । २० ॥

स्थूल और बलवान् ये अर्थ वाच्य हो तो 'दृढ' यह निपातन है। दृढः स्थूलः। दृढो बलवान्। यहां 'दृह, दृहि वृद्धौ' इन दोनों धातुओं से क्त प्रत्यय को इट् का अभाव और ढकारादेश तथा धातु के हकार का लोप और दृहि के इदिद्भाव से (१२८) हुए नकार का लोप निपातन है स्थूल और बल से अन्यत्र—दृहितः, दृहितः।

१२००—प्रभौ परिवृढः ॥ ७ । २ । २१ ॥

प्रभु वाच्य हो तो 'परिवृढ' यह निपातन है। परिवृढ कुटुम्बी। यहां "वृह, वृहि वृद्धौ" इनसे दृढ शब्द के तुल्य समस्त कार्य होते हैं। प्रभु अर्थ से अन्यत्र—परिवृहितः, परिवृहितः।

१२०१—कृच्छ्रगहनयोः कषः ॥ ७ । २ । २२ ॥

कृच्छ्र=दुःख वा दुःख का निमित्त और गहन=सघन अर्थ में कष धातु से निष्ठा को इडागम न हो। कृच्छ्र—कष्टं दुःखम्, कष्टो रोगः। दुःख तथा दुःख का निमित्त रोग आदि कष्ट कहाता है। गहन--कष्टाः पर्वताः, कष्टानि वनानि। कृच्छ्रगहन से अन्यत्र--कषितं सुवर्णम्।

१२०२—घुषिर् विशब्दने ॥ ७ । २ । २३ ॥

निष्ठा परे हो तो अविशब्दन=विशब्दन प्रतिज्ञा उससे अन्य अर्थ में घुषिर् धातु अनिट् हो । घुष्टा रज्जुः । अविशब्दनग्रहण से यहां न हुआ—अवघुषितं वाक्यमाह । अर्थात् प्रतिज्ञातवाक्य कह रहा है । चुरादिगणस्थ घुषिर् धातु से क् जो णिच् होता है उस की अनित्यता में अविशब्दन निषेध ज्ञापक है ।

१२०३—अर्देः सन्नविभ्यः ॥ ७ । २ । २४ ॥

सम् नि वि इन से परे जो अर्द धातु उससे परे निष्ठा को इट् आगम न हो । समर्णः ( ११५० ), न्यर्ण, व्यर्ण । अर्दग्रहण से यहां न हुआ—समेधितः । सन्नविग्रहण से—“अर्दितः” यहां न हुआ ।

१२०४—अभेरचाविदूय ॥ ७ । २ । २५ ॥

आविदूर्य=जां बहुत दूर न हो वा अति समीप हो उस अर्थ में अभि से परे जो अर्द धातु उससे परे निष्ठा को इट् न हो । अभ्यर्णम् ( ११५० ) । अन्यत्र—शीतेनाभ्यर्दितो वृषभ । वृषभ शीत से पीडित हो रहा है ।

१२०५—णेरध्ययने वृत्सम् ॥ ७ । २ । २६ ॥

\* घुषिर् धातु पिछले दो गणों में पड़ा है अर्थात् भ्वादिगण में “घुषिर् अविशब्दने” तथा चुरादिगण में “घुषिर् विशब्दने” इन दोनों में से अविशब्दन अर्थ में निष्ठा के परे घुषिर् धातु अनिट् है । विशब्दन में अनिट् नहीं है । यहां यह शंका है कि विशब्दन में इट् निषेध क्यों किया अर्थात् विशब्दन में चुरादि णिच् होकर घोषि हो जाता है, किन्तु घुष नहीं रहता है इससे ( अविशब्दने ) यह ज्ञापक है कि चुरादि णिच् उक्त धातु से अनित्य है ।



अध्ययन अर्थ मे ग्यन्त वृत्तु धातु से निष्ठा को इट् का अभाव और णिच् का लोप निपातन है । वृत्त व्याकरणमनेन । इसने व्याकरण का सपादन कर लिया । अध्ययन से अन्यत्र—वर्त्तिता रज्जुः । वर्त्ती [= बटी ] हुई डोरी है ।

१२०६—शृतं पाके ॥ ६ । १ । २७ ॥

क्तप्रत्यय के परे पाक अर्थ मे णिजन्त वा णिच् रहित श्रा धातु को शृभाव निपातन है ।

१२०७—वा०—क्षीरहविषोरिति वक्तव्यम् ॥

६ । १ । २७ ॥

उक्त शृभात्र क्षीरहविर्विषयक पाक अर्थ मे कहना चाहिये । श्रा पाके—शृतं क्षीरं स्वयमेव, शृतं हविः स्वयमेव । णिजन्त—शृतं क्षीरं देवदत्तेन । अन्यत्र—श्राणा ( ११५१ ) श्रपिता वा यवागः । श्रा धातु अकर्मक है इससे कर्मकर्तृ विषयक पच धातु के अर्थ मे वर्तमान है णिजन्त श्रा धातु से फिर प्रयोजकव्यापार मे णिच् किया जाय । जैसे—श्रा+पुक्+णिच्+णिच्+क्त+सु=यहां—

१२०८—वा०—श्रपेः शृतमन्यत्र हेतोरिति

वक्तव्यम् ॥ ६ । १ । २७ ॥

णिजन्त श्रा=श्रपि धातु से जो हेतु अर्थात् प्रयोजक व्यापार उससे अन्यत्र शृभाव निपातन करना चाहिये । शृभाव का निषेध होकर—अश्रपि क्षीरं देवदत्तेन यज्ञदत्तेन, श्रपितं क्षीरं देवदत्तेन यज्ञदत्तेनेति ।

१२०९—वा०—दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टञ्जसाः ॥

७ । २ । २७ ॥

णिच् विषय मे दान्त, शान्त, पूरणे, दस्त, स्पष्ट, छन्न, ज्ञप्त ये विकल्प करके निपातन है। दमु—दान्तः (५८८), पक्ष मे—दमित । शमु—शान्तः, शमित । पूरी—पूणे, पूरितः । दसु—दस्त, दासित । स्पश—स्पष्ट, स्पाशित । छद—छन्न, छादित । इन दान्तादिको मे णिलुक् और इट् का अभाव निपातन है। ज्ञाप—ज्ञप्त, ज्ञापितः । ज्ञप्त का ग्रहण विकल्पार्थ इट् विधान के लिए है क्योंकि ज्ञाप से (५१५) सूत्र से इट् विकल्प विधान है इससे (११६२) सूत्र से नित्य इट् प्रतिषेध प्राप्त है ।

१२१०—रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम् ॥७।२।२८॥

रुष अम त्वर संघुष् आस्वन—इन धातुओ से निष्ठा को इट् आगम विकल्प करके हो । रुष—रुष्ट, रुषित । (२१२) स इट् विकल्प, (११६२) सूत्र से निषेध प्राप्त था । अम—अन्तः, (५८८) अमित । त्विरा—तूणे, त्वरित । (११७०) इट् प्रतिषेध प्राप्त था । संघुषिर्—सघुष्ट, सघुषित । आस्वन—आस्वान्त, आस्वनितः ।

१२११—हृषेर्लोमसु ॥ ७ । २ । २६ ॥

लोम विषय मे वतमान हृष धातु से परे निष्ठा को विकल्प करके इट् आगम हो ।

१२१२-वा०-हृषेर्लोमकेशकर्तृकस्येति वक्तव्यम् ॥

७ । २ । २६ ॥

उक्त इट् विकल्प लोम और केशकर्तृक हृष धातु से कहना चाहिये । हृष्टानि लोमानि, हृषितानि लोमानि । हृष्टं लोमभिः, हृषितं लोमभि । हृष्टाः केशाः, हृषिताः केशाः । हृष्ट केशै, हृषितं केशैः । 'हृषु अलीके' तथा "हृष तुष्टौ" दोनो का ग्रहण है । उनमे हृषु उदित् हांने से निष्ठा मे (११६२) से अनिट् तथा हृष सेट् है । लोम से अन्यत्र—हृषु—हृष्टो देवदत्त हृष—हृषितां देवदत्तः ।

१२१३-वा०-विस्मितप्रतिघातशोरिति वक्तव्यम् ॥

७ । २ । २६ ॥

विस्मित=विस्मय का प्राप्त, प्रतिघात=ताडना को प्राप्त इन अर्थों से हृष् धातु से इट् विकल्प करके कहना चाहिये । विस्मित—हृष्टो देवदत्त, हृषितो देवदत्त. । प्रतिघात-हृष्टा दन्ता, हृषिता दन्ता. ।

१२१४-अपचितश्च ॥ ७ । २ । ३० ॥

अपचित यह विकल्प करके निपातन है । अपचित, अपचायितो वाऽनेन गुरु । इसने गुरु सत्कार युक्त किया । यह अपपूर्वक चायु धातु से निष्ठा को इडभाव और धातु को चिभाव निपातन है ।

१२१५-प्यायः पी ॥ ६ । १ । २८ ॥

निष्ठा परे हो तो ओप्यायी धातु का विकल्प करके पी आदेश हो । ओप्यायी वृद्धौ—पीन मुखम्, पीनमुर ।

१२१६-वा०-आङ्पूर्वादन्धूधसोः ॥६।१।२८॥

आङ्पूर्वक ओप्यायी धातु को यदि अन्धु और ऊधस् वाच्य हो तो निष्ठा के परे पी आदेश कहना चाहिये । आपोनोऽन्धुः, आपीन-मूध । पूर्व सूत्र से सर्वत्र पी आदेश सिद्ध है । फर भी जो आङ्-पूर्वक इत्यादि विधान है सो नियमार्थ है अर्थात् आङ् पूर्वक में निष्ठा के परे अन्धु और ऊधस् ही वाच्य हो तो 'पी' आदेश हो, अन्यत्र न हो—आप्यानश्चन्द्रमाः । तथा यह उभयतोनियम भी है अन्धु ऊधस् वाच्य हो तो आङ्पूर्वक ही से निष्ठा के परे पी आदेश हो । अन्य-पूर्व से न हो—प्रप्यानोऽन्धु, प्रप्यानमूध ।

१२१७-ह्लादो निष्ठायाम् ॥ ६ । ४ । ६५ ॥

निष्ठा परे हो तो ह्लाद अङ्ग को ह्रस्वादश्च हो । प्रह्लन्नः, प्रह्लन्नवान् । निष्ठा ग्रहण से यहां न हृआ—प्रह्लादयति ।

१२१८—द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ॥७।४।४०॥

तादि कित् परे हो तो द्यति, स्यति, मा, स्था इन अङ्गो को इकारादेश हो। द्यति—दो अवखण्डने—दितः, दितवान्। स्यति—षो अन्तकमेणि—सित, सितवान्। मा—मा माने, माड माने, मेड् प्रणिदाने<sup>१</sup>—मितः, मितवान्। स्था—ष्ठा गतिनिवृत्तौ—स्थित, स्थितवान्।

१२१९—शाङ्गोरन्यतरस्याम् ॥ ७ । ४ । ४१ ॥

तादि कित् परे हो तो शा, छा अङ्गो को इकारादेश विकल्प करके हो। निशितम्, निशातम्, निशितवान्, निशातवान्, अनच्छित्तम्, अवच्छातम्, अवच्छित्तवान्, अवच्छातवान्। यह व्यवस्थित विभाषा है इससे व्रतविषय मे श्यति को नित्य इकारादेश होता है—सशित व्रतम्। सम्यक् प्रकार से संपादन किया [ हुआ ] व्रत है। संशितो ब्राह्मण। व्रतविषयक यत्नवान् ब्राह्मण है।

१२२०—दधातेर्हिः ॥ ७ । ४ । ४२ ॥

तादि कित् परे हो तो डुधाब् धातु को हि आदेश हां। अभिहितम्, निहितम्। विहितम्।

१२२१—सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च ॥

७ । ४ । ४५ ॥

वेदविषय मे सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, धिषीय ये निपातन है। गर्भे माता सुधितं रक्षणासु, वसुधितमग्नौ जुहोति, नेमधिता ब्रावन्ते। इनमे सु, वसु, नेमपूर्वक “डुधान्” धातु को इकारादेश निपातन है। लोक मे—सुहित, वसुहित और नेमहित होगा। धिष्व सोमम्, सुरेना रेतो धिषीय। इन दोनो मे “डुधान्” को इत्व वा प्रत्यय को इडागम निपातन है। ‘धिष्व’ लाट् मध्यमैकवचन मे है,

लोक मे—‘धत्स्व’ होता [ है ], तथा ‘धिषीय’ आशीर्लिङ् के उत्तमै-  
कवचन मे हे, लोक मे—‘धासीय’ होता है ।

१२२२—दो दद्घोः ॥ ७ । ४ । ४६ ॥

तादि कित् परे हो तो घु संज्ञक दा धातु को दथ् आदेश हो ।  
डुदान्—दत्त, दत्तवान् । दा प्रहण से यहां न हुआ—‘धेट् पाने’—  
धीतः, धीतवान् । यहां ( ३४६ ) से इकारादेश होता है । घुप्रहण  
से यहां न हुआ । दैप् शोधने—अवदातं मुखम् । उक्त आदेश को  
दत्, दद्, दध्, दथ्, इनमे कौनसा मानना चाहिए—

का०—तान्ते दोषो दीर्घत्वं स्याद् दान्ते दोषो निष्ठानत्वम् ।

धान्ते दोषो धत्वप्राप्तिस्थान्तेऽदोषस्तस्मात्थान्तः ॥

यदि उसको तान्त अर्थात् “दत्” मानें तो विदत्त, यहां अगले  
( १२२५ ) सूत्र से उपसर्ग के इक् को दीर्घादेश ❀ प्राप्त है । दान्त  
“दद्” मानें तो दद्+त+सु=दत्तः । यहा [ ११५० ] सूत्र से  
निष्ठा को तथा पूर्व द् को नकारादेश प्राप्त है । धान्त “दध्” मानें तो  
( १४१ ) सूत्र से निष्ठा तकार को धकार प्राप्त है इससे थान्त ‘दथ्’  
मानना चाहिये क्योंकि थान्त में दोष नहीं है उपसर्ग से परे प्र+  
दा+त+सु=यहा—

१२२३—अच उपसर्गात्तः ॥ ७ । ४ । ४७ ॥

अजन्त उपसर्ग से परे घु संज्ञक दा धातु को त आदेश हो ।  
आदेश होकर प्रदूत्+त+सु=प्रत्तम्, अवत्ताम् ।

❀ ( दस्ति ) इस सूत्र का जब यह अर्थ हो कि डुदान् धातु  
का जो तकारान्त आदेश उसके विषय में इगन्तोपसर्ग को दीर्घ हो ।  
तब दीर्घादेश प्राप्त है ।

दान्त धान्त पक्ष मे भी पारिभाषिकस्थ सन्निपात परिभाषा के विरोध  
से दत्व धत्व नहीं प्राप्त हैं ।

१२२४-का०-अवदत्तां विदत्तां च प्रदत्तां चादिकर्मणि ।

सुदत्तमनुदत्त च निदत्तमिति चेष्यते ॥

७ । ४ । ४७ ॥

अवदत्त, विदत्त, आदिकर्म में प्रदत्त, सुदत्त, अनुदत्त तथा निदत्त ये भी इष्ट हैं अर्थात् इन सबों में दा को तकारादेश प्राप्त है सो न हुआ, किन्तु दथ् आदेश हाता है। 'चेष्यते' यहां चकारग्रहण से यह जानना चाहिये कि एक पक्ष में तकार आदेश होता भी है<sup>१</sup>।

१२२५—दस्ति ॥ ६ । ३ । १२४ ॥

डुदाब् धातु का जो तकारादि आदेश सो परे हो तो इगन्त उपसर्ग को दीर्घादेश हो। नीत्तम्, वीत्तम्, परीत्तम्। इन में दा के आकार के स्थान में यद्यपि ( १२२३ ) से त आदेश होता है तथापि ( सन्धि० २३५ ) सूत्र से पूर्व द् को चर् होकर तकारादि आदेश हो जाता है। आश्रयात् सिद्धत्वं भविष्यति। महाभाष्ये ६ । ३ । १२४। चर्त्वे के आश्रय से चर् का सिद्धभाव हो जायगा अर्थात् "दस्ति" यहाँ जो तकारादि का आश्रय किया है इससे चर् ( सन्धि० ११८ ) असिद्ध नहीं होगा।

१२२६—अदो जग्धिर्त्यसि किति ॥२।४।३६॥

ल्यप् और तादि कित् परे हो तां अद धातु को जग्धि आदेश हो। अद—जग्धः, जग्धवान्। यहां क्त प्रत्यय के परे अद को जग्धि आदेश इकार की ( नाभि० ११ ) इत् सज्ञा, निष्ठा तकार को ( १४१ ) धकार और पूर्वधकार का ( सन्धि० २४३ ) से लोप हो जाता है।

स कट प्रकृतः, प्रकृतः कटस्तेन। यहां ( ११९१ ) सूत्र से आदिकर्म विषयक क्त प्रत्यय कर्ता में होता है। प्रचीणः तपस्वी। यहां भी कर्ता

१ 'चेष्यते' ° भी है—यह पक्ति असम्बद्ध प्रतीत होती है।

मे होता और ( ११४८ ) से क्षि धातु को दीघे ( ११४९ ) सूत्र से निष्ठा को नत्वादेश होता है ।

**१२२७—वाऽऽक्रोशदैन्ययोः ॥ ६ । ४ । ६१ ॥**

भावकर्म से अन्य अर्थ मे निष्ठा परे हां तो आक्रोश=कोसना और दैन्य=दीनता अर्थ मे क्षि धातु को विकल्प करके दीर्घादेश हो । आक्रोश—क्षीणायुर्भव । यहा क्षि को दीर्घादेश होकर ( ११५९ ) से निष्ठा को नत्व हो जाता है । द्वितीय पक्ष मे—क्षितायुर्भव । दैन्य—क्षित् क्षीणांयं वा तपस्वी ।

**१२२८—वा०—निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययेङ्विधिषु**

**सिद्धो वक्तव्यः ॥ ८ । २ । ६ ॥**

षत्वविधि, स्वरविधि, प्रत्ययविधि तथा इङ्विधि मे निष्ठादेश सिद्ध है यह कहना चाहिये । षत्व—वृक्ण् । वृक्णवान् । यहां ( ११५६ ) से निष्ठा को नकारादेश, उसके असिद्ध ( सन्धि ११८ ) होने से च् को ( २३३ ) से षत्व प्राप्त है सो नकारादेश के सिद्ध होने से भल् के अभाव से नहीं होता किन्तु (सन्धि० १९६) कुत्व<sup>१</sup> होता है स्वर आदि विषयों की आवश्यकता न होने से उन के उदाहरण नहीं दिये<sup>२</sup> ।

**१२२९—गत्यर्थाकर्मकशिलषशीङ्स्थासवसजन**

**नरुहजीर्यतिभ्यश्च ॥ ३ । ४ । ७२ ॥**

गति जिन का अर्थ है उनसे तथा अकर्मक, शिलष, शीङ्, स्था, आस, वस, जन, रुह, जृष् इन धातुओं से विहित जो क्त प्रत्यय सो

१. कुत्व करने मे नत्व असिद्ध हो जाता है इसलिये झल् परे कुत्व हो जाता है ।

२ इस वाक्तिक की पूरी व्याख्या सन्धि० क्रमाङ्क १२४ मे देखें ।

कर्ता और यथाप्राप्त भावकर्म मे हो । गत्यर्थ, गम्लु—ग्रामं गतो देवदत्तः, ग्राम को देवदत्त गया । गतो ग्रामो देवदत्तेन । देवदत्त से ग्राम प्राप्त किया गया । अकर्मक, ग्लै—ग्लानो देवदत्तः, ग्लानं देवदत्तेन । शिल्ष—पत्नीम् आश्लिष्टो पतिः, आश्लिष्टा पत्नी पत्या । शीङ्—खट्वामधिश्चयितः, खट्वाऽधिश्चयिता । स्था—गुरुमुपस्थितः, गुरुमुपस्थितस्तेन । आस—उपासित. परमेश्वरं भवान्, उपासित परमेश्वरो भवता । वस—गुरुमनूषितो भवान्, अनूषितो गुरुर्भवता । जन—राममनुजातो लक्ष्मण, अनुजातो लक्ष्मणेन रामः । रुह—अश्वमारूढो देवदत्तः, आरूढोऽश्वो देवदत्तेन । जूष्—शुनीमनुजीर्णः श्वा, शुनानुजीर्णा शुनी । उक्त प्रयोगो मे ( ११६ ) सूत्र से प्राप्त भावकर्म मे भी “क्त” होता है । शिल्ष आदि अकर्मक भी है तथापि सोपसर्ग सकर्मक हो जाते हैं इससे इनका पृथक् ग्रहण है ।

१२३०—क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यव-

सानार्थेभ्यः ॥ ३ । ४ । ७६ ॥

ध्रौव्य=स्थिरता, गति=गमन और प्रत्यवसान=भक्षण अर्थ वाले धातुओ से विहित जो क्त प्रत्यय सो अधिकरण और यथाप्राप्त भावकर्म मे हो । जो ध्रौव्यार्थक अकर्मक हैं उनसे कर्ता, भाव, अधिकरण मे, गत्यर्थको से कर्ता, कर्म, अधिकरण मे तथा प्रत्यवसानार्थको से कर्म और अधिकरण मे ‘क्त’ होता है । ध्रौव्यार्थ—आसितो यज्ञदत्तः, आसितं यज्ञदत्तेन, आसितं यज्ञदत्तस्य वा । गत्यर्थ—देवदत्तो ग्राम गतः, गतो देवदत्तेन ग्रामः । देवदत्त से ग्राम प्राप्त किया गया । गतं देवदत्तस्य । यहां देवदत्त का गमन हुआ है । प्रत्यवसानार्थ—भुक्त आदनो देवदत्तः, देवदत्तेन भुक्तम्, देवदत्तस्य भुक्तम् । उक्त उदाहरणो मे ( ११६, १८६ ) सूत्रो के अनुसार कर्म और कर्ता मे भी क्त प्रत्यय होता है ।



१२३१—जीतः क्तः ॥ ३ । २ । १८७ ॥

बि जिसका इत्संज्ञक हो उससे वर्तमान काल मे क्त प्रत्यय हो ।  
बिक्विदा—क्विगणः, क्विगणवान् ।

१२३२—मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च ॥३।२।१८८॥

मति=इच्छा, बुद्धि=ज्ञान, पूजा=सत्कार इन अर्थों वाले धातुओ से वर्तमान काल मे क्त प्रत्यय हो । राज्ञां मतः, राज्ञामिष्टः, राज्ञां बुद्धः, राज्ञा ज्ञातः, राज्ञा पूजित, राज्ञामर्चित. । “राज्ञाम्” यह षष्ठी ( कार० १२० ) से होती है । चकार अनुक्त शब्दो के संग्रह करने के लिए है इससे अगले प्रयोग भी जानने चाहिये ।

१२३३—का०—

शीलितो रक्षितःक्षान्त आकृष्टो जुष्ट इत्यपि ।

रुष्टश्च रुषितश्चाभावभिव्याहृत इत्यपि ॥१॥

हृष्टतुष्टौ तथा क्रान्तस्तथोभौ संयतोद्यतौ ।

कष्टं भविष्यतीत्याहुरमृताः पूर्ववत्स्मृताः ॥ २ ॥

शीलित, रक्षित, क्षान्त, आकृष्ट, जुष्ट, रुष्ट, रुषित, अभिव्याहृत, हृष्ट, तुष्ट, क्रान्त तथा सयत और उद्यत ये भी वर्तमानकाल मे जानने चाहिये । ‘कष्ट’ इस शब्द को भविष्यत्काल मे कहने है और अमृत शब्द का पूर्ववत् ( शीलित आदि के तुल्य वर्तमानकाल मे ) स्मरण करना चाहिये । न म्रियन्ते अमृता ।

१२३४—नपुंसकेभावे क्तः ॥ ३ । ३ । ११४ ॥

भाव का प्रकाश करना हो तो नपुंसकलिङ्ग मे धातु से क्त प्रत्यय हो । हसितम्, शयितम्, जल्पितं देवदत्तेन ।

१२३५—सुयज्ञोड्वनिप् ॥ ३ । २ । १०३ ॥

षुञ् और यज धातु से भूतकाल मे ड्-निप् प्रत्यय हो । असा-  
वीत् असोष्ट वा सुत्वा, सुत्वानौ, सुत्वानः । अयाचीत् अयष्ट वा—  
यज्वा, यज्वानौ, यज्वानः ।

१२३६—जीर्यतेरतृन् ॥ ३ । २ । १०४ ॥

जष् धातु से भूतकाल मे अतृन् प्रत्यय हो । अजरत् अजारीद्  
वा—जरन्, जरन्तौ, जरन्तः । वासरूपविधि ( ९१३ ) से निष्ठा  
संज्ञक भी होते है । जीर्णः, जीर्णवान् ।

१२३७—छन्दसि लिट् ॥ ३ । २ । १०५ ॥

वेद विषय मे भूतकाल मे धातु मे लिट् प्रत्यय हो । अहं सूर्य-  
मुभयतो ददर्श, अहं द्यावापृथिवी आततान ।

१२३८—लिटः कानज्वा ॥ ३ । २ । १०६ ॥

पूर्वविहित ( १२३७ ) वेदविषयक लिट् के स्थान मे कानच्  
आदेश विकल्प करके हो । अग्निमचैषीत् अग्नि चिक्यानः, सोमं  
सुषुवाणः । इनमे चिञ् वा षुञ् धातुसे लिट् के स्थान मे कानच्  
आदेश है । विकल्प के ग्रहण से कही नही भी होता जैसे पूर्वोक्त  
उदाहरण — अहं सूर्यमुभयतो ददर्श, इत्यादि ।

१२३९—कसुश्च ॥ ३ । २ । १०७ ॥

पूर्वविहित ( १२३७ ) वेद विषयक लिट् के स्थान मे क्वसु  
आदेश भी हो ।

१२४०—बस्वेकाजाद्घसाम् ॥ ७ । २ । ६७ ॥

द्विर्वचन किये हुए एकाच्, आकारान्त, घस्त्व इन्ही धातुओं से  
परे जो वसु उस को इट् आगम हो । एकाच्-अशकदिति शेकिवान् ।  
यहा शकलु धातुसे लिट् ( १२३७ ) के स्थान मे क्वसु ( १२३९ )  
और धातुद्विर्वचन ( ३८ ) तथा एत्वाभ्यास लोप ( १२६ ) होकर

जो एकाच् “शेक्” हो जाता है उससे परे वसु को इडागम हो जाता है। आत्—पपिवान् । घस्तु—जक्षिवान् । यहाँ ( २१४ ) सूत्र से उपधालोप और उसको ( सन्धि० ९६ ) रूपातिदेश होकर द्वित्व ( ३८ ) और षत्व ( २८४ ) हो जाता है। क्वसु तो लिट् के स्थान में ही होता है और लिङ्विषय में क्रादिनियम ( १४८ ) वा उदात्तत्व से इट् प्राप्त ही है। फिर भी जो इट् का विधान किया इससे यह सूत्र नियमार्थ है अर्थात् वसु को इट् एकाच् आदि ही से परे हो अन्य से न हो, इससे “बिभिद्वान् बभूवान्” इत्यादि में इट् नहीं होता।

### १२४१—भाषायां सदवसश्रुवः ॥३।२।१०८॥

भाषा अर्थात् लोक में सद, वस, श्रु इन धातुओं से परे भूत-काल में विकल्प करके लिट् और उसके स्थान में क्वसु आदेश नित्य हो। षद्लु—उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम् । विकल्पपक्ष में अपने अपने विषय में यथोक्त प्रत्यय होते हैं। जैसे भूतसामान्य काल में लुङ्—उपासदत् । अनद्यतन भूत में लङ्—उपासीदत् । परोक्ष-भूत में लिट्—उपससाद । वस निवासे—अनूषिवान् ( २८३ ) कौत्सः पाणिनिम् । [ पक्ष में ] अन्ववात्सीत्, अन्ववसत्, अनू-वास । श्रु—उपश्रुश्रुवान् कौत्सः पाणिनिम् । [ पक्ष में ] उपाश्रुषीत्, उपाश्रुणात्, उपश्रुश्राव ।

### १२४२—उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ॥३।२।१०९॥

उपेयिवान्, अनाश्वान्, अनूचान् ये भाषा में निपातन हैं। उपेयिवान्—यहाँ उपपूर्वक “इण् गतौ” धातु से लिट् विकल्प करके और उसको नित्य क्वसु, द्विर्वचन ( ३८ ) अभ्यास दीर्घ ( ३४० ) और अभ्यासदीर्घसामर्थ्य से एकादेश ( स० १३७ ) का प्रतिबन्ध होकर अनेकाच् उप + ई + इ + वसु = से इट् [ धातु के इकार को

अणादेश ] निपातन है। उपेयुषा, उपेयुषे, उपेयुषः, उपेयुषि। इत्यादिको मे निपातन इट् नहीं होता, क्योंकि 'उपेयिवान्' यहा क्रादि-नियम ( १४८ ) से प्राप्त भी इट् था पर ( १२४० ) सूत्र के नियम से अनेकाच् से नहीं होता था, उसी इट् का प्रादुर्भाव मात्र किया, किन्तु अपूर्व इट् विधान नहीं किया, इससे अजादिको मे जहा वसु को ( नामि० १५४ ) सूत्र से सप्रसारण होता वहा इट् नहीं होता है। यहा उप अविवक्षित है। जैसे समीयिवान्, ईयिवान्। लिट् के विकल्प पक्ष मे पूर्ववत् लुडादि होते है। उपागात्, उपैत्, उपेयाय। अनाश्वान्—यहा नञ् पूर्वक "अश भोजने" धातु से पूर्ववत् लिट् वसु और इट् अभाव निपातन है। विकल्प पक्ष मे—अनाश्वान्, नाशीत्, नाशनात्, नाश। अनृचानः कर्त्तरि। महाभाष्ये ३। २। १०९ ॥ अनृक्तवान् अनृचान। यहां अनुपूर्वक वच से कर्ता मे पूर्ववत् लिट् उसके स्थान मे कानच् आदेश निपातन है। दूसरे पक्ष मे—अनृचान्, अन्ववोचत्, अन्वव्रीत्, अनृवाच।

१२४३—विभाषा गमहनविदविशाम् ॥ ७। २। ६८ ॥

गम, हन, विद, विश इनसे परे वसु को इट् विकल्प करके हो। गम्त्—जग्मिवान् ( २१४ ), जगन्वान्। हन—जघ्निवान्, जघन्वान्। विद—विविदिवान्, विविद्वान्। विश—विविशिवान्, विविश्वान्। विश के साहचर्य से यहा विद करके "विद्लु लाभे" का ग्रहण है। जो इस ग्रन्थ मे ( २७७ ) संख्या पर सूत्र लिखा है उससे अप्टाध्यायी के क्रम से मगड्कप्लुतिवत् दृश का अनुवर्तन कर दृशिरु से "दृशिवान्। दृश्वान्" ये भी समझने चाहिये।

१२४४—सनिससनिवांसम् ॥ ७। २। ६९ ॥

वसु के इट् प्रकरण मे 'सनिससनिवांसम्' यह निपातन है।

अञ्जित्वाग्ने सनिससनिवासम् । यहा सनिङ्पूर्वक “षुञ् अभिषवे” वा “षन संभक्तौ” से वसु को इट् आगम तथा एत्व और अभ्यास लोप का अभाव निपातन है यह निपातन वेद ही में आता है ।

१२४५—लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ॥  
३ । २ । १२४ ॥

जब प्रथमान्त के साथ लट् ( ४ ) प्रत्यय का समानाधिकरण न हो तो उसके स्थान में शतृ और शानच् प्रत्यय विकल्प से हो । ये दोनों प्रत्यय शित् है, इससे इनकी सावधायक संज्ञा ( १८ ) से होकर इनके परे शप् ( १९ ) आदि प्रत्यय भी हात हैं । जैसे—पच्+शप्+शतृ+अम्=पचन्त चैत्रं पश्य । यहाँ लट् जिसका वाचक है वह कर्तृरुद्भक्त चैत्र शब्द द्वितीयान्त है, ( ७५४ ) इस संख्या पर जो सूत्र लिखा है उससे विभाषा पद की अनुवृत्ति यहा आती है, उसका व्यवस्थित विभाषा मान कर प्रथमासमानाधिकरण में लट् के स्थान में शतृ शानच् विकल्प करके होते हैं यह समझना चाहिये । पचन् मैत्रः, पचति मैत्रो वा । मैत्र किसी के लिए पका रहा है । अथमासमानाधिकरण में तो नित्य होते हैं ।

१२४६—आने मुक् ॥ ७ । २ । ८२ ॥

आन परे हो तो अङ्ग क अकार को मुक् का आगम हो । पचमान चैत्रं पश्य । यहा लट् के स्थान में शानच् आदेश है । पचमानो मैत्र, पचते मैत्रः । मैत्र अपने लिये पकाता है ।

१२४७—वा०—माङ्याक्रोशे ॥

माङ् उपपद हो तो आक्रोश = निन्दा अर्थ में उक्त विषयक शतृ शानच् हो । मा पचन्, मा पचमान । मत पका रे ।

१ यह व्याख्या काशिकानुसारी है । इस सूत्र के अष्टाध्यायी भाष्य में महाभाष्यानुसारी व्याख्या की है ।

१२४८—संबोधने च ॥ ३ । २ । १२५ ॥

संबोधनविषय में लट् के स्थान में शतृ शानच् प्रत्यय विकल्प करके हो । हे पचन्, हे पचमान, हे कुर्वन्, हे कुर्वाण ।

१२४९—लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ॥ ३ । २ । १२६ ॥

क्रिया के लक्षण=परिचय कराने और हेतु=कारण अर्थ में वर्तमान धातु से परे लट् के स्थान में शतृ शानच् आदेश विकल्प करके हो । लक्षण—शयाना वर्धते दूर्वा, शयाना भुञ्जते यवना । हेतु—धनमर्जयन् वसति, अधीयानो वसति । लक्षणहेतुग्रहण से यहां न हुए—अधीते, भुङ्क्ते । क्रियाग्रहण से द्रव्य और गुण के परिचयादि में न हुए—यः कम्पते स वटः, यः स्थिरो भवति स गुरुः ।

१२५०—ईदासः ॥ ७ । २ । ८३ ॥

आस् धातु से आन को ईकारादेश हो । आसीनः, आस्ते । आसीनं पश्य, आसीनैः कृतम्, इत्यादि ।

१२५१—विदेः शतुर्वसुः ॥ ७ । १ । ३६ ॥

विद=विद ज्ञाने से परे शतृ को वसु आदेश विकल्प करके हो । विद्वान्, विदन् । विदुषी ( नामि० १५४ ) ।

१२५२—तौ सत् ॥ ३ । २ । १२७ ॥

पूर्वोक्त शतृ और शानच् सत्सज्ञक हो ।

१२५३—लुटः सद्वा ॥ ३ । ३ । १४ ॥

लुट् के स्थान में सत्सज्ञक प्रत्यय विकल्प करके हो । यहां भी यह विकल्प व्यवस्थित विभाषा है इससे जैसे लट्स्थानी शतृ शानच् प्रथमासमानाधिकरण में विकल्प करके और द्वितीयादिको में नित्य होते हैं वैसे यहां भी हो । करिष्यन्तं करिष्यमाणं मैत्रं पश्य, करिष्यमाणः, करिष्यति, हे करिष्यन्, हे करिष्यमाण, अर्जयिष्यमाणो वसति ।

१२५४—पूङ्यजोः शानन् ॥ ३ । २ । १२८ ॥

वर्तमानकाल मे पूङ् और यज धातु से शानन् प्रत्यय हो ।

पूङ्—पवमानः । यज—यजमान ।

१२५५—ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् ॥

३ । २ । १२६ ॥

वर्तमानकाल मे ताच्छील्य=स्वभाष, वयोवचन=अवस्थासंबन्धीवचन, शक्ति=सामर्थ्य इन अर्थो मे धातु से चानश् प्रत्यय हो । ताच्छील्य—घृतं भुञ्जानः । वयोवचन—कवचं विभ्राणः । शक्ति—शत्रु निघ्नानः ।

१२५६—इङ्धार्योः शत्रुकृच्छिणि ॥३।२।१३०॥

कष्टसाध्य जिसका क्रियाफल न हो वह कर्ता वाच्य हो तो वर्तमानकाल मे इङ् और णिजन्त धृञ् धातु से शत्रु प्रत्यय हो । अधीयन् पारायणम्, धारयन्नुपनिषदम् । अकृच्छिन् प्रहण से यहा न हुआ—कृच्छ्रेणाधीत, कृच्छ्रेण धारयति ।

१२५७—द्विषोऽमित्रे ॥ ३ । २ । १३१ ॥

अमित्र ( शत्रु ) कर्ता वाच्य हो तो वर्तमान काल मे द्विष धातु से शत्रु प्रत्यय हो । द्वेष्टीति द्विषन्, द्विषन्तौ, द्विषन्त । अमित्रप्रहण से यहा न हुआ—पिता पुत्र द्वेष्टि ।

१२५८—सुजो यज्ञसंयोगे ॥ ३ । २ । १३२ ॥

वर्तमानकाल मे यज्ञसंयोग = अभिषव अर्थ मे वर्तमान पुष्व

धातु से शतृ प्रत्यय हो । सर्वे सुन्वन्तः<sup>१</sup> । यहां संयोगप्रहण प्रधान कर्ताओ के प्रहण करने के लिए है<sup>२</sup> अर्थात् साधारण यज्ञ करने कराने वालों के प्रहण में नहीं होता । याजकाः सुन्वन्ति । यज्ञ का ही संयोग प्रहण क्यों किया—‘सुरां सुनोति’ यहां न हो ।

१२५६--अर्हः प्रशंसायाम् ॥ ३ । २ । १३३ ॥

प्रशंसा अर्थ में वर्तमानकाल में अर्ह धातु से शतृ प्रत्यय हो । भवान् विद्यामर्हन् । प्रशसाप्रहण से यहां न हुआ—तस्करो वधमहेति ।

१२६०--आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु ॥

३ । २ । १३४ ॥

यहां से लेकर क्विप् प्रत्यय पर्यन्त जो प्रत्यय कहे वे वर्तमान काल में तच्छील = जो फल को न चाह कर स्वभाव से कर्म में प्रवृत्त हो, तद्धर्मा = जो बिना भी शील मेरा धर्म है ऐसा मान कर कर्म में प्रवृत्त हो, तत्साधुकारी ( क्रिया को सुन्दरता से करे ) इन कर्ताओ में हो ।

१२६१--तृन् ॥ ३ । २ । १३५ ॥

१. सत्र सोमयज्ञो का एक भेद है । सोमयज्ञों में प्राय १६ ऋत्विक् और १ यजमान होता है परन्तु सत्रों में जो यजमान हैं वे ही ऋत्विक् होते हैं ( ये यजमानास्त ऋत्विज । द्र० मी० ५ । १ । १ ) । अर्थात् सत्रह परिवार मिलकर सत्र का सम्पादन करते हैं उनमें १ यजमान बनता है और १६ ऋत्विक् परन्तु वे होते हैं यजमान ही, अतः पूर्व सत्रों में दक्षिणा नहीं दी जाती । सबका यज्ञ के साथ समान संबंध होने से सबको समान फल होता है ।



तच्छीलादि कर्ताओ मे धातुमात्र से तृन् प्रत्यय हो । तच्छील-  
कटं करोति तच्छील, कटं कर्ता, जनापवादान् वदिता । तद्धर्मा—  
उन्नयन्ति तद्धर्मिण, उन्नेतार तौस्वलायनाः पुत्रे जाते । तत्साधु-  
कारी—साधु कट करोति, कटं कर्ता ।

१२६२-वा०-तृन्विधावृत्विञ् चानुपसर्गस्य ॥

३ । २ । १३५ ॥

तृन् प्रत्यय के विधान करने मे ऋत्विज् आदि कर्ता हो तो  
उपसर्गरहित धातु से तृन् प्रत्यय कहना चाहिये । जुहोतीति हाता ।  
पुनातीति पाता । अनुपसर्ग ग्रहण से यहा न हुआ—प्रतिहतो ।  
यहां तृच् होता है ।

१२६३-वा०-न्विषेर्देवतायामकारश्चोपधाया

अनिट्त्वं च ॥ ३ । २ । १३५ ॥

देवता अर्थ मे त्विष धातु से तृन् प्रत्यय तथा उपधा को अकार  
और इट् का अभाव भी कहना चाहिये । त्विष—त्वेषितुं  
शीलमस्य त्वष्टा ।

१२६४-वा०-क्षदेश्च नियुक्ते ॥३२॥१३५॥

नियुक्त ( जो कही अधिकार पाये हो उस ) कर्ता मे क्ष्द धातु  
से तृन् प्रत्यय कहना चाहिये । क्ष्द सौत्र धातु है इसको आच्छादन  
अर्थ मे मानते है । क्षत्ता सारथि का नाम है ।

१२६५-वा०-छन्दसि तृच्च ॥ ३ । २ । १३५ ॥

वेदविषय मे क्ष्द धातु से तृच् और तृन् प्रत्यय हो । क्षत्तृभ्यः  
संगृहीतृभ्यः [ स्वर मे भेद होता है ] ।

१२६६—अलंकृञ्निराकृञ्प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरु

च्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच् ॥ ३ । २ । १३६ ॥

तच्छ्रीलादि कर्ताओ मे अलंकृब्, निराकृब्, प्रजन, उत्पच, उत्पत, उन्मद, रुच, अपत्रप, वृतु, वृधु, सह, चर इन धातुओ से इष्णुच् प्रत्यय हो । अलंकृब्—अलकर्त्तु शीलमस्य, अल कर्त्तु धर्मोस्य, साध्वलं करोति वा अलंकरिष्णु । निराकृब्—निराकरिष्णुः । प्रजन—प्रजनिष्णु । उत्पच—उत्पचिष्णु । उत्पत—उत्पतिष्णु । उन्मद—उन्मदिष्णु । रुच—रोचिष्णुः । अपत्रप—अपत्रपिष्णु । वृतु—वर्तिष्णु । वृधु—वर्धिष्णु । सह—सहिष्णु । चर—चरिष्णुः ॥

१२६७—णेश्छन्दसि ॥ ३ । २ । १३७ ॥

वेदविषय मे तच्छ्रीलादि कर्ताओ मे णिजन्त धातु से इष्णुच् प्रत्यय हो । दृषदं धारयिष्णवः, वीरुध. पारयिष्णवः ।

१२६८—भुवश्च ॥ ३ । २ । १३८ ॥

वेदविषय मे तच्छ्रीलादि कर्ताओ मे भू धातु से इष्णुच् प्रत्यय हो । भविष्णु । चकार अनुक्त के ग्रहण करने के लिये है । इससे दुभ्राज से “भ्राजिष्णु” भी समझ लेना चाहिये ।

१२६९—ग्लाजिस्थश्च उस्तुः ॥ ३ । २ । १३९ ॥

तच्छ्रीलादि कर्ताओ मे ग्ला, जि, स्था और भू इन धातुओ से स्तु प्रत्यय हो । ग्लौ—ग्लास्तु, जि—जिष्णुः, स्था—स्थास्तु, भू—भूष्णुः । यहा चर्त्वं होकर ‘ग’ को ‘क्’ हो गया है, ( ३४ ) सूत्र मे ‘ग’ के निर्देश से उक्त प्रयोगो मे गुणादेश नही होता तथा ( २५५ ) सूत्र मे ‘ग’ के निर्देश से ‘भूष्णुः’ यहाँ इडागम भी नहीं होता है ।

१२७०—वा०—स्थादंशिभ्यां स्तुरश्छन्दसि ॥

३ । २ । १३९ ॥

वेद मे स्था और दश धातु से स्तु प्रत्यय हो । स्थास्तु जङ्गमं,  
दंक्षणावः पशवः ।

१२७१—त्रसिगृधिघृषिक्षिपेः क्तुः ॥३।२।१४०॥

तच्छ्रीलादि कर्ताओ मे त्रसी, गृधु, विघृषा और क्षिप् धातुओ  
से क्तु प्रत्यय हो । त्रसी—त्रस्तु । गृधु—गृधु । विघृषा—  
घृष्णु । क्षिप—क्षिप्तुः ।

१२७२—शमित्यष्टाभ्यो घिनुण् ॥३।२।१४१॥

तच्छ्रीलादि कर्ताओ मे शमु \* आदि आठ धातुओ से घिनुण्  
प्रत्यय हो । 'घिनुण्' यहां घकार कुत्व के लिए, उकार उगित् कार्य  
के लिये, णकार वृद्धि के लिये है । शमितु शीलं धर्मो वाऽस्य, साधु  
शाम्यति वा, शमी, शमिनौ, शमिन । यहा उगित् कार्य नुम् (नामि०  
१११) नही होता । नुम् विधि मे अष्टाध्यायी के क्रम से ( नामि०  
४३) सूत्र से भल् का अपकर्षण कर भलन्त उगित् को नुम् आगम  
हो ऐसा अर्थ वहा जानेंगे । यहा वृद्धि (१२७) प्राप्त है उसी की निवृत्ति  
( ७२७) से हो जाती है । तमी, दमी, शमी, भ्रमी, क्षमी, क्लमी,  
प्रमादी । आठ का ही प्रहण क्यो किया ? असु—असिता,  
यहां न हो ।

१२७३—संपृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसंसृज-  
परिदेविसंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुह-  
दुषद्विषद्रुहद्रुहयुजाक्रोडविविचत्यजरजभजातिचरा-  
पचरामुषाभ्याहनश्च ॥ ३ । २ । १४२ ॥

\* शमु उपशमे, तमु काङ्क्षायाम्, दमु उपशमे, अमु तपसि  
खेदे च, अमु अनवस्थाने, क्षमृष् सहने, क्लमु ग्लानौ, मदी हर्षे, ये  
भाठ शमादि धातु हैं ।

तच्छीलादि कर्ताओ मे सम्पृचादि धातुओ से घिनुण् प्रत्यय हो। सम्पृच यहा रुधादि “पृचौ संपर्के” इसका ग्रहण है। सम्पृ-णक्ति तच्छीलः, सपर्का। अनुरुध—अनुरुध्यते तच्छील, अनुरोधी। आङ्म—आयच्छति तच्छील, आयामी। आयस—आयस्यति आयसति वा तच्छीलः, आयामी। परिस्तु—परिसरति तच्छील, परिसारी। सस्तुज—सस्तुज्यते तच्छील, संसर्गी। परिदेवि यहां “देवृ देवने” इस भ्वादिस्थ का ग्रहण है। परिदेवने तच्छीलः, परिदेवी। जो विलाप करता है उसके जैसा स्वभाव वाला पुरुष है। सञ्वर—सञ्वरति तच्छील, सञ्चारी। परिक्षिप—“क्षिप” प्रेरणे दिवादि वा तुदादि दोनो का ग्रहण है। परिक्षिप्यति परिक्षिपति परिक्षिपत वा तच्छील, परिक्षेपी। परिरेट—परिरेटति तच्छील, परिरेटी। परिरेद—परिरेदति तच्छील, परिरेदी। परिरेदह—परिरेदहति तच्छील, परिरेदी। परिरेदह—परिरेदहति तच्छीलः, परिरेदी। दुष—दुष्यति तच्छील, दोषी। द्विष—द्वेषि तच्छील, द्वेषी। द्रुह—द्रुहति तच्छील, द्रोही। दुह—दोग्धि तच्छील, दोही। युज—यहा “युज समाधौ” दिवादि ‘युजिर् योगे’ रुधादि इन दोनो का ग्रहण है। युज्यत युनक्ति युङ्क्ते वा तच्छील, योगी। आक्रीड्—आक्रीडते तच्छीलः, आक्रीडी। विविचिर्—विविनक्ति विविनक्ते वा तच्छीलः, विवेकी। त्यज—त्यागी ( ९४४ )। रञ्ज—रागी। भज—भागी। अति चर—अतिचारी। अप चर—अपचारी। आमृष—आमृष्णाति तच्छीलः, आमृषी। अभि आङ् हन्—अभ्याहन्ति तच्छीलः, अभ्याघाती ( ३०४, ५०३ ) इन सूत्रो से कुत्व और तकारादेश होता है।

१२७४—वौ कषलसकत्थस्रम्भः ॥३।२।१४३॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे विपूर्वक कष, लस, कत्थ, स्रम्भु इन धातुओ से घिनुण् प्रत्यय हो। कष हिसायाम्—विकाषी। लस

श्लेषशक्रीडनयो.—विलासी । कथ श्लाघायाम्—विकल्पी, सम्भु  
विश्वासे—विस्मयी ।

१२७५—अपे च लषः ॥ ३ । २ । १४४ ॥

अप और वि पूर्व हो तो लष धातु से घिनुण् प्रत्यय हो, तच्छी-  
लादि अर्थों में । लष कान्तौ—अपलापी, विलापी ।

१२७६—प्रे लपसृद्रमथवदवसः ॥३।२।१४५॥

तच्छीलादिको मे प्र पूर्वक लप, सृ, द्रु, मथ, वद, वस इन  
धातुओं से घिनुण् प्रत्यय हो । प्रलप—प्रलापी । प्रसृ—प्रसारी ।  
प्रद्रु—प्रद्रावी । प्रमथे—प्रमाथी । प्रवद—प्रवादी । प्रवस—वस  
निवासे—प्रवासी ।

१२७७—निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिच्छिप-  
परिरटपरिवादिब्याभाषास्यो वुञ् ॥

३ । २ । १४६ ॥

तच्छील्लादि कर्ताओं मे निन्द आदि धातुओं से वुञ् प्रत्यय  
हो । णिदि—निन्दक । हिमि—हिसक । “क्लिश उपतापे, क्लिशू  
विवाधने” दानो का ग्रहण है । क्लेशकः । खाद—खादक ।  
विनाश—वि—णश—णिच् विनाशयति तच्छील, विनाशकः । परि-  
च्छिप—परिच्छेपक । परिरट—परिराटक । परिवद—परिवादक ।  
वि—आङ्—भाष—व्याभाषक । एवुल् ( ९७६ ) प्रत्यय से भी  
उक्त प्रयाग सिद्ध है फिर वुञ् प्रत्यय का यह प्रयोजन है कि तच्छी-  
लादिको मे वासरूपन्याय ( ९१३ ) से वृच् आदि अन्य प्रत्यय  
नहीं होते हैं ।

; ताच्छीलकेषु सध एव वृजादयो वा स्वरूपेण न भवन्ति ।  
पारि० ५८ ।

१२७८—देविक्रशोश्चोपसर्गे ॥ ३ । २ । १४७॥

उपसर्ग पूर्व हो तो देविक्र और क्रश धातु से युच् प्रत्यय हो तच्छीलादि अर्थो मे । आदेवयति तच्छीलः—आदेवकः, परिदेवकः, परिक्रोशकः । उपसर्गग्रहण से यहा न हुआ—देवयिता, क्रोष्टा । यहा ट् न हो जाता है ।

१२७९—चलनशब्दार्थादकर्मकाद्य च् ॥३॥२॥१४८॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे चलन और शब्द अर्थे वाले अकर्मक धातुओ से युच् प्रत्यय हो । चल कपने—चलनः । कपि संचलने—कम्पनः । चुप मन्दायां गतौ—चापनः । शब्दार्थ—शब्दनः, रवणः । अकर्मक ग्रहण से यहां न हुआ—विद्यां पठिता, शास्त्रं वदिता । यहा ट् न हो जाता है ।

१२८०—अनुदात्तेतश्च हलादेः ॥३॥२॥१४९॥

अनुदात्त जिसका इत् सङ्गक हो ऐसा जो हलादि अकर्मक धातु उससे भी युच् प्रत्यय हो तच्छीलादि अर्थो मे । वृत्—वर्तनः, वृधु—वर्धन । अनुदात्तेत् के ग्रहण से यहा न हुआ—भविता । हलादि ग्रहण से यहा न हुआ—एधिता । अकर्मक ग्रहण से यहा न हुआ—वस्त्रं वसिता । यहां [ सर्वत्र ] ट् न हो जाता है ।

१२८१—जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचल-

षपतपदः ॥ ३ । २ । १५० ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे जु आदि धातुओ से युच् प्रत्यय हो । 'जु' यह सौत्र धातु है इस को गति वा वेग अर्थे मे मानते है । जवन । चङ्क्रम्य—क्रमु+यङ्=चङ्क्रम्यते तच्छीलः=चङ्क्रमणः । दन्द्रम्य—द्रमु+यङ्=दन्द्रम्यते । सृ—सरणः । गृधु—गर्धन । ज्वल—ज्वलनः । शुच—शोचनः । लष—लषणः । पत्तलु—पतनः । पद—पदन । यद्यपि ( १२८० ) सूत्र से पद धातु से युच् प्रत्यय हो जाता

तथापि पद वा ग्रहण इमलिये है कि इससे सामान्य युच् प्रत्यय को बाध के विशेष [ विहित ] उक्ञ् ( १२८५ ) प्रत्यय न हो जाय, क्योंकि तच्छीलादिको मे ( ९१३ ) सूत्र के अनुसार परस्पर प्रत्यय नहीं हांत है, इस अंश मे यही पदग्रहण ज्ञापक है । असरूपानिवृत्यर्थं तर्हि पदग्रहणं क्रियते एतज्ज्ञापयत्याचार्यः । ताच्छी-  
ल्लिकेषु ताच्छीलिका वासरूपन्यायेन न भवन्ति । महाभाष्ये  
३ । २ । १५० ॥

१२८२—क्रोधमण्डार्थेभ्यश्च ॥ ३ । २ । १५१ ॥

तच्छीलादिको मे कोप और भूषण अर्थ वाले धातुओं से युच् प्रत्यय हो । कोपार्थ—क्रोधनः, रोषणः । मण्डार्थ—मण्डनः, भूषणः ।

१२८३—न घः ॥ ३ । २ । १५२ ॥

यकारान्त धातु से युच् प्रत्यय न हो । क्यूयी शब्दे उन्दे च—  
क्यूयिता । क्षमायी विधूनने—क्षमायिता । इन मे ( १२८० ) सूत्र से युच् प्रत्यय प्राप्त है सो नहीं होता, किन्तु तृन् ( १२६१ ) प्रत्यय हो जाता है ।

१२८४—सूददीपदीक्षश्च ॥ ३ । २ । १५३ ॥

सूद, दीप, दीक्ष इन धातुओं से युच् प्रत्यय न हो । षूद चरणे—सूदयति तच्छील' = सूदिता ( १२६१ ) । दीपी—दीपिता । दीक्ष—दीक्षिता । इन सबो मे ( १२७९ ) सूत्र से युच् प्राप्त है । यहा दीप ग्रहण क्या किया, क्योंकि दीप् धातु से विशेष विहित र ( १२९९ ) प्रत्यय, सामान्य युच् ( १२८० ) प्रत्यय को बाध के हो जाता इसलिए दीपि ग्रहण ज्ञापक है वासरूपन्याय ( ९१३ ) से र प्रत्यय के साथ युच् का समावेश होता है । इस ज्ञापन से यह प्रयोजन है क—“कम्ना कन्या, कमना कन्या” इत्यादि सिद्ध हो ।

१२८५—लषपतपदस्थाभ्रवृषहनकमगमश्रुभ्य  
उकञ् ॥ ३ । २ । १५४ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे लष, पत, पद, स्था, भ्र, वृष, हन, कम, गम, श्रु इन धातुओ से उकञ् प्रत्यय हो । लष—अपलाषुक । पत्लु—प्रपातुक. । पद—पादुकः । ष्ठा—उपस्थायुकः । भ्रू—भावुक । वृष—प्रवर्षुक. पर्जन्य । हन—घातुक. । कमु—कामुक । गम्लु—आगामुक । श्रु हिंसायाम्—शृणाति तच्छील'—शासक., किशारुकं तीक्ष्णम् ।

१२८६—जल्पभिक्तकुट्टलुण्टवृडः षाकन् ॥  
३ । २ । १५५ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे जल्प, भिक्त, कुट्ट, लुण्ट, वृड् इन धातुओ से षाकन् प्रत्यय हो । जल्प—जल्पाक । भिक्त—भिक्ताकः । कुट्ट—कुट्टाक. । लुटि ॐ स्तेये—लुण्टाकः । वृड्—वराकः । खी-लिङ्ग मे जल्पाकी । ( खै० ७० ) से डीष् हो जाता है ।

१२८७—प्रजोरिनिः ॥ ३ । २ । १५६ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे प्रपूर्वक जु धातु से इनि प्रत्यय हो । प्रजवी, प्रजविनौ, प्रजविन ।

१२८८—जिहृत्तिविश्रीण्वमःव्यथाभ्यमपरि-  
भ्रप्रसूभ्यश्च ॥ ३ । २ । १५७ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे जि, हृ, त्ति, विश्रि, इण्, दुवमु, अव्यय, अभ्यम, परिभ्र और प्रसू इन धातुओ से इनि प्रत्यय हो । जि—जेतुं शीलमस्य जयी । हृड्—दरी । त्ति क्षये, त्ति निवासगत्योः—क्षयी । विश्रिब्—विश्रयी । इण्—अत्ययी । दुवमु—वमी । नब् व्यथ—अव्ययी । अभि अम—अभ्यमी । परि भ्रू—परिभवी । प्र सू—प्रसवी ।

ॐ इस धातु को कोई आचाये लुटि कोई लुडि भी पढ़ते हैं ।



१२८६—स्पृहग्रहिपतिदधिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य

आलुच् ॥ ३ । २ । १५८ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे स्पृह आदि धातुओ से आलुच् प्रत्यय हो । स्पृह ईप्सायाम्—स्पृहयालु । ग्रह ग्रहणे—ग्रहयालु । पत गतौ—पतयालु । ये चुरादि अदन्तो मे है । दय-दयालु । निद्रा द्रा कुत्सा-याम्—निद्रालुः । तद् द्रा—तन्द्रालु । यहां तद् के द् को नकारादेश निपातन है । श्रत् डुधाच्—श्रद्धालुः ।

१२९०—वा०—आलुचि शीङ्ग्रहणम् ॥३।२।१५८॥

आलुच् प्रत्यय के विषय मे शीङ् का भी ग्रहण करना चाहिये । शयितु शीलमस्य शयालु ।

१२९१—दाघेट्सिशदसदो रुः ॥३।२।१५९॥

दा, घेट्, सि, शद और सद धातुओ से रु प्रत्यय हो तच्छीलादि अर्थों मे । दातुं शीलमस्य दाहः । धातु शीलमस्य धारह । सीव्यति तच्छील सेरु । शायये तच्छील शद्रु । सीदति तच्छील. सदुः ।

१२९२—सृघस्यदः क्मरच् ॥ ३ । २ । १६० ॥

सृ घम अद् इन धातुओ से क्मरच् प्रत्यय हो तच्छीलादि अर्थों मे । सृ—सृमर । घस्तु—घस्मर । अद्—अद्मरः ।

१२९३—भञ्जभासमिदो घुरच् ॥३।२।१६१॥

भञ्ज, भास और मिद इन धातुओ से घुरच् प्रत्यय हो तच्छीलादि अर्थों मे । भञ्जो—भङ्गुरः ( १४४ ) । भासु—भासुरः । विमिदा—मेदुरः ।

१२९४—विदिभिदिद्धिदेः कुरच् ॥३।२।१६२॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे विद आदि धातुओ से कुरच् प्रत्यय हो ।

विद्—विदज्ञाने, वेत्ति तच्छीलः—विदुरः । भिदिर्—भिदुरः ।  
छिदिर्—छिदुरः ।

१२६५—इण्णशजिसत्तिभ्यः क्वरप् ॥ ३ । २ । १६३ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे इण्, नश, जि, सति इन धातुओ से क्वरप् प्रत्यय हो । इण्—इत्वर. । एण्—नश्वरः । जि—जित्वरः ।  
सृ—सृत्वर ( सं० २०६ ) से तुक् । छीलिङ्ग मे इत्वरी ( छैण्० ३५ ) जित्वरी, इत्यादि ।

१२६६—गत्वदश्च ॥ ३ । २ । १६४ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे गत्वर यह निपातन है । गन्तुं शीलमस्य,  
गत्वरः । छी गत्वरी । यहा गमल से क्वरप् और अनुनासिकलोप  
निपातन है ।

१२६७—जागरूकः ॥ ३ । २ । १६५ ॥

तच्छीलादिको मे जागृ धातु से ऊक प्रत्यय हो । जागृ निद्रा-  
क्षये—जागरूक ।

१२६८—यजजपदंशां यङ् ॥ ३ । २ । १६६ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे यज, जप, दंश इन के यङ् से परे  
ऊक प्रत्यय हो । यायज्य—यायजितुं शीलमस्य यायजूकः ।  
जञ्जप्य—जञ्जपूक. । ददश्य—दंशजूकः ।

१२६९—नमिकम्पिस्म्य जसकमहिंसदीपो रः ॥

३ । २ । १६७ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे नम् आदि धातुओ से परे र प्रत्यय हो ।  
णाम्—नम्रम् काष्ठम् । कपि—कप्रा शाखा । णिङ्—स्मैरम् मुखम् ।  
अजस—“जसु मोक्षणे” नञ्पूर्वक है—अजस निरन्तरम् । कमु—  
कम्पा कन्या । हिंसि—हिंसं रक्षः । दीपी—दीपितुं शीलमस्य—  
दीपो बन्दिः ।

१३००—सनाशंसभिच्च उः ॥ ३ । २ । १६८ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे सन्नन्त, आशंस, भिच्च इन धातुओ से उ प्रत्यय हो । सन्नन्त—पिपठिषितुं शीलमस्य पिपठिषुः, चिकीर्षुः । आशंस, “आडः शसि इच्छायाम्”—भ्वादिः—आशंसते तच्छीलः आशसुः भिक्षुः ।

१३०१—विन्दुरिच्छुः ॥ ३ । २ । १६९ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे विन्दु और इच्छु ये निपातन हो । वेत्ति तच्छीलो—विन्दु । यहां “विद् ज्ञाने” धातु से उ प्रत्यय और नुमागम निपातन है । इच्छति तच्छील —इच्छु’ । यहां “इषु इच्छायाम्” से उ प्रत्यय और छकारादेश निपातन है ।

१३०२—आट्टगमहनजनः किकिनौ लिट् ष ॥

३ । २ । १७१ ॥

वेदविषय में आकारान्त, ऋवर्णान्त, गम, हन और जन इन धातुओ से कि और किन् प्रत्यय हो और वे लिट् प्रत्यय के तुल्य हो । आ—पा पाने—पपौ तच्छीलः पपिः सोमम् । डुदाव्य—ददिर्गाः । इनमे लिड्वद्भाव मानकर ( ३८ ) सूत्र से धातु को द्विर्वचन हो जाता है । ऋ—भृ—बभ्रिर्वज्रम् । त—मित्रावरुणौ ततुरिः । ग् शब्दे—दूरे ह्यध्वा जगुरिः । गम्लृ—जग्मिर्युवा । हन—जग्नि-वृत्रम् । जन—जज्ञिर्वाजम् । इन मे उपधालोप ( २१४ ) सूत्र से होता है यद्यपि ( ४६ ) से कित् संज्ञा सिद्ध भी है तथापि लिट् के कित्व विषय मे भी जो गुणविधान ( २५८ ) किया है उसके प्रतिषेध के लिये ‘कि किन्’ इन प्रत्ययो मे ककार पढ़ा है “आट्ट०” यहां आ, ऋ का अन्तग अलग मुख से उच्चारण होने के लिए इ पढ़ा किन्तु तपरकरण नहीं है ।

१३०३-वा०-उत्सर्गश्छन्दसिसदादिभ्यो दर्शनात् ॥

३ । २ । १७१ ॥

वेदविषय मे सद आदि धातुओ से कि, किन् प्रत्ययो का दर्शन है इससे ये उत्सर्गमात्र है ऐसा कहना चाहिये अर्थात् आकारान्तो से अन्यत्र भी होते है ।

१३०४-वा०-सदिमनिरमिनमिविचीनाम् ॥

महाभाष्ये ॥ ३ । २ । १७१ ॥

षट्—सेदिः । मन—मेनि । रम—रेमिः । णम—नेमिश्चक्र-  
मिवाभवन् । विचिर्—विविचि रत्नधातमम् ।

१३०५-वा०-भाषायां धाञ्कृसृजननिमिभ्यः ॥

३ । २ । १७१ ॥

भाषा मे धाञ्, कृ, सृ, जन, नम इन धातुओ से कि, किन् प्रत्यय कहना चाहिये तच्छीलादि अर्थो मे । डुधाञ्—दधि । कृ-  
चक्रि । सृ—सस्रि । जन—जज्ञि । णम—नेमिः ।

१३०६-वा०-सहिवहिविलपतिभ्यो यङन्तेभ्यः

किकिनौ वक्तव्यौ ॥ ३ । २ । १७१ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे यङन्त सहादि धातुओ से कि किन् प्रत्ययो को कहना चाहिये । सह+यङ्—वृषा सहमानं सासहिः । वह+यङ्—वावहि । चल+यङ्—चाचलि । पत्ल+यङ्—पापति । यहाँ नीक् ( ५४३ ) का अभाव निपातन है ।

१३०७—स्वपितृषोर्नजिङ् ॥ ३ । २ । १७२ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे स्वप् और वृष् धातु से नजिह् प्रत्यय हो । विष्वप्—स्वप्नक् । वितृपा—तृष्णक् ।

१३०८—शृवन्चोराहः ॥ ३ । २ । १७३ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे शृ और वदि धातु से आरु प्रत्यय हो । शृ द्विसायाम्—शरारु । वदि अभिवादनस्तुत्योः—वन्दारुः ।

१३०९—भियः क्रुकलुकनौ ॥ ३ । २ । १७४ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे भी धातु से क्रु और क्लुक प्रत्यय हो । विभी भये—विभेति तच्छीलो—भीरुः भीलुकः ।

१३१०—वा०—भियः क्रुकन्नपि वक्तव्यः ॥

३ । २ । १७४ ॥

भी धातु से क्रुकन् प्रत्यय भी कहना चाहिये । भीरुक ।

१३११—स्थेशभासपिसकसो वरच् ॥ ३ । २ । १७५ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे स्था आदि धातुओ से वरच् प्रत्यय हो । ष्ठा गतिनिवृत्तौ—स्थातुं शीलमस्य स्थावर । ईश ऐश्वर्ये—ईशितुं शीलमस्य ईश्वर । भास दीप्तौ—भास्वरः । पिसु, पेसु गतौ—पेस्वरः । कस गतौ—विकस्वरः ।

१३१२—यश्च यडः ॥ ३ । २ । १७६ ॥

तच्छीलादि कर्ताओ मे यडन्त या धातु से वरच् प्रत्यय हो । याया + य + वर + सु = यहा पर यकार के अकार का लोप ( १७२ ) किये पीछे उसको स्थानिवद्भाव ( सन्धि० ९१ ) जो प्राप्त है उसको यलोपविधि के प्रति प्रतिषेध ( सन्धि० ९२ ) से होकर यलोप हो जाता है—यायावरः ।

१३१३—आजभासधुर्विद्यु तोर्जिपृजुग्रावस्तुवः

क्विप् ॥ ३ । २ । १७७ ॥

तच्छीलादि कर्त्ताओ मे भ्राज आदि धातुओ से क्विप् प्रत्यय हो। टुभ्राज—विभ्राजते तच्छील विभ्राट्, विभ्राड्, विभ्राजौ, विभ्राजः। भासु—भाः, भासौ, भास। धुर्वि—धूः, धुरौ, धुरः (५६०)। द्युत्—विद्युत्। ऊर्ज बलप्राणनयो—ऊर्क् ऊर्ग। पृ—पूः, पुरौ। यहां (३८०) [ से उत् ]। जु—यह सौत्र धातु गति और वेग मे वर्तमान है। ज्, जुवौ। यहां उत्तरसूत्र (१३१५) मे जो वार्त्तिक पदा है उससे दीर्घादेश जानना चाहिये। प्रावस्तु—प्राव—ष्टुब्, ऋ प्रावस्तुः, प्रावस्तुतौ, प्रावस्तुत।

१३१४—अन्येभ्योऽपि दृश्यते ॥ ३। २। १७८ ॥

तच्छीलादि कर्त्ताओ मे और धातुओ से भी क्विप् प्रत्यय देखा जाता है। पचति तच्छीलः—पक्। भिनत्ति—भित्। छिनत्ति—छित्। यहां “दृश्यते” यह दृशि ग्रहण [ यथा प्रयोग ] विशेष विधान करने के लिए है अर्थात् उक्त क्विप् के परे कही दीर्घ, कही द्विर्वचन, कही संप्रसारण, कही संप्रसारण का अभाव आदि काये होते हैं, जैसे—

१३१५—चा०—क्वि वचिप्रच्छायतस्तुकटप्रजुश्रीणां  
दाघोऽमंप्रसारणं च ॥ ३। २। १७८ ॥

वच, प्रच्छ, आयतस्तु, कटप्रु, जु, श्रिब् इन धातुओ से क्विप् प्रत्यय, दीर्घ तथा संप्रसारण का अभाव कहना चाहिये। वक्तीति—वाक्। पृच्छति—प्राट्। आयतं स्तौति—आयतस्तू। कट प्रवते—कटप्रू। जवते—जूः। यहां जु का ग्रहण केवल दीर्घ क लिए है। श्रयति—श्रीः, लक्ष्मीः।

ॐ यहां प्राव शब्द का स्तु धातु के साथ निपातन से समास कर पीछे क्विप् प्रत्यय होता है ॥

१३१६-वा०-द्यु तिगमिजुहोतीनां द्वे च ॥३।२।१७८॥

द्युत्, गमल्, हु इनसे क्विप् और इनको द्वित्वादेश हो । [द्युत्-] दिद्युत्—यहां द्युत् धातु को क्विप् के परे द्विर्वचन और उक्त दृशि ग्रहण से पूर्व की अभ्यास सज्ञा ( ३९ ) से तथा उस अभ्यास को संप्रसारण ( २१८ ) से हो जाता है । गमल्—जगत् ( १११५ ) से अनुनासिक लोप होता है ।

१३१७-वा०-जुहोतेदीर्घश्च ॥ ३। २। १७८ ॥

हु धातु को दीर्घ भी होना चाहिये जुहुः ।

१३१८-वा०-जुहोतेर्हयतेर्वा ॥ महा० ३।२।१७८॥

“हृ दानादानयो ” अथवा “ह्वेञ् स्पर्द्धाया शब्दे च” इन से “जुहु” सिद्ध होता है ।

१३१९-वा०-दृणातेर्ह्रस्वश्च द्वे च क्विप्चेति वक्तव्यम् ॥

३। २। १७८ ॥

दृणाति—‘दृ विदारणे’ से क्विप् प्रत्यय धातु को द्विर्वचन और ह्रस्वादेश भी कहना चाहिये । ददत् ।

१३२०-वा०-दृणातेर्दीर्यतेर्वा ॥ महा० ३।२।१७८॥

दृ से कर्ता वा कर्म मे ददत् होता है । दृणाति वा दीर्यते या सा ददत् ।

१३२१-वा०-ध्यायतेः सम्प्रसारणं च ॥

‘ध्ये चिन्तायाम्’ धातु से क्विप् और उसको संप्रसारण हो । धी० ।

१३२२-वा०-ध्यायतेर्धातेर्वा ॥ महा० ३।२।१७८॥

‘धीः’ यह ‘ध्ये’ से वा ‘डुधाव्’ से सिद्ध होता है ।

१३२३—भुवः संज्ञान्तरयोः ॥३। २। १७९ ॥

संज्ञा वा अन्तर गम्यमान हो तो भू धातु से क्विप् प्रत्यय हो । संज्ञा—मित्रभू । यह संज्ञा है । अन्तर—प्रतिभू । धन के लेने देने वालों के बीच जो विश्वास कराने को स्थिर हो जाता है वह प्रतिभू कहाता है ।

१३२४—विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम् ॥३।२।१८०॥

संज्ञा न गम्यमान हो तो वि, प्र, सम् इन उपसर्गों से उत्तर जो भू धातु उससे ड्व प्रत्यय हो । विभु, जो सर्वगत है । प्रभु, स्वामी । संभु, जिसका संभव है । असंज्ञा ग्रहण से जहा 'विभू' किसी का नाम हो वहा न हो ।

१३२५—वा०-डुप्रकरणे मि० द्रवादिभ्य उपसंख्यानं  
धातुविधितुक् प्रतिषेधार्थम् ॥३।२।१८०॥

डु प्रत्यय के प्रकरण मे धातुविधि = धातुग्रहण से जो विधान किया जाय और तुक् के प्रतिषेध के लिये मितद्र आदि शब्दों का उपसंख्यान करना चाहिये । मित द्रवति प्राप्नोति मितद्रः, मितद्रु, मितद्रवः । यहां [ यदि क्विप् करते तो सूत्र १५९ से उवङ् और 'मितद्रु' मे तुक् की प्राप्ति हांती, डु करने से ] धातु को विहित उवङ् [ नामि० ९० ] नहीं होता तथा "मितद्र" यहां ( स० २०६ ) तुक् नहीं होता । शं कल्याणं भावयति शम्भुः । यहां अन्तर्भावित-ग्यथे माना जाता है ।

१३२६—धः कर्मणि ष्टन् ॥ ३ । २ । १८१ ॥

कर्मकारक मे धेट् और डुधान् धातु से ष्टन् प्रत्यय हां । धयन्ति बाला स्तन्यार्थिनो यां सा, धात्री [ खै० ७० ] उपमाता । दधति वा भैषज्यार्थं यां सा, धात्री ( आमलकी ) आवले का नाम है ।

१३२७—दाम्नीशसयुजस्तुतुदसिसिचमिहप-  
तदशनहः करणे ॥ ३ । २ । १८२ ॥



करण कारक मे दाप् आदि धातुओ से ष्टन् प्रत्यय हो । दाप् लवने—दात्यनेन दात्रम् । णीब् प्रापणे—नयत्यनेन व्यवहारानिति नैत्रम् । शसु हिसायाम्—शस्त्रम् । यु मिश्रणेऽमिश्रणे च—योत्रम् । युजिर् योगे—योक्त्रम् । ष्टुञ् स्तुतौ—स्तोत्रम् । तुद व्यथने—तोत्रम् । षिञ् बन्धने—सेत्रम् । षिच क्षरणे—सेक्त्रम् । मिह सेचने—मेड्हम् । पतल् गतौ—पतति गच्छत्यनेनेति पत्र वाहनम् । दश दशने—दंष्ट्रा । ( ङैण० २ ) अनुनासिक लोप के साथ जो दश का निर्देश है सो यह ज्ञापक के लिए है अर्थात् नलोप जिनके परे ( १३९ ) कहा है उनसे अन्यत्र भी होता है इससे 'दशनम्' यहां ल्युट् के परे भी होता है । गह बन्धने—नद्धम् ।

१३२८—हलसूकरयो पुवः ॥ ३ । २ । १८३ ॥

करण कारक म पूङ् धातु से ष्टन् प्रत्यय हा । जो वह करण हल और सूकर का अवयव हो । पवते पुनाति वाऽनेन तत् पोचं, हलमुख सूकरमुख वा ।

१३२९—अतिलूधूसूखनसहचर इत्रः ॥ ३ । २ । १८४ ॥

करण कारक मे ऋ आदि धातुओ से इत्र प्रत्यय हो । ऋ गतौ—अरित्रम् । लृब् छेदने—लवित्रम् । धू विधूनने—धवित्रम् । धू प्रेरणे—सवित्रम् । खनु अवदारणे—खनित्रम् । षह मर्षणे—सहित्रम् । चर गतिभक्षणयो —चरित्रम् ।

१३३०—पुवः संज्ञायाम् ॥ ३ । २ । १८५ ॥

करण कारक मे ष्ट् वा ष् धातु से इत्र प्रत्यय हो जो समुदाय से संज्ञा गन्धमान हो ता—पवित्रम् । कुग वा प्रन्थियुक्त कुश [पैती] आदि को कहते हैं ।

१३३१—कर्त्तरि चर्षिदेवतयोः ॥ ३ । २ । १८६ ॥

ऋषि और देवता वाच्य सज्ञा हो तो करण वा कर्ता कारक में पूङ् वा पूव् धातु से इत्र प्रत्यय हो। यहां यथासंख्य ऋषि, देवता से सम्बन्ध है अर्थात् ऋषि वाच्य हो तो करण में और देवता वाच्य हो तो कर्ता में 'इत्र' होता है। पृथतेऽनेनेति पवित्रोऽयमृषि-र्वेदः । अग्नि पवित्रं स मा पुनातु।

१३३२—उणादयो बहुलम् ॥ ३ । ३ । १ ॥

वर्तमानकाल और सज्ञा विषय में धातु से उण् आदि प्रत्यय बहुल करके हो। डुकृब्—करोतीति कार्, शिल्पिनः संज्ञेयम् । वा—वातीति वायुः, पवन । इत्यादि । प्रकृति प्रत्यय के अनुसार उणादिगणस्थ उदाहरण जानने चाहिये। बहुल ग्रहण से कहे हुए कारक आदि के नियम से अन्यत्र भी शिष्ट प्रयोग के अनुसार प्रकृति प्रत्यय की कल्पना से उणादिगण से और भी प्रयोग बनते हैं। इस विषय में महाभाष्यकार ने कहा है कि—

का०—बाहुलक प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम् ।

कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तं नैगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥१॥

नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम् ।

यन्न पदार्थविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदुह्यम् ॥२॥

सज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे ।

कार्याद्विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ ३ ॥

उणादि सूत्रों में प्रकृतियों की तनुदृष्टि = तनुता देखने से बाहुलक ऋ (बहुलमेव बाहुलकम्) [ अर्थात् बहुल ] का ग्रहण तथा

ऋ बहुलग्रहण से यह समझना चाहिये कि जो उणादिगण में अपठित प्रकृति हैं उनसे भी उणादि प्रत्यय होते हैं जैसे ह्य धातु में 'उळच्' प्रत्यय कहा है वह 'शकि शङ्कायाम्' से भी होता है—“शङ्कुला” ।

उण आदि प्रत्ययो का भी प्रायः † = बहुल करके समुच्चय = समूह किया है अर्थात् उणादिगण मे वे प्रत्यय भी निशेष नहीं पढ़े हैं और कार्यों की सशेषविधि ‡ (उणादिगण के सूत्रो मे समस्त कार्य नहीं कहे अर्थात् निशेष नहीं कहे) देखने से वह बहुल शब्द पढ़ा है, तथापि वैदिक और रुढिभव = (सज्ञावाचक) शब्द अच्छे प्रकार सिद्ध करने ही है इसमे पाणिनि आचार्य ने प्रकृतियों की तनुता [ प्रत्ययो का प्रायिक समुच्चय तथा कार्यों की सशेषविधि को ] देखकर बहुल शब्द पढ़ा है ॥ १ ॥

इस विषय मे और आचार्यों का ऐसा सिद्धान्त है कि वे प्रकृत्यादिविभाग से शब्दो का साधन मानते हैं, किन्तु रुढिप्रकार से नहीं मानते जैसे—

नाम च—निरुक्तकार निरुक्तग्रन्थ मे शब्दो को धातुज अर्थात् प्रकृतिप्रत्यय के विभाग से [ बना हुआ ] कहते [ हैं ] और व्याकरणविषय मे शकट ऋषि कं तोक = अपत्य = शाकटायन वैयाकरण शब्दो को वातुज कहते है। इससे जो [ शब्द ] विशेष + प्रकृति प्रत्यय के विभाग से न जाना जाय वह प्रकृति और प्रत्यय से

† बहुलवचन से यह समझना चाहिये कि जो उणादिगण मे प्रत्यय नहीं कहे हैं वे भी होते हैं। जैसे महाभाष्यकार ने 'ऋलृक्' (अष्टा० १।१।३) सूत्र के भाष्य में ऋ धातु मे फिड, फिड्ड प्रत्यय मानकर 'ऋफिड, ऋफिड्ड' प्रयोग टिखलाये हैं।

‡ उणादिगण में जो अनुक्त कार्य हैं वे भी बहुलवचन से होते हैं जैसे "षण्ठ" यहा षण धातु के मूर्द्धन्य ष को सत्वादेश का अभाव वा सत्वादेश करके मूर्द्धन्यादेश हो जाता है।

+ विशिष्यते य स विशेषः, पदमर्थ प्रयोजन यस्य व्युत्पाद्यत्वेन स पदार्थः, विशेषश्चासौ पदार्थो विशेषपदार्थस्तस्माद् यन्न समुत्थ विशिष्यप्रकृतिप्रत्ययोत्पादनेन न व्युत्पादितमिति यावत् ।

कल्पनीय है अर्थात् उसकी सिद्धि के लिए प्रकृति को देखकर उसके कार्य के अनुसार प्रत्यय और प्रत्यय को देखकर प्रकृति की कल्पना करनी चाहिये ॥२॥

यह कल्पना सर्वत्र नहीं होती किन्तु—

संज्ञासु०—संज्ञा आदि शब्दों में धातुरूप और उन धातुओं से परे प्रत्यय तथा वृद्धि, गुण, उदात्तस्वर आदि कार्य के अनुसार प्रत्ययों के अनुबन्ध जानना चाहिये । उणादिको में यही शिक्षा करने योग्य है ॥३॥

१३३३—भूतेऽपि दृश्यन्ते ॥ ३ । ३ । २ ॥

भूतकाल में भी उणादि प्रत्यय देखे जाते हैं । जैसे—वृत्तमिदं वर्त्म, चरितमिति चर्म । जो वर्त्त गया वह वर्त्म और जो चरित हो गया वह चर्म कहाता है । यह वृत्तु और चर धातु में भूतकाल में उणादिगणस्थ मनिन् प्रत्यय होता है ।

१३३४—भविष्यति गम्यादयः ॥ ३ । ३ । ३ ॥

भविष्यत्काल में 'गमिन्' आदि उणादि प्रत्ययान्त शब्द देखे जाते हैं । ग्रामं गमी । यहां गम्लु से उणादिस्थ इनि प्रत्यय भविष्यत्काल में होता है ।

१३३५—वा०—भविष्यतीत्यनद्यतन उपसंख्यानम् ॥

३ । ३ । ३ ॥

भविष्यत्काल में गम्यादिको के विधान में अनद्यतन का उपसंख्यान करना चाहिये । श्वो ग्रामं गमी । कल के दिन ग्राम को जाने वाला है ।

१३३६—दाशगोघ्नो संप्रदाने ॥ ३ । ४ । ७३ ॥

दाश और गोघ्न ये उणादिप्रत्ययान्त शब्द संप्रदान कारक में निपातन हैं। दाशन्ति यच्छन्ति यस्मै स दाश, गौर्हन्यते<sup>१</sup> यस्मै स गोघ्नः

१३३७—भीमादयोऽपादाने ॥ ३। ४। ७४ ॥

भीम आदि उणादिप्रत्ययान्त शब्द अपादान कारक में जानने चाहिये। विभेत्यस्मादिति भीमः, भीष्म. इत्यादि।

१३३८—ताभ्यामन्यत्रोणादयः ॥ ३। ४। ७५ ॥

संप्रदान अपादान से अन्यत्र अर्थात् और कारको में उण् आदि प्रत्यय हो। जि—जयतीति जायु इत्यादि।

१३३९—तुमुन् एवुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् ॥

॥ ३। ३। १० ॥

क्रियार्था क्रिया उपपद हो तो भविष्यत्काल में धातु से तुमुन् और एवुल् प्रत्यय हो। भुज+तुमुन्+सु+गच्छति=यहा तुमुन् के “उ, न” इनकी इत् संज्ञा और लोप होकर—

१३४०—कृन्मेजन्तः ॥ १। १। ५३ ॥

मान्त और एजन्त जो कृत्प्रत्यय तदन्त जो शब्द सो अव्यय संज्ञक हो। इस से अव्यय संज्ञा हो जाती है। भोक्तु गच्छति, पठितु गच्छति, सभां द्रष्टुं गच्छति।

१ यहा गौ शब्द आसन का पर्यायवाची है। हन धातु गति और हिसा अर्थ में पढी है। गति के तीन अर्थ हैं—गमन, प्राप्ति और ज्ञान। यहा प्राप्ति अर्थ है। इसका शब्दार्थ है जिसके बैठने के लिए आसन आदि प्राप्त कराया जावे। यह व्यवहार अर्थात् अभ्यागत के लिये आसनादि देना प्रत्येक सभ्य परिवारों में होता है। इस सामान्य अर्थ को छोडकर ‘गाय मारना’ रूपी अर्थ की कल्पना करना क्लिष्ट और अव्यवहारिक है। गो शब्द के अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं, तब केवल गाय अर्थ करना नितान्त अनुचित है।

यहां (१३३९) सूत्र मे जो एवुल् प्रत्यय का ग्रहण किया है इससे जानना चाहिये कि तुमुन् के विषय मे वासरूप विधि से वृजादिक नही होते हैं, क्योंकि जो वृजादिक होते तो वासरूप विधि से एवुल् (९७६) हो ही जाता ।

### १३४१—समानकर्त्तकेषु तुमुन् ॥३।३।१५८॥

इच्छा अर्थ वाले ममानकर्त्तक धातु समीपवर्ती हो तो धातु से तुमुन् प्रत्यय हो । इच्छति भोक्तुम्, कामयते भोक्तुम्, भोक्तुं वाञ्छति । समानकर्त्तकग्रहण स यहा न दृआ—पठन्त देवदत्तमिच्छति विष्णुमित्र । अक्रियार्थोपपद के लिए यह सूत्र है, इससे “इच्छत्येव भोक्तुम्” यहा भी तुमुन् होता है ।

### १३४२—शकधृषज्ञागलाघटरभलभक्रमसहार्हा-

स्वर्थेषु तुमुन् ॥ ३ । ४ । ६५ ॥

शक आदि धातु उपपद हो तो धातु से तुमुन् प्रत्यय हो । शक्नु—शक्नोति भोक्तुम् । शिवृषा—धृष्यांति भोक्तुम् । ज्ञा—जानाति भोक्तुम् । ग्लौ—ग्लायति भोक्तुम् । घट—घटते भोक्तुम् । रभ—भोक्तुमारभते । लभ—लभते भोक्तुम् । क्रम—भोक्तुं क्रमते । षह—भोक्तु सहते । अर्ह—भोक्तुमर्हति । अस्त्यथे—अस, भू, विद्—भोक्तुमस्ति, भोक्तुम् भवति, विद्यते भोक्तुम् । यह भी अक्रियार्थोपपद के लिये सूत्र है—“शक्यमेवं भोक्तुम्” यह भी तुमुन् होता है ।

### १३४३—पर्यासिवचनेष्वलमर्थेषु ॥३।४।६६॥

१ क्तव्युत्तुमुन्स्वर्थेषु वास्वरूपविधि नास्ति । पारि० ५९ ॥

परिपूर्णाता को कहने वाले अलमथे = सामर्थ्यवचन उपपद हो तो धातु से तुमुन् प्रत्यय हो। पयाप्तो भोक्तुम्, अल भोक्तुम्, भोक्तु पारयति, भोक्तु कुशल'। पयाप्तिवचनग्रहण से यहाँ न हुआ—अलं कृत्वा। अलमथेग्रहण से यहाँ न हुआ—पर्याप्तं भुङ्क्ते। यहाँ भोजन करने वाले की प्रभुता गम्यमान है।

### १३४४—कालसमयवेलासु तुमुन् ॥३।३।१६७॥

काल, समय और वेला ये शब्द उपपद हों तो धातु से तुमुन् प्रत्यय हो। कालो भोक्तुम्, भोक्तुम् वेला, भोक्तु समय'। यहाँ अष्टाध्यायी के क्रम से ( ७९१ ) सूत्र में से प्रेष, अतिसर्ग, प्राप्तकाल इन अर्थों का भी सम्बन्धानुवर्तन है, अर्थात् प्रेषादि अर्थों के ही विषय में यह तुमुन् होता है। इससे यहाँ न हुआ—काल' पचति, भूतानि काल सहरति प्रजा।

### १३४५—भाववचनाश्च ॥ ३।३।११॥

क्रियार्था क्रिया उपपद हों तो धातु से भविष्यत्-काल में भाव-वचन = भावाधिकार १३४६ विहित घञ् आदि प्रत्यय हो। यागाय याति, पाठाय गच्छति, पुष्टये प्रयतते। यज्ञ करने को वा पढ़ने को जाता और पुष्टि के लिए उत्तम यत्न करता है। यहाँ कर्म में चतुर्थी ( कारकीय ६१ ) से होती है। वचनग्रहण इसलिये है कि जिस जिस प्रकृति और नियम से जो जो प्रत्यय भावाधिकार में कहा है वह वह इस विषय में उन्हीं नियमों से हो। यद्यपि सामान्य विहित भाववचन क्रियार्थ क्रिया के विषय में हो जाते, परन्तु यहाँ वासरूपविधि के न होने से क्रियार्थोपपद विषयक तुमुन् के बाधने से नहीं होते हैं इसलिये यह ( १३४५ ) सूत्र कहा।

१३४६—अण् कर्मणि च ॥ ३ । ३ । १२ ॥

क्रियार्था क्रिया और कर्म उपपद हो तो धातु से भविष्यत्काल में अण् प्रत्यय हो। यहा चकार कर्म [ के ] सन्नियोग के लिए है अर्थात् जहा कर्म और क्रियार्थाक्रिया साथ रहे वहां यह अण् हो। काण्डानि लवितुं गच्छति—काण्डलावो गच्छति, अश्वं दातुं व्रजति—अश्वदायो व्रजति। परत्व से यह कादिको (१००३) को बाधता है।

१३४७—पदरुजविशस्पृशो घञ् ॥३।३।१६॥

पद आदि धातुओं से घञ् प्रत्यय हो। यहा से तीनो काल में प्रत्यय होते है। अर्थात् भविष्यत्काल की निवृत्ति है। पद्यतेऽसौ पाद, रुजत्यसौ रोगः, विशत्यसौ वेशः। इसी प्रकार 'पत्स्यते अपादि वा पादः' इत्यादि जानना चाहिये।

१३४८—वा०—स्पृश उपतापे ॥ ३ । ३ । १६ ॥

उक्त घञ् प्रत्यय स्पृश धातु से उपताप अर्थ में हो यह कहना चाहिये। स्पृशतीति स्पर्श उपतापः। कष्ट को कहते है। उपतापग्रहण से यहां न दुःखा—रुम्बलस्य स्पर्श कम्बलस्पर्शः। यहां पचाद्यच् (९७७) हो जाता है।

१३४९—सृ स्थिरे ॥ ३ । ३ । १७ ॥

सृ धातु से स्थिर कर्ता में घञ् प्रत्यय हो। स्थिर शब्द से चिरकालस्थायी का ग्रहण है। यश्चिरं तिष्ठन् कालान्तरं सरति प्राप्नोति स सारः। जो चिरकाल ठहरा हुआ कालान्तर को प्राप्त होता है वह सार कहाता है स्थिर ग्रहण से यहां न दुःखा—सर्ता, सारक (९७६)।

१३५०—वा०—व्याधिमत्स्यबलेष्विति

वक्तव्यम् ॥ ३ । ३ । १७ ॥



व्याधि, मत्स्य और बल अर्थ मे सृ धातु से घञ् प्रत्यय कहना चाहिये । अत्यन्त सरति अतिसारो व्याधि । विविधं सरति इतस्ततो जलेऽटति विसारो मत्स्यः । शाल इव सरति शालसारः, खदिरसार. बलम् ।

१३५१—भावे ॥ ३ । ३ । १८ ॥

भाव वाच्य हो तो धातु से घञ् प्रत्यय हो । यहा यह जानना चाहिये कि क्रियासामान्यवाची भू धातु है इससे अर्थ निर्देश क्रिया हुआ सर्वधातुविषयक होता है । भाव अर्थात् धात्वर्थ सो भी धातु से ही कहा जायगा इसलिये धातु के सिद्ध प्रयोग से जो धात्वर्थ निष्पन्न होता है वह वाच्य हो तो घञ् होता है । जैसे—कारः, हारः इत्यादि ।

१३५२—स्फुरतिस्फुलत्पोर्घञि ॥ ६ । १ । ४७ ॥

घञ् प्रत्यय परे हो तो स्फुर, स्फुल इन धातुओं के एच् के स्थान मे आकारादेश हो । स्फार, स्फाल ।

— १३५३—इकः काशे ॥ ६ । ३ । १२३ ॥

काश उत्तरपद परे हो तो इगन्त उपसर्ग को दीर्घादेश हो । नीकाश, अनूकाशः । यहा “काश दीप्तौ” धातु से घञ् हुआ है । इगन्त ग्रहण से यहां दीर्घ नहीं होता—प्रकाशः ।

१३५४—स्यदो जवे ॥ ६ । ४ । २८ ॥

घञ् प्रत्यय परे हो और जव=वेग अभिधेय हो तो ‘स्यद’ यह निपातन है । गोस्यदः । यहां “स्यन्दू प्रसवणे” धातु से घञ् प्रत्यय, नलोप और ( १२६ ) से प्राप्त वृद्धि का अभाव निपातन है । ‘जव’ ग्रहण से “घृतस्यन्द.” यहां नलोप नहीं होता ।

१३५५—अवोदैधौद्मप्रश्रथहिमश्रथाः ॥

६ । ४ । २६ ॥

नलोपविषय में अबोध, एध, ओद्ध, प्रश्रथ, हिमश्रथ ये निपातन हैं। अबोध । यहां अबपूर्वक “उन्दी क्लेदने” धातु से घञ् प्रत्यय के परे नलोप निपातन है। एध । यहां “बिइन्वी दीप्तौ” से घञ् प्रत्यय के परे नलोप और गुणादेश निपातन है। अन्यथा (५५४) सूत्र से गुणप्रतिषेध प्राप्त है। ओद्धः, “उन्दी” धातु का नलोप और गुणादेश उणादिगणस्थ मन् प्रत्यय के परे निपातन है। प्रश्रथ — यहां श्रन्थ धातु के नकार का लोप और वृद्धि का न होना निपातन है इसी प्रकार हिमपूर्वक श्रन्थ से “हिमश्रथः” सिद्ध होता है।

### १३५६—अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम् ॥

३।३।१६।।

कर्ताभिन्न कारक में भी संज्ञाविषय में घञ् प्रत्यय हो। प्रसान्वयत इति प्रसेव । आहरन्ति रस यस्मात् स आहार । अकर्त्तृ-प्रहण से यहां न हुआ—“मिष स्पर्धायाम्—मिषत्यसौ मेषः” मेढा का नाम है। यहां अच् हो जाता है<sup>१</sup>। संज्ञाप्रहण से यहां न हुआ—कर्त्तव्यः कटः, गन्तव्यो मार्ग । संज्ञा से अन्यत्र भी घञ् होने के लिए चकार<sup>२</sup> है इससे यहां भी होता है—को लाभो भवता लब्ध ।

### १३५७—घञि च भावकरणयोः ॥६।४।२७॥

भावकरणवाची घञ् प्रत्यय परे हो तो रञ्ज धातु के उपधा नकार का लोप हो। भाव में—रञ्जनं रागः । करण में—रञ्जतेऽ-ज्ञैनेति रागः । भावकरणप्रहण से यहां नलोप न हुआ—रञ्जत्य-स्मिन्निति रङ्गः । यहां से आगे अष्टाध्यायी के क्रम से “कृत्यल्युटो

१. यद्यपि घञ् और अच् में रूपभेद नहीं होता, तथापि घञ् होने से आद्युदात्त और अच् होने से अन्तोदात्त होता है ।

२. अर्थात् चकार से भाव का सप्रह होता है ।

बहुलम्” सूत्र पर्यन्त “भावे, अकर्त्तरि, कारके” इन पदो का अधिकार है ।

१३५८—परिमाणारूपायां सर्वेभ्यः ॥ ३।३।२०॥

परिमाण का कथन हो तां सब धातुओं से घञ् प्रत्यय हो ।  
चिञ्—एकस्तण्डुलनिचायः, तण्डुलाना निचायस्तण्डुलनिचायः ॐ ।  
पृञ्—द्वौ शूर्पनिष्पावौ, कृ विक्षेपे—द्वौ कारौ, त्रय. कारा. । परिमा-  
णारूप्या ग्रहण से यहां न हुआ—निश्चयः ।

१३५९—वा०—दारजारौ कर्त्तरि णिलुक् च ॥

३।३।२०॥

दार, जार ये दोनो प्रयोग कता मे कहने चाहिये, और इनके  
विषय मे णिच् प्रत्यय का लुक् भी कहना चाहिये । इ विदारणे—  
दारयन्तीति दारा । जृष् वयोहानौ—जारयन्तीति जारा. ।

१३६०—वा०—करणे वा ॥ ३।३।२०॥

अथवा करण कारक मे दार जार शब्द कहने चाहिये । इस  
पक्ष मे णिलुक् नहा है । दीर्यन्ते तैदोराः, जीर्यन्ते तैर्जाराः ।

१३६१—इडश्च ॥ ३।३।२१॥

इड् धातु से घञ् प्रत्यय हो । यह वक्ष्यमाण अच् का अपवाद  
है । उपेत्यस्मादधीत इत्युपाध्यायः । यहां [ इड् ] धातु से अपा-  
दान मे घञ् प्रत्यय है ।

१ आ० ९२० ।

ॐ यह चावला की ढेरी अर्थात् मन आदि परिमाण से पूर्ण है ।  
जितना एक बार शूर्प से शुद्ध किया जासके उतना परिमाण शूर्पनिष्पाव  
कहाता है । दो शूर्पनिष्पाव अर्थात् दो बार शूर्प से जितना शुद्ध हो  
सके उतना धान्य है, दो कार अर्थात् दो बार शूर्प आदि से किरा जाय  
उतना धान्य है ।

१३६२—वा०—इडश्चेत्यपादाने स्त्रियामुपसंख्यानं

तदन्ताच्च वा डीष् ॥ ३ । ३ । २१ ॥

“इडश्च” इस विषय मे स्त्रीलिङ्ग मे [ अपादान कारक मे ] घञ् प्रत्यय का उपसंख्यान करना [ चाहिये ] और उस घञ् प्रत्ययान्त से विरूप करके डीष् प्रत्यय कहना चाहिये । उपेत्याधी-यतेऽस्या उपाध्यायी, उपाध्याया ( स्त्रैण० ८९ ) ।

१३६३—वा०—शृ वायुवर्णनिवृत्तेषु ॥३।३।२१॥

“शृ” इस धातु से वायु, वर्ण, निवृत्त ( आवरण—आच्छादन ) इन अर्थों मे घञ् प्रत्यय कहना चाहिये । शृ हिसायाम्—शृणात्य-नेनेति शारो वायुः । करण मे घञ् है । शीर्यते चित्रीक्रियतऽनेनेति शारो वर्णः । गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः । निशीर्यते निव्रियते आच्छाद्यतेऽनेनेत नीशार । निवृत्तम्—अकृतनीशारः । जिसने छप्पर आदि नही छवाया [ या कपड़ा आदि नही ओढ़ता ] वह पुरुष प्रायः करके शिशिर ऋतु मे गौ के तुल्य दुबला हो जाता है ।

१३६४—उपसर्गे रवः ॥ ३ । ३ । २२ ॥

उपसर्ग उपपद हो तो रू धातु से घञ् प्रत्यय हो । संरावः । उपसर्ग प्रहण से यहा न हुआ—रवः । यहा ( १४०३ ) अप हो जाता है ।

१३६५—समि युद्रुदुवः ॥ ३ । ३ । २३ ॥

सम् उपपद हा तो यु, द्रु, दु इन धातुओं से घञ् प्रत्यय हो । सं यूयते मिश्रीक्रियते गुडार्वाभरिति संयावः । सीठी पूडी आदि का नाम है । सन्द्रावः, सन्दावः ।

१३६६—अणीभुवोऽनुपसर्गे ॥३।३।२४॥

उपसर्ग उपपद हो तो श्रि, णि, भू इन धातुओं से घञ् प्रत्यय हो ।  
आय , नाय , भावः । उपसर्ग निषेध से यहाँ न हुआ—प्रश्रयः,  
प्राणय', प्रभवः । 'प्रभावः' यह तो प्रादिसमास से होता है तथा  
“नयः पृथिवीपतेः” यह कृत् संज्ञको के बहुलभाव से होता है ।

१३६७—वौ लुश्रुवः ॥ ३ । ३ । २५ ॥

वि उपपद हो तो लु, श्रु इन धातुओं से घञ् प्रत्यय हो ।  
विज्ञाव , विश्रावः । वि ग्रहण से यहाँ न हुआ—ज्ञव., श्रवः ।

१३६८—अवोदोर्नियः ॥ ३ । ३ । २६ ॥

अव, उद ये उपसर्ग उपपद हो तो नी धातु से घञ् प्रत्यय हो ।  
अवनाय. । नीचे को पहुँचाना । उनाय. । ऊपर को पहुँचाना ।

१३६९—प्रे द्रुस्तुस्रवः ॥ ३ । ३ । २७ ॥

प्र उपपद हो तो द्रु, स्तु, स्रु इन धातुओं से घञ् प्रत्यय हो ।  
प्रद्राव , प्रस्ताव , प्रसाव. । प्र ग्रहण से यहाँ न हुआ—द्रवः, स्रवः,  
स्तवः । यहाँ वक्ष्यमाण अप् ( १४०३ ) से हो जाता है ।

१३७०—निरभ्योः पून्वोः ॥ ३ । ३ । २८ ॥

निर् अभि ये यथासख्य उपपद हो तो पू लू इन धातुओं से  
घञ् प्रत्यय हों । “पू” यह सामान्य ‘पूङ् पूव्’ दोनों का ग्रहण है ।  
निर् पू—निष्पूयते शूर्पादिभिर्य स निष्पावः । यह किसी धान्यविशेष  
का नाम है । अभिलावः ।

१३७१—उन्घोर्ग्रः ॥ ३ । ३ । २९ ॥

उद् और नि उपपद हो तो ग धातु से घञ् प्रत्यय हो । ग  
शब्दे, ग निगरणे—उद्+ग—उद्गारः समुद्रस्य । नि+ग—  
निगारो मनुष्याणाम् । उद्, नि ग्रहण से यहाँ न हुआ—गरः ।  
अप् ( १४०३ ) हो जाता है ।

१३७२—कृ धान्ये ॥ ३ । ३ । ३० ॥

धान्य अर्थ मे वर्तमान जो उद् नि पूर्वक कृ धातु उससे घब् प्रत्यय हो । कृ विक्षेपे—उत्कारो निकारो वा धान्यस्य । धान्य का ऊपर को किराना वा एक तार किराना । धान्य से अन्यत्र—भैक्ष्योःकरः, पुष्पनिकरः । फूलो का समूह ।

१३७३—यज्ञे समि स्तुवः ॥ ३ । ३ । ३१ ॥

यज्ञ अथ मे सम् पूर्वक स्तु धातु से घब् प्रत्यय हो । समेत्य स्तुवन्ति छन्दोगा यस्मिन् देशे स देश सस्तावः । यहा अधिकरण में घब् प्रत्यय है । यज्ञ से अन्यत्र—सस्तवः, परिचयः ।

१३७४—प्रे स्त्रोऽयज्ञे ॥ ३ । ३ । ३२ ॥

प्र उपपद हो तो यज्ञभिन्न अर्थ मे स्तव् धातु से घब् प्रत्यय हो । स्तव् आच्छादने—छन्दसा प्रस्तारः, मणिप्रस्तारः । अयज्ञग्रहण से यहाँ न हुआ—बर्हिषः प्रस्तरः । कुशो की मूठी ।

१३७५—प्रथने वावशब्दे ॥ ३ । ३ । ३३ ॥

अशब्दविषयक प्रथन = विस्तीर्णता गम्यमान हो और वि उपपद हो तो स्तव् धातु से घब् प्रत्यय हो । पटस्य विस्तारः । प्रथन ग्रहण से यहाँ न हुआ—अय तृणविस्तरः । यह तृण अर्थात् कुश आदि का बिछावना है । अशब्दग्रहण से यहाँ न हुआ—वचसा विस्तरः, प्रन्थविस्तरः । इन मे अगला अप् प्रत्यय (१४०३) से हो जाता है ।

१३७६—छन्दोनाग्नि च ॥ ३ । ३ । ३४ ॥

छन्दोनाम वाच्य हो तो विपूर्वक स्तव् धातु से घब् प्रत्यय हो । यहाँ छन्दस् शब्द से गायत्री आदि छन्दो का ग्रहण है । विस्तीर्यन्ते-

ऽस्मिन्नक्षराणि स विष्टारः, विष्टार च तत् पङ्क्तिश्छन्दः विष्टारपङ्क्तिश्छन्दः । विष्टारबृहती छन्दः । यहा ( ८४२ ) सूत्र से शत्व होता है ।

१३७७—उदि ग्रहः ॥ ३ । ३ । ३५ ॥

उद् उपपद हो तो ग्रह धातु से घञ् प्रत्यय हो । उद्ग्राह ।

१३७८—वा०—उद्ग्राभनिग्राभौ च छन्दसि

सुगुद्यमननिपातनयोः ॥ ३ । ३ । ३५ ॥

सुच् ( हवन करने के पात्र ) का उठाना [ और ] धरना अर्थ है तो [ यथासंख्य ] उद्ग्राभ, निग्राभ ये निपातन हैं । यहां उद् नि पूर्वक ग्रह धातु से भाव में घञ् और उसके हकार को भकार आदेश हुआ है ।

१३७९—समि मुष्टौ ॥ ३ । ३ । ३६ ॥

सम् उपपद हो तो मुष्टिविषय = पञ्जा लडाने अर्थ में ग्रह धातु से घञ् प्रत्यय हो । अहा मल्लस्य संग्राह, अहो मुष्टिकस्य संग्राहः । मुष्टिग्रहण से यहा न हुआ—द्रव्यस्य संग्राहः ।

१३८०—परिन्योर्नीणोर्नूनाभ्रेषयो । ३ । ३ । ३७ ॥

द्यूत अर्थ में परिपूर्वक णीञ् और अभ्रेष = उचित करने अर्थ में निपूर्वक इण् धातु से घञ् प्रत्यय हो । द्यूत—परिणयनं परिणायः, परिणायेन शारान् हन्ति । सब ओर से एर फेर से पाशाओ को छीनता ऋपटता है । अभ्रेष—एषोऽत्र न्यायः । द्यूताभ्रम से अन्यत्र—परिणयो विवाहः, न्ययो नाशः ।

१३८१—परावनुपात्यथ इणः ॥ ३ । ३ । ३८ ॥

अनुपात्यय अर्थ मे परिपूर्वक इण् धातु से घञ् प्रत्यय हो। तव पर्यायः, मम पर्यायः। अनुपात्यय ग्रहण से यहाँ न हुआ— कालस्य पर्यय। काल का व्यतीत होना।

१३८२—व्युपयोः शेतेः पर्याये ॥ ३।३।३६॥

पर्याय गम्यमान हो तो वि, उप पूर्वक शीङ् धातु से घञ् प्रत्यय हो। तव विशयः = तुम्हारा जागना। मम विशयः = मेरा जागना। तव राजोपशयः = तुम्हारा राजा के समीप सोना। मम राजोपशय = मेरा राजा के समीप सोना। पर्यायग्रहण से यहाँ न हुआ— विशय, उपशय।

१३८३—हस्तादाने चेरस्तेये ॥ ३।३।४०॥

अस्तेय अर्थात् चोरी से अन्यत्र जो हाथ से ग्रहण करना उस अर्थ मे चिञ् धातु से घञ् प्रत्यय हो। पुष्पप्रचायः, फलप्रचायः = पुष्प, फलों का हाथ से इकट्ठा करना। हस्तादान से अन्यत्र— दण्डेन फलसंचयं करोति। यहाँ घञ् नहीं होता। अस्तेयग्रहण से यहाँ नहीं होता—चौर्येण फलप्रचय।

१३८४—निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वदेश्च

कः ॥ ३।३।४१॥

निवास = अच्छे प्रकार जिसमे वसे, चिति = चिनी जाना शरीर, उपसमाधान = ढेर लगाना इन अर्थों मे चिञ् धातु से घञ् प्रत्यय और धातु के आदि चकार को ककार आदेश हो। निवास—निवसत्यस्मिन्निति निकायः। कश्मीरनिकायः। चिति—आचीयतेऽसावित्याकाय। जो अच्छे प्रकार चिना जाय वह आकाय कहाता है। आकायमग्नि चिन्वीत। शरीर—चायतेस्मिन् सकथ्यादिकमिति कायः। उपसमाधान—धान्यनिकाय।



१३८५—सङ्घे चानौत्तराधये ॥३३॥४२॥

अनौत्तराधय = ऊपर नीचे न होना विषयक जो संघ = प्राणियों का एकत्र होना उम अर्थ में चिञ् धातु में घञ् प्रत्यय और उसके आदिभूत चकार को क आदेश हो । ब्राह्मणनिकायः, भिक्षुनिकायः, वैयाकरणनिकायः । अनौत्तराधय प्रहण से यहाँ न हुआ—सूकर-निचयः । प्रायः सूकर साते हुए एक दूसरे के ऊपर भी हो रहते हैं । प्राणिविषयकसघ लेने में यहाँ न हुआ—ज्ञानकर्मलमुच्चय ।

१३८६—कर्मव्यतिहारे णच् स्त्रियाम् ॥३३॥४३॥

कर्मव्यतिहार = क्रिया का परस्पर होना गम्यमान हो तो स्त्रीलिङ्ग में धातु में णच् प्रत्यय हो । यह भाव में होता है । 'वि + अव + क्रुश + णच्' यहाँ ( स्त्रै० ८२२ ) सूत्र से स्वार्थ में ताद्धित अच् प्रत्यय होकर "व्यवक्रुश + अ + अ" इस अवस्था में ( स्त्रै० ९१९ ) सूत्र से ऐच् प्राप्त हुआ उसका ( स्त्रै० ९२२ ) निषेध होकर ( स्त्रै० १६७ ) सूत्र से वृद्धि तथा ( स्त्रै० ३५ ) सूत्र से ङीप् प्रत्यय हो जाता है । व्यावक्रोशी, व्यावहासी । स्त्रीप्रहण से यहाँ न हुआ—व्यातपाको वर्त्तते । कर्मव्यतिहार से अन्यत्र—क्रोशो वर्त्तते ।

१३८७—अभिविधौ भाव इनुण् ॥३३॥४४॥

अभिविधि ( अभिव्याप्ति अर्थान् क्रिया और गुणों से पारपूर्ण सम्बन्ध ) अर्थ हो तो धातु से भाव में इनुण् प्रत्यय हो । समन्ताद् रवणं, समन्ताद् रूयत इति वा साराविणम् । यहाँ लम्पूर्वक 'रु' धातु से इनुण् और उसके परे धातु को वृद्धि ( ६१ ) तदनन्तर 'संराविन्' शब्द से स्वार्थ में अण् और अण् के परे आदि अच् को ( स्त्रै० १६७ ) वृद्धि और अण् के पूर्व को प्रकृतिभाव ( स्त्रै० ९०१ ) सूत्र से हो जाता है । साराविणं वर्त्तते । अभिविधिप्रहण से यहाँ न

हुआ—संरावः । इत्यादिको मे घब् हो जाता है । भाव वर्तमान था फिर भाव इसलिये है कि वासरूपविधि से अभिविधिविषयक भाव मे घब् न हो, परन्तु वक्ष्यमाण ल्युट् प्रत्यय तो हांता है ।

१३८८—आक्रोशोऽवन्योर्ग्रहः ॥ ३ । ३ । ४५ ॥

आक्रोश = अच्छे प्रकार कोसना अर्थ गम्यमान हो तो अव, नि पूर्वक ग्रह धातु से घब् प्रत्यय हो । अवग्राहो वृषल ते भूयात्, निग्राहो हन्त ते वृषल । भूयात् । आक्रोशग्रहण से यहा न हो—अवग्रह' पदस्य, पद का विग्रह । निहग्रहोरस्य, चोर का बाधना ।

१३८९—प्रे लिप्सायाम् ॥ ३ । ३ । ४६ ॥

लाभ की इच्छा गम्यमान हो तो प्रपूर्वक ग्रह धातु से घब् प्रत्यय हो । पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षुः । लिप्सा ग्रहण से यहा न हुआ—प्रग्रह पात्राणाम् ।

१३९०—परौ यज्ञे ॥ ३ । ३ । ४७ ॥

परि उपसर्ग उपपद हो तो ग्रह धातु से यज्ञ अर्थ मे घब् प्रत्यय हो । उत्तर—परिग्राहः, स्प्येन वेदेर्भवात्<sup>१</sup> । यज्ञ से अन्यत्र—परिग्रहो देवदत्तस्य ।

१३९१—नौ वृ धान्ये ॥ ३ । ३ । ४८ ॥

धान्य अभिधेय हो और नि उपसर्ग उपपद हो तो वृब् वा वृङ् धातु से घब् प्रत्यय हो । नीवाराः व्रीहयः । यहा “उपसर्गस्य

१. वेदि का स्थान नापकर 'स्प्य' से उस नपी हुई भूमि पर चिह्न करना परिग्राह कहाता है । काण्व शतपथ में परिग्राह के स्थान पर परिग्रह का प्रयोग करता है ।

घञ्यमनुष्ये बहुलम्<sup>१</sup> इस सूत्र से नि को दीर्घ हो गया । धान्य से अन्यत्र—निवरा कन्या । यहा अगला अप् ( १४०३ ) प्रत्यय हो जाता है ।

१३६२—उदि अयतिथौतिपूद्रुवः ॥३।३।४६॥

उद् उपपद हो तो श्रिब् यू पू द्रु इन धातुओ से घब् प्रत्यय हो । श्रिब्—उच्छाय । यु—उद्याव । पूब्, पूड्—उत्पाव । दु—उद्दावः ।

१३६३—विभाषाङि रुण्त्वोः ॥३।३।५०॥

आङ् उपपद हो तो रु और प्लु धातु से विकल्प करके घब् प्रत्यय हो । आराव, आरव, आप्ताव., आप्लव. ।

१३६४—अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे ॥३।३।५१॥

वर्षा का प्रतिबन्ध अभिधेय हो और अव उपपद हो तो ग्रह धातु से विकल्प करके घब् प्रत्यय हो । अपने समय मे हो रही जो वर्षा है उसका किसी कारण से जो अभाव होना उसको वर्षप्रतिबन्ध कहते है । अवग्रहो देवस्य, अवग्रहो देवस्य । वर्षप्रतिबन्धग्रहण से यहा न हुआ—अवग्रह पदस्य ।

१३६५—प्रे वणिजाम् ॥ ३ । ३ । ५२ ॥

वणिज् सम्बन्धी प्रत्ययार्थ हो तो प्रपूर्वक ग्रह धातु से विकल्प करके घब् प्रत्यय हो । तुलाग्रहोण चरति तुलाग्रहोण वा चरति । यहा वणिक् सम्बन्धी तुलासूत्र का ग्रहण है अर्थात् तुला=तखरी—तक आदि जिससे ग्रहण करी जाय उस सूत्र को पकडकर चलता है । वणिग्रहण से यहा न हुआ—प्रग्रहो धनस्य ।

१३६६—रश्मौ च ॥ ३ । ३ । ५३ ॥

रश्मि अभिधेय हो और प्र शब्द उपपद हो तो ग्रह धातु से विभाषा घञ् प्रत्यय हो । प्रग्रह, प्रग्राह । रथ मे जुड़े हुए घोड़ों की बागो ( लगामो ) को कहते है ।

१३६७—वृणोतेराच्छादने ॥ ३ । ३ । ५४ ॥

प्र उपपद हो तो वृञ् धातु से आच्छादन अर्थ मे घञ् प्रत्यय हो । प्रवार, प्रवर । आच्छादन ग्रहण से यहां न हुआ—प्रवरा ( १४०३ ) गौ ।

१३६८—परौ भुवोऽवज्ञाने ॥ ३ । ३ । ५५ ॥

परि उपपद हो तो अवज्ञान=तिरस्कार अर्थ मे भू धातु से घञ् प्रत्यय हो । परिभवः, परीभाव 'उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्'<sup>१</sup> इससे दीर्घ । परिभवः । अवज्ञान से अन्यत्र—परितः सर्वतो भवनं परिभवः । यहां अप् हो जाता है ।

१३६९—एरच् ॥ ३ । ३ । ५६ ॥

इवर्णान्त धातु से अच् प्रत्यय हो । चिञ्—चय । जि—जयः । क्षि—क्षय । भाव और कर्ताभिन्न कारक का अधिकार है, इसलिए प्रकरण के उक्त अनुक्त सब प्रत्यय भाव वा कर्ताभिन्न कारको मे प्राय होते हैं ।

१४००—वा०—भयादीनामिति वक्तव्यम् ॥

३ । ३ । ५६ ॥

भयादि शब्दों की सिद्धि अच् प्रत्यय से कहनी चाहिये । निभी-भयम् । वृषु—वर्षम् । नपुंसकलिङ्ग भाव मे क्त प्रत्यय वहेगे उसकी

निवृत्ति के लिए यह वार्तिक है, परन्तु 'वृषभो वर्षणात्' इस भाष्यवचन से वर्षण शब्द तो भाव में होता ही है।

१४०१-वा०-कल्प्यादिभ्यः प्रतिषेधः ॥३।३।५६॥

कल्पि आदि धातुओं से अच् प्रत्यय का प्रतिषेध कहना चाहिये। 'कल्पि' यह गिजन्त 'कृप्' सामर्थ्ये है। कृप् + गिच् + घञ् + सु = कल्प., अर्थ, मन्त्र। ये भी गिजन्तो से है। गिजन्त सब इवर्णान्त हो जाते हैं इसलिये कल्पि आदि से अच् ❀ प्राप्त था उसके प्रतिषेध में घञ् हो जाता है।

१४०२-वा०-जवसवौ ङ्दसि वक्तव्यौ ॥

३।३।५६॥

वेदविषय में जव, सव ये अच् प्रत्ययान्त कहने चाहियें। 'जु' सौत्र धातु है, उससे 'जु + अच् + सु = जव' होता है। ऊर्वोरस्तु में जव। 'षु' वा 'षू' धातु से अच् होकर—'सव' होता है। अर्थ में पञ्चौदन सवः। यह अच् विधान अन्तोदान्त (सौवर ३४) स्वर के लिए है क्योंकि 'जवः, सव' प्रयोग अप् से भी सिद्ध थे।

१४०३-ऋदोरप् ॥ ३।३।५७॥

ऋकारान्त और उवर्णान्त धातुओं से अप् प्रत्यय हो। क—करः। शू—शरः। यु—यवः। लू—लवः। पू—पवः। 'ऋदां०' यहा ऋ और उकार का अलग २ उच्चारण होने के लिए दकार के साथ निर्देश है किन्तु तपर करण [ के लिये ] नहीं है।

१. महाभाष्य अ० १, पाद १, वा० १ ॥

❀ किन्हीं नवीनपन्था वालों का यह भी सिद्धांत है कि 'एरच्' यह अप्यन्त। से होता है प्यन्तो से नहीं होता। सो उनका कथन भाष्यविरुद्ध है।

१४०४—ग्रहवृट्निश्चिगमश्च ॥ ३ । ३ । ५८ ॥

ग्रह, वृ, ट, निश्चि, गमलु इनसे अप् प्रत्यय हो । यह घब् और अच् का अपवाद है । ग्रह—ग्रहः । वृ—वरः । ट—दरः । निस्+चि=निश्चयः । गमलु—गम ।

१४०५—वा०—वशिरणयोश्चोपसंख्यानम् ॥

३ । ३ । ५८ ॥

अप प्रत्यय के विधान में वश और रण धातु की भी गणना करनी चाहिये । वशन वशः, सत्रश सैन्धवम्, रणऽन्त्यस्मिन्निति, रणः, धनजयं रणे रणे ।

१४०६—वा०—घञर्थे कविधानं स्थास्नापाव्यधि-

हनियुध्यर्थम् ॥ ३ । ३ । ५८ ॥

स्था, स्ना, पा, व्यधि, हन, युध आदि धातुओं के लिये घञर्थे ( भाव, कर्ताभिन्न कारक ) में क प्रत्यय का विधान करना चाहिये । प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन् धान्यानीति प्रथ, प्रस्थे हिमवतः शृङ्गे, प्रस्नान्ति अस्मिन्निति प्रस्नः, प्रपिबन्त्यस्यामिति प्रपा, आविध्यन्ति तेनाविधः, विघ्नन्ति तस्मिन्मनांसि विघ्न, आयुध्यन्ते तेनायुधम् ।

१४०७—वा०—द्विर्वचनप्रकरणे कृआदीनां क

उपसंख्यानम् ॥ ६ । १ । ११ ॥

क प्रत्यय के परे द्विर्वचनप्रकरण में कृब् आदि धातुओं की गणना करनी चाहिये । अर्थात् क प्रत्यय के कृवादिओं को द्वित्व हो । यह वार्तिक ६ । १ । ११ सूत्र के व्याख्यान में पढ़ा है । कृब्+क+सु=चक्रम्, किलदू+क+सु=चिकिलदम्, वनसु ह्ररणादीप्त्योः—वनसु+क+सु=चवनस ।

१४०८—उपसर्गेऽदः ॥ ३ । ३ । ५६ ॥

उपसर्ग उपपद हो तो अद धातु से अप् प्रत्यय हो । 'प्र+अद+अप्+सु' इस अवस्था में—

१४०९—घञपोश्च ॥ २ । ४ । ३८ ॥

घञ् और अप् प्रत्यय परे हो तो अद धातु को घस्तु आदेश हो । घस्तु आदेश होकर—प्रघस । जहां उपसर्ग पूर्व नहीं है वहां भी 'अद+घञ्+सु=घासः' घञ् के परे घस्तु आदेश हो जाता है ।

१४१०—नौ ण च ॥ ३ । ३ । ६० ॥

नि उपपद हो तो अद धातु से ण और अप् प्रत्यय हो । नि+अद+ण+सु=न्यादः, नि+अद+अप्+सु=निघसः ।

१४११—व्यधजपोरनुपसर्गे ॥ ३ । ३ । ६१ ॥

उपसर्गभिन्न जो व्यध और जप धातु उन से अप् प्रत्यय हो । व्यधः, जपः । अनुपसर्गग्रहण से यहा नहुआ-आव्याधः, आजापः । यहां घञ् प्रत्यय ( १३५१ ) से हो जाता है ।

१४१२—स्वनहसोर्वा ॥ ३ । ३ । ६२ ॥

उपसर्ग उपपद न हो तो स्वन और हस धातु से विकल्प करके अप् प्रत्यय हो । स्वनः, स्वानः, हस, हासः । विकल्पपक्ष मे घञ् हो जाता है । अनुपसर्ग ग्रहण से यहां अप् नहीं होता-प्रस्वानः, प्रहासः ।

१४१३—यमः समुपनिविषु च ॥ ३ । ३ । ६३ ॥

सम्, उप, नि, वि उपसर्ग उपपद हो वा न हो तो यम् धातु से विकल्प करके अप् प्रत्यय हो। संयमः, संयामः, उपयम, उपयामः, नियमः, नियामः, वियमः, वियाम, यमः, यामः। विकल्प पक्ष मे ध्व् हो जाता है। [ अनुपसर्ग मे यमः, याम' ]।

१४१४—नौ गदनदपठस्वनः ॥ ३ । ३ । ६४ ॥

नि उपसर्ग उपपद हो तो गद, नद, पठ, स्वन इन धातुओं से विकल्प करके अप् प्रत्यय हो। निगदः, निगादः, निनद, निनादः, निपठ, निपाठ, निस्वन, निस्वान।

१४१५—कणो वीणायां च ॥ ३ । ३ । ६५ ॥

नि उपसर्ग उपपद हो वा न हो तो क्वण धातु से तथा वीणा-र्थविषयक जो क्वण धातु उससे अप् प्रत्यय विकल्प करके हो और भी उपसर्गों के ग्रहण के लिये वीणा अर्थविषयक से विधान है। क्वण—निक्वणः, निक्वाण, क्वणः, क्वाणः। वीणा अर्थ में—प्रक्वणः, प्रक्वाण। इन सब से अन्यत्र—अतिक्वाणो वर्त्तते।

१४१६—नित्यं पणः परिमाणे ॥ ३ । ३ । ६६ ॥

परिमाण गम्यमान हो तो पण धातु से नित्य अप् प्रत्यय हो। पण व्यवहारे स्तुतौ च—मूलकपणः, शाकपणः। बेचने आदि के लिए परिमाण से मूली वा शाक आदि की जो गड़िया बांधना उसको कहते हैं। परिमाण से अन्यत्र—पाण।

१४१७—मदोऽनुपसर्गे ॥ ३ । ३ । ६७ ॥

उपसर्ग उपपद न हो तो मद धातु से अप् प्रत्यय हो। विद्या-मदः, धनमदः, कुलमद। अनुपसर्ग ग्रहण से यहां न हुआ—उन्मादः, प्रमादः।



१४१८—प्रमदसंमदौ हर्षे ॥ ३ । ३ । ६८ ॥

प्रमद, संमद ये दोनो हर्ष अर्थ मे निपातन है। मदी हर्षे-प्रमदः, संमदः। हर्षप्रहण से यहां न हुआ—प्रमादः, संमादः।

१४१९—समुदोरजः पशुषु ॥ ३ । ३ । ६९ ॥

सम् और उद् उपसर्ग उपपद हो तो पशुविषय मे वर्तमान अज धातु से अप् प्रत्यय हो। अज गतिक्षेपणयो—सम् पूर्वक अज धातु समुदाय अर्थ को कहता है। पशूना समजः। पशुओ का समुदाय। पशूनामुदज। पशुओ को प्रेरणा देना अर्थात् हांकना आदि। पशु-प्रहण से यहां नहीं होता—ब्राह्मणानां समाज, आर्यसमाजः, क्षत्रियाणामुदाजः।

१४२०—अक्षेषु ग्लहः ॥ ३ । ३ । ७० ॥

अक्षविषय मे ग्रह धातु से अप् प्रत्ययान्त 'ग्लह' यह निपातन है। अक्षस्य ग्लहः। पाशाओ का ग्रहण करना। ग्रह धातु (१४१४) से अप् प्रत्यय सिद्ध है। तथापि उसके रेफ को लकारादेश करने के लिए यह निपातन किया है। अक्ष ग्रहण से यहां न हुआ—केशग्रह।

१४२१—प्रजने सर्त्तः ॥ ३ । ३ । ७१ ॥

प्रजन ( प्रथम गर्भधारण ) विषय मे सृ धातु से अप् प्रत्यय हो। गवामुपसर। प्रथम गर्भधारण कराने के लिए गौ के समीप बैल का जाना। अवसरः, प्रसरः। इत्यादि तो (१४९३) सूत्र से होंगे।

१४२२—हः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु ॥ ३ । ३ । ७२ ॥

नि, अभि, उप, वि ये उपपद हो तो ह्येच् धातु से अप् प्रत्यय और उसको संप्रसारण हो। नि + ह्येच् + अप् + सु = निहवः, अभि + ह्येच् + अप् + सु = अभिहव, उप + ह्येच् + अप् + सु = उपहवः, वि +

ह्वेन्+अप्+सु=विहव । अन्यत्र—प्र+ह्वेन्+घञ्+सु=प्रहायः ।  
घञ् हो जाता है ।

१४२३—आङ्ङि युद्धे ॥ ३ । ३ । ७३ ॥

युद्ध अभिधेय हो तो आङ्ङि पूर्वक ह्वेन् धातु से अप् प्रत्यय और  
उसको संप्रसारण हो । आहूयन्ते स्पर्धया भटा अस्मिन्निति आहवः ॥  
युद्ध से अन्यत्र—आह्वाय ।

१४२४—निपानमाहावः ॥ ३ । ३ । ७४ ॥

जो निपान अभिधेय हो तो 'आहाव' यह निपातन है । निपि-  
वन्त्यस्मिन् जलमिति निपानम्=जल पीने का स्थान । यहां आङ्ङि-  
पूर्वक ह्वेन् धातु से अप् प्रत्यय तथा उसको संप्रसारण और वृद्धि  
निपातन है [ आ+ह्वेन्+अप्+सु=आहाव ] ।

१४२५—भावेऽनुपसर्गस्य ॥ ३ । ३ । ७५ ॥

भाव वान्य हो तो उपसर्गरहित ह्वेन् धातु से अप् प्रत्यय और  
उसको संप्रसारण हो । ह्वानं हव, हवे हवे शूरमिन्द्रम् । यहाँ  
भावप्रहण से प्रकृत कर्ता भिन्न कारक की अनुवृत्ति नहीं होती है ।

१४२६—हनश्च वधः ॥ ३ । ३ । ७६ ॥

उपसर्गरहित हन् धातु से भी अप् प्रत्यय और उस प्रत्यय के  
साथ हन् को वध आदेश भाव मे हो । यहां चकार का सम्बन्ध  
आदेश के साथ नहीं है । किंतु आदेश तो अप् से द्वितीय विधान  
है सो हो ही जायगा, इससे चकारप्रहण से प्रकरण के अनुसार  
दूसरा घञ् प्रत्यय भी होता है । हन्+अप्+सु=वधः । वध आदेश  
अन्तोदात्त है इससे अनुदात्त ( सौवर २४ ) से अप् प्रत्यय के साथ  
एकादेश ( सन्धि० १५३ ) भी उदात्त ही ( सौवर ८५ ) से होता  
है । हन्+घञ्+सु=घात, वधो दस्यूनाम्, घातः शत्रूणाम् ।

**१४२७—मूर्त्तौ घनः ॥ ३ । ३ । ७७ ॥**

मूर्त्ति = कठिनपन वाच्य हो तो हन् धातु से अप् प्रत्यय और हन् को घन आदेश हो। अभ्रघनः। बदलो की सघनता। दधि-घनः। दधि की कठिनाई अथवा उसका अत्यन्त जमना। घन शब्द जब मूर्त्ति = कठिनाई मात्र में होता है तो—‘घनं सैन्धवम्, घनं दधि’ इत्यादि प्रयोग कैम होंगे? क्योंकि घन यह सैन्धव वा दधि का गुण हुआ। इसलिए [ यहाँ ] गुण से गुणी की विवक्षा = घन शब्द से तद्धर्मेनिष्ठ दधि आदि का कथन होने से उक्त प्रयोग होंगे।

**१४२८—अन्तर्घनो देशे ॥ ३ । ३ । ७८ ॥**

देश अभिधेय हो तो अन्तर पूर्वक हन् धातु से अप् प्रत्यय और उसको घन आदेश हो। अन्तर्घनः। यह बाहीक नामक देशों में किसी देश का नाम है। इस शब्द को पाठान्तर से भी मानते हैं, जैसे—अन्तर्घणः। देश से अन्यत्र—अन्तर्घात।

**१४२९—अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च ॥ ३ । ३ । ७९ ॥**

अगार (गृह) के एक देश में प्रघण, प्रघाण ये निपातन हैं। गृह के द्वार देश में दो कोठे होने चाहियें। एक भीतर, दूसरा बाहर, उनमें से जो बाहर का कोठा है उस अर्थ में ये निपातन हैं। प्रविशद्भिर्जनैः प्रकर्षणं हन्यत इति प्रघणः, प्रघाण। यहाँ

१ महाभारत कर्णपर्व में बाहीक देश का लक्षण इस प्रकार लिखा है—

पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तरं ये समाश्रिताः।

बाहीका नाम ते देशाः

२ कई लोग इस का अर्थ बाहर का चबूतरा मानते हैं।

कर्म मे अप् तथा घन् प्रत्यय और हन् को घन आदेश निपातन है । अगारैकदेश से अन्यत्र—प्रघातः ।

१४३०—उद्घनोऽत्याधानम् ॥ ३ । ३ । ८० ॥

अत्याधान = ऊपर स्थापन करना गम्यमान हो तो उद्घन यह निपातन है । ऊर्ध्व हन्तेऽस्मिन् काष्ठानीति उद्घनः । यह जिस काठ पर धर के दूसरे काठ को घडते हैं उसका नाम है । यहाँ उद्पूर्वक हन् धातु से अप् और उसको घन आदेश निपातन है ।

१४३१—अपघनोऽङ्गम् ॥ ३ । ३ । ८१ ॥

अङ्ग अभिधेय हो तो अपघन यह निपातन है, अङ्ग शरीर के अवयवमात्र का नाम है परन्तु यहाँ हाथ पैर का ग्रहण है । अपहन्यनेनेति अपघन पाणिः पादा वा । यहा अपपूर्वक हन् से करण मे अप् प्रत्यय और हन् को घन आदेश निपातन है । अन्यत्र—अपघातः ।

१४३२—करणेऽथोविद्गुषु ॥ ३ । ३ । ८२ ॥

अयस्, वि, द्रु उपपद हो तो हन् धातु से करण में अप् प्रत्यय और हन् को घन आदेश हा । अय. = लोहो हन्यतऽननेति अयोघन, विघन, द्रुघनः । इस शब्द का पाठान्तर स भी मानते हैं । द्रुघ्णः (८७२) से एत्व हा जाता है ।

१४३३—स्तम्बे क ष ॥ ३ । ३ । ८३ ॥

स्तम्ब शब्द उपपद हो तो हन् धातु से करण में क और अप् प्रत्यय और अप् के सनियोग मे हन् को घन आदेश हो । क—स्तम्बो हन्यतऽनेन स्तम्बघ्न । अप्—स्तम्बघनः । करण से अन्यत्र—स्तम्बस्य हननं स्तम्बघातः ।

१४३४—परौ घः ॥ ३ । ३ । ८४ ॥

परि उपपद हो तो हन् धातु से करण मे अप् प्रत्यय और हन् को घ आदेश हा । परित्. सर्वतो हन्यत्ऽननेति पारिघः ।

१४३५—परेश्च घाङ्कयोः ॥ ८ । २ । २२ ॥

घ और अङ्क शब्द परे हो तो परि के रेफ का विकल्प करके लकागदश हो । पारिघ, पलिघः, पर्यङ्कः, पत्यङ्कः । यहां (पारिभाषि० १) परिभाषा क अनुसार “व” इस स्वरूप का ग्रहण है, घसज्ञा का ग्रहण नहीं है ।

१४३६—उपघ्न आश्रये ॥ ३ । ३ । ८५ ॥

आश्रय अर्थ मे उपघ्न यह निपातन है । आश्रय शब्द से यहां सामीप्य का ग्रहण है । पर्वतेनोपहन्यते तत्सामीप्येन गम्यते इति पर्वतोपघ्नः, ग्रामोपघ्नः । पर्वत क निकट निकट जाना । यहा उपपूर्वक हन् धातु स अप् प्रत्यय और हन् की उपधा का लोप निपातन और कुत्व (३०४) सूत्र से होता है ।

१४३७—संघोद्घौ गणप्रशंसयोः ॥ ३ । ३ । ८६ ॥

गण = समूह और प्रशसा अर्थ मे यथासख्य करके संघ, उद्घ यं निपातन हैं । सहननं सघः, गवा सघः । यहा सम्पूर्वक हन् से भाव मे अप् प्रत्यय और टिलोप निपातन है । उक्त्रो हन्यते ज्ञायत इत्युद्घो मनुष्य । यहा गतित्व से हन् धातु को ज्ञानार्थ मानकर उससे कर्म मे अप् और पूर्ववत् टिलोप हो जाता है ।

१४३८—निघो निमित्तम् ॥ ३ । ३ । ८७ ॥

निमित्त अभिधेय हो तो निघ यह निपातन हो । सब प्रकार से जो मित = परिपूर्णता को प्राप्त हो वह निमित्त कहाता है । निर्विशेषेण हन्यन्ते ज्ञायन्त इति निघा वृक्षाः, निघाः शालयः, निघाः यवा । निमित्त से अन्यत्र—निघातः ।

१४३६—ड्वितः कित् ॥ ३ । ३ । ८८ ॥

डु जिसका इत् गया हो उस धातु से भावादिको मे क्ति प्रत्यय हो । “क्लमम् नित्यम्” (स्त्रै० ४६८) इस सूत्र मे नित्यप्रहण से क्ति प्रत्यय विषयक विग्रह मप् से अलग नहीं होता । जैसे डुपचष्—पचनेन निर्वृत्तं पक्वित्मम् । पचन से सिद्ध हो गया । डुकृब् करणे—कृत्रिमम् । डुवप् बीज संताने—उपत्रिमम् ।

१४४०—ट्वितोऽथुच् ॥ ३ । ३ । ८९ ॥

टु जिसका इत् गया हो उस धातु से भावादिको मे अथुच् प्रत्यय हो । टुवेष्ट कम्पने—वेपनं वेपथु । टुओशिव [गतौ]—श्वयथुः ।

१४४१—यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ् ॥

३ । ३ । ९० ॥

भाव और कर्ताभिन्न कारक में यज आदि धातुओ से नङ् प्रत्यय हो । यज—यजनं यज्ञ । टुयाच्—याचनं याच्वा । यती प्रयत्ने—यत्न । विच्छ गतौ—विश्न । यहा छ को श् आदेश हो जाता और नङ् के डित् करण से गुण नहीं होता । प्रच्छ—प्रश्न । यहां संप्रसारण ( २८६ ) प्राप्त है सो ( ७५० ) सूत्र मे प्रश्न शब्द के पढ़ने से नहीं होता ।

१४४२—स्वपो नन् ॥ ३ । ३ । ९१ ॥

स्वप् धातु से नन् प्रत्यय हो। विष्वप् शय—स्वपनं स्वप्न ।

१४४३—उपसर्गे घोः क्तिः ॥ ३ । ३ । ६२ ॥

उपसर्गे उपपद हो तो घुसङ्गको से कि प्रत्यय हो। प्रदानं प्रदि, प्रधानं प्रधि, विधानं विधि, सधानं संधि, अन्तर्धानं अन्तर्द्धिः, आधि, व्याधि।

१४४४—कर्मण्यधिकरणे च ॥ ३ । ३ । ६३ ॥

कर्म उपपद हो तो घुसङ्गक धातुओ से अधिकरण मे कि प्रत्यय हो। जलानि धीयन्तऽस्मिन्निति जलधि, वारिधि, तोर्याधि, पयोधिः, यशासि धीयन्तऽस्मिन्निति यशोधि, इषुधिः।

१४४५—स्त्रियां क्तिन् ॥ ३ । ३ । ६४ ॥

स्त्रीलिङ्ग विषयक भावादिको में धातु से क्तिन् प्रत्यय हो। घब, अच, अप इन सब का अपवाद है। डुकृब्—करणं कृतः। चिब्—चयनं चिति।

१४४६—वा०—क्तिन्नावादिभ्यः ॥ ३ । ३ । ६४ ॥

आप्ठ आदि धातुओ से भावादिको मे क्ति प्रत्यय हो। आप्ति, राद्धि, दीप्ति। यहा अड् (१४६२) प्रत्यय प्राप्त था, उसक बाधने के लिए क्तिन् का विधान है।

१४४७—वा०—श्रुयजीषिस्तुभ्यः करणे ॥३॥३॥६४॥

श्रु, यज, इष, ष्टुब् इन धातुओ से करण मे क्तिन् प्रत्यय कहना चाहये। श्रूयतेऽनयेति श्रुतिः, इज्यतेऽनयेति इष्टि, इष्यतेऽनयेति इष्टि, स्तूयतेऽनयेति स्तुति।

१४४८—वा०—ग्लाम्लाज्याहाभ्यो निः ॥३॥३॥६४॥

स्तै, स्तै, ज्या, ओहाक, ओहाङ् इन धातुओं से नि प्रत्यय कहना चाहिये । स्तानिः, स्तानिः, ज्यानि, हानिः ।

१४४६-वा०-ऋ कारत्वादिभ्यः क्तिन् निष्ठावत् ॥

८ । २ । ४४ ॥

ऋकारान्त और लृक् छेदने इत्यादि धातुओं से क्तिन् प्रत्यय को निष्ठा के तुल्य कहना चाहिये । क—कीर्णिः, गृ—गीणिः; लृक्—लृान्, धृक् | धूनि । यहा क्तिन् के निष्ठावद्भाव से 'त्वादिभ्यः' सूत्र से निष्ठा क तुल्य क्तिन् के तकार को नकागदेश हो जाता है ।

१४५०—स्थागापा रचो भावे ॥ ३ । ३ । ६५ ॥

स्था आदि वातुओं मे स्त्रीलिङ्ग विषयक भाव मे क्तिन् प्रत्यय हो । यह अङ् का अपवाद है । ष्टा—प्रस्थिति, उपस्थितिः, संस्थिति । गै शब्दे—संगीति, उद्गीति । पा—प्रपीति । डुपचष्—पक्तिः ।

१४५१—मन्त्रे वृषेषपचम-विदभूवोरा

उदात्तः ॥ ३ । ३ । ६६ ॥

मन्त्रविषय मे वृष आदि धातुओं से स्त्रीलिङ्ग भाव मे क्तिन् प्रत्यय हो और वह उदात्त भी हा । वृष—वृष्टिः, इषु—इष्टिः, डुपचष्—पक्ति, मन—मतिः, विद—विति, भू—भूति, वी—वीति, रा—रातिः । यद्यपि धातुमात्र से क्तिन् विहित भी है तथापि उदात्तत्व के लिए विधान है ।

१४५२—ऊनियूतिजूतिसातिहेतिकीर्त्तयश्च ॥

३ । ३ । ६७ ॥



ऊति आदि शब्द क्तिन् प्रत्ययान्त अन्तोदात्त निपातन है।  
 ऊतिः—यहा अव्र धातु से क्तिन् औग अव्र को ऊट् 'ज्वर०'<sup>१</sup> से  
 आदेश होता है। यूति, जूति। यु और जु से क्तिन् और उनको  
 दीर्घ होता है। सातिः। यहा 'षो अन्तर्कर्माण' को क्तिन् के परे  
 'द्यति'<sup>२</sup> म प्राप्त जो इकारादेश उसका अभाव निपातन से हो  
 जाता है। अथवा क्तिन् के परे षण् धातु को आकारादेश 'जनसन०'<sup>३</sup>  
 से हो जाता है। हेति। यहा क्तिन् क परे हन् को हि आदेश वा  
 'हि गतौ वृद्धौ च' धातु का गुणादेश निपातन है। कार्त्तिः। यहाँ  
 'कृत सशब्दने' से क्तिन् प्रत्यय होता है।

१४५३—व्रजयजोर्भावे क्यप् ॥ ३। ३। ६८ ॥

व्रज और यज धातु से स्त्रीलिंग भाव में क्यप् प्रत्यय हां सो  
 उदात्त हो। व्रज—व्रज्या। यज—इज्या। ( २८३ ) से संप्रसारण  
 होता है।

१४५४—संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदधु-  
 ञ्शोङ्भृञिणः ॥ ३। ३। ६६ ॥

संज्ञाविषय में समपूर्वक अज आदि धातुओं से स्त्रीलिङ्गविषयक  
 भाव और कर्तृवजित कारक में क्यप् प्रत्यय हो। सम् अज—सम्-  
 जन्ति यस्यां सा 'सम्+अज+क्यप्+सु' इस अवस्था में ( १५५ )  
 सूत्र से अज को वो भाव प्राप्त हुआ उस के निषेध के लिए  
 अगला वाक्तिक है—

१४५५—वा०—घञपोः प्रतिषेधे क्यप् उपसंख्यानम् ॥  
 २। ४। ५६ ॥

घञ् और अप् प्रत्यय के परे अज धातु को वी भाव के प्रतिषेध मे क्यप् प्रत्यय का भी उपसंख्यान करना चाहिये । इससे वी भाव का प्रतिषेध होगया । समज्या सभा । निषद्—निषीदन्त्यस्यां सा निषद्या = दूकान । निपत्—निपतन्त्यस्या निपत्या । खंदकीली भूमि । मन—मन्यतेऽनयेति मन्या गलपार्श्वशिखा । विद्—विदन्त्यनयेति विद्या । घुञ्—सवनं सुत्या अभिषवः । शीङ्—शेतेऽस्यामिति शक्या । भृञ्—भरणं भरन्त्यनया वा भृत्या । इण्—ईयते गम्यतेऽनया सः इत्या शिविका = पालकी ।

१४५६—कृञः श च ॥ ३ । ३ । १०० ॥

कृञ् धातु से खीलित् विषयक भावादिको मे श और क्यप् प्रत्यय हो । क्रिया ( २३९ ) कृत्या ।

१४५७—वा०—कृञः श चेति वा वचनम् ॥

३ । ३ । १०० ॥

‘कृञ् श च’ यहां विकल्प भी प्रहण करना चाहिये । जिससे क्तिन् प्रत्यय भी हो । कृतिः ।

१४५८—इच्छा ॥ ३ । ३ । १०१ ॥

इष धातु से भाव मे श प्रत्यय और यक् ( ७२० ) का अभाव निपातन है । इष + श + सु = इच्छा ( २७३ ) ।

१४५९—अत्यल्पमिदमुच्यते इच्छेति—वा०—इच्छा-

परिचर्यापरिसर्यामृगयाऽद्याद्यानामुप-

संख्यानम् ॥ ३ । ३ । १०१ ॥

इच्छा इतना निपातन अत्यन्त न्यून है इससे इच्छा, परिचर्या, परिसर्या, मृगया, अटाट्या इन शब्दों का उपसंख्यान करना चाहिये। परिचयोदिको में श प्रत्यय और उसके परे यक् (७२०) भी होता है। परिचर-परिचरणं, परिचर्या=सत्कार। परिस्तृ-परिसरणं परिसर्या=रिगना। यहां गुण भी निपातन से है। मृग अन्वेषणे। चुरादि अदन्त है। मृग+णिच्+यक्+श+सु=मृगया। यहां यक् के परे (१७७) से णिलोप हो जाता है। अट गतौ। अट+यक्+श+सु=अटाट्या। यहां (ट्य) भाग को द्वित्वादेश तथा “हलादिः शेषः” होकर दीर्घ हो जाता है।

१४६०-वा०-जागत्तोरकारो वा ॥३।३।१०१॥

जागृ धातु से अ प्रत्यय विकल्प करके हां। जागरा (३६२) जागर्या।

१४६१-अ प्रत्ययात् ॥ ३ । ३ । १०२ ॥

अप्रत्ययान्त धातु से स्त्रीविषयक भावादिकों में अ प्रत्यय हो। कृन्+सन्+अ+सु=चिकीर्षा, पिपासा, करण्ड्या इत्यादि।

१४६२-गुरोश्च हलः ॥ ३ । ३ । १०३ ॥

गुरुमान् जो हलन्त धातु उससे स्त्रीलिंग में अ प्रत्यय हो। ईहा, ऊहा। गुरुग्रहण से यहां न हुआ-भज-भक्ति, शक्त्-शाक्ति। हल् ग्रहण से यहां न हुआ-र्नातिः, नीतिः, प्रीतिः।

१४६३-षिद्भिदादिभ्योऽङ् ॥३।३।१०४॥

ष् जिनका इत्स्ङ्कार हो उनसे और भिद् अदि धातुओं से स्त्रीलिंग में अङ् प्रत्यय हो। अष्ट-त्रपा, क्षमूष्-क्षमा। भिदिर विदारणे-भेदनं भिदा।

१४६४-वा०-भिदा विदारण इति वक्तव्यम् ।  
विदारण अर्थ मे 'भिदा' यह प्रयाग हो, अन्यत्र—“भित्ति”  
होता है ।

छिद्-—छिदा ।

१४६५-वा०-छिदा द्वैधीकरण इति वक्तव्यम् ।  
दो भाग करने अर्थ मे 'छिदा' यह हो । अन्यत्र—“छित्तिः”  
होता है ।

आङ् + ऋ + अङ् + सु = आरा । यहां ( सन्धि० १४३ ) सूत्र  
से वृद्धि होती है ।

१४६६-वा०-आरा शस्त्र्यामिति वक्तव्यम् ।

शस्त्री ( जो भाषा मे आरा प्रसिद्ध है ) अर्थ मे 'आरा' यह  
प्रयोग हा । अन्यत्र—‘आर्त्ति.’ होता है ।

ध्रुव्—ध्रियत धार्यत वा जलमनयेति, धारा ।

१४६७-वा०-धारा प्रपात इति वक्तव्यम् ।

अत्यन्त गिरने ( जो भाषा मे धारा प्रसिद्ध है ) अर्थ मे 'धारा'  
यह प्रयाग हां । अन्यत्र—‘धृति.’ होता है ।

गुह्—गुहा ।

१४६८-वा०-गुहा गिर्योषधोरिति वक्तव्यम् ।

गिरि अर्थात् ( पर्वत ) के एकादेश और ओषधि अर्थ मे 'गुहा'  
यह प्रयोग हां । अन्यत्र —त्तिन् प्रत्ययान्त 'गूढि.' होता है ।

१४६९—चिन्तिपूजिकयिकुम्बिचर्चश्च ॥३॥१०५॥

चिन्ति आदि धातुओ से स्त्रीलिङ्ग मे अङ् प्रत्यय हो । यह  
युच् का अपवाद है । चिति स्मृत्याम्—चिन्ता । पूज पूजायाम्—  
पूजा । कथ वाक्यप्रबन्धे—कथा । कुषि आच्छादने—कुम्बा । चर्च  
अध्ययने—चर्चा ।

१४७०—आतश्चोपसर्गे ॥ ३ । ३ । १०६ ॥

उपसर्ग उपपद हो तो आकारान्त धातु से क्लीलिङ्ग में अङ् प्रत्यय हा । उपधा, अवस्था । शत् और अन्त् इनका उपसर्गवद्धृत्ति है । श्रद्धा, अन्तर्धा ।

१४७१—एयासश्रन्थो युच् ॥ ३ । ३ । १०७ ॥

णिजन्त आस, श्रन्थ इनसे क्लीलिङ्ग में युच् प्रत्यय हो । [णिजन्त] कृब् + णिच + युच् + सु = कारणा, हारणा । आस—आसना । श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयो (क्रयादि,—श्रन्थना ।

१४७२—वा०—युच्प्रकरणे घट्टिवन्दि।वदिभ्य  
उपसंख्यानम् ॥ ३ । ३ । १०७ ॥

युच्प्रकरण में घट्टि, वान्दि, विद इन धातुओं से भी युच् का उपसंख्यान करना चाहिये । घट्ट चलने (तुदादिः)—घट्टना । वदि—वन्दना । विद्—वेदना ।

१४७३—वा०—इषेरनिच्छार्थस्य ॥३।३।१०७॥

युच् के प्रकरण में इच्छा अर्थ से रहित जो इष् धातु उसका भी उपसंख्यान करना चाहिये । अन्विष्यत इत अन्विषणा ।

१४७४—वा०—परेर्वा ॥ ३ । ३ । १०७ ॥

युच् प्रकरण में परि से परे अनिच्छार्थक इष धातु का विकल्प करके उपसंख्यान करना चाहिये । पर्येषणाः परीष्टिः, अन्यां परीष्टि चर, अन्यां पर्येषणां चर ।

१४७५—रोगाख्यायां एवुल् बहुलम् ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

रोग की आख्या गम्यमान हो तो स्त्रीलिङ्ग में धातु से बहुल करके एवुल् प्रत्यय हो। उच्छृदिर् दीप्तिदेवनयो—प्रच्छर्दिका । वह प्राणो—प्रवाहिका । चर्च अध्ययने—विचचिका । बहुलग्रहण से कहीं नहीं भी होता—शिरोऽर्ति ।

१४७६—वा०—धात्वर्थनिर्देशे एवुल् ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

धात्वर्थनिर्देश अर्थात् क्रिया के निर्देश में धातु से एवुल् प्रत्यय कहना चाहिये । वास उपवेशने—आमिका, का नामात्मिका अन्येष्वीहमानेषु । औरो के काम करते हुए क्या बैठक ? यहां उपवेशन क्रिया का कथन करना है । का नाम शायिका अन्येष्वधीयानेषु । औरो के पढ़ते हुए क्या सोना ? यहां भी शयन क्रिया का कथन है ।

१४७७—वा०—इक्षिपौ धातुनिर्देशे ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

धातु के कहने मात्र में इक् और शिप् प्रत्यय कहना चाहिये । पचि, पचति । (१४५६) इस के बहुल विषय से कहीं नहीं भी होता है जैसे “कृञः श च” यद्यपि यह शिप् कर्ता में नहीं होता, तथापि शिप् करण से शिप् के परे शप् आदि विकरण होते ही हैं जैसे—“भवतरः” इत्यादि ।

१४७८—वा०—वर्णत्कारः ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

१ आ० १४५७ ॥

२. आ० ४२ ॥

- वर्ण के निर्देश मे वर्ण से कार प्रत्यय कहना चाहिये । अकारः, ककारः, मकारः । बहुलविषय से कहीं नहीं भी होता जैसे “अस्य चवौ” कहीं वर्णसमुदाय से भी होता है—एवकार । कित्-विषयक प्रयोजनों के अभाव से कार प्रत्यय के ककार की इत् संज्ञा नहीं हाती और कृत् अधिकार मे विधान से इस कार प्रत्यय की कृत् संज्ञा होती है इससे “अकार ” आदि मे कृदन्त मान कर प्रातिपदिक संज्ञा आदि कार्य होते हैं ।

१४७६-वा०-रादिरुः ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

र वर्ण के निर्देश मे र से इफ प्रत्यय कहना चाहिये । रेफ.<sup>१</sup> ।

१४८०-वा०-मत्वर्थच्छ्वः ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

मत्वर्थे शब्द से छ्व प्रत्यय कहना चाहिये । “मत्वर्थीयः” यहां छ्व प्रत्यय के परे भ सज्ञा के विना भी भाष्यकार के “मत्वर्थीयः” इस शब्द के पढ़ने से वा बहुलभाव से छ्व के पूर्व अकार का लोप हो जाता है ।

१४८१-वा०-इणजादिभ्यः ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

अज आदि धातुओं से इण् प्रत्यय कहना चाहिये । अज गतिक्षेपणयो —आजिः । अत सातत्यगमने—आतिः । अद्—आदिः ।

१४८२-वा०-इव् वपादिभ्यः ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

वप आदि धातुओं से इव् प्रत्यय कहना चाहिये । डुवप बीजसंताने—वापिः, वासिः, वादिः ।

१४८३-वा०-इक् कृष्यादिभ्यः ॥ ३ । ३ । १०८ ॥

१. अष्टा० ७ । ४ । ३२ ॥

२. वासिरूपोऽस्त्रियाम् । आ०३ के नियम से कार प्रत्यय भी होता है । यथा—रकारादीनि नामानि भयं जनयन्ति माम् । रामा० ।

कृष आदि धातुओं से इक् प्रत्यय कहना चाहिये । कृष विले-  
खने—कृषिः । कृविद्येप—कारि । ग् निगरणे, गृ शब्दे वा—गरिः ।

१४८४—वा०—संपदादिभ्यः ।क्वप् ॥ ३।३।१०८॥

संपद आदि धातुओं से क्विप् प्रत्यय कहना चाहिये ।  
सम् + पद + क्विप् + सु = संपत्, विपत्, आपत्, प्रतीपत्,  
परिसीदन्ति जना अस्यां सा परिषत् । बहुलभाव से क्तिन् (१४४५)  
भी होता है । संपत्ति, विपत्तिः इत्यादि ।

१४८५—संज्ञायाम् ॥ ३।३।१०९ ॥

क्रीलिङ्गविषयक संज्ञा मे धातु से एवुल् प्रत्यय हो । भञ्जे  
आसद्भेने—उद्दालकपुष्पभाञ्जका । वह प्रापणे—वारणपुष्पवाहिका ।

१४८६—विभाषाख्यानपरिभ्रयोरिञ् च ॥

३।३।११० ॥

परिप्रश्न = पूछना, आख्यान = कहना अर्थान् उसका उत्तर  
देना गम्यमान हो तो क्रीलिङ्ग मे धातु से इञ् और एवुल् विकल्प  
करके हो । दूसरे पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं । प्रथम प्रश्न  
तदनन्तर उसका उत्तर होता है, परन्तु अल्पात्तर होने से सूत्र में  
आख्यान शब्द का पूवनिपात है । त्वं कां कारिमकार्षीः, त्वं कां  
कारिकामकार्षीः, का क्रियामकार्षीः, [ कां कृत्यामकार्षीः ], कां  
कृतिमकार्षीः । तूने कौन क्रिया की । अहं सर्वा कारिमकार्षेम्, सर्वा  
कारिकामकार्षेम्, सर्वा क्रियामकार्षेम्, सर्वा कृत्यामकार्षेम्, सर्वा  
कृतिमकार्षेम् । मैने सब क्रिया करली, इत्यादि ।

१४८७—पर्यायार्हर्णोत्पात्तषु एवुच् ॥ ३।३।१११ ॥

पर्याय = परिपाटी क्रम, अर्ह = योग्यता, ऋण = दूसरे का द्रव्य  
धारण करना, उत्पत्ति = जन्म ये अर्थ गम्यमान हो तो क्रीलिङ्ग



मे धातु से एवुच् प्रयय विकल्प करके हो। पर्याय—तव शायिका, तुम्हारी सोने की बारी। मम शायिका, मेरी सोने की बारी। अर्हे—त्वमर्हे। स दुग्धपायिकाम्, तू योग्य है दूध पीने को। ऋण—मम शाकभक्षिका धारय, मेरी शकभाजी तू लिये रह। उत्पात्त—महा शाकभक्षिकामुदपाद, मरे लिये शाकभाजी बना। इसी प्रकार—ओदनभाजिका, अम्रगामिका, अम्रप्राप्तिका, इक्षुभक्षिका आदि बहुत प्रयोग बन सकते हैं। द्वितीय पद मे—तव चिकार्षा, मम चिकीर्षा, तव क्रिया, मम क्रिया इत्यादि।

१४८८—आक्रोशे नञ्यनिः ॥ ३। ३। ११२ ॥

आक्रोश = कासना गम्यमान हो और नञ् उपपद हो तो धातु से खीलङ्ग मे अनि प्रत्यय हो। यह क्तिन् आदि का अपवाद है। अजीर्वानिस्ते शठ भूयात्। आक्रोश से अन्यत्र—अजीवनमस्य रोगिणः। यहां ल्युट् हो जाता है। नञ्ग्रहण स यहां न हुआ—मृतिस्त वृषल भूयात्। इसी सूत्र तक “भावे, अकर्त्तरं, कारके” इन सूत्रों की अनुवृत्ति है।

१४८९—नपुंसके भावे क्तः ॥ ३। ३। ११४ ॥

नपुंसकलिङ्गविषयक भाव मे धातु से क्त प्रत्यय हो। हसे हसने—हसितम्। षहमर्षणे—सहितम्।

१४९०—क्युट् च ॥ ३। ३। ११५ ॥

नपुंसकलिङ्ग भाव मे धातु से ल्युट् प्रत्यय हो। कृब्—करणम्। पठ—पठनम्। शीब्—शयनम्।

१४९१—कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखम् ॥

३। ३। ११६ ॥

जिसके स्पर्श से कर्ता को शरीर का सुख हो ऐसा कर्म उपपद हो तो धातु से ल्युट् प्रत्यय हो। यह पूर्व सूत्र (१४९०) से सिद्ध था, परन्तु उपपद समास होने के लिये विधान है। पयःपानं सुखम्। कर्मग्रहण से यहां न हुआ—तूलिकाया उत्थानं सुखम्। यहा तूलिका शब्द अपादान है। संस्पर्शग्रहण से यहां न हुआ—अग्निकुण्डस्योपासनं सुखम्। कर्तृग्रहण से यहा न हुआ—गुरोः स्नापनं सुखम्। यहा गुरु शब्द कर्म है। शरीर ग्रहण से यहां न हुआ—पुत्रस्य परिष्वञ्जनं सुखम्। यहां सुख मानस प्रीति है। सुख ग्रहण से यहां न हुआ—कण्टकानां मर्दनं दुःखम्।

१४९२—वा यौ ॥ २। ४। ५७ ॥

यु अर्थात् ल्युट् प्रत्यय [परे] हां तो अज धातु को वी आदेश विकल्प करके हो। प्र + अज + ल्युट् + सु = प्रवयणम्, प्राजनम्।

१४९३—करणाधिकरणयोश्च ॥ ३। ३। ११७ ॥

करण और अधिकरण मे धातु से ल्युट् प्रत्यय हो। ओत्रश्चू-प्रवृश्चतीभ्मानि येन स इभ्मप्रवृश्चनः कुठारः। दुह—गां दोग्धि यस्यां सा गोदोहनी स्थाली।

१४९४—पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ॥ ३। ३। ११८ ॥

संज्ञा अभिधेय हो तो पुल्लिङ्ग विषयक करण और अधिकरण मे धातु से प्रायः करके घ प्रत्यय हो। अमो रोगे—अमन्ति रुजन्त्यनेन अमः रोगः। आकुर्वन्त्यस्मिन्निति आकर। आलीयन्ते स्थाप्यन्त पदार्था अस्मिन्निति आलयः। पुंसि ग्रहण से यहां नहीं होता—प्रसाधनम्। संज्ञा ग्रहण से यहां नहीं हाता—प्रहरणो दण्डः।

१४९५—द्वादेर्घेऽह्युपसर्गस्य ॥ ६। ४। ९६ ॥

दो उपसर्गों से रहित जो छादि अंग उसकी उपधा को ह्रस्व आदेश हो। दन्ताच्छाद्यन्तेनेनेति दन्तच्छदः। उरश्छदः पटः। अद्ध्युपसर्ग, प्रहण से यहा उपधा को ह्रस्व नहीं होता—समुपच्छाद।  
अद्विप्रभृत्युपसर्गस्येति वक्तव्यम्। महाभाष्ये। ६। ४। ९६॥  
दो आदि उपसर्गयुक्त को निषेध करना चाहिये—समुपात्तिच्छाद।

१४६६—गोचरसंचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च ॥

३। ३। ११६ ॥

संज्ञा अभिधेय हो तो पुल्लिङ्गविषयक करण और अधिकरण मे गोचर, संचर, वह, व्रज, व्यज, आपण, निगम ये घ प्रत्ययान्त निपातन हैं। गावश्चरन्त्यस्मिन्निति गोचरो देशः। संचरन्त्यस्मिन्निति संचरो मार्ग। वह—वहन्ति येन वह स्कन्धः। व्रज—व्रजो मार्ग। गावो व्रजन्त्यस्मिन्निति व्रजो=गोष्ठ। गोडा। व्यज—व्यजन्ति तेन व्यज। तालवृन्तः। ताड की डार वा ताड का व्यजन=पंखा। यहां निपातन से वी भाव ( १५५ ) नहीं होता। आपणन्ते व्यवहरन्तेऽस्मिन्निति आपणः—पण्यस्थानम्=दुकान। निगम्यन्तेऽनेन पदार्था इति निगमो वेद। यहा चकार अनुक्त के समुच्चय के लिए है। कषन्ति तेन कषः निकषः।

१४६७—अवे तृस्त्रोर्घञ् ॥ ३। १२० ॥

पुंलिङ्गविषयक संज्ञावाच्य हो और अव उपपद हो तो करण और अधिकरण मे धातु से घञ् प्रत्यय हो। पिछले घ ( १४९४ ) अस्य का अपवाद है। अवतार, अवस्तारः जवनिका=आट, कनात। यहां 'प्राय' शब्द की अनुवृत्ति करके ( १४९४ ) कही असंज्ञा मे भी होता है। अवतार सागरस्य, सागर का उतरना।

१४६८--हलश्च ॥ ३ । ३ । १२१ ॥

संज्ञावाच्य हो तो हलन्त वातु से पुल्लिङ्गविषयक करण और अधिकरण मे घञ् प्रत्यय हो । आरमन्त्यस्मिन्निति आराम.=बाग । अपमृज्यन्ते रागा अनेनेति' अपामागे =षिरचिटा । विदन्ति तत्वज्ञानाद्यनेनेति वेद ।

१४६९-वा०-घञ्विधौ अवहाराधारावायाना-  
मुपसंख्यानम् ॥ ३ । ३ । १२१ ॥

घञ् के विधान मे अवहारआधार आवाय इन शब्दों का भी उपसं-  
ख्यान करना चाहिये । अवहियन्तेऽस्मिन्निति अवहार', आध्रियन्तेऽ-  
स्मिन्निति आधार, आवयन्त्यस्मिन्निति आवाय' ।

१५००—अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च ॥३।३।१२२॥

संज्ञावाच्य हो तो पुल्लिङ्गविषयक करण और अधिकरण में घञ्  
प्रत्ययान्त अध्याय आदि शब्द निपातन है । अवीङ्—अधीयतऽस्मि-  
न्निति अध्यायः, नीयन्तेऽनेन व्यवहारा इति न्याय उद्भूयन्ति अस्मि-  
न्निति उद्याव., सहियन्तेऽनेन भटादय इति संहारः ।

१५०१—उदङ्कोऽनुदके ॥ ३ । ३ । १२३ ॥

१ इसकी दूसरी व्युत्पत्ति इस प्रकार है.—अपविरुद्धो मार्गो यस्य  
श्च अपामार्गः । अन्य यवादि ओषधियों के फलों का मुह ऊपर को होता  
है, इसके बीज उल्टे लगते हैं । इसीलिए मारवाड मे भाधी ( ऊ धा )  
झाडा कहते हैं ।

उदकभिन्न सञ्जाविषय मे उदङ्क यह निपातन है । घृतमुदच्यतेऽ-  
स्मिन्निति घृतादङ्क, घृत जिममें निकाले वह घृतादङ्क कर्हावे । यहाँ  
उद् पूर्व अञ्चु धातु मे घञ् प्रत्यय निपातन से और इस ( ९४४ )  
सूत्र से कुत्व तथा परसवर्ण ( २६४ ) से हा जाता है । अनुदकप्रहण  
से यहा न हुआ—‘उदकोदञ्चनः’, जल भरने का पात्र ।

१५०२—जालमानायः ॥ ३ । ३ । १२४ ॥

जाल वाच्य हो तो आनाय यह निपातन है । आनीयन्ते मत्स्या-  
दयोनैनेति आनाय । धीवर आदि जनो का जाल । जाल से  
अन्यत्र—आनयन ।

१५०३—खनो घ च ॥ ३ । ३ । १२५ ॥

खन् धातु स करण और अधिकरण मे घ और घञ् प्रत्यय  
हो । आ+खनु=आखन, आखानः । इम खन से जो घ प्रत्यय  
का विधान किया है इस मे घ पढ़ना अनर्धक है क्योकि घित् काये  
खन् को नहीं प्राप्त है इससे घिन्करण सामर्थ्य से घ प्रत्यय और  
धातुओ से भी होता है । जैसे, भज—भगः, पठ—पठम् इत्यादि ।

१५०४—वा०—खनो डडरेकेकवकाः ॥ ३ । ३ । १२५ ॥

खन् धातु से ड, डर, इक, इकवक ये प्रत्यय कहने चाहिये । ड—  
आखः, डर—आखर, इक—आखनिक, इकवक—आखनिकवकः ।

१५०५—ईषद्ःसुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल् ॥

३ । ३ । १२६ ॥

कृच्छ=दुःख और अदृच्छ=सुख अर्थ मे वर्तमान ईषन्, दुर्,  
सु उपपद हो तो धातु से खल् प्रत्यय हो । यह प्रत्यय ( ९१६ )  
सूत्र के अनुसार भाव और कर्म में होता है । ‘ईषत्, दुर्, सु’ इन

मे दुर् के साथ कृच्छ्र और ईषत् तथा सु के साथ अकृच्छ्र अर्थ की योग्यता है। ईषत्कर, दुष्करः, सुकर कटा भवता। ईषद्गम, दुर्गमः, सुगमः। ईषद् आदि के ग्रहण से यहाँ न हुआ—कृच्छ्रण कटः कार्यः। कृच्छ्राकृच्छ्रार्थग्रहण से यहाँ न हुआ—ईषत्कार्ये ।

१५०६—वा०—निमिमीलियां खलषोः प्रतिषेधः ॥

६।१।५०॥

खल् और अच् प्रत्यय के परे निमि, मी, ली इन धातुओं के एच् को आकारादेश न हो। यहाँ अच् यह ( १३९९, ९७७ ) सूत्र विहित अचो का ग्रहण है। खल्—नि+डुमिन्=ईषन्निमय, दुर्निमय, सुनिमयः। अच्—निमयो वर्तते, निमय पुरुष। इसी प्रकार—ईषत्प्रमय, सुप्रमय। ली—ईषद्विलयः इत्यादि समझना चाहिये।

१५०७—उपसर्गात् खल्घञोः ॥७।१।६७॥

खल् और घञ् प्रत्यय परे हो तो उपसर्ग से ही परे लभ धातु को नुमागम हो। खल्—ईषत्प्रलम्भ, दुष्प्रलम्भ, सुप्रलम्भः। घञ्—उपालम्भः। उपसर्गग्रहण से यहाँ न हुआ—ईषत्लभः, लाभः।

१५०८—न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् ॥७।१।६८॥

खल्, घञ् परे हो तो केवल सु और दुर् से परे लभ धातु को नुम् न हो। सुलभः, दुर्लभः। केवलग्रहण से यहाँ होता है—सुप्रलम्भ, अतिदुर्लम्भ। 'अतिसुलभम्, अतिदुर्लभम्' ये तो सु, अति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा में होंगे। जैसे सुलभमतिक्रान्तम्=अतिसुलभम् इत्यादि।

१५०९—कर्त्तृ कर्मणोश्च भूकृजोः ॥३।३।१२७॥

कर्ता और कर्म ये यथाक्रम से उपपद हो तथा ईषत् आदि भी उपपद हो तो भू और कृष् धातु से खल् प्रत्यय हो ।

१५१०—खल्कर्तृकर्मणोश्च्यर्थयोः ॥ महाभाष्ये ॥

३।३।१२७।

यह खल् प्रत्यय च्ययर्थ अर्थात् अभूततद्भाव अर्थ में कर्ता और कर्म हो तो [ ऐसा ] कहना चाहिये । यहा ईषदादिकों से परे कर्ता कर्म और उनसे परे धातु का प्रयोग होता है । जैसे अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन शक्यं भवितुम् ईषदाढ्यम्भव भवता । (१०४३) से मुम् । अनाढ्येन भवता दु खेनाढ्येन भवितु शक्यं दुराढ्यम्भवं भवता । अनाढ्येन भवता सुखेनाढ्येन भवितुं शक्यं स्वाढ्यम्भवं भवता । अनाढ्यमीषदाढ्य कर्तु शक्यम् ईषदाढ्यकरः । अनाढ्यं दुःखेनाढ्य कर्तु शक्यं दुराढ्यंकरः । अनाढ्य सुखेनाढ्य कर्तु शक्यं स्वाढ्यंकर । च्यर्थ कहने से 'आढ्येन सुभूयत' \* इत्यादि में नहीं होता ।

१५११—आतो युच् ॥ ३ । ३ । १२८ ॥

कृच्छ्र और अकृच्छ्रार्थ ईषत् आदि उपपद हों तो आकारान्त धातु से युच् प्रत्यय हो । ईषत्पानः सोमो भवता, दुष्पान, सुपान ।

१५१२—छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ॥ ३ । ३ । १२९ ॥

वेदविषय में कृच्छ्र तथा अकृच्छ्रार्थ ईषत् आदि उपपद हो तो गति अर्थ वाले धातुओं से युच् प्रत्यय हो । सु+उप+षट् = सूपसदनोऽग्नि, सूपसदनमन्तरिक्षम् इत्यादि ।

\* ( स्वाढ्येन भूयते ) यह जयादित्य ने प्रत्युदाहरण दिया है सो उनका मत प्रलाप है क्योंकि जहा खल् प्रत्यय नहीं होता वहा धातु से अलग उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता किन्तु 'ते प्राग्वातो' (अष्टा० १।४।९) इस सूत्र के अनुसार पूर्व ही प्रयोग होता है ।

१५१३—अन्येभ्योऽपि दृश्यते ॥३॥३॥१३०॥

वेदविषय मे कृच्छ्राकृच्छ्रार्थ ईषदादि उपपद हों तो गत्यर्थको से अन्य जा धातु है उन से भी युच् प्रत्यय देखा गया है । सुदोहनाम-कृणाद् ब्रह्मणे गाम्, सुवेदनामकृणाद् ब्रह्मणे गाम् ।

१५१४—वा०—भाषायां शासियुधिदृशिधृषिभ्यो

युच् ॥ ३ । ३ । १३० ॥

भाषा=लोक मे कृच्छ्राकृच्छ्रार्थ ईषदादि उपपद हो तो शासि, युधि, दृशि, धृषि इन धातुओं से युच् प्रत्यय कहना चाहिये । दु शासनः, दुर्योधनः, दुर्दर्शनः, दुर्धर्षणः इत्यादि ।

१५१५—वा०—मृषेचेति वक्तव्यम् ॥३॥३॥१३०॥

वक्तव्यविषय मे मृष धातु से भी युच् प्रत्यय कहना चाहिये । दुर्मर्षणः ।

१५१६—आवश्यकामर्थयोर्णिनिः ॥३॥३॥१७०॥

आवश्यक और आमर्थयोर्=ऋण लेना अर्थ युक्त कर्ता वाच्य हो तो धातु से णिनि प्रत्यय हो । अवश्यकारी, शतदायी । यहां ( सामा०, मयूर० १५७ ) से समास होता है ।

१५१७—कृत्याश्च ॥ ३ । ३ । १७१ ॥

आवश्यक और आमर्थयोर् अर्थ मे धातु से कृत्य सज्ञक प्रत्यय हो । भवतावश्य गुरु सेव्यः, भवतावश्यं सहस्र देयम् ।

१५१८—क्तिक्तौ च संज्ञायाम् ॥३॥३॥१७४॥

संज्ञा गम्यमान हो तो आशीर्वाद अर्थ मे धातु से क्तिच् और क्त प्रत्यय हो । भूतिर्भवतात् । भूति नामवाला हो । यहा "तीतुत्रत०" ( अष्टा० ७ । २ । ९ ) इस सूत्र से इट् न हुआ, क्त प्रत्यय सज्ञा से उँसे—ब्रह्म एनं देयात्, ब्रह्मदत्तः, ईश्वरदत्त ।



१५१६—न क्तिचि दीर्घश्च ॥ ६ । ४ । ३६ ॥

क्तिच् प्रत्यय परे हो तो अनुदात्तोपदेश तथा वनति और तनोति आदि अङ्गों के अनुनासिक [ का ] लोप तथा उनकी उपधा को दीर्घ न हो। अनुदात्तोपदेश—यच्छतीति यन्ति । जो कार्यों से निवृत्ति को प्राप्त होता है वह “यन्ति” कहाता है। यन्तिथेच्छतात् । यन्ति नाम वाला निवृत्त हों। वनुत इति वन्तिः, वन्निर्वनुतात् । तनुत इति तन्ति, तन्तिस्तनुतात् इत्यादि ।

१५२०—सनः क्तिषि लोपश्चास्यान्यतरस्याम् ॥

६ । ४ । ४५ ॥

क्तिच् प्रत्यय के परे सन् धातु को आकारादेश और उसका लोप विकल्प करके हा। सन्—साति, सतिः, सन्तिः, सनुतात् ।

१५२१—तुमर्थे सेसेनसेअसेनक्सेकसेनध्यैअध्यैन्-  
कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्त्वेनः ॥३।४।६॥

वेदविषय मे तुमुन् प्रत्यय के अर्थ मे धातु से से, सेन्, असे, असेन्, कसे, कसेन, अध्ये, अध्येन्, कध्यै, कध्यैन्, शध्यै, शध्यैन्, तवै, तवेङ्, तवेन् ये प्रत्यय हो। तुमर्थ से भाव\* लिया जाता है। से—वच्—वच्चे। ‘वक्तुं’ प्राप्त था। यहाँ वच् धातु से ‘से’ प्रत्यय ( सन्धि० १८९ ) से कुत्व और ष ( ५६ ) से आदेश हो जाता है। वच्चे राय। सेन्—एषे। इण् धातु को सेन् प्रत्यय के परे गुण ( २१ ) और षत्व हो जाता है। तावामेषे रथानाम् । असे,

\* तुमुन् प्रत्यय किसी विशेष अर्थ मे नहीं कहा और “अनिर्दिष्टार्थाश्च अत्ययाः स्वार्थे भवन्ति”(पारि० १००) जिन प्रत्ययों का विशेष अर्थ नहीं कहा है वे स्वार्थ मे होते हैं स्वार्थ धातुओं का भावमात्र है इससे तुमधे करके भाव का ग्रहण है ॥

असेन्—जीव—ऋत्वे दत्ताय जीवसे, शारदो जीवसे धाः। क्से—  
 प्र+इण = प्रेषे भगाय। कसेन्—श्रिन्—गवामिव श्रियसे। अभ्यै,  
 अभ्यैन्—उप+आङ्+चर = कर्मण्युपाचरभ्यै। कभ्यै—आङ्+हु =  
 इन्द्राग्नी आहुवभ्यै। कभ्यैन्—श्रिन्—श्रियभ्यै। शभ्यै—मदी+  
 णिच् = राधमः सह मादयभ्यै। यहा शभ्यै के परे शष् होकर  
 णिच् को गुण हा जाता है। शभ्यैन्—पा—वायवे पिबभ्यै।  
 तवै—[ पा ] पाने—सोममिन्द्राय पातवै। तवेङ्—षूङ्—दशमे  
 मासि सूतवे। तवेन्—गम्ल्—स्वर्देवेषु गन्तवे।

१५२२—प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै ॥३।४।१०॥

वेदविषय में प्रयै, रोहिष्यै, अव्यथिष्यै ये शब्द तुमर्थ में  
 निपातन किये हैं 'प्रयै' यहां प्रपूर्वक या धातु से कै प्रत्यय और  
 आलोप ( २४४ ) हो जाता है। प्रयै देवेभ्यः। 'प्रयातुम्' प्राप्त था।  
 'रोहिष्यै' यहां रुह धातु से इष्यै प्रत्यय होता है—अपामोषवीना  
 रोहिष्यै। 'रोहितुम्' प्राप्त था। 'अव्यथिष्यै' यहां नञ्पूर्वक व्यथ  
 धातु से इष्यै प्रत्यय होता है। 'अव्यथितुम्' प्राप्त था।

१५२३—दृशे विख्ये च ॥ ३ । ४ । ११ ॥

वेदविषय मे तुमर्थ मे दृशे विख्ये ये निपातन हैं। दृश धातु से  
 के प्रत्यय हो जाता है। दृशे विश्वाय सूर्यम्। वि+ख्या से 'के'  
 प्रत्यय हुआ। विख्ये त्वा हरामि।

१५२४—शक्ति णमुत्कमुत्तौ ॥३।४।१२॥

वेदविषय मे शक्त् धातु उपपद हो तो तुमर्थ मे धातु से णमुल्  
 और कमुल् प्रत्यय हो। णमुल्—वि+भज=अग्निं वै देवा  
 विभाजं नाशक्तुवन्। 'विभक्तुम्' प्राप्त था, णिन् से वृद्धि हो  
 जाती है। कमुल्—अप्+लुप्त् = अपलुपं नाशक्तुवन्। 'अपलोत्तुं'  
 प्राप्त था।

१५२५—ईश्वरे तोसुन्कसुनौ ॥ ३।४।१३॥

वेदविषय मे ईश्वर शब्द उपपद हो ता वातु से तोसुन् और कसुन् प्रत्यय हो । ईश्वरो विचरितो । 'विचरितुम्' प्राप्त था । ईश्वरोऽचरितोः । 'अभिचरितुम्' प्राप्त था । ईश्वरो विलिख् । 'विलिखितुम्' प्राप्त था ।

१५२६—कृत्यार्थं तवैकेनकेन्यत्वन्ः ॥ ३।४।१४॥

वेदविषय मे कृत्यार्थं = भाव, कर्म मे वातु से तवै, केन, केन्य, त्वन् ये प्रत्यय हो । तवै-म्लेच्छ-म्लेच्छितवै, म्लेच्छितव्यम् । अनु + इण् = अन्वेतवै, अन्वेतव्यम् । केन-अव + गाहू = नावगाहे, नावगा-हितव्यम् । केन्य-श्रु + सन् = शुश्रूषेय, शुश्रूषितव्यम् । त्वन्-ङ्कृब्-कर्त्वं हविः, 'कर्त्तव्यम्' प्राप्त था ।

१५२७—अवचक्षे च ॥ ३।४।१५॥

वेदविषय में कृत्यार्थ मे अवपूर्वक चक्षिङ् धातु से एश् प्रत्यय निपातन है । रिपुराणा नावचक्षे । 'अवख्यातव्यम्' प्राप्त था ।

१५२८—भावलक्षणे स्थेण्कृञ्वदिचरिहुतमिजनि-  
भ्यस्तोसुन् ॥ ३।४।१६॥

वेदविषय मे भावलक्षण = क्रिया जिससे लक्षित हो उस अर्थ मे वर्तमान स्था, इण् कृञ्, वदि, चरि, हु, तमि. जनि इन धातुओं से तुमर्थ मे तोसुन् प्रत्यय हो । सम् + स्था - [ आ ] संस्थातोर्वेद्या सादन्ति । समाप्तिपर्यन्त वेदी मे ठहरते हैं यहा संस्थिति अर्थात् समाप्ति मे ठहरना क्रिया लक्षित होती है । इसलिये सम् पूर्वक स्था धातु से तोसुन् प्रत्यय हुआ । इसी प्रकार अगले प्रयोग भी समझने चाहिये । उद् + इण्—पुरा सूर्यमुदेतोराधेय' । अप + आङ् + कृञ्—पुरा वत्सानामपाकर्त्तौ' । प्र + वद्—पुरा

प्रवदितोरग्नौ प्रहोतव्यम् । प्र + चरि—पुरा प्रचरितोरानीघ्रे होतव्यम् ।  
हु—आहोतोरप्रमत्तस्तिष्ठति । तमु—आतमिनोरासीत् । जनी—  
काममावजनिताः संभवाम ।

१५२६—सृपितृदोः कसुन् ॥ ३ । ४ । १७ ॥

वेदविषय में भावलक्षण में वर्तमान सृपि और तृद धातु से  
तुमर्थ में कसुन् प्रत्यय हो । सृप—पुरा क्रूरस्य विसृपो विरर्षान् ।  
तृद—पुरा जर्तृभ्य आतृद ।

१५३०—अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां

क्त्वा ॥ ३ । ४ । १८ ॥

प्रतिषेध अर्थ वाले अलं और खलु उपपद हो तो प्राचीनो के मत  
में धातु से क्त्वा प्रत्यय हो कृत्प्रत्ययान्त अव्यय भाव में होते हैं  
इससे क्त्वा को भाव में जानना चाहिये । उदाब्व—अल दत्वा,  
मत देओ । पठ—खलु पठित्वा, मत पढ़ा । अलं खलु ग्रहण से  
यहां न हुआ—माकार्षीत्, वह मत करे । प्रतिषेध ग्रहण से यहाँ न  
हुआ—अलकार । यहाँ प्राचां ग्रहण सत्कार के लिए है<sup>१</sup>, क्योंकि  
वासरूपविधि से यथाप्राप्त अन्य प्रत्यय हो ही जायगा । जैसे—  
अलं रोदनेन ।

१५३१—उदीचां माडो व्यतीहारे ॥ ३ । ४ । १९ ॥

उदीचों के मत में व्यतीहार = उलट पलट हाना अर्थ में  
वर्तमान मेङ् धातु से क्त्वा प्रत्यय हो । 'अप+मेङ्+क्त्वा+सु'  
यहाँ 'कुगति<sup>२</sup>' सूत्र से समास होकर—

१ अष्टाध्यायी भाष्य में 'प्राचाम्' ग्रहण विकल्पार्थ माना है । इस  
सूत्र के अष्टाध्यायी भाष्य की टिप्पणी द्रष्टव्य है ।

१५३२—समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वा ल्यप् ॥

७ । १ । ३७ ॥

नञ्पूर्वक समास न हो तो क्त्वा के स्थान में ल्यप् आदेश हो । इससे 'क्त्वा' को ल्यप् आदेश होकर "अप्+मेङ्+ल्यप्+सु" इस अवस्था में—

१५३३—मयतेरिदन्यतरस्याम् ॥ ६।४।७० ॥

ल्यप् परे हो तो आकारान्त मेङ् धातु को इकारादेश विकल्प करके हो । ( सन्धि० ८६ ) इस सूत्र के अनुसार मेङ् के अन्त्य का इकार होकर ( सन्धि० २०६ ) में तुक् हो जाता है । जैसे—अपमित्य याचते । भिक्षुक पहिले मागता है पीछे वस्त्र फैलाता है । जहा इकार न हुआ, वहा आत्व ( २४२ ) से हो जाता है । जैसे—अपमाय याचते । यहा पूर्वकाल की प्रतीति नहीं है इससे यह क्त्वा विधान किया क्योंकि पूर्वकाल में क्त्वा ( १५३६ ) से विधान करेगे । उद्गीचो के ग्रहण से औरो के मत में पूर्वकालिक क्त्वा भी मेङ् धातु से होता है, जैसे—याचित्वा अपमयते ।

१५३४—क्त्वापि छन्दसि ॥ ७ । १ । ३८ ॥

वेद विषय में अनञ्पूर्वसमास में क्त्वा को क्त्वा और ल्यप् आदेश हो । क्त्वा—कृष्ण वासो यजमानं परिधापयित्वा, प्रत्यञ्चमर्क प्रत्यथेयित्वा । ल्यप्—उद्धृत्य जुहोति । वा ग्रहण से भी दोनो आदेश हो जाते, तथापि यहा क्त्वा ग्रहण सर्वोपाधि की निवृत्ति के लिए है । इससे असमास में भी ल्यप् होता है—अर्च्यं तान् देवान् गतः ।

१५३५—परावरयोगे च ॥ ३ । ४ । २० ॥

पर से पूवे का और अवर अर्थात् पूर्व से पर का योग गम्यमान हो तो धातु से क्त्वा प्रत्यय हो । परयोग—अप्राप्य ग्राम पर्वत

स्थितः । ग्राम को न पाकर पर्वत रहा अर्थात् ग्राम से परे पर्वत है ।  
यहां प्रपूर्वक आप्लु धातु से क्त्वा प्रत्यय, फिर प्रादिसमास ( सामा०,  
कुगति० १८२ ) होने से ल्यप् आदेश होकर नञ्समास होता है ।  
अवरयोग—अतिक्रम्य पर्वतं ग्रामः स्थितः । पर्वत को अतिक्रमण  
करके ग्राम रहा । अर्थात् पर्वत ग्राम से पहिले है ।

### १५३६—समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ॥३४।२१॥

जिनका समान कर्ता है ऐसे जो धातु उन में जो पूर्वकाल  
विषयक अर्थ में वर्तमान धातु उससे क्त्वा प्रत्यय हो । भुक्त्वा  
व्रजति । भोजन करके जाता है । यहां भोजन क्रिया प्रथम करना  
है इससे भुज धातु से क्त्वा प्रत्यय हो गया । इसी प्रकार—  
'स्नात्वा पठति' इत्यादि समझना चाहिये । 'समानकर्तृकयोः' यह  
द्विवचन अतन्त्र है इससे स्नात्वा, पीत्वा', भुक्त्वा, पठित्वा  
गच्छति । इत्यादिको में भी क्त्वा प्रत्यय होता है । समानकर्तृक  
ग्रहण से यहां न हुआ—वर्षत मेवे देवदत्तो गतः । पूर्वकालग्रहण  
से यहां न हुआ—गच्छन् पठति, जाता हुआ पढ़ता है । यहां  
पूर्वकालता नहीं है । तथा 'मुखं व्यादाय स्वपिति' यहां भी पूर्वकालता  
नहीं क्योंकि सोने वाले का मुख खाने के पीछे फैलता है तथापि  
मुख फैले पीछे जो निद्रा है उससे मुख का फैलना पूर्वकाल में है  
इससे पूर्वकालता सिद्ध है क्योंकि सानैवाला मुख फैले पीछे कुछ देर  
अवश्य सोवेगा ।

### १५३७—त्त्वि स्कन्दस्यन्दोः ॥ ६ । ४ । ३१ ॥

क्त्वा प्रत्यय परे हो तो स्कन्द और स्यन्द धातु के उपधा नकार  
का लोप न हो । स्कन्दिर् गतिशोषणयोः—स्कन्त्वा । स्यन्द प्रसवणे—यह  
ऊदित् है इससे परे क्त्वा को विकल्प करके इट् होगा । जिस पक्ष में

इट् नहीं होता उस पक्ष में (१३९) से प्राप्त जो नलोप उसका निषेध हो गया—स्यन्त्वा । और जहां इट् होता है वहां—

१५३८—न क्त्वा सेट् ॥ १ । २ । १८ ॥

सेट् ( इट्सहित ) क्त्वा प्रत्यय कित् संज्ञक न हो । इससे कित् सज्ञा का निषेध होकर नलोप भी नहीं होता । जैसे—स्यन्दित्वा । श्यित्वा । सेट् ग्रहण इसलिये है कि—कृत्वा । हृत्वा । इत्यादि में कित् निषेध न हो ।

१५३९—मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसः क्त्वा ॥  
१ । २ । ७ ॥

मृड, मृद, गुध, कुष, क्लिश, वद और वस धातु से परे सेट् क्त्वा कित् संज्ञक हो । पिछले सूत्र से कित् संज्ञा का निषेध था इसलिये विधान किया । मृडित्वा । क्लिशू विबाधने—क्लिशित्वा ( स्वरि० ) क्लिष्टा । वद—उदित्वा ( २८३ ) वस—उषित्वा ।

१५४०—नोपधात्थफान्ताद्वा ॥ १ । २ । २३ ॥

नकार जिस के उपधा मे तथा थ और फ अन्त में हो उस धातु से परे सेट् क्त्वा कित् संज्ञक विकल्प करके हो । थान्त—श्रथित्वा, श्रन्थित्वा । फान्त—गुफित्वा, गुम्फित्वा । नोपधग्रहण मे—कोथित्वा । यहां कित् सज्ञा का विकल्प नहीं होता, किन्तु ( १५१८ ) से नित्य कित् सज्ञा का निषेध होकर गुण हा जाता है ।

१५४१—वञ्चितुञ्च्यृतश्च ॥ १ । २ । २४ ॥

वञ्चि, लुञ्चि, ऋत् इन धातुओं से परे सेट् क्त्वा विकल्प करके कि् संज्ञक हो । वञ्चु गतौ—वञ्चित्वा, वचित्वा । लुञ्च अपनयने—लुञ्चित्वा, लुचित्वा । ऋत्—यह सौत्रधातु है । ऋतित्वा, अर्चित्वा ।

१५४१—**तृषिमृषिकृशोः काश्यपस्य ॥ १।२।२५॥**

काश्यप आचार्य के मत में तृषि, मृषि और कृशि धातु से परे सेट् क्त्वा विकल्प करके कित् सङ्ग हो। वितृष—तृषित्वा, तर्षित्वा। मृष—मृषित्वा, मर्षित्वा। कृश—कृशित्वा, कर्षित्वा।

द्युत्तित्वा, द्योत्तित्वा, लिखित्वा लेखित्वा (५१४); उषित्वा, वसित्वा (११८४), अञ्चित्वा (११८३), लुभित्वा, लोभित्वा (११८५)।

१५४३—**जूव्रश्चोः क्त्वि ॥ ७।२।५५॥**

जू और व्रश्चू धातु से परे क्त्वा को इट् आगम हो। जूष—जरित्वा (२६४) जरित्वा। ओव्रश्चू—व्रश्चित्वा।

१५४४—**उदितो वा ॥ ७।२।५६॥**

जिस का उकार इत्संज्ञक हो उस धातु से परे क्त्वा को इट् विकल्प करके हो। शमु—शमित्वा, शान्त्वा (५८८)।

१५४५—**क्रमश्च क्त्वि ॥ ६।४।१८॥**

ऋलादि क्त्वा प्रत्यय परे हो तो क्रम् धातु के उपधा को विकल्प करके दीर्घ हो। क्रमु—क्रन्त्वा, क्रान्त्वा (सन्धि० १९२, १९७)। ऋलादि ग्रहण से यहा उपधादीर्घ न हुआ—क्रमित्वा (१५५४) [ से इट् विकल्प ]।

१५४६—**जान्तनशां विभाषा ॥ ६।४।३२॥**

जकार जिनके अन्त में हो उन अङ्गो और नश अङ्ग की उपधा का लोप विकल्प करके हो। भञ्जो आमर्दने—भक्त्वा, भङ्क्त्वा। रञ्ज—रक्त्वा, रङ्क्त्वा। नश—नष्ट्वा। यहा (४०९) से नुम् होता है उसका एक पक्ष में लोप हो गया और दूसरे पक्ष में न हुआ। जैसे—नष्ट्वा, (४०७) सूत्र से पक्ष में—नशित्वा। खात्वा (३९४)। दो—दित्वा। षो—सित्वा। मा—मित्वा। स्था—स्थित्वा। इन सभी में (१२१८) सूत्र से इकार होता है। डुधाव्—हित्वा (१२२०)।



१५४७—जहातिश्च क्त्वि ॥ ७ । ४ । ४३ ॥

वेदविषय मे जहाति=आहाक् अङ्ग को विकल्प करके हि  
आदेश हो क्त्वा परे हां तो। ओहाक् त्यागे—हिक्त्वा। और  
“ओहाङ् गतौ” इम का “हाक्त्वा” होगा। अद—जग्ध्वा। (१२१६)  
सूत्र से जग्वि आदेश हां जाता है।

१५४८—वा ल्यपि ॥ ६ । ४ । ३८ ॥

ल्यप् प्रत्यय परे हो तो अनुदात्तोपदेश वनति और तनात्यादि  
अङ्गों के अनुनासिक का लोप विकल्प करके हो। यह व्यवस्थित  
विभाषा है इससे मकारान्त अङ्गों के अनुनासिक का लोप विकल्प  
करके तथा औरों के का नित्य होता है। जैसे मान्त अङ्ग-गम्-आ-  
गत्य, आगम्य। नम्-प्रणत्य, प्रणम्य। मान्तो से अन्यत्र-हन्-प्रहत्य।  
मन्-प्रमत्य। वन्-प्रवत्य। (पारिभा० ४६) पारिभाषा<sup>१</sup>के अनुसार  
ल्यप् के विषय में “हि, द्य, आ, इन्, दीर्घ, इट्” ये विधि क्त्वा  
प्रत्यय के आश्रय से होने वाले अन्तरङ्ग भी हैं पर नहीं होते, किन्तु  
क्त्वा को बहिरङ्ग ल्यप् आदेश हो जाता है। जैसे हि-विधाय  
(१२२०) दथ्-प्रदाय (१२२२) आ-प्रखन्य (२९४) इन्-प्रस्थाय।  
दीर्घ-प्रक्रम्य (५८८) इट्-प्रदीव्य (४७)।

१५४९—न ल्यपि ॥ ६ । ४ । ६६ ॥

ल्यप् परे हो तो घुसज्जक मा, स्था, गा, पा, जहाति=ओहाक्  
और सा इन अङ्गों को ईकारदेश न हो। धेट्-प्रवाय। माङ्-  
प्रमाय। स्था-प्रस्थाय। गै-प्रगाय। पा पाने-प्रपाय। हा-  
प्रहाय। षो-प्रसाय। मीङ् इसायाम्-प्रमाय। डुमिन् प्रक्षेपणे-  
निमाय। दीङ् क्षये-अवदाय। इनमे आत्व ( ३९९ ) से। लीङ्

१ अन्तरङ्गानपि विधीन् वाचिन्वा बहिरङ्गो ल्यब भवति ।

श्लेषणे—विलाय । इनमे (४००) से [ विकल्प से ] आत्व होजाता है । दूसरे पक्ष मे—विलीय । विचर+णिच्=विचार्य । यहा णिलोप ( १७७ ) से हो जाता है ।

१५५०—ल्यपि लघुपूर्वात् ॥ ६ । ४ । ५६ ॥

ल्यप परे हो तो प्रवे जो लघु हो उसके परे णि के स्थान मे अय् आदेश हो । वि + गण + णिच् = विगणय्य, प्रणमय्य । यहां णाकार का अकार पूर्व है उससे उत्तर णि को अय् आदेश होजाता है किन्तु लोप ( १७७ ) से नहीं होता । लघुपूर्व ग्रहण से यहा न ह्रस्वा—संप्रधृञ् + णिच् = सप्रधार्य ।

१५५१—विभाषापः ॥ ६ । ४ । ५७ ॥

आप्लु धातु से परे णि को अय् आदेश विकल्प करके हो । प्र + आप्लु + णिच् = प्रापय्य, प्राप्य वा पठति । यहाँ णिलोप ( १७७ ) से हां जाता है ।

१५५२—जनिता मन्त्रे ॥ ६ । ४ । ५३ ॥

मन्त्र विषय मे णिलोप से जनिता यह निपातन है । यो नः पिता जनिता । यहा जन धातु से इडादि टृच् प्रत्यय के परे णिलोप निपातन से होता है । मन्त्र से अन्यत्र—जनयिता ।

१५५३—शमिता यज्ञे ॥ ६ । ४ । ५४ ॥

यज्ञ कर्म में णिलोप से शमिता यह निपातन है । श्रुतं हविः शमित । यह संबुद्धि विषय मे प्रयोग है यहां शसु धातु से टृच् प्रत्यय के परे णिच् का लोप हो जाता है । यज्ञ से अन्यत्र—<sup>३</sup>शमयित् यह प्रयोग होगा ।

१५५४—युप्लुबोर्दीर्घश्छन्दसि ॥ ६ । ४ । ५८ ॥

ल्यप परे हो तो वेद विषय मे यु और प्लु धातु को दीर्घादेश हो ।

यु—दान्यनुपूर्व वियूय । यहा विपूर्वक यु धातु को ल्यप् के परे दीर्घ होता है । प्लु—यत्रायो दक्षिणा परिप्लूय । यहा परिपूर्वक प्लु को दीर्घ होता है । वेद से अन्यत्र—संयुत्य, संप्लुत्य ।

१५५५—क्षियः ॥ ६ । ४ । ५६ ॥

ल्यप् परे हो तो क्षि धातु को दीर्घादेश हो । प्रक्षीय, संक्षीय ।

१५५६—त्यपि च ॥ ६ । १ । ४१ ॥

ल्यप् परे हो तो वेच् धातु को संप्रसारण न हो । प्र+वेच्= प्रवाय तिष्ठति ।

१५५७—ज्यश्च ॥ ६ । १ । ४२ ॥

ल्यप् परे हो तो ज्या धातु को भी संप्रसारण न हो । ज्या बयोहानौ—प्रज्यायोपरमते । बुड्ढा होकर सब कामो से निवृत्त होता है ।

१५५८—व्यश्च ॥ ६ । १ । ४३ ॥

ल्यप् के परे व्येच् धातु को भी संप्रसारण न हो । व्येच् संवरणे—उपन्याय ।

१५५९—विभाषा परेः ॥ ६ । १ । ४४ ॥

ल्यप् परे हो तो परि उपसर्ग से परे व्येच् धातु को विकल्प करके संप्रसारण हो । परिवीय । यद्वा संप्रसारण किये पीछे (सन्धि० २०६ ) सूत्र से तुक् प्राप्त था उसको बाध कर 'हलः' सूत्र से दीर्घादेश हो जाता है ।

१५६०—आभीक्ष्ये णमुल् च ॥३।४।२२॥

आभीक्ष्ये=वार २ होना अर्थ गम्यमान हो तो समानकर्तृक धातुओ में जो पूर्वकाल में वर्तमान धातु है उससे क्त्वा और णामुल् प्रत्यय भी हो ।

## १५६१—वा०—आभीक्ष्ये द्वे भवत इति

वक्तव्यम् ॥ ८ । १ । १२ ॥

आभीक्ष्य \* अर्थ मे वर्तमान जो शब्द है उसको द्विर्वचन हो। जैसे भुज्—भोज भोज व्रजति, भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति। स्मृ—स्मारं स्मार पठति, स्मृत्वा स्मृत्वा पठति। यहां पूर्व सूत्र से णमुल् प्रत्यय होकर क्त्वा और णमुल् प्रत्ययान्त को द्विर्वचन होजाता है।

## १५६२—न यद्यनाकाङ्क्षे ॥ ३ । ४ । २३ ॥

यद् शब्द उपपद हो और अनाकाङ्क्ष वाच्य हो तो धातु से क्त्वा और णमुल् प्रत्यय न हा। जिस वाक्य मे अगली पिछली दो क्रिया रहे और वह कुछ पर की आकाङ्क्षा न करे उसका यहा प्रहण है। जैसे—यदयं पठति ततः पचति। जब यह पढ़ लेता है तदनन्तर पाक करता है। यहां 'यदयं पठति' इस अंश मे जो पठन क्रिया है उसको कुछ पचन की आकाङ्क्षा नहीं है। अनाकाङ्क्ष प्रहण से यहां निषेध नहीं होता—यदयं पठित्वा गच्छति, ततः परमेव

\* 'नित्यवीप्सयो।' इस सूत्र से जो द्विर्वचन होता है वह नित्य अर्थात् क्रिया के अविच्छिन्न होने में होता है किन्तु वार २ होने में नहीं होता जैसे किसी ने कहा—'स जीवति जीवति' यहा यह अर्थ प्रतीत होगा कि वह जीवता ही है। किन्तु जी के मरता फिर मर के जीता यह नहीं प्रतीत होगा। "भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, भोजं भोज व्रजति" यहां भोजन करता फिर जाता है। फिर भोजन करता फिर जाता है यह भोजन क्रिया का वार वार होना प्रतीत होता है। इसलिए क्रिया के वार वार होने में 'नित्यवीप्सयो' से द्विर्वचन नहीं प्राप्त था इससे आभीक्ष्य अर्थ मे द्विर्वचन का विधान किया है।

प्रसीदति । जब यह पढ के जाता है तदनन्तर ही प्रसन्न होता है ।  
यदयं बाल श्रावं श्रावं विस्मरति तत परमेव पापृच्छयते इत्यादि ।

### १५६३—विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेषु ॥३।४।२४॥

अग्रे प्रथम पूर्व ये उपपद हो तो समानकर्तृको मे जो पूर्वकाल मे वर्तमान धातु है उससे क्त्वा और णमुल् प्रत्यय विकल्प करके हो । यह अप्राप्त विभाषा है । अग्रे पठित्वा गच्छति, अग्रे पाठं गच्छति, प्रथम पठित्वा गच्छति, प्रथमं पाठं गच्छति; पूर्व पठित्वा गच्छति, पूर्व पाठं गच्छति । विभाषा ग्रहण इसलिये है कि जब क्त्वा और णमुल् नहीं होते तब लट् आदि प्रत्यय होते हैं, जैसे—अग्रे पठति ततो व्रजति । आभीक्ष्ण्य अर्थ मे तो पूर्व विप्रतिषेध से नित्य क्त्वा और णमुल् होते हैं, जैसे—अग्रे पठित्वा पठित्वा गच्छति, अग्रे पाठ पाठं गच्छति इत्यादि ।

### १५६४—कर्मण्याक्रोशे कृञ् खमुञ् ॥३।४।२५॥

आक्रोश गम्यमान हो और कर्म उपपद हो तो समानकर्तृको मे जो पूर्वकाल में वर्तमान धातु उससे खमुञ् प्रत्यय हो । चोरंकारमाक्रोशति । चोर कह कर कोसता है । यहां कृञ् धातु उच्चारण अर्थ मे है ।

### १५६५—स्वादुमि णमुल् ॥ ३ । ४ । २६ ॥

स्वादु शब्द के अर्थ वाले शब्द उपपद हो तो समानकर्तृको मे जो पूर्वकाल मे वर्तमान धातु है उससे णमुल् प्रत्यय हो । स्वादुंकारं भुङ्क्ते, सपन्नंकारं भुङ्क्ते । लवणकारं भुङ्क्ते । यहां 'संपन्नं' और 'लवणं' शब्द स्वादु शब्द के पर्यायवाचक है । "स्वादुमि मान्तनिपातनं क्रियते ईकाराभावार्थम्, च्यन्तस्य च मकारार्थम्" ॥ महाभाष्ये । ३ । ४ । २६ । स्वादु शब्द से ईकार का अभाव अ

च्यन्न् स्वादु शब्द को मकारान्त रहने के लिये “स्वादुमि” यहां स्वादु शब्द को मकारान्त निपातन किया है। ईकार—स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा मे ङीष् प्रत्यय सं प्राप्त है। जैसे—स्वाद्दी कृत्वा यवागूं भुङ्क्ते। यहा ( स्त्रैण० ७६ ) इस सूत्र से उकारान्त गुणवाची स्वादु शब्द से ङीष् प्राप्त था सो न हुआ। च्यन्न्त—अस्वादु स्वादु कृत्वा भुङ्क्ते, स्वादुंकारं भुङ्क्ते। अब णमुल् का अधिकार है, सो समानकर्तृको मे जो पूर्वकाल मे वर्तमान धातु है उस से प्रायः होता है।

१५६६—अन्यथैवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत् ॥

३।४।२७ ॥

जो सिद्ध कृच् धातु का अप्रयोग हो और अन्यथा, एवं, कथ, इत्थं ये उपपद हो तो कृच् धातु से णमुल् प्रत्यय हो। जो कृच् धातु के प्रयोग के विना भी अर्भीष्ट अर्थ वाक्य से कहा जाय तो कृच् के प्रयोग को भी अप्रयोग के तुल्य समझना चाहिये। जैसे—अन्यथाकारं पठति शिञ्चाविरहां बालः। शिञ्चा से रहित बालक अन्यथा अर्थात् उच्चारणादि नियम से रहित पढ़ता है। यह अर्थ तो “अन्यथा पठति शिञ्चाविरहो बाल” इस वाक्य से भी होता है। इसलिये पूर्व वाक्य मे सिद्ध कृच् धातु का अप्रयोग समझना चाहिये। सिद्धाप्रयोगग्रहण से यहां णमुल् नहीं होता—शिरोऽन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते। शिर को और ढग से करके भोजन करता है। यह अर्थ “शिरोऽन्यथा भुङ्क्ते” इस वाक्य से न होगा।

१५६७—यथातथयोरसूयाप्रतिवचने ॥३।४।२८॥

सिद्ध कृच् धातु का अप्रयोग हो, असूयाप्रतिवचन गम्यमान हो और यथा तथा शब्द उपपद हो तो कृच् धातु से णमुल् प्रत्यय हो।

असूया अर्थात् जो न सहन कर के दूसरे की निन्दा करना उसका प्रतिवचन = उत्तर । जैसे—कथं तत्र पठिष्यासि ? यथाकारं पठिष्यामि तथाकारं पठिष्यामि किं तवानेन ? कैसे वहां पढ़ेगा ? जैसे पढ़ेगा वैसे पढ़ूंगा तुम्हको इससे क्या ? असूयाप्रतिवचन के ग्रहण से यहां न हुआ—यथा कृत्वाऽहं पठिष्यामि तथा त्वं दृक्षसि । सिद्धाप्रयोग के ग्रहण से यहां न हुआ—शिरो यथा कृत्वाह भोक्ष्यं किं तवानेन ।

१५६८—कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये ॥ ३।४।२६॥

कर्म उपपद हो तो साकल्य अर्थ में दृश और विद् धातु से णमुल् प्रत्यय हो । पुस्तकदर्श पठति । अर्थात् जो जो पुस्तक देखता है उस उस का पढ़ लेता है । भिक्षुवेदं ददाति । जिम् जिस भिखारी को जानता पाता विचारता [ है ] उस उस को देता है । ब्राह्मणवेदं भोजयति । “विद्” से ज्ञान लाभ और विचार इन अर्थों वाले विद् धातु का ग्रहण है । साकल्य ग्रहण से यहां न हुआ—पुस्तकं दृष्ट्वा पठति ।

१५६९—यावति विन्दजीवोः ॥ ३।४।३०॥

यावत् उपपद हो तो विद्लु और जीव धातु से णमुल् प्रत्यय हो । यावद्वेदं भुङ्क्ते । अर्थात् जितना पाता है उतना भोजन करता है । यावज्जीवमधीते । जितना जीता है उतना अध्ययन करता है ।

१५७०—चर्मोदरयोः पूरेः ॥ ३।४।३१॥

चर्म और उदर उपपद हो तो णजन्त पूरी धातु से णमुल् प्रत्यय हो । पूरी + णिच् = चर्मपूरमाच्छादयति । चाम पूरा ढांपता है अर्थात् जितना शरीर का चाम है सब ढांपता है । उदरपूरं भुङ्क्ते । पेट भर भोजन करता है ।

१५७१--वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् ॥

३ । ४ । ३२ ॥

प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से जो वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्मोपपद णिजन्त पूरी धातु से णमुल् प्रत्यय हो और इस पूरी धातु के ऊकार का लोप भी विकल्प करके हो। गो. पदं गोष्पदं, गोष्पदं पूरयित्वा वृष्टो मेघः = गोष्पदपूर्ं वृष्टो मेघः। ऊलोपपत्त मे—गोष्पदप्रं वृष्टो मेघः। गौ के खुर भरने मात्र मेघ बरसा। 'अस्य' ग्रहण इसलिये है कि धातु ही के ऊकार का लोप हो, उपपद के ऊकार का न हो। जैसे—मूषिकाबिलपूर्ं वृष्टो मेघ, मूषिकाबिलप्रं वृष्टो मेघः।

१५७२—चेले क्तोपेः ॥ ३ । ४ । ३३ ॥

वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो और चेल शब्दार्थक कर्म उपपद हो तो णिजन्त क्तोप धातु से णमुल् प्रत्यय हो। चेलक्तोपं वृष्टो मेघः, वसनक्तोपं वृष्टो मेघः, चीरक्तोपं वृष्टो मेघः। कपडा भिगोने भर मेघ बरसा।

१५७३—निमूलसमूलयोः कषः ॥३।४।३४॥

निमूल और समूल कर्म उपपद हो तो कष धातु से णमुल् प्रत्यय हो। निमूल कषति, निमूलकाषं कषति। जड को छोड़ के जैसे काटता हो वैसे काटता है। समूलं कषति, समूलकाषं कषति। जड़ समेत जैसे काटता हो वैसे काटता है। यहां से कषादिको का प्रकरण है इन मे यथाविधि अनुप्रयोग अर्थात् जिस धातु से णमुल् विधान करें उसी धातु का पीछे प्रयोग होता है। और इस प्रकरण मे पूर्वकाल की अनुवृत्ति नहीं है।

१५७४—शुष्कचूर्णरूत्तेषु पिषः ॥३।४।३५॥



शुष्क, चूर्ण, रूक्ष ये कर्म उपपद हो तो पिष धातु से णमुल् प्रत्यय हो। शुष्कपेषं पिनष्टि। सूखा पीसता हो वैस पीसता है। चूर्णपेषं पिनष्टि, रूक्षपेषं पिनष्टि।

१५७५—समूलाकृतजीवेषु हनकृञ्ग्रहः ॥

३।४।३६ ॥

समूल, अकृत, जीव ये कर्म उपपद हो तो यथासंख्य करके हन्, कृञ् और ग्रह धातु से णमुल् प्रत्यय हो। समूलघातं हन्ति। मूल समेत जैसे मारता हो वैसे मारता है। अकृतकार करोति। न किये को जैसे करता हो वैसे करता है। जीवग्राहं गृह्णाति। जीव का ग्रहण करता हो वैसे ग्रहण करता है।

१५७६—करणे हनः ॥ ३।४।३७ ॥

करण उपपद हो तो हन् धातु से णमुल् प्रत्यय हो। पादेन हन्ति, पादघातं हन्ति, यष्टिकाघातं हन्ति। लात वा लट्ठ से मारता हो वैसे मारता है।

१५७७—स्नेहने पिषः ॥ ३।४।३८ ॥

स्नेहन अर्थात् जिससे सचिक्रण करे ऐसा करण उपपद हो तो पिष धातु से णमुल् प्रत्यय हो। उदपेषं पिनष्टि, तैलपेषं पिनष्टि, कषायपेषं पिनष्टि। उदक से पीसता है इत्यादि।

१५७८—हस्ते वर्तिग्रहोः ॥ ३।४।३९ ॥

हस्तवाची करण उपपद हो तो णिजन्त वृत्तु और ग्रह धातु से णमुल् प्रत्यय हो। हस्तेन वर्तयति, हस्तवर्त वर्तयति। करवर्त वर्तयति। हस्तेन गृह्णाति, हस्तग्राह गृह्णाति, करग्राहं गृह्णाति।

१ पेष वासवाहनधिषु च ( अष्टा० ६।३।५८ ) सूत्र से उदक को उद आदेश होता है।

१५७६—स्वे पुषः ॥ ३ । ४ । ४० ॥

स्वशब्दार्थक करण उपपद हो तो पुष धातु से णमुल् प्रत्यय हो । स्व शब्द आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन का वाची है । स्वेन पुष्णाति, स्वपोष पुष्णाति, आत्मपोष पुष्णाति, पितृपोषम्, मातृपोषम्, धनपोषम्, रैपोषम् वा पुष्णाति ।

१५८०—अधिकरणे बन्धः ॥ ३ । ४ । ४१ ॥

अधिकरणवाची उपपद हो तो बन्ध धातु से णमुल् प्रत्यय हो । चक्रे बध्नाति चक्रबन्ध बध्नाति, शकटबन्धं बध्नाति, मुष्टिबन्धं बध्नाति । पहिये गाडी वा मुट्टी में बाधता हो वैसे बांधता है ।

१५८१—संज्ञायाम् ॥ ३ । ४ । ४२ ॥

संज्ञाविषय में बन्ध धातु से णमुल् प्रत्यय हो । क्रौच इव बध्नाति, क्रौचबन्धं बध्नाति, क्रौचबन्धं बद्धः, मयूरिकाबन्ध बध्नाति, अट्टालिकाबन्धं बध्नाति । ये बन्धनो के नाम हैं । क्रौचपक्षी, मोरनी और अटारी के समान बाधता हो वैसे बांधता है ।

१५८२—कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः ॥ ३ । ४ । ४३ ॥

कर्तृवाचक जीव और पुरुष शब्द उपपद हो तो यथासंख्य करके नश और वह धातु से णमुल् प्रत्यय हो । जीवनाश नश्यति । जीव नष्ट होता है । पुरुषवाहं वहति । अर्थात् पुरुष जैसे जहा तहा वस्तु लेजाने लेआने में वहता रहता है वैसे वहता है । कर्तृवाचक के ग्रहण से यहा न हुआ—‘जीवेन नष्टः, पुरुषेणोढः’ यहा जीव और पुरुष के करण है इससे णमुल् न हुआ, किन्तु क्त प्रत्यय हो जाता है ।

१५८३—ऊर्ध्वे शुषिपूरोः ॥ ३ । ४ । ४४ ॥

ऊर्ध्व शब्द कर्तृवाचक उपपद हो तो शुष् और पूरी धातु से णमुल् प्रत्यय हो । ऊर्ध्वशोषं शुष्यति । ऊपर को सूखता हो वैसे सूखता है । वृक्ष

आदि ऊपर ही को खड़े २ सूखते हैं। ऊर्ध्वपूरं पुर्यते घटः। ऊपर को पूरा होता हो जैसे घट पूरा होता है अर्थात् घट आदि का ऊपर को मुख होता [ है ], वर्षा आदि के जल से परिपूर्ण भर जाता है।

१५८४—उपमाने कर्मणि च ॥ ३ । ४ । ४५ ॥

उपमानवाची कर्ता व कर्म उपपद हों ता धातु से णमुल् प्रत्यय हो। कर्म—घृतमिव निदधाति घृतनिधाय निदधाति जलम्। घी के समान धरता हो जैसे जल को धरता है। कर्ता—अज इव नश्यति अजनाश नश्यति। बकरे के समान नष्ट होता हो जैसे नष्ट होता है।

१५८५—कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ॥३॥४॥४६॥

उक्त कषादिको मे यथाविधि अनुप्रयोग हो। अर्थात् जिस जिस धातु से णमुल् कहा है उसी का पीछे से प्रयोग हो। इसी क्रम से कषादिको मे उदाहरण दिये हैं। जैसे—निमूलकार्ष कषति इत्यादि।

१५८६—उपदंशस्तृतीयायाम् ॥ ३ । ४ । ४७ ॥

तृतीयान्त उपपद हो तो समानकर्तृको मे जो पूर्वकाल विषयक अर्थ मे उपपूर्वक दंश धातु उससे णमुल् प्रत्यय हो। यहा से णमुल् के प्रकरण की समाप्ति तक पूर्वकाल का सम्बन्ध है। मूलकेनोपदंश्य भुङ्क्ते, मूलकोपदंशं भुङ्क्ते। मूली को काट के उससे भोजन करता है। यहां 'मूलकमुपदंशति' इस अवस्था मे मूलक शब्द उपदंश धातु का कर्म भी है। तथापि भुजि क्रिया का करण होने से तृतीयान्त हो जाता है। यद्यपि मूलक शब्द का उपदंश के साथ शब्द-सम्बन्ध नहीं है तथापि कर्म होने से उसका अर्थकृत सम्बन्ध है। इतने ही सामर्थ्य से "मूलक+टा+उपदंश" इससे णमुल् प्रत्यय होता है और ( सामा० तृतीया० १९५ ) इस सूत्र सामर्थ्य से उपपद समास होता है तथा आगे भी उसी सूत्र से विकल्प करके उपपद समास होता है।

### १५८७—हिसार्थानां च समानकर्मकाणाम् ॥

३ । ४ । ४८ ॥

तृतीयान्त उपपद हो तो अनुप्रयोग जो धातु उससे जिनका समान कर्म है उन हिसार्थको से णमुल् प्रत्यय हो । दण्डोपघातं गा कलयति, दण्डेनोपघात गाः कलयति । दण्ड से पीट कर गौओ को गिनता है । दण्डताडं वृषबन्धाति, दण्डेनोपघातं वृष बन्धाति । समान-कर्मक प्रहण से यहां नहीं होता—अश्व दण्डेनोपहत्य गा कलयति । यहा उपपृवे हन् और कल धातु का एक कर्म नहीं है ।

### १५८८—सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः ॥ ३ । ४ । ४९ ॥

सप्तम्यन्त और तृतीयान्त उपपद हो तो उपपूर्वक पीड, रुध और कर्ष धातु से णमुल् प्रत्यय हो । पार्श्वोपपीडं शेते, पार्श्वोरुपपीड शेते । पसली मे दाब कर सोता है । पार्श्वोपपीडं शेते । पसली से दाब कर सोता है । ब्रजोपरोध गा कलयति, ब्रज उपरोध गाः कलयति । गोशाला मे रोक कर गौओ को गिनता है । ब्रजेनोपरोधं गा कलयति । गोशाला से रोक कर गौओ को गिनता है । पाण्युपकर्ष धाना संगृह्णाति, पाण्युपकर्ष धाना संगृह्णाति । हाथ से मीज कर [ मलकर ] धानो का सग्रह करता है । पाण्युपकर्ष धाना संगृह्णाति । हाथ से मीज कर धानो का सग्रह करता है ।

### १५८९—समासत्तौ ॥ ३ । ४ । ५० ॥

समासत्ति = संनिकट अर्थ गम्यमान हो और तृतीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद हो तो धातु से णमुल् प्रत्यय हो । केशग्राह युध्यन्ते, केशेषु ग्राहम् केशैर्ग्राहं वा युध्यन्ते, हस्तग्राहम् हस्तेषु ग्राहम् हस्तैर्ग्राहं वा युध्यन्ते अर्थात् युद्ध की प्रबलता से अत्यन्त निकट होकर लड़ते हैं ।

### १५९०—प्रमाणे च ॥ ३ । ४ । ५१ ॥

प्रमाण गम्यमान हा और तृतीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद हो तो धातु से णमुल् प्रत्यय हो । द्व्यङ्गुलोत्कर्षम्, द्व्यङ्गुल उत्कर्षम्, द्व्यङ्गुलेनात्कर्षम् वा काष्ठं छिनत्ति । दो अगुल के प्रमाण मे वा दो अंगुल के प्रमाण मे काष्ठ को काटता है इत्यादि ।

### १५६१—अपादाने परीप्सायाम् ॥३।४।५२॥

अपादान उपपद हो तो परीप्सा = सब ओर से चाहना अर्थ मे धातु से णमुल् प्रत्यय हो । शय्याया उत्थाय, शय्योत्थायं धावति । खाट से उठा और भगा अर्थात् और कुछ काम नहीं देखता है । जहा परीप्सा नहीं है वहा नहीं होता । जैसे—आसनादुत्थाय गच्छति ।

### १५६२—द्वितीयायां च ॥ ३ । ४ । ५३ ॥

द्वितीयान्त भी उपपद हो तो परीप्सा अर्थ मे धातु से णमुल् प्रत्यय हो । यष्टिग्राहं युध्यन्त, लोष्टग्राह युध्यन्ते । युद्ध की शीघ्रता मे और शस्त्रों को छोड लाठी वा ढेले लेकर युद्ध करते है ।

### १५६३—अपगुरोर्णमुलि ॥ ६ । १ । ५३ ॥

णमुल् परे हो तो अपपूर्वक गुरी धातु के एच् को विकल्प करके आकारादेश हो । गुरी उद्यमने—असिमपगूर्य युध्यन्ते, अस्यपगोरम्, अस्यपगार वा युध्यन्ते ।

### १५६४—स्वांगेऽध्रुवे ॥ ३ । ४ । ५४ ॥

अध्रुव = अस्थिर<sup>१</sup> स्वाङ्गवाची द्वितीयान्त उपपद हो तो धातु से

१ अध्रुव का लक्षण है—यस्मिन्नङ्गे छिन्नेऽपि प्राणी न त्रियते तदध्रुवम् । अर्थात् जिस अंग के काट देने पर भी प्राणी नहीं मरता वह अंग अध्रुव कहाता है ।

णमुल् प्रत्यय हो। अक्षिनिकाणं जल्पति। आख निकाल कर कहता है। अक्षिणे कथयति। भौहो को फरका कर कहता है। अध्रुव ग्रहण से यहाँ न हुआ—उत्क्षिप्य शिर कथयति। शिर पटक के कहता है।

१५६५—परिक्षिश्यमाने च ॥ ३ । ४ । ५५ ॥

परिक्षिश्यमान अर्थात् सब प्रकार से विशेष पीडा को प्राप्त जो स्वाङ्ग तद्वाचक जो द्वितीयान्त सो उपपद हो तो धातु से णमुल् प्रत्यय हो। उर.पेषं युध्यन्ते। छाती पीसते लडते हैं। उरः प्रतिपेषं युध्यन्ते, शिर.पेष युध्यन्ते, शिरः प्रतिपेषं युध्यन्ते। समस्त शिर पीसते लडते हैं। यह ध्रुवार्थ आरम्भ है।

१५६६—विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्य-  
मानयोः ॥ ३ । ४ । ५६ ॥

व्याप्यमान = व्याप्ति को प्राप्त और आसेव्यमान = सेवा को प्राप्त अर्थ गम्यमान हो और द्वितीयान्त उपपद हो तो विश आदि धातुओं से णमुल् प्रत्यय हो। विश आदि क्रियाओं से जो गेहादि द्रव्यो का निःशेष सम्बन्ध है सो यहाँ व्याप्ति और क्रिया का जो वार वार होना वह 'आसेव' समझनी चाहिये। द्रव्य में व्याप्ति और क्रिया में आसेवा रहती है। विश—गेहानुप्रवेशमास्ते। घर घर में प्रवेश करके बैठता है वा घर में पैठ पैठ बैठता है। यहाँ समास से ही व्याप्ति और आसेवा उक्त हैं। इससे 'नित्य०' सूत्र से णमुल् प्रत्ययान्त का द्विर्वचन नहीं होता और उपपदसमास का जहाँ विकल्प पक्ष है वहाँ व्याप्ति अर्थ में द्रव्य को द्विर्वचन और आसेवा में क्रिया को द्विर्वचन होता है। जैसे व्याप्ति—गेहं गेहमनुप्रवेशमास्ते। आसेवा-

गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते । पति—गेहानुप्रपातमास्ते, गेहं गेहमनु-  
प्रपातमास्ते, गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते । पदि—गेहानुप्रपादमास्ते,  
गेह गेहमनुप्रपादमास्ते, गेहमनुप्रपादमनुप्रपादमास्ते । स्कन्दिर्—गेहाव-  
स्कन्दमास्ते, गेह गेहमवस्कन्दम्, गेहमवस्कन्दमवस्कन्दम् । व्याप्यमान  
आसेव्यमान अर्थों के ग्रहण से यहां न हुआ-गेहमनुप्रविश्य भुङ्क्ते ।  
आसेवा आभीक्ष्ण्य है और आभीक्ष्ण्य अर्थ मे णमुल् कहा है  
इसलिये यह सूत्र द्वितीयोपपद होने से उपपद समास के लिये है ।

१५६७—अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु ॥

३ । ४ । ५७ ॥

कालवाची द्वितीयान्त उपपद हो तो क्रिया का व्यवधान कराने  
वाला जो अर्थ उस मे वर्तमान जो अस्यति, तृष धातु उनसे णमुल्  
प्रत्यय हो । असु क्षेपणे—द्व्यहात्यासं गा पाययति, द्व्यहमत्यासं  
गा पाययति । दो दिन छोड़ के गौओं को पिलाता है । यहां द्व्यह  
शब्द कालवाची द्वितीयान्त है । अतिपूर्वक अस वातु पान क्रिया  
के व्यवधान मे वर्तमान है । इसी प्रकार—“द्व्यह तर्ष गा. पाययति,  
द्व्यह तर्ष गाः पाययति” यहा भी जानना चाहिये । अस्यति, तृष्  
ग्रहण से यहां न हुआ— द्व्यहमुपोष्य भुङ्क्ते । क्रियान्तर ग्रहण  
से यहा न हुआ—अहरत्यस्य मगधान् गतः । कालग्रहण से यहां  
न हुआ—योजनमत्यस्य जलं पिबति । यहा अध्वविषयक योजन  
शब्द उपपद है ।

१५६८—नाभ्यादिशिग्रहोः ॥ ३ । ४ । ५८ ॥

द्वितीयान्त नाम शब्द उपपद हो तो आडपूर्वक दिश और ग्रह  
धातु से णमुल् प्रत्यय हो । नामादिश्याचष्टे, नामादेशमाचष्टे,  
नामगृहीत्वाचष्टे, नामग्रहमाचष्टे । नामोच्चारण कर वा नाम लेकर  
कहता है ।

## १५६६—अव्ययेऽथथाभिप्रेताख्यानं कृञ्:

क्त्वाणमुलौ ॥ ३ । ४ । ५६ ॥

अथथाभिप्रेताख्यानं = अभिप्रायविरुद्ध अर्थात् अप्रिय वाक्य को ऊंचे स्वर से कहना और प्रिय वाक्य को नीचे स्वर से कहना अर्थ गम्यमान हो और अव्यय उपपद हो तो कृञ् धातु से क्त्वा और णमुल् प्रत्यय हो । उच्चैःकृत्य, उच्चैःकृत्वा, उच्चैःकारम्-प्रियमाचष्टे । नीचैःकृत्य, नीचैःकृत्वा, नीचैःकारम् प्रियं ब्रवीति । अप्रिय को ऊंचे स्वर से और प्रिय को नीचे स्वर से अर्थात् धीरे से कहता है । यहां क्त्वा प्रहण "त्वा च" इस सामासिक ( १९७ ) सूत्र से समास होने के लिये है ।

## १६००—तिर्य्यच्यपवर्गे ॥ ३ । ४ । ६० ॥

अपवर्ग = समाप्ति अर्थ गम्यमान हो और तिर्य्यच् शब्द उपपद हो तो कृञ् धातु से क्त्वा और णमुल् प्रत्यय हो । तिर्य्यक्कृत्य, तिर्य्यक्कृत्वा, तिर्य्यक्कारं कार्यगत । कार्य को समाप्त करके गया । जहा अपवर्ग न हो वहां नहीं होते—तिर्य्यक्कृत्वा ( १५३६ ) काष्ठगत । काठ को तिरछा करके गया । यहां समाप्ति कथन नहीं है ।

## १६०१—स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः ॥ ३ । ४ । ६१ ॥

तस् प्रत्ययान्त स्वाङ्गवाची उपपद हो तो कृ, भू धातु से क्त्वा और णमुल् प्रत्यय हो । मुखत् कृत्य गतः, मुखत् कृत्वा गत, मुखत् कार गत । मुख की ओर करके गया । पृष्ठतो भूय, पृष्ठतो भूत्वा, पृष्ठतो भावं गतः । पीठ की ओर हो के गया । स्वांग प्रहण से यहा



न हुआ—सर्वतः कृत्वा गत । तस् प्रहण से यहां न हुआ—मुखीकृत्य गत । यहां ( छैण० ८५६ ) च्व प्रत्यय होता है ।

१६०२—नाधार्थप्रत्यये च्यर्थे ॥ ३ । ४ । ६२ ॥

च्यर्थ नाधार्थप्रत्ययान्त शब्द उपपद हो तो कृ और भू धातु से क्त्वा और णमुल् प्रत्यय हो । अनाना नानाकृत्वा गत —नानाकृत्वा गत, नानाकृत्य गतः, नानाकारं गत । थोड़े को बहुत करके गया । विनाकृत्वा गत, विनाकृत्य गतः, विनाकारं गत, नानाभूय गतः, नानाभूत्वा गतः, नानाभावं गत, विनाभूय गतः, विनाभूत्वा गतः, विनाभावं गत, द्विधाकृत्य, द्विधाकृत्वा, द्विधाकारं गतः, द्विधाभूय, द्विधाभूत्वा, द्विधाभावं गतः, द्वैधकृत्य, द्वैधकृत्वा, द्वैधकारं गतः, द्वैधभूय, द्वैधभूत्वा, द्वैधभावं गतः । प्रत्यय प्रहण से यहां नही होते—हिरूक् कृत्वा गतः । विना करके गया । पृथक् कृत्वा गत । अलग करके गया । च्यर्थप्रहण से यहां न हुआ—नाना कृत्वा काष्ठानि गतः । काष्ठो को फैला के गया ।

१६०३—तूष्णीमि भुवः ॥ ३ । ४ । ६३ ॥

तूष्णीम् शब्द उपपद हो तो भू धातु से क्त्वा और णमुल् प्रत्यय हो । तूष्णी भूत्वा स्थित, तूष्णी भावं स्थितः । चुप होकर ठहर रहा ।

१६०४—अन्वच्यानुलोम्ये ॥ ३ । ४ । ६४ ॥

अन्वच शब्द उपपद हां तो भू धातु से आनुलोम्य = अनुकूलपन अर्थात् दूसरे के चित्त की प्रसन्नता रखने अर्थ मे क्त्वा और णमुल्

प्रत्यय हो। अन्वगभूय आस्ते, अन्वगभूवास्ते, अन्वगभावमास्ते।  
दूसरे के अनुकूल होकर बैठता है। आनुलोम्य ग्रहण से यहाँ नहीं  
होते—अन्वगभूत्वा (१५१६) पठति। पीछे होकर पढ़ता है।

इत्याख्यातः प्रचरितगिराख्यात आख्यातिकेन,  
प्रोक्तः पातञ्जलमथ मतं प्रेक्ष्य दाक्षीमुतस्य।  
वेदाधीनान्निघतविषयस्थानमारोप्य योगान्,  
विज्ञायन्तां निगमवचनान्याशु जिज्ञासुभिर्यत् ॥  
इति श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृत आख्या-  
तिको ग्रन्थः पूर्तिमगात्।



आख्यातान्तर्गतानां धातूनामकारादिवर्णानुक्रमेण  
सूचीपत्रम्

धातु	पृ०	पं० / धातु	पृ०	पं०
अ				
अंस	३३०	१४	अड	७९ १
अक	१४३	५	अडु	७८ ८
अकि	५६	११	अण	९५ १७
अक्षु	१२१	२१	”	२६० ७
अग	१४३	५	अत	४३ २१
आग	५९	७	अति	५२ १
अङ्क	३३०	२४	अद्	१८८ २
अङ्ग	३३०	२५	अदि	५२ १
अधि	५७	२४	अन	२३० ४
अचि	१५३	१७	अन्ध	३३० २२
अचु	१५३	१३	अबि	८१ १९
अज	६६	२२	अभि	८२ ८
अजि	३२४	२	अभ्र	१०६ २५
अञ्चु	६३	१३	अम	९७ १७
”	१५३	११	”	३२१ २०
”	३२२	१७	अय	९९ १४
अञ्जू	२९५	१४	अर्क	३१८ ११
अट	७४	९	अर्च	६५ १
अट्ट	७१	११	”	३२४ १६
”	३१४	२०	अर्ज	६६ १६
अठि	७२	७	”	३२२ २
			अर्थ	३२९ ८

धातु	पृ०	प०	धातु	पृ०	प०
अट्टे	५१	४	इख	५९	६
”	३२५	१६	इखि	५९	६
अर्ब	८८	२	इगि	५९	८
अर्ब	११०	८	इङ्	२१९	११
अहे	१३३	१२	इट्	७५	१६
”	३२२	१०	इण	२१८	११
”	३२५	१८	इदि	५२	५
अल	१०४	६	इन्धी	२९३	२४
अव	११४	४	इल	२८३	१७
अश	३०९	७	”	३१९	३
अशूड	२७४	१६	इव	११०	९
अष	१५६	१२	इष	२५२	२५
अस	१५६	११	”	२८३	९
”	२२६	११	”	३०९	१०
असु	२२६	१			
अह	२७६	२७			
अहि	११७	३		२२३	२
”	३२४	३	इक्	११५	१६
			इक्लि	५९	७
			इङ्, इण्, इण्	२५५	१३
आछि	६५	९	इज	६२	२२
आप्लू	२७३	१९	इङ्	२०६	१३
”	३२६	८	”	३१९	१५
आस	२०७	१६	इर	२०६	९
			”	३२४	१८
इक्	२२१	६	इरि	१०३	२२

धातु	पु०	पं०	धातु	पु०	पं०
उर्वी	१०३	२२	उर्वी	१०९	१६
उलडि	२०६	१४	उलडि	३१३	८
उष	११५	१८	उष	१२७	६
उहिर्	१२६	४	उहिर्	१३३	१६
	११६	२१			
			ऊ		
			ऊठ	७७	१५
ऊन	१२४	१८	ऊन	३२८	२०
ऊयी	५९	५	ऊयी	१००	२२
ऊर्ज	५९	५	ऊर्ज	३१३	२५
ऊर्णञ्	१७५	११	ऊर्णञ्	२१२	२
ऊष	२६७	१०	ऊष	१२६	२
ऊह	६६	२	ऊह	११७	२५
	२७९	१९			
ऋ	६६	६	ऋ	१७०	१३
	२७९	२०		२४८	६
ऋञ्जि	२८०	७	ऋञ्जि	२७६	१२
ऋच	७७	११	ऋच	२८०	५
ऋळ	१३६	११	ऋळ	२७९	२१
ऋज	३२२	२२	ऋज	६२	११
ऋजि	२९५	११	ऋजि	६२	१६
ऋणु	२८०	६	ऋणु	२९९	६
ऋत	२८१	८	ऋत	१९७	५
ऋधु	२८१	९	ऋधु	२६८	१६
	४१	३		२७५	१४

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
ऋफ	२८१	६	कटे	७३	२३
ऋम्प	२८१	६	कठ	७७	४
ऋषी	२७८	१६	कठि	७२	८
			”	३२६	२०
ऋ	३०६	७	कड	७९	५
			”	२८४	२०
एज्	६२	१९	कडि	७३	९
”	६८	१८	”	७९	६
एठ	७२	१३	”	३१५	१६
एध	२७	२३	कड्ड	७८	९
एष्	११६	३	कण	९५	१७
			”	१४३	६
			”	३२१	१४
ओख	५८	२४	कत्थ	४३	१६
ओर्ण	९६	२	कत्र	३२९	१६
ओर्तडि	३१३	८	कथ	३२७	३
			कद	१४१	८
कक	५६	१६	कदि	५४	७
ककि	५७	७	”	१४०	१५
कख	५८	२३	कनी	९६	१३
कखे	१४२	१२	कपि	८१	१६
कगो	१४३	३	कवृ	८१	२९
कच	६१	२०	कमु	९१	२२
कचि	६२	१	कर्ज	६६	२०
कटी	७५	१६	कर्ण	३३०	२१

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
कर्त	३२९	१७	कीट	३१८	९
कर्द्	५१	१६	कील	१०५	१०
कर्ब	८८	३	कु	२१४	१६
कर्व	११०	६	कुक	५६	१७
कल	१०२	२४	कुङ्	१७५	११
"	३१६	११	"	२८५	२५
"	३२२	१६	कुच	६३	७
"	२२७	२०	"	१५२	११
"	१०३	२	"	२८४	७
कल्ल	२०८	१०	कुजु	६४	४
कश	१२६	५	कुञ्च	६३	८
कष	१५३	१	कुट	२८३	२६
कस	२०८	९	"	३२०	२१
"	२०८	७	कुट्ट	३१४	१७
कसि	१२५	१०	"	३२०	२४
काच्चि	६२	१	कुठि	७७	२६
काल	३२८	१०	कुठि	३१५	१७
काश	११७	२२	कुड	२८४	२३
"	२५८	३	"	२८५	३
कास	११६	६	कुडि	७२	१७
कि	२४९	७	"	७५	२०
किट	७४	२०	"	३१५	१६
"	७५	१६	कुण	२८१	२६
कित	१८७	१६	"	३२८	२४
किल	२८३	१२	कुत्स	३२०	१९

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
कृथ	२५२	१२	कूल	१०५	११
कृथि	४७	४	कृञ्	२७१	१२
कृद्रि	३१३	३	"	३००	५
कृन्थ	३०८	१२	कृड	२८४	२२
कृप	२६७	२२	कृती	२९१	७
"	३२३	१०	"	२९३	२२
कृवि	८८	१०	कृप	३२७	२३
"	३१८	२३	कृपू	१३८	२०
कृभि	३१८	२४	"	३२३	४
कुमार	३२८	६	कृवि	११३	१४
कुर	२८२	७	कृश	२६७	१६
कुर्द	४१	१३	कृष	१८६	१७
कुल	१४८	१८	"	२७८	६
कुशि	३२३	१०	कृ	२८७	१
कुष	३०८	१५	"	३०६	७
कुस	२६७	२	कृञ्	३०५	१०
कुसि	३२३	१०	कृत	३१८	१८
कुसम	३२१	७	कृष्ट	८०	१८
कुह	३२९	४	केल	१०५	२६
कृब्	२८५	२५	कृवृ	१०३	११
कृज	६६	१५	कै	१६६	३
कृट	३२०	२३	कृसु	२५१	१९
"	३२८	२२	कृञ्	३०४	२२
कृण	३२०	१२	कृपी	१००	२५
"	३२८	२६	कृमार	१०६	२४



धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
क्रथ	४३	१२	कर्लावृ	८२	३
"	३२५	१३	कलुङ्	१७५	२०
क्रद	१४१	९	केश	११५	८
क्रदि	५४	७	कण	९५	१७
"	१४०	१५	कथे	१४९	६
क्रन्द	३२२	६	कजि	१४०	१०
क्रप	१४०	१४	"	३१६	२२
क्रमु	९८	१६	कणु	२९८	१४
क्रीन्	३०३	३	कप	३३	१४
क्रीड	७८	१०	कपि	१४५	२
कृञ्	६३	८	"	३१६	२१
कृड	२८५	७	कमूष्	९१	७
कृध	२६२	७	कमूष्	२६५	१२
कृश	१५१	१९	कर	१४९	२२
कलथ	१४३	१२	कल	३१६	५
कृदा	१४१	९	कृि	६९	४
कृदि	५४	७	"	२७६	१०
"	१४०	१५	"	२८६	२२
कृप	३१९	१	कृिणु	२९९	२
कृमु	२६५	१६	कृिप	२५२	१६
कृिदि	४०	७	"	२७८	५
"	५४	११	कृिणुवु	१०९	१२
कृिदू	२६८	७	कृिज	६९	२०
कृिश	२५८	२	कृिबृ	८२	४
कृिश	३०९	६	कृिष्	३०७	५

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
क्षु	२११	१७	खद	४९	१३
क्षुदिर्	२९३	१०	खनु	१५५	६
क्षुध	२६२	८	खजे	६६	२१
क्षुभ	१३६	१६	खर्द	५१	१८
"	२६८	४	खर्ब	८८	३
"	३०८	२१	खर्व	११०	६
क्षुर	२८२	१३	खल	१०६	१०
क्षुनु	१०९	१३	खव	३१०	६
क्षै	१६५	२२	खष	१२६	५
क्षोट	३२८	५	खाट	४९	९
क्षणु	२११	१९	खिट	७४	२०
क्षमायी	१००	२६	खिद्	२१९	२०
क्षमील	१०५	३	"	२९१	१०
क्षिवदा	१३६	३	"	२९४	९
"	२६८	१४	खुङ्	१७५	११
क्ष्वेलु	१०६	१	खुजु	६४	४
			खुड	२८५	२
			खुडि	३१५	१९
खच	३१०	५	खुर	२८२	११
खज	६८	१५	खुर्द	४१	१३
खजि	६८	१७	खेट	३२८	२
खट	७५	२	खेड	३२८	३
खट्ट	३१८	३	खेलु	१०५	२६
खड	३१५	१५	खेषु	१०३	११
खडि	७३	१०	खै	१६५	१९
खडि	३१५	१५			

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
खोट	३२८	४	गहे	३२६	१९
खोच्छ	१०६	१८	गल	१०६	११
खोलु	१०६	१८	”	३२०	२१
ख्या	२२४	९	”	३२२	१६
			गल्भे	८३	१२
गज	७०	११	गल्ह	११७	६
”	३१८	१४	गवेष	३२८	१४
गजि	७०	११	गा	२५०	८
गड	१४१	१९	गाड्	१७५	१
गडि	५३	७	गावृ	३७	११
”	७९	७	गाहू	११८	३
गण	३२७	६	गु	२८५	१८
गद्	५०	११	गुड्	१७४	२३
गर्दा	३२७	१३	”	१७५	११०
गन्ध	३२०	८	गुज	६४	१६
गम्लु	१८२	२४	”	२८४	८
गर्ज	६६	१८	गुजि	६४	१६
”	३१९	११	गुठि	३१५	१८
गर्द	५१	१३	गुड	२८४	९
”	३१९	११	गुडि	३१५	१७
गर्ध	३१९	१२	गुण	३२८	२४
गर्ब	८८	३	गुद	४१	१३
गर्व	११०	७	गुध	२५२	१४
”	३२९	१०	”	३०८	१४
गर्ह	११७	५	गुप	१७८	१७

धातु	पृ०	प०	धातु	पृ०	पं०
गुप	२६७	२३	गोम	३२८	५
”	३२३	१०	गोष्ट	७१	१५
गुप्	८३	२१	ग्रथि	४३	१५
गुफ	२८१	७	ग्रन्थ	३०८	११
गुम्फ	२८१	७	”	३२५	१२
गुर	३२०	१७	”	३२६	७
गुरी	२८५	१०	ग्रस	३२३	६
गुर्द	४१	१३	ग्रसु	११६	१८
”	३१९	१३	ग्रह	३१०	१७
गुर्वी	१०९	२२	ग्राम	३२८	२४
गुह	१५७	४	ग्रुचु	६४	४
गुरी	२५७	१०	ग्लसु	११६	१९
गृ	१७१	१८	ग्लह	१२१	२
गृज	७०	११	ग्लुचु	६४	४
गृजि	७०	११	ग्लुचु	६४	९
गृधु	२६८	१८	ग्लेपृ	८०	१५
गृह	३२९	३	ग्लेवृ	१०३	८
गृह्	१२०	५	ग्लेषृ	११५	०५
गृ	२८७	६	ग्लै	१६४	१८
”	३०६	१०			
”	३२१	३	घष	६०	२०
गेपृ	८०	१८	घट	१३९	२२
गेवृ	१०३	८	”	३२१	२३
गेषृ	११५	२५	”	३२३	१०
गै	१६६	३	घटि	३२३	१०

घ

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
घट्ट	७२	३	डुड्	१७५	१२
"	३१८	२	च		
घस्तृ	१२९	१	चक	१७	१
घिणि	८९	१५	"	१४२	११
घुड्	१७५	१०	चकास्तृ	२३४	१२
घुट	१३६	७	चक्क	२१६	६६
"	२८४	२४	चक्लिड	२०४	२
घुण	८९	२१	चञ्चु	६३	१५
घुण	२८२	३	चट	३२१	२१
घुणि	८९	१५	चटे	७४	७
घुर	२८२	१४	चडि	७३	४
घुषि	१२१	५	चण	१४३	८
घुषिर्	१२१	११	चन	१५४	३
"	३२२	३	चाढ	५४	४
घूरी	२५७	११	चदे	१५४	३
घूर्ण	८९	२१	चन	१४३	१३
"	२८२	३	"	३२६	१२
घृ	१७१	१८	चप	८७	६
"	२४७	१४	"	३१७	६
"	३१८	१६	चपि	३१६	२०
घृणि	८९	१५	चमु	९७	२६
घृणु	२९९	९	"	२७६	९
घृषु	१२८	१२	चय	९९	१४
घ्रा	१६७	८	चर	१०६	२६
			"	३२२	२६

धातु	पृ०	प०	धातु	पृ०	प०
चर्च	१३१	१०	चीभृ	८२	६
"	२८०	३	चीव	३२३	११
"	३२१	१०	चीवृ	१५५	१३
चर्च	८८	३	चुक्क	३१६	४
चर्च	११०	५	चुच्य	१०४	४
चल	१४८	४	चुट	२८४	१८
"	२८३	१५	चुट	३१६	१६
"	३१६	१३	चुटि	३१९	२
चलि	१४४	१३	चुट्ट	३१४	१९
चष	१५६	२१	चुड	२८५	६
चह	१३३	४	चुडि	७६	४
"	३१७	५	चुड्	७८	७
"	३२७	२१	चुद	३१६	२
चायृ	१५५	१४	चुप	८७	९
चिन्	२७०	२१	चुबि	८८	१२
"	३१७	८	"	३१८	३
चिट	७५	१०	चुर	३११	२
चित	३१९	२४	चुल	३१६	८
चिति	३११	१९	चुल्ल	१०५	१८
चिती	४५	२४	चूरी	२५७	१४
चित्र	३३०	१२	चूर्ण	३१८	९
चिरि	२७६	१०	"	३१४	२
चिल	२८३	१५	चूष	१२५	१४
चिल्ल	१०५	२०	चती	२८१	१३
चीक	३२५	१५	चप	३२५	७

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
चल	१०५	२६	छो	२५६	३
चेष्ट	७१	१४			
च्यु	३०३	१	जज्ञ	२३०	६
च्युङ्	१७५	२०	जज	७०	६
च्युतिर्	४६	६	जजि	७०	६
च्युस	३२३	२	जट	७४	२३
			जन	२४९	१७
छद	३२५	१०	जनी	२५६	१४
"	३२५	२१	जप	८७	२
"	३३१	५	जभि	३२१	१८
छदि	१४४	१४	जभी	८३	४
"	३१५	१३	जमु	९७	२६
छमु	९७	२६	जर्ज	१३१	१०
छर्द	३१६	१	"	२८०	२
छष	१५६	२२	जल	१४८	७
छिदिर्	२९३	४	"	३१३	१०
छिद्र	३३०	१८	जल्प	८७	२
छुट	२८४	१८	जष	१२६	५
छुड	२८५	२	जसि	३१९	१४
छुप	२८९	३	जसु	२६६	१६
छुर	२८४	११	"	३१९	१६
छुदिर्	२९३	१५	"	३२१	१९
छुदी	३२५	४	जागृ	२३०	२२
छुप	३२५	७	जि	१०७	२२
छुद	३३१	५	"	१७४	९

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
जिमु	९८	१५	ज्ञा	३०७	७
जिरि	२७६	१०	”	३२२	११
जिवि	११०	१६	ज्या	३०६	१३
”	३२४	३	ज्युङ्	१७५	२०
जिषु	१२७	१७	जि	१७४	१०
जीव	१०९	७	”	३२४	२३
जुगि	६०	१९	ज्वर	१४१	१९
जुड	२८१	१८	ज्वल	१४३	२१
”	२८४	१९	”	१४८	३
”	३१८	१४			
जुत्	४३	९	भट	७४	२४
जुन	२८१	१९	भसु	९७	२६
जुष	३२५	२२	भर्भे	१३१	१०
जुषी	२७८	१९	”	२८०	३
जूरी	२५७	११	भष	१२६	५
जूष	१२५	२१	”	१५६	२४
जभि	८३	४	भ	३०६	५
ज	३०६	४	भष	२५३	६
”	३२४	२२			
जष	२५३	६			
जेष	११६	२	टकि	३१८	६
जेह	११७	१४	टल	१४८	८
जे	१६५	२२	टिकु	५७	८
ज्ञप	३१६	२४	टीक	५७	८
ज्ञा	१४४	१०	ट्वल	१४८	८



धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
	३२०	३	राञ्ज	२६३	७
डप	२६७	२२	रास	११६	१३
डिप	२८४	११	राह	२५८	१८
"	३१९	१९	रासृ	११६	११
"	३२०	३	रािच	१२४	२३
डीङ्	१७७	१४	रािनि	२०८	१७
"	२५४	१६	रािजिर्	२४५	१७
			रािदि	५३	९
			रािद्	१५४	११
ढौकृ	५७	८	रािल	२८३	२०
			रािवि	११०	१४
			रािश	१३२	१०
राञ्ज	१२४	२४	रािसि	२०८	१४
राख	५९	६	रािञ्	१६१	१०
राखि	५९	६	खील	१०५	८
राट	७५	३	खीत्र	१०९	११
"	१४२	७	णु	२११	३
राद्	५०	१५	णुद्	२७७	९
"	३२३	११	"	२८९	२०
राभ	१३६	१७	णू	२८५	१५
"	२६८	५	सोद्	१५४	११
"	३०९	४	सोष	११६	२
राभ	१८२	१८			
राय	९९	१५			
राल	१४८	१३	तक	५८	१६

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
तत्	१२५	७	तावृ	१०२	५
तक्ष्	१२४	१	तिक	२७५	२
तकि	५८	२०	तिक्क	५७	८
तगि	५९	७	तिग	२७५	२
तञ्चु	६३	१५	तिज	१७८	२०
तञ्चू	२९५	२४	”	३१८	१७
तट	७५	१	तिपृ	७९	१६
तड	३२४	४	तिम	२५२	२१
”	३१५	१४	तिल	१०५	२३
तडि	७३	८	”	२८३	१४
तन्नि	३२०	४	”	३१६	१२
तनु	२९७	३	तिल्ल	१०५	२५
तनु	३२६	१०	तीक्क	५७	८
तप	१८४	४	तीम	२५२	२१
”	२५७	१६	तीर	३२९	१४
”	३२५	२	तीव	१०९	११
तमु	२६५	४	तु	२१४	१८
तय	९९	१४	तुज	७०	८
तर्क	३२३	११	”	३१४	२५
तर्ज	६६	१९	तुजि	७०	९
”	३२०	६	”	३१४	२५
तर्द	५१	१५	”	३२३	९
तल	३१६	६	तुट	२८४	१७
तसि	३२२	१०	तुड	२८४	२५
तसु	२६६	१७	तुडि	७३	२

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
तुङ्	७८	१३	तूगी	२५७	८
तुण	२८१	२३	तूल	१०५	१४
तुत्थ	३३१	१४	तूष	१२५	१६
तुद्	२७७	२	तूहू	२८३	६
तुप	८७	१२	तूक्ष	१२४	२४
”	२८१	३	तूणु	२९९	८
तुफ	८७	१२	तूदिर्	२९३	१९
”	२८१	३	तूप	२६३	१६
तुभि	८८	११	”	२७६	२
”	३१८	२५	”	२८०	१६
तुभ	१३६	१७	”	३२५	३
”	२६८	५	तूफ	२८१	१
”	३०९	४	तूमप	२८०	१६
तुम्प	८७	१२	तूमफ	२८१	२
”	२८१	३	तूष	२६७	१७
तुम्फ	८७	१२	तूह	२९५	४
”	२८१	३	तूहू	२८३	६
तुर	२४९	१०	त	१७७	१८
तुर्वी	१०९	१६	तेज	६८	१३
तुल	३१६	६	तेष्ट	७९	१६
तुष	२६१	१४	तेवृ	१०३	४
तुस	१२८	१४	त्यज	१८४	८
तुहिर्	१३३	१६	त्रकि	५७	७
बृहृ	७८	१४	त्रख	६०	१३
तुणा	३२०	१३	त्रदि	५४	६

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
त्रपि	१४५	२	थेष्ट	८०	१३
त्रपूष्	८१	१	द		
त्रस	३२२	१२	दंश	१८६	१३
त्रसि	३२३	९	दक्ष	११५	१२
त्रसी	२५२	६	"	१४०	११
त्रिखि	६०	१३	दघ	२७६	६
त्रुट	२८४	१५	दगढ	३३०	२३
"	३२०	२०	दद	४०	१३
त्रुप	८७	१२	दध	३८	९
त्रुफ	८७	१२	दमु	२६५	६
त्रुम्प	८७	१२	दम्भु	२७५	८
त्रुम्फ	८७	१२	दय	१००	१९
त्रैड्	१७७	५	दरिद्रा	२३२	९
त्रौकृ	५७	८	दल	१०६	१४
त्वक्ष्	१२४	१	"	३२३	८
त्वगि	५९	७	दलि	१४५	१
त्वच	२८०	४	दशि	३१९	२५
त्वञ्जु	६३	१५	"	३२३	१०
त्वरा	१४१	१२	दस	३२०	१
त्विष	१८९	१३	दसि	३२०	१
त्सर	१०६	२१	"	३२४	२
			दसु	२६६	१८
थिष्ट	८०	१३	दह	१८७	६
थुड	२८४	२६	दान्	२४४	७
थुर्वी	१०९	१६	दाण्	१६८	३

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
दान	१८८	९	दङ्	२८७	१४
दाप्	२२४	७	दप	२६३	२६
दाशृ	१५६	४	"	२८१	४
"	२७६	१०	"	३२५	७
दासृ	१५७	२	दभ	३२५	९
दिवि	११०	१६	दभी	२८१	१२
दिवु	२५१	४	"	३२५	८
"	३२०	२	दम्फ	२८१	४
"	३२२	१	दशिर्	१८५	१६
दिश	२७७	१०	दह	१३३	११
दिह	२०३	१३	दहि	१३३	११
दीञ्	११५	१४	द	१४४	७
दीङ्	२५४	५	दृ	३०६	४
दीघीङ्	२३६	२	दृङ्	१७६	९
दीपी	२५७	४	दृष्ट्	१०३	४
दु	१७४	१	दृप्	१६६	२०
"	२७३	७	दो	२५६	८
दुःख	३३०	२६	दु	२१४	७
दुर्वी	१०९	१७	दुत	१३४	६
दुल	३१६	७	दृ	१६५	५
दुष	२६१	१५	द्रम	९७	२१
दुह	२०२	१२	द्रा	२२३	१६
दुहिर्	१३३	१६	द्रान्ति	१२५	१२
दृङ्	२५४	३	द्राख्	५८	२५
दृ	२७६	१०	द्राष्टृ	५८	३

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
द्राढ	७३	१३	धून्	२७२	१७
द्राह	११७	१८	"	३०५	१४
द्रु	१७४	१	"	३२५	२४
द्रुण	२८२	२	धूप	८६	२०
द्रुह	२६४	४	"	३२३	११
द्रून्	३०४	२३	धूगी	२५७	९
द्रूक	५६	३	धूश	३१८	८
द्रै	१६५	९	धूष	३१८	८
द्विष	२०१	१९	धूस	३१८	७
			धृक्	१७६	१
			"	२८७	१८
धक्क	३१६	३	धृज	६६	१०
धण	९५	२४	धृजि	६६	१०
धन	२४९	१२	धृन्	१६०	१८
धाव	११३	१२	धृष	३२६	२३
धान्	२४४	२५	धृषा	२७५	७
धावु	११४	१४	धृ	३०६	५
धि	२८६	२१	धेक	३२९	१५
धित्त	११५	१	धेट	१६१	१९
धिवि	११०	१६	धेपृ	८०	२१
धिष	२४९	१२	धोत्र	१०६	२०
धीक्	२५४	२०	ध्मा	१६७	१६
धुन्	११५	१	ध्यै	१६५	११
धुन्	२७२	१५	ध्रज	६६	१०
धुर्वी	१०९	१७	ध्रजि	६६	१०
धू	२८५	१६			

धातु	पृ०	प०	धातु	पृ०	प०
घण	९६	११	नट	३२४	३
घस	३०९	८	नदि	५३	१०
”	३२२	२२	नर्द	५१	१३
घाञ्चि	१२५	१२	नल	३२४	४
घ्राख्	५८	२५	नहि	३२४	३
घ्राघृ	५८	३	नाथ	३८	४
घ्राड्	७३	१३	नाघृ	३८	४
घ्रु	१७३	२३	निवास	३२८	१६
”	२८५	२१	निष्क	३२०	१०
घ्रुव	२८५	२२	नृती	२५१	२०
घ्रोकृ	५६	३	नृ	१४४	७
घ्रै	१६५	१०	”	३०६	६
ध्वंसु	१३६	२०			
ध्वज	६६	११	प		
ध्वजि	६६	११	पत्न	१२५	८
ध्वण	९५	१७	”	३१४	१
ध्वन	१४४	१७	पच	१८८	१४
”	१४७	१९	पचि	६२	७
”	३२८	२१	”	३१८	१६
ध्वनि	१४५	२	पट	७४	९
ध्वाञ्चि	१२५	१२	”	३२३	९
ध्वृ	१७२	३	”	३२७	१२
			पठ	७६	१८
			पडि	७३	९
न			”	३१६	१७
नक्क	३१६	३	”	३१६	१७
नट	३१३	१८	पण	९०	१

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
पत	३२७	१४	पिच्छ	३१५	१२
पत्तु	१४८	२१	पिज	३१४	२५
पथ	३१४	१४	पिजि	२०८	१९
पथि	३१५	१२	”	३१४	२५
पथे	१४९	८	”	३२३	९
पद	२५९	१४	पिट	७५	४
”	३२९	२	पिठ	७७	१७
पन	९०	२	पिडि	७२	२२
पय	९९	१४	”	३१९	१७
पर्या	३३१	१२	पिबि	११०	१४
पर्दे	४३	५	पिश	२९१	१२
पर्प	८८	२	पिण्लु	२९४	२२
पर्व	८८	२	पिस	३१५	४
पर्व	११०	२	पिसि	३२३	१०
पल	१४८	१४	पिसृ	१३२	४
पल्लूल	३२८	१२	पीङ्	२५५	१०
पश	३२१	२०	पीड	३१३	११
पष	३२७	१७	पील	१०५	७
पसि	३१६	१७	पीव	१०९	११
पा	१६७	३	पुस	३१८	५
”	२२४	२	पुट	७६	१
पार	३२९	१३	”	२८४	७
पाल	३१६	१४	”	३२३	९
पि	२८६	१८	”	३२९	१५
			पुटि	३२४	३



धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
पुट्ट	३१४	१९	पूर्णा	३१८	४
पुड	२८४	२४	पूल	१०५	१५
पुडि	७६	७	"	३१८	४
पुगा	२८१	२४	पूष	१२५	१७
"	३१८	४	पृ	२४१	२४
पुथ	२५२	१३	"	२७३	१४
"	३२३	११	पृड्	२८६	३
पुथि	४७	४	पृच	३२४	१४
पुर	२८२	१५	पृची	२०९	९
पुर्व	११०	८	"	२९६	४
"	३१९	१३	पृजि	२०९	४
पुल	१४८	१७	पृड	२८१	२०
"	३१६	८	पृण	२८१	२०
पुष	१२८	१	पृथ	३१४	९
"	२६१	८	पृषु	१२८	७
"	३१०	३	पृ	२४०	२४
"	३२३	७	"	३०५	२५
पुष्प	२५२	२०	"	३१३	२१
पुस्त	३१६	१	पेत्	१०६	४
पूड्	१७७	१०	पेवृ	१०३	८
पूज	३१८	१०	पेष	११५	२६
पूञ्	३०४	२४	पेस्	१३२	४
पूयी	१००	२३	पै	१६६	९
पूरी	२५७	६	पैण	९६	८
"	३२४	५	व्यायी	१०१	१

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
प्लेड्	१७७	४	फण	१४६	११
प्रच्छ	२८७	२२	फल	१०५	१६
प्रथ	१४०	७	फला	१०४	१५
"	३१४	४	फुल्ल	१०५	१९
प्रस	१४०	८	फोत्	१०६	५
प्रा	२२४	१३			
प्रीड्	२५५	१५	बण	९६	११
प्रीव्	३०३	१४	बद	५०	२
"	३२६	६	बव	१७९	१८
प्रुड्	१७५	२०	"	३१३	२१
प्रुष	३१०	२	बन्ध	३०७	१०
प्रुषु	१२८	४	बर्ब	८८	३
पेष	११६	३	बर्ह	११७	७
प्रीथ	१५४	४	"	३१९	१०
पुच	१५७	१	बल	१४८	१५
प्लिह	११७	११	"	३१७	७
प्ली	३०७	२	बल्ह	११७	७
प्लुड	१७५	२०	बसु	२६६	२०
प्लुष	२५१	२१	बस्त	३२०	८
"	२६७	१	बाधृ	३८	१
"	३१०	२	बाहृ	११७	१४
प्लुषु	१२८	५	बिट	७५	१२
प्ला	२२४	१	बिदि	५३	४
			बिल	२८३	१९
फक	५८	१३	"	३१६	१२

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
बिस	२६७	१	भञ्जो	२९४	२४
बुक्क	५८	२२	भट	७४	२५
"	३२१	११	"	१४०	४
बुगि	६०	१९	भडि	७२	२०
बुध	२५२	१५	"	३१५	२४
"	२५९	२४	भण	९५	१७
बुधिर्	१५४	१५	भदि	३९	२०
बुल	३१६	१०	भर्व	११०	५
बुस	२६७	३	भर्त्स	३२०	७
बुस्त	३१६	१	भल	१०२	२१
बृह	१३३	११	"	३२०	२२
बृहि	१३३	१२	भल्ल	१०२	२१
बृहिर्	१३३	१५	भष	१२७	५
बृहू	२८३	४	भस	२४८	१८
ब्युस	२६६	२३	भा	२२३	१४
ब्रीड्	२५५	७	भाज	३२८	१७
ब्रीड	२५२	२३	भाम	९१	५
ब्रूव्	२१५	१७	"	३२७	२५
ब्रूस	३१९	१०	भाष	११५	२१
			भासृ	११६	१०
भक्ष	१५७	१	भिक्ष	११५	७
"	३१४	१७	भिदि	५३	४
भज	१८८	२३	भिदिर्	२९३	१
"	३२२	१२	भी	२४०	६
भजि	३२३	९	भुज	२९५	१

भ

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
भुजो	२८९	१	भ्राश	१४७	६
भुवो	३२३	३	भ्री	३०७	४
भू	१	३	भ्रुड	२८५	७
”	३२६	१७	भ्रूण	३२०	१३
भूष	१२५	२२	भ्रंज	६२	१९
”	३२२	१०	भ्रेष	१५६	१०
भृजि	६२	१७	भ्लक्ष	१५६	२५
भृन्	१५९	१०	भ्लाश	१४७	६
”	२४२	४	भ्लेष	१५६	१०
भृशु	२६७	१३			
भृ	३०६	२	मकि	५६	१६
”	३०६	५	मख	५९	५
भेष	१५६	८	मखि	५९	६
भ्यस	११६	१४	मगि	५९	७
भंशु	१३६	२५	मघि	५७	२४
”	२६७	१३	”	६०	२२
भंसु	१३६	२१	मच	६२	२
भ्रक्ष	१५६	२५	मचि	६२	५
भ्रण	९५	१७	मठ	७७	२
भ्रमु	१४९	१५	मठि	७२	८
”	२६५	८	मडि	७२	१९
भ्रशु	१३६	२५	”	७५	१९
भ्रस्ज	२७७	१२	”	३१५	२१
भ्राज	६२	१९	मण	९५	१७
”	१४७	६	मत्रि	३२०	४

म

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
मथि	४७	४	मह	३२७	२२
मथे	१४९	९	महि	११७	१
मद्	३२१	२	मा	२२४	१४
मदि	३९	२३	मात्ति	१२५	१०
मदी	१४४	१६	माब्	२४२	१९
”	२६५	२०	”	२५५	१२
मन	२६०	१०	मान	१७९	१७
मनु	३००	३	”	३२१	५
मन्थ	४६	१८	”	३२६	१६
”	३०८	१०	मार्ग	३१६	१८
मभ्र	१०६	२६	”	३२६	२०
मय	९९	१४	मार्ज	३१८	१४
मर्च	३१८	१५	माह	१५७	३
मर्ब	८८	३	मिछ	२८०	१
मर्व	११०	२	मिजि	३२३	९
मल	१०२	१७	मिन्	२७०	१५
मल्ल	१०२	१८	मिथु	१५४	७
मव	११४	२	मिदा	१३५	८
मव्य	१०३	१९	”	२६८	१०
मश	१३२	१३	मिदि	३१३	६
मष	१२६	६	मिह	१५४	६
मसी	२६७	७	मिधु	१५४	८
मस्क	५७	८	मिल	२८३	२३
मस्जो	२८८	६	”	२९०	८
मह	१३३	७	मिवि	११०	१४

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
मिश	१३२	१२	मुर	२८२	१२
मिश्र	३३०	१६	मुर्छा	६५	१६
मिष	२८३	१२	मुर्वा	११०	१
मिषु	१२७	१७	मुष	३१०	४
मिह	१८७	११	मुस	२६७	४
मी	३२५	११	मुस्त	३१८	२
मीङ्	२५४	२०	मुह	२६४	१५
मीन्	३०३	१६	मूङ्	१७७	१३
मीमृ	९७	२१	मून्	३०५	३
मील	१०५	३	मूत्र	३२९	१२
मीव	१०९	११	मूल	१०५	१६
मुच	३२२	२३	"	३१६	९
मुचि	६२	३	मूष	१२५	१८
मुच्छृ	२९०	१३	मृत्त	१२५	५
मुज	७०	११	मृग	३२९	३
मुजि	७०	११	मृङ्	२८६	७
मुट	७६	१	मृजू	३२६	२१
"	२८४	१३	मृजूष	२२७	१८
"	३१६	१६	मृङ्	२८१	१९
मुठि	७२	११	"	३०८	१४
मुठि	७३	१	मृण	२८१	२२
"	७६	५	मृद	३०८	१३
मुण	२८१	२५	मृधु	१५४	१३
मुद	४०	१०	मृश	२८९	१८
"	३२२	१५	मृशि	३२४	२

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
मृष	२५८	१०	य		
"	३२६	२२	यत्त	३२०	१६
मृषु	१२८	७	यज	१८९	२०
मृ	३०६	३	यत	३२२	१४
मृङ्	१७६	६	यती	४३	७
मृथृ	१५४	७	यत्रि	३१२	४
मृह	१५४	६	यभ	१८२	१३
मृधृ	१५४	९	यम	१८३	२५
मृष्ट	८०	२०	यम	३१७	३
मृष्ट	१०३	८	यसु	२६६	७
म्ना	१६७	२६	या	२३३	३
म्रत्त	१२५	६	याचृ	१५३	१९
म्रच्छ	३१९	८	यु	२१०	१५
म्रद	१४०	८	"	३२१	६
म्रुत्तु	६२	१५	युगि	६०	१९
म्रुञ्चु	६३	१५	युछ	६६	२
म्रहृ	७३	२२	युज	२६०	११
म्रुचु	६३	१५	"	३२४	१४
म्रुञ्चु	६३	१५	युजिर्	२९३	११
म्लेछ	६५	३	युब्	३०४	१९
"	३१९	१०	युत्	४३	९
म्लेटृ	७३	२२	युध	२६०	२
म्लेष्ट	१०३	८	युप	२६७	२४
म्लौ	१६४	१८	यूष	१२५	२०
			यौष्ट	७३	२१

धातु	पृ०	प०	धातु	पृ०	प०
र			रभ	१८०	१६
रक्ष	१२४	२१	रभि	८२	८
रख	५९	६	रमु	१५०	१४
रखि	५९	६	रय	१०८	२१
रग	३२२	१६	रवि	११३	१२
रगि	५९	७	रस	१२८	१४
रगे	१४२	१३	,,	३३१	१
रघ	३२२	१६	रह	१३३	८
रघि	५७	८	,,	३१७	७
,,	३२४	३	,,	३२७	१२
रच	३२७	१९	रहि	१३३	१०
रञ्ज	१८९	३	,,	३२४	३
,,	२५९	२	रा	२२४	५
रट	७४	१३	राखृ	५८	२५
रठ	७७	५	राघृ	५८	२
रण	८७	७	राजू	१४६	२२
,,	९५	१७	राध	२६०	२५
,,	१४३	६	,,	२७४	५
रणि	१४५	१	रास्तृ	११६	११
रद	५०	१३	रि	२७६	१०
रध	२६२	१६	,,	२८६	१८
रप	८७	७	रिख	६०	१३
रफ	८८	२	रिगि	५९	८
रफि	८८	२	रिच	३२४	२४
रवि	८१	१९	रिचिर्	२९३	६



धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
रिफ	२८०	११	रुशि	३२४	२
रिवि	११३	१२	रुष	१२६	६
रिश	२८९	४	"	२६७	२०
रिष	१२६	६	"	३१९	१८
"	२६७	२०	रुह	१५२	१८
रिह	२८०	१५	रुच	३२९	१२
री	३०६	२१	रुष	३३१	३
रीङ्	२५४	२१	रुष	१२५	१९
रु	२११	५	रेकृ	५६	६
रुङ्	१७५	२१	रेट्	१५४	१
रुच	१३६	४	रेप्	८०	२०
रुज	३२४	६	रेभृ	८२	७
रुजो	२८८	१८	रेवृ	१०३	१२
रुट	१३६	१०	रेषृ	११६	४
"	३१९	१८	रै	१६५	१४
"	३२४	२	रोङ्	७८	२०
रुटि	७६	९	रौङ्	७८	२१
रुठ	७७	१०			
रुठि	७६	१२	लक्ष	३१३	२
"	७८	६	"	३२०	१८
रुदिर्	२२८	१९	लख	५९	६
रुध	२६०	४	लखि	५९	६
रुधिर्	२९२	३	लगि	५९	७
रुप	२६७	२५	लगे	१४२	१६
रुश	२८९	४	लधि	५७	९

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
लधि	६१	१	लस	३२२	८
"	३२३	९	लस्जी	२७९	१
"	३२४	९	ला	२२४	६
लछ्	६५	४	लाखृ	५८	२५
लज	७०	२	लाघृ	५८	३
"	३१३	११	लाछि	६५	५
"	३३०	१५	लाज	७०	४
लजि	७०	२	लाजि	७०	४
"	३१५	१	लाभ	३३१	६
"	३२४	२	लिख	२८३	२३
"	३३०	१६	लिगि	५९	८
लजी	२७९	१	लिगि	३२२	१८
लट	७४	१४	लिप	२९१	२
लढ	७९	२	लिश	२६०	१८
"	३१३	४	"	२८९	५
लडि	१४४	१५	लिह	२०३	१३
"	३१३	७	ली	३०६	२२
"	३२४	४	"	३२४	१९
लप	८७	८	लीङ्	३५४	२३
लबि	८१	१९	लुजि	३१५	१
लभष्	१८०	२२	लुञ्च	६२	११
लर्ब	८८	२	लुट	७५	९
लल	३२०	१०	"	१३६	१०
ल्लष	१५६	१६	"	२८४	२१
लस	१२८	१९	"	३२३	९

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
लुटि	७६	९	लाषू	७२	१
लुठ	७७	१०	व		
"	१३६	१०	वकि	५६	१३
"	२६७	९	"	५७	७
"	२८४	२१	वक्ष	१२५	२
लुठि	७६	१२	वख	५९	५
"	७८	२	वखि	५९	५
"	७८	६	वगि	५९	७
लुणउ	३१४	२३	वघि	५७	२४
लुथि	४७	४	वच	२२४	१७
लुप	२६७	२५	वच	३२६	१४
लुप्लू	२९०	१९	वज	७०	१५
लुभि	८८	११	वञ्चु	६३	१४
"	३१८	२४	"	३२०	२५
लुभ	२६८	२	वट	७४	१९
"	२८०	८	"	१४२	४
लुव्	३०५	४	"	३२७	१२
लुष	१२५	१८	"	३३०	१५
"	३१६	१४	वटि	३३०	१६
लेपृ	८०	२०	वठ	७६	२१
लोकृ	५४	२३	वठि	७२	७
"	३२३	११	"	३१५	१९
लोचृ	६१	१६	वडि	७२	१८
"	३२३	११	"	३१५	२०
लोड	७८	२१	वण	९५	१७

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
वद	१९५	१९	वल्ह	११७	८
”	३२६	१३	”	३२३	१०
वदि	३९	१७	वश	२३७	६
वन	९६	१७	वष	१२६	६
वनु	१४३	१६	वस	१९२	२
”	२९९	१२	”	२०८	३
वप	१९०	१८	”	३२२	२४
वभ्र	१०६	२६	”	३३१	१४
वम	१४९	११	वसु	२६६	१९
वय	९९	१४	वस्क	५७	८
वर	३२७	५	वह	१९१	८
वर्च	६१	९	वहि	११७	१
वर्ण	३१४	२	वा	२२३	११
”	३३१	८	वाञ्चि	१२५	१०
वर्ध	३१८	२२	वाञ्छि	६५	८
वर्ष	११५	२४	वाडू	७३	१२
वर्ह	११७	८	वात	३२८	१३
”	३२३	१०	वावृतु	२५७	१९
वल	१०२	१४	वाशू	२५८	४
वलि	१४५	१	वास	३२८	१५
वल्क	३१५	६	विचिर्	२९३	८
”	३३०	११	विछ	२८९	११
वल्गु	५९	७	”	३२३	११
वल्भ	८३	११	विजिर्	२४६	१३
वल्ल	१०२	१४	विजी	२७८	२२

धातु	पृ०	८०	धातु	पृ०	५०
विजी	२९६	१	वृङ्	३०७	१९
वित	७५	१३	वृजी	२०९	६
विथृ	४३	११	"	२९६	४
विद	२०५	५	"	३२४	२०
"	२५९	२१	वृब्	२७१	१६
"	२९४	१३	"	३२४	२१
"	३२१	४	वृण	२८१	२१
विद्लृ	२९०	२०	वृतु	१३७	३
विघ	२८१	१६	"	३२३	११
विल	२८३	१८	वृधु	१३७	१८
"	३१६	११	"	३२३	११
विश	२८९	१७	वृश	२६७	१५
विष	३१०	१	वृष	३२०	२६
विषु	१२७	१७	वृषु	१२८	७.
विष्लृ	२४६	२०	वृहि	३२३	१०
विष्क	३२०	९	वृहू	२८२	१६
"	३३१	१३	वृहू	३०६	१
वी	२२२	४	वृब्	३०५	११
वीर	३२९	५	वृब्	१९२	१३
वुगि	६०	१९	वेण	१५४	२२
वुन्दिर्	१५४	१९	वेथृ	४३	११
वुस	२६६	२४	वेनृ	१५५	१
ः	१६९	१८	वेपृ	८०	१६
वृक	५६	१७	वेल	३२८	९
क्ष	११५	४	वेल	१०५	२६

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	प०
बेल्ल	१०६	१	शक	२६१	२६
वेर्वाङ्	२३६	३	शकि	५६	१०
वेष्ट	७१	१३	शक्लु	२७४	२
वेह्	११७	१४	शच	६१	१७
वै	१६६	९	शट	७४	१७
व्यच	२७९	१५	शठ	७७	२०
व्यथ	१३९	२४	,,	३१४	२४
व्यध	२६१	४	,,	३२०	१४
व्यय	१५६	२	,,	३२७	१०
,,	३३१	२	शडि	७३	७
व्युष	२५१	२१	शण	१४३	९
,,	२६६	२२	शङ्गु	१५१	१०
व्येव्	१९४	३	,,	२९०	३
व्रज	७०	१५	शप	१८९	७
,,	३१६	१८	,,	२५९	६
व्रण	९५	१७	शब्द	३२१	११
,,	३३१	७	शम	३२०	१८
व्रश्चू	२७९	८	शमु	२६४	२३
व्री	३०६	२०	शम्ब	३१४	१६
,,	३०७	४	शर्ब	८८	३
व्रीङ्	२५५	७	शर्व	११०	८
व्रुड	२८५	६	शल	१०२	९
व्ली	३०७	२	,,	१४८	२१
			शलभ	८३	१०
शंसु	१३३	२	शव	१३२	१६

श

धातु	पृ०	प०	धातु	पृ०	पं०
शश	१३२	१७	शील	३२८	७'
शष	१२६	६	शुच	६३	३
शसि	११६	१५	शुचिर्	२५८	१४
शसु	१३२	१९	शुच्य	१०४	४
शाख	५९	३	शुठ	७७	२४
शाङ्	७३	१४	"	३१८	१२
शान	१८८	१०	शुठि	७७	२५
शासु	२०७	२०	"	७८	५
"	२३५	८	"	३१८	१३
शिक्ष	११५	५	शुध	२६२	१०
शिखि	६०	१३	शुन	२८२	१
शिधि	६१	१	शुन्ध	५४	१२
शिजि	२०८	१८	"	३२५	२०
शिन्	२७०	१४	शुभ	८९	०.६
शिट	७४	२२	"	१३६	१३
शिल	२८३	२२	"	२८१	१०
शिष	१२६	५	शुम्भ	८९	६
"	३२५	१	"	२८१	१०
शिष्टु	२९४	१६	शुल्क	३१६	१९
शीक	३२४	३	शुल्ब	३१६	१४
"	३२५	१५	शुष	२६१	१३
शीकृ	५४	२०	शर्	३२९	५
शीङ्	२०९	२३	श्री	२५७	१२
शीभृ	८२	५	शूर्प	३१६	१५
शो व	१०५	९	शल	१०५	१३

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
शूष	१२५	२०	श्रमु	२६५	७
श्रुघु	१३७	१९	श्रम्मु	८३	१४
"	१५४	१३	श्रा	१४४	८
"	३२२	१३	"	२२३	१६
श	३०५	२०	श्रिन्	१५८	२२
शैलु	१०६	५	श्रिषु	१२८	४
शेषु	१०३	१०	श्रीन्	३०३	१५
शै	१६६	५	श्रु	१७३	१
शा	२५५	२०	श्रै	१६६	५
शाण	९६	५	श्रोण	९६	६
शौट्ट	७३	१९	शलकि	५६	८
श्च्युतिर्	४६	१६	शलगि	५९	८
श्मील	१०५	३	शलथ	१४३	१२
श्येड	१७७	२	शलाख	५९	४
श्रकि	५६	८	शलाघृ	५८	५
श्रगि	५९	७	शिलष	२६१	१६
श्रण	१४३	९	"	३१५	११
"	३१५	१४	शिलषु	१२८	४
श्रथ	१४३	१२	श्लोक्त	५५	२४
"	३१३	१९	श्लोण	९६	७
"	३२५	१०	श्वकि	५७	७
"	३२७	२३	श्वच	६१	१९
श्रधि	४३	१३	श्वचि	६१	१९
अन्थ	३०८	५	श्वठ	३१४	२४
"	३२६	७	"	३२७	१०



धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
अठि	३१४	२४	षम्ब	३१४	१५
अभ्र	३१६	२३	षर्ज	६६	१६
अर्त	३१६	२२	षर्ब	८८	३
अल	१०६	१६	षर्व	११०	८
अल्क	३१५	६	षल	१०६	१२
अल्ल	१०६	१६	षस	२३६	१७
अस	२२९	२४	षस्ज	६४	४
अश्चि	१९५	२३	षस्ति	२३६	१७
अश्चिता	१३५	४	षह	१५०	४
अश्चिदि	३९	१४	”	२५३	२
			”	३२४	१७
षगे	१४३	१	षान्त्व	३१५	५
षघ	२७५	६	षिच	२९१	४
षच	६१	११	षिच	२७०	१३
”	१८८	२१	”	३०३	२०
षञ्ज	१५१	१२	षिट	७४	२२
षट	७५	७	षिघ	४७	९
षट्ट	३१८	३	षिधु	२६२	११
षण	९७	२	षिधू	४७	१३
षणु	२९८	१२	षिमु	८९	४
षढ	३२५	१९	षिम्मु	८९	४
षड्लु	१५०	१९	षिल	२८३	२२
”	२८९	२२	षिवु	२५१	१३
षप	८७	७	षु	१७२	१४
षम	१४८	१	”	२१४	१६

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
षु	२८६	२४	षुच्	६२	९
षुब्	२७०	२	षुब्	२१५	७
षुट्	३१४	२०	षुप्	३१९	१९
षुर	२८२	५	षुमु	८३	१५
षुह	२५३	२	षुञ्	१२४	२४
षू	२८६	२४	षूङ्	२८३	६
षूङ्	२-९	१२	षूष्टृ	७९	१६
”	२५३	२०	षूष्ट्रै	१६६	१६
षूद्	४२	३	षूयै	१६५	१२
”	३२१	१८	षूल	१४८	११
षुभु	८९	१	षुषा	१६७	२१
षुभुम्	८९	१	षुषु	१०७	८
षूल	१०६	५	”	२५१	१५
षुवृ	१०३	८	षुणसु	२५१	१८
षै	१६५	२२	षुणा	२२३	१५
षो	२५६	५	षुणाह	२६४	२०
षक	१४२	१६	”	३१५	७
षगे	१४३	१	षुणु	२११	२०
षन	९६	१७	षुणुसु	२५१	१७
षभि	८२	९	षुणुह	२११	२०
षम	१४८	१	”	२६४	१७
षिघ	२७४	२५	षुणौ	१६६	१७
षिष्टृ	७९	१६	षिमङ्	१७४	१९
षिम	२५२	२१	ष्वञ्ज	१८१	३
षीम	२५	२१	ष्वद्	४०	२१

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
ष्वद्	३२४	७	सृप्तृ	१८२	२४
ष्वप	२२९	१६	सेकृ	५६	७
ष्वस्क	५७	८	स्कन्दिर्	१८२	३
ष्विद्वा	१३५	१२	स्कभि	८२	९
”	१८१	२४	स्कम्भु	३०४	१
”	२६२	४	स्कुब्	३०३	२१
			स्कुदि	३९	७
संकेत	३२८	२४	स्कुम्भु	३०४	१
संप्राम	३३०	१७	स्वद्	१४०	९
सत्र	३२९	९	स्वल	१०६	७
सभाज	३२८	१८	स्वलि	१४५	१
समी	२६७	८	स्तन	३२७	१३
साध	२७४	५	स्तम्भु	३०४	१
साम	३२८	९	स्तुम्भु	३०४	१
साम्ब	३१४	१६	स्तुब्	२७१	५
सार	३२७	२३	स्तुब्	३०५	६
सुख	३३०	२६	स्तोन	३२८	२६
सूच	३२८	१	स्तोम	३३०	१८
सूत्र	३२९	११	स्त्यै	१६५	१५
सृक्ष्य	१०३	२१	स्थुड	२८५	१
”	१२५	९	स्थूल	३२९	७
सृ	१६९	२१	स्पदि	४०	५
”	२४८	६	स्पर्ध	३७	२
सृज	२६०	१४	स्पश	१५६	१४
”	२८८	३	”	३२०	५

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
स्पृ	२७३	१६	स्यन्दू	१३७	२५
स्पृश	२८९	६	स्यम	३२०	१७
स्पृह	३२७	२४	स्यमु	१४७	१९
स्फर्	२८५	४	स्यसु	१३६	२०
स्फर्षी	१०१	१	स्यकि	५६	८
स्फिट्	३१८	३	स्यम्भु	८३	१३
स्फिठ	३१५	७	"	१३७	२
स्फुट	७२	४	स्त्रिवु	२५१	१४
"	२८४	१२	सु	१७२	७
"	३२१	२१	स्येकृ	५६	७
स्फुटि	३१३	२	स्वन	१४५	५
स्फुटिर	७६	१४	"	१४७	१९
स्फुड	२८५	१	स्वर	३०७	१८
"	२८५	६	स्वर्द	४०	२१
स्पुडि	३१३	१	स्वाद	४३	४
स्फुर	२८५	३	स्वाद	३२४	७
स्फुर्षी	६५	१७	स्वृ	१६९	२
स्फुल	२८५	५			
स्फूर्जा	६९	१			
स्मिङ्	३१५	९	हट	७५	६
स्मिट	३१५	८	हठ	७७	७
स्मील	१०५	३	हद	१८१	१८
स्मृ	१४४	३	हन	१९९	१६
	१६९	१५	हम्म	९७	२१
"	२७३	१८	हय	१०४	१

धातु	पृ०	पं०	धातु	पृ०	पं०
हर्ष	१०४	५	हृषु	१२८	१३
हल	१४८	१०	हठ	७२	१२
हस	१३२	६	"	३१०	१४
हाक्	२४३	७	हैड	१४१	२२
हाङ्	२४३	३	हड	७३	११
हि	२७३	१०	हैष	८०	२१
हिक्क	१५३	१०	हैष	११६	४
हिट	७५	१४	हाङ्	७३	११
हिडि	७२	१४	"	७८	१६
हिल	२८३	२१	हनुङ्	२३८	१
हिवि	११०	१६	हल	१४४	२
हिष्क	३२०	९	हगो	१४३	१
हिसि	२९५	५	हस	१२८	१४
"	३२५	१७	हाद	४२	१५
हु	२३९	२	ही	२४०	१७
हुडि	७२	१७	हीळ	६५	१२
,	७३	२	हैष	११६	४
हुडू	७८	१६	हगो	१४३	१
हुड्या	६५	१३	हप	३१८	२५
हुल	१४८	२१	हस	१२८	१४
हुडू	७८	१६	ह्लादी	४२	१८
ह	२४७	१७	हल	१४४	२
हव्	१६०	१७	हृषु	१६८	१०
हृष	२६७	१९	हैव्	१९४	२२

# आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर की कुछ पुस्तकें

१ महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन-चरित—ले० बाबू देवेन्द्रनाथ, अनुवादक—श्री पं० घासागमजी । दूसरा भाग कुछ समय से अप्राप्य हो रहा था वह छप कर तैयार हो गया है । जिसके पास दूसरा भाग न हो वह अब मण्डल से मंगा सकत है । मूल्य ६) रु० सजिल्द ।

२. पातञ्जल योगप्रदीप —ले० स्वामी आमानन्दजी महाराज । इस संस्करण मे पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि की गई है । २० × २६ = ८ पैंजी साइज के लगभग ८०० पृष्ठ सचित्र है । मूल्य १२) रु०

३. रामायणदर्पण—ले० श्री ब्रह्मगुनिजी । इस मे वाल्मीकीय रामायण के आधार पर राम, भरत और प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र-चित्रण बड़े सुन्दर रूप मे किया गया है । मूल्य १)

४ हैदराबाद सत्याग्रह का रक्त-रंजित इतिहास—आर्ये-समाज ने सन् १९३९ मे दक्षिण हैदराबाद मे जो महान् सत्याग्रह किया था उसका विवरण मय चित्र के दिया है । मूल्य ३) रु०

५ युद्धनीति और अहिंसा—ले० डा० सूर्यदेवजी शर्मा, मूल्य १) ।

यजुर्वेद मूल गुटका १॥), सामवेद मूल गुटका १॥), आर्य पर्व-पद्धति १॥), वैदिक मनोविज्ञान १=), खूर्ना इतिहास १॥), भयानक षडयन्त्र १), खतरे का घण्टा १॥), खतरे का बिगुल १=), विश्वास-घात १=), जीवनपथ १॥), धार्मिक शिक्षा भाग १ से १० भाग तक ५), पंचमहायज्ञ विधि ३=), गोकर्णानिधि ३=), महर्षि का बृहत् जीवन-चरित ( दो भाग ) १२), स्मृत वाक्यप्रबोध १॥), सन्धिबिषय १॥), ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सजिल्द २॥), अजिल्द २), भारतीय समाज-शास्त्र १॥१॥), बालसत्यार्थप्रकाश १॥१॥),

## सन्मार्ग दर्शन

संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण

ले० श्री पूज्यपाद स्वामी सर्वदा-  
नन्दजी महाराज )

इस संस्करण में पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि की गई है । यह ग्रन्थ काफी समय से अप्राप्य था, लोगों की अधिक रुचि इस आर होने से इसे शीघ्र तैयार कराया गया है । कागज की कमी के कारण बहुत थोड़ी प्रतियां ही तैयार कराई गई हैं । अतः आप शीघ्र से शीघ्र अपना आर्डर भेज कर प्राप्त करे अन्यथा दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

बढ़िया कागज पर पक्की जिल्द मूल्य केवल लागतमात्र ४)

## वेदोपदेश

वैदिक स्वदेश भक्ति

सकलधिता तथा व्याख्याता

वे० शा० श्री० स्वामी वेदानन्द

( दयानन्द ) तीर्थ ।

वेद के प्रति लोगों की रुचि दिन प्रतिदिन वर्धमान हो रही है, इसी से प्रेरित होकर यह संस्करण जनता को भेट किया जा रहा है । इसमें तीन सूक्तों की व्याख्या है । व्याख्या कुछ विस्तृत है । यथा-शक्ति वेदमंत्रों का भाव सरल और सुबोध करने का यत्न किया गया है । इन सूक्तों में राष्ट्र के सम्बन्ध में वैदिक आदर्शों का निरूपण है । पाठक इसका मनन करे और अन्य आदर्शों से वैदिक आदर्शों की श्रेष्ठता का अनुभव करे ।

पुस्तक अधिक समय से अप्राप्य थी, अब छपकर तैयार है । मूल्य ?)

नोट—आर्यसमाज का प्रत्येक साहित्य हमारे यहाँ से आपको सुन्दर व सस्ता मिलेगा । सूचापत्र मुफ्त मंगाकर लाभ उठाइये ।